



श्री सरतगच्छीय ज्ञान मन्दिर जयपुर

॥ श्री युक्तराय घनपति सिंह बहादुर का आगमसङ्ग्रह भाग १२ ॥

## श्री उ व बा ई सू त्र प्र थ म उ पां ग

गणधर श्री सुधर्मा स्वामी छत मूलसूत्र तदुपरी परथरगच्छे श्रीश्रमयदेव  
सुरी छत टौका तदुपरी लुपकगच्छे श्रीश्रमत्तचन्द्र सुरी छत वाजापोध ॥

कलकत्ता—सत्ययंत्र में,  
श्री सत्ययंत्रके द्वारा संगोधित  
होकर मुद्रित और प्रकाशित हुई

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



१ श्रीवर्षादेजो । यह पंच जैन धर्मका पहिला उपांग कहाला है । श्रीवर्षादेजो श्रीवर्षमान खामी का कथा भया उनके मियगणधर  
 श्रीसधर्मी खामीका वनाया उपांग १ युतस्त्व १ अध्ययन १ उद्देश्यक से धामाका "उपपात" कथा है, उसोका सवियेष वर्नन इससे है  
 इसोलिए इसको "वोपपातिका" ओर उपांग कहते हैं । 'उपपात' का अर्थ लीवका यह पृथी से पतन उसोका वर्नन लिखने से  
 तिसको "वोपपातिक" कहते हैं ओर 'वोपपातिक' शब्दही का प्राकृतभाषा 'वोवर्षादे' है फिर अपभ्रंश 'वर्षादे' कहाला है । इस  
 उद्यके प्रथमभाग से समवसरण कथा ओर प्रथका उषोहात कथा है अगे दूसरे भाग से उपपात का सविस्तर निरूप्य कियाहै फिर  
 द्वेषसे यहके विशेष २२ गायोमि प्रगट किया है । समवसरण नाम प्रथम दल से क्रमसे अष्पानगरी का वर्नन पूर्वभद्रचैत्यका वर्नन फिर  
 उसके अगोच पादप के वर्नन उतादिको का वर्नन फिर उस पूर्वमुखके अष्टकोण सिंहासन सरोखा मिसायह का  
 वर्नन अगे भंभचार अेषिक राजपुत्र कुणिक राजाका वर्नन धारिणी देवो का वर्नन तिसके अगे प्रवृत्तिवापुत्र का कथा श्रीमहावीरजी का  
 वर्नन श्रीमहाबोलीका स्तुति उनके सहचारो राजादिकोका वर्नन अगेतोभद्रादिजपाद लेकर समस्तवर्तोंका वर्नन उनके सहचारो महादिको का वर्नन

उ० स० ब्रह्मछटापसों का वर्नन अनयनादि तप का वर्नन प्रायश्चित्त व्रतों का वर्नन और धर्मकथा जिनानेवाले महापुरुषों का वर्नन संसार का निंदा और इससे उधार का उपाय कथा फिर उ० स० असुर वर्नन उ० स० पातालवासी नागकुमारादिकों का वर्नन उ० स० स्वर्गके देवताओं का वर्नन उ० स० विमानवासी सनत्कुमारादिकों का वर्नन उससे आगे वसुना नगरी के नागरिक लोगों का रालकाल करनेवालों का समद्रादिक राणीओंका विदेशी यवनों का वर्नन फिर आगे शून्यवादादि मत के खंडन पूर्वक अर्हत धर्म कछा है और इसी के बीच नरक का वर्नन भी है यंही समवसरण कथा की समाप्ति हुई। फिर आगे श्री महावीरजी का जेठा शिष्य श्री इंद्रभूतिजीका वर्नन और उपपात प्रश्न का अवतारना ये दोनों उपोक्षात में कहे हैं। दूसरे दल में श्री महावीर जी ने श्री इंद्रभूतिके प्रतिजन्मबंधसे लेकर जन्मनिवृत्ति पर्यन्त सविस्तर उपपात का उपदेश किया है ॥ इसके सेवाय औरभि, अनेक प्रकारके द्वितीपदेशहै जिस्के जाननेसे हृदयमें अज्ञानान्धकार दूरहोके ज्ञान-दियाकर प्रगटहोताहै अ नुकमने जन्ममरणादिसे विमुक्तहोके परमपदको प्राप्तहोतेहै। इसलिये पाठकवर्गोंसे प्रार्थनाहै की इस ग्रन्थकी एकाग्र चित्तसे पाठकरें जिसे हृदयमें ज्ञानाक्षुर प्रगट होय और मेराभि ग्रम सकल होय ॥ संवत् १८२६ माघ शुदी ॥ अजोमंगल ॥ राय धनपतसिंहबहादुर।

॥६०॥ श्रीवृद्धमानमानस्य प्राचीन्यप्रत्यक्षीचिता भोपपातिकशास्त्रस्य व्याख्या काचिद्विधीयते ॥१॥ अथोपपातिकमिति क शब्दार्थं उच्यते. उपपत्तन-  
 सुपपाती देव नारकजन्मसिद्धिगमनं चातुस्तमधिष्ठाय कृतमध्ययनमोपपातिकमिदक्षोपाङ्गं वृत्तंते । आचाराङ्गस्य हि प्रथम मध्ययन शास्त्रपरिज्ञातस्यावो  
 हे गच्छेत्तस्मिन् एव मीनेसि नो नाथ भवद्दं पत्निय वा मे आ या उववाद्दंए नत्निय वा मे पाया उववाद्दंए केवा अहं आसी केवा इह सुए पेवा इह भविव्या-  
 मोत्यादि इह च सर्वे यदोपपातिकत्वमालनो निर्दिष्टं तदिह प्रपच्यत इत्यर्थतोऽङ्गस्य समीपभाविनेदमुपांगमस्य बोधोहातप्रत्योय । तेषु कालेषुमित्यादिरस्य  
 व्याख्या । इह च बहवो वाचनभिदा हृद्यन्ते तेषु ययमेवावभोक्तगामहे तमेषु ध्याख्यास्याम शेषास्तु मरुतमता स्वयम्भूना तत्र वीथ य शब्दः स वाक्यालङ्का  
 रार्थं ते इत्यत्र च य एकारः स प्राकृतमैन्द्रिप्रभवो यथा करोमि भने इत्यादिषु ततोय वाक्यार्थो ज्ञात तस्मिन् काले तस्मिन् समवे यस्मिन्नसी नगरो बभू  
 वेति पश्चिकरणे सेय सप्तमो अथ कालसमययो क प्रतिविशेष उच्यते काच इति सामान्यकालो वसंमानावसर्पिंष्यायतुर्धैविभागलक्षणः समयस्तु तदिदमिपो  
 यद् वा नगरी स राजा वसंमानस्वामो च बभूव अथवा ततोयैवेय ततय सेन कालेन अवसर्पिणी चतुर्धारकलक्षणेन चेतुभूलेन समयेन तद्विशेषभतेन चेतुना  
 बभ्यानामनगरोऽतीत्यसि अभवदासीदिदमर्थं ननु वेदानोमपि साश्चि कि पुनरधिष्ठतप्रयकरणकाले तत्कथमुक्तमासीदित्युच्यते अवसर्पिणीत्वात्कालस्य वर्णक-

ए नम. सर्वज्ञाय ॥ तेषां कालेषु तेषु समरणं च पानानम नयरी होत्या

॥ ६० ॥ श्रीगारुडायै नमः । धन्दिता श्रीजिनं पार्थं पार्थं चन्द्र च चन्द्रम् । करोमि राजचन्द्रात्स्य काठोपाङ्गस्य धार्त्तिकम् ॥  
 तेषु कालि अवसर्पिणो वसथा आरानद विपद ए अस्तकार भणी तेषु समयद तेह अवसरप्रस्तावनद विपद एकार अस्तकार भणी अथा एहवद् नामद

तत्र च स्यागाः योभनयज्ञाः चित्रचैयानि प्रतोतानि यूपचयतयो यज्ञेषु यूपचयनानि द्रुतानि वा क्रीडाविशेषपाथितयस्त्रेषां सन्निविष्टानि  
 निविश्यास्त्रैर्बहुला या सा । तथा उक्तीडियगायगंष्टिभेवभडत्करखंडरक्खुरहिद्या उक्तीटा उक्तीचालचेत्यर्थं स्तया ये व्ययहरन्ति ओक्तीटिकाः गात्रात् मत्तथ-  
 शरीरावयवविशेषाल्काटादेः सकाशात् यन्मि कार्णपणादि पुष्टिनिर्मां भिन्दत्या छिन्दन्तीति गात्रगन्धिभेदका उक्तीडियगाहगंष्टिभेय इति च पाठान्तरं  
 व्यक्तं भटायारभटाः बलात्कारप्रहृतय म्त्स्काराम्नादेव चौर्यं कुर्वन्तोत्येवं योलाः खण्डरच्चा दण्डपायिका शूक्तपाला वा एभौरहिता या सा तथा अनेन  
 तत्रोपद्रवकारिणामभावमाह । खेमा अशिवभावात् । णिरुवद्वा निरुपद्रवा अविन्मानराजादिक्ततोपद्रवेत्यर्थः । सुभिक्षा सुटु मनोज्ञा मधुरा भिच्चा  
 भिचुकार्णा यस्यां सा सुभिन्ना । अतएव पाषण्डिनां गृहस्थानाञ्च वीसत्यसुहावासा विश्वस्तानां निर्भयाना मनुसुकानां वा सुखः सुखस्वरूपः शुभो वा  
 आवासो यस्यां सा तथा । अणेगकोडिकुडुस्वियाणनिशुयसुहा अनेकाः कोटयो द्रव्यसङ्ग्रानां स्वरूपपरिमाणे वा येषां ते अनेककोटयः तैः कोटुस्विकैः कुटु-  
 स्विभि राकीर्णां सङ्गुला या सा तथा सा च सौ निवृत्ता च सन्तुष्टजनयोगास्तोपपद्यतीति कर्मधारयः अतएव सा चासौ सुखा च सुभावेति कर्मधारयः ।

उक्तीडिय गायगं ठिभेय भड तक्कर खंडरणरहिद्या खेमा णिरुवद्वा सुभिक्षा  
 ( पासंडिगीहृत्य ) वीसत्यसुहावासा अणेगकोडिकुडुविया इण शिशुयसुहा

डोनभेदणहार गंठिच्छांडा वौरभड तस्करचौर दंडपाणिकतेणद्रकरोररहितनगरी खेमाकंमारभयरहित उपद्रवधिकारनेणिकरीरहित भिच्चाचरजिच्चां  
 भिच्चावणीपांमदच्छद्र भयरहितएच्छवी लोकनासुखकारीवसंछद्रजिच्चां अनेकघणाद्रव्यनीमोडिजेहनेच्छद्र एहवाकुटुवोकुटंवनानायकजिच्चांरहेच्छद्र तेणद्र

नट नटक जस मस सुद्विग वेनस्वय कइग पवग लासग आइकखग लख मख तूणइस तस्यवोषोय प्रथिग तासायराणुचरीया नटा नाटकाना नाटवि-  
 तारो नसंका ये तुय्यन्ति अश्लिषा इत्ये के जसा वरता खेसका राप्रस्रोपपाठका इत्यन्ते मसा प्रतीता मोटिका मसाएव ये सुटिमि प्रहरन्ति विडस्यकाः  
 विदूयका कथका प्रभोता म्रवका ये उतप्रवन्ते नयादिकं वा तरन्ति लासका ये रासकान् गायन्ति जयग्रन्थप्रयोक्तारो वा भांडा वा इत्यर्थं आख्यायकाः  
 ये शुभाशुभमाख्यान्ति जथा महाभागपखेसका मंछा यिप्रफसकइसता भिचुका सुणइसा तूपाभिधान वाचविशेषवक्तु तस्यवीणका वीणावादकः  
 यन्ते के च ये तासापरा स्थायादानेन प्रेचाकारिण खैरुचरिता पासेविता वा सा । तथा पारासुज्जाणपगइतसायदीडियनपिण्णुयोववेया आरमन्ति येपु  
 माधवोनतामट्टानिपु दप्यव्यादौनि कौडन्ति पारामा उद्यानानि पुव्यादिसदृशचसइ सानुसवादी वइजनभोग्यानि भगइन्ति चवटा कृपा तडागानि

अथेगतालायराणुचरिया

खड खट्टग जसु मसु सुद्विग वेजंवय कइग पवग लासग आइकखग लख मख तूणइसु तु ववौषिग अथेगतालायराणुचरिया  
 करोपाकीर्णव्यासइरनगरो निपुपसुशाकइतासत्तोपोखोकागसयोगयकोसुखसहितइहाडुखनघो नटतेकइयइजनचावइ नइगतेकइयइजेपातइना  
 चइ जसुतेकइयइलेरासडौजपरखेसइ मसकइयइजेठी मू ठइजेठीजकइयइपरमूठइकरीवठइ वेसबगकइतामंछेसाकरइ कइगकं कथानाकइण  
 इार पवगतेजेवानरनीपरिजसइसइ सासककं रासडानागानकरइ पारकखगकइतांशुभप्रथनाकइणइार सखतेजेवमनइरपि खेसइ चिप्रफसकइकरी  
 भिचानांगइ पूणानइथाकारिवाजिसवजाइइ वीणानावजाणइारवसरइइ अनेकतासापरजेतासवटादेइरनाचइनेणइकरीपणुवरितसेवीचइसुन्दर  
 मगरो जिचोमाधवोखतानइसणुपइसुलीपुरुपरमइ फूजकससहितइइवाववाइचइइतेउय्याण भगइकइतांशुपा तसावएसोकप्रसिइकइइ दोडिभकंसा



प्रतीतानि दीर्घिका सारणी वपिणत्ति केदारः एतेषां ये गुणा रम्यतादय स्तैरुपेता यत्ना या सा तथा उप अप इत इत्येतस्य गच्छव्यस्य स्थाने गच्छादि-  
दर्शनादकारलोपे उपपेति भवति । कचित्पठानि नन्दणवणसन्निभप्यगासा नन्दनवनं नेरोद्धितीयवनं तत्पूजागसन्निभः प्रजागो यस्यां सा तथा इह वै-  
कस्य प्रकाशशब्दस्य लोपः उद्धसुख इत्यादाविवेति । उविद्विउलगशोरखायफलिहा उविद्वं ऊहं विपुलं विस्तीर्णं गभीरमन्वयमध्यं  
खातसुपरिविस्तीर्णम् अधःसङ्कटमरिखाच अत्र उमरि च समाप्तात्तृपा यस्या सा । तथा चक्रगयमुगंठि उरोह सयग्धि जमल कवाड  
घण दुष्यवेसा चक्राणि रथांगानि अरघटांगानि वा गदा प्रहरणविगोषाः मुसंठगोष्येवं अत्रोषः प्रतोलिहारेष्वभात्तरप्रकारः सभाब्यते  
शतत्रयोमहायटो महागलावा या उपरिष्टाल्यानिनाः सत्रः शतानिपुरुषाणां व्रत्तीति शतज्ञानि ममसंस्थितहूरूपाणि शानि कपाटानि घनानि च

आरामुज्जाण अगड तलाग दीर्घिय वपिणि गुणोववेया नंदणवणसन्निभप्यगासा ( इतिक्वचित्पाठः )

उविद्व विउल गंभीर खायफलिहा चक्र गय मुसुंठि उरोह सयग्धि जमल कवाड घण दुष्यवेसा थणु कुडिल

रणि पाणीनीकलच्छजिहवां वपिणिक० पाणीनाकारा एहसर्वगुण इकरो उपपेतसहितरमणीकच्छद नन्दनवनमेरुपर्वतनत्रो जउवनतेहनइसरिपुत्रप्रकाग  
उभोत छद जेहनउ नविद्वक० ऊं डी विउलकहिगापिहुली गंभीरकहिगां जेहनउमअनलहिद्व स्यात्क० ऊपरिपिहुलीनीचलिसांकडोएहवीफलिहावाइछद  
चक्रक कहतां रथनां पइडां गदाक० गदालोहमअयायुध मसंठिक० इगियारगिप उरीचकहतांपोनिनइवारणइपउकीठउ जमलकहतांवेइसमान कमाड  
घनकहतां छिदरहित वदरीलोकइदुदुदुपदमीसकियद धनुक० धनपनीपरिकुटिनुगां कउ एहवउपरप्राकारगदतेणइपरिचिसत्रोरोछदजेनगरी

टीका

६

ख

बाला  
बीव

निष्पद्गणि ते दुःप्रवेगा या सा । तथा धनुष्युद्धितस्यकपागारपरिभ्रियता धनु कुटिल कुटिलधनु स्ततोपि यत्केण प्राकारेण परिचिता या सा । तथा  
 कविभौमययद्दृश्यमद्विगविरायमाणा कपिमौर्षिके संस्तिरचिते वंसु नक्षत्रे सन्त्यते विंशतिदशस्यार्थसि विंराजमाना शोभमाना या सा । पद्मालयचरिय-  
 द्दारगोपुरतोरणप्रखरसुविभक्तसरायमला पद्मसङ्का प्राकारोपरिवर्त्यार्थविशेषा परिका प्रष्टसप्तमाणा नगरयाकारात्करालमार्गा द्वाराणि प्राकारद्वा-  
 रिका गोपुराणि पुरद्वाराणि तोरण्यानि प्रतोतानि लक्षतानि गुणवन्ति उच्यन्ति यस्यां सा तथा सुविभक्ता विविक्ता राजमार्गाः, यस्यां सा तथा तत्पद-  
 दयस्य कर्मधारय । ज्ञेयारिचरद्वयदृढकत्रिदृढकीका ज्ञेहेन नियुक्तेनाथर्वेण प्रित्थिता रचितो हृदो बनवान् परिषोऽंगना दृद्रुक्रोक्षव गोपुरावयव-  
 विभोपो यस्यां सा । तथा विचरि वणिच्छेत्तमिष्यिवाद्दणविव्ययसुखा विषयोनां वणिचपधानां दृढमार्गाणां वणिजां च वाणिकजानां च येन स्थान-  
 या सा तथा मिन्यभि कुम्भकारादिभि राक्षोर्षां पतएव जनप्रयोजनसचिर्जनानां निर्हुंत्तत्वेन सुखितत्वेन च निर्हुंत्तसुखा च या सा तथा वाचना-

वं कपागारपरिविखत्ता कविसेीमय वट्ट रद्वय संद्विय विरायनाणा अट्टाजयचरिय दार गोपुर तोरण उख्य

कोचीना वाटुनारपनासचितमनीदरमठिपमक्षरसखान पतिगयस्यस्र सोभतोत्रिचिंएहवीनगरी पोलिजपरिकम्भिवानठाभगठपनद्वनगरत्रिचालद-  
 पाठद्वाराधमठभोक्तसमार्गं दारकः गठनोधारी पुरनगरनीधाराणांपोलि तोरणकाष्ठनापाणनालोक्तप्रमिस्र ए वागुणद्वकरीसहित सुविभक्तकुडोपरिं  
 र (खठराजमार्गैराजपथद्वरजिर्णएहवीनगरी ज्ञेखनिपुषभजलउदयउदवाथार्थविज्ञानी तिपद्वरविठनीपकावित हृदयस्यतत्फलिकापागस्रभोगस्रपने  
 दद्वीकोमयो (समद्विपरविद्वपालाभोगथानिवाकरूपएहवीनगरी विपयकः पाटपथपावाणीषाहीडवानसमार्गविपिणि ज्ञेत्तेहनुडवानकठाम यिखि

न्तरे च्छेत्तशब्दस्य स्थाने च्छेयशब्दोधीयते तत्र च छेक शिल्पिकाकीर्णति व्याख्येयम् । सिंघाडगतिगचउकचचरपणियात्रणशिविह्वयत्युपरिमडिया मृङ्गाटकं  
 १) ढकीणं स्थानं त्रिकं यत्र रथ्यात्रयं मिलति चतुष्कं रथ्याचतुष्कमेलकं चलरं बद्धरथ्यापातस्थानं पणितानि भाण्डानि ततप्रधाना प्रापणा स्रष्टा विविध  
 वस्तूनि अनेकविधद्रव्याणि एभिः परिमण्डिता या सा । तथा प्रसूकान्तरेऽधीयते सिंघाडगतिगचउकचचरमुहमहापहपेसुपणियावणविविह्ववेस  
 परिमंडिया तत्र चतुस्रं चतुर्द्वारं देवकुलादि महापथो राजमार्गः पत्याम्बुदितरस्तत्र सिंघाटकादिषु पणितापणैर्विविधविशेषजनैर्विविधविश्या-  
 भिर्वा परिमण्डिता या सा । तथा सुरमा अतिरमणोया नरवद्वैपविद्वैणसहिवद्वैपहा नरपतिना राज्ञा प्रविकीर्णो गमनागमनाभ्यां व्याप्तो महीपतिपथो  
 राजमार्गो यस्यां सा तथा अथया नरपतिना प्रविकीर्णो विचिता निरस्थान्येषां महीपतीनां प्रभा यस्यां सा तथा अथवा नरपतिभिः प्रविकीर्णो  
 महीपतः प्रभा यस्यां सा । तथा अणेगवरतुरगमत्कुंजररहपहकरसीयसंदमाणीया प्रसूजाणजुगाः अनैकैवरतुरगैर्मत्तकुंजरैः रहपकरेत्ति रथनिकरैः

सु विभत्तरायसग्गा छेयात्रियरइय दडुफलिह इंदकीला विवणिविणिच्छेत्तसिप्ययाइण णिव्वुइयसुहा सिंघाडग तिग  
 चलकं चच्चर पणियावण विविह वत्सु परिमंडिया सुरमा नरवद्वैपविद्वैण सहिवद्वैपहा अणेगवरतुरग मत्तकुंजर

कुंभकारादिकतेणइकरीआकोण व्यापाहइ निर्दत्तिकारीसुखसाताहइजिहा सिंघाडगकचतातिखूणास्थानक तिगजिहातिपिंधमिलइ जिहांरथना  
 पंथचारमिलइ चच्चरकं वणाजिहांमार्गमिलइ क्रियाणांतणेकरीसहितप्रापणहाट तथाविविधनानापकार यस्तुंणैपरिमंडितसोभायमाननगरीहइ  
 अतिरमणीकनगरी जातांआवतांजिराजातिणइव्यामभरीहइ महीपतिपथराजपंथजिहांहइ अनेककहतांघणवरप्रधानतुरगवोडाहइ मत्तकं माता

राजधनगत सिद्धि लक्षणं सा अनेकविधेन मत्त १२

शिविकाभि सुन्दरानन्दोभिराकीर्णो व्यासा यानै युग्ये य या सा तथा अथवा अनेके वरतुरगादयो यस्मान् प्राकीर्णानि च गुणवन्ति यानादीनि यस्यां सा तथा तत्र शिविका कृटाकारेण छादिता जपानविशेषाः सुन्दरानिका पुरुषप्रमाणसंपानविशेषा यानानि यकटादीनि युस्यानि गोकविषयप्रसिद्धानि चिह्नप्रमाणानि वेदिकोपशोभितानि जपानान्द्वे वेति । विसुलक्षणवर्णलिखितोभियजन्ता विमुकुटाभिर्धिसितकमवाभिर्नवाभिर्नखिनौभिः शोभितानि जप्तानि यस्यां सा तथा । पंडुरवरभरण सखिमहिया पाण्डुरे सुधाधरस्यै वरभवनै प्रासादै सम्यक् निरन्तर महितेव मद्रिता पूजिता या सा तथा । उत्तणपयपेच्छणिका सोभाग्यातिशयापुस्तानिकैरनिमित्तैर्नयनैर्लोचनै प्रेषणीया या सा तथा । पासादया चित्तप्रसन्नकारिणी । दरसणीज्जा यां पयचतुःत्रय न गच्छति अभिरुचा मनोप्ररुपा पंडरुवा द्रष्टार प्रतिकरुप यथा सा तथेति ॥ छ ॥ तीर्थेति तस्यां णमित्यल्लक्ष्णैरे वस्यायां नगर्यां

रहप्रहकार सौयसंदमाणोयादसु जाणजुगगा विसुलक्षणवर्णलिखितोभियजन्ता पंडुरवर भरणसंखिमहिया उत्तण  
 ययस्येच्छणिका प्रासादोया दरसणिका अभिरुवा परिरुवा ॥ छः ॥ तीर्थेण संपाए खयरीएनहिया उत्तरपुरित्यमे

सुन्दरसौख्ये रथमोटासपामिन्नतइनापहकरकहतासमुहकर सौयकहितामिकाकृटाकारकादमाणीपुरुषप्रमाणपासनविशेषतिएदकरी  
 सहितकर तेषदप्राकीर्णभरोहदयानगच्छाद्युगगोखदेशनदविषदप्रतिष्ठिषायप्रमाणच्छजिहवां विकसोलेनर्षानलिखिकहताकमलिनीतिएदसोभायमा  
 जसपांकोहदजिहवाएइवीनगरी धवलावरप्रधामवनकहताघरतएदकरीसम्यग्रकार्त्तनिहितपूजितकर ज वाकीर्णामेषोपरहितकर नयसकः नैवतीएद  
 पेच्छयिज्जदेपवायोग्यहलेनगरो प्रासादनीकदेवीकविषतप्रसन्नकर जेहनइदेपतनिचयमत्तामगानपामइ अतिकरुपकहतामनोप्ररुपकर प्रतिकरुपजे

उत्तरपुरस्थिति उत्तरपुरस्थे उत्तरपूर्वाशामित्यर्थः । दिग्भिभाएत्तिः दिग्भागे पूर्णभद्र नाम चैत्यं बान्तरायतनं होत्येत्ति अभवत् । चिरा  
 ईएष्वुपरिसपण्त्ते चिरञ्चिरकाल आदिनिवेशे यस्य तच्चिरादिक्रम अतएव पूर्वपूर्वकपैरतीतनरैः प्रज्ञप्तमपादेयतया प्रकाशितं पूर्वंपुरुषपञ्चमं पीराणेत्ति  
 चिरादिकत्वात्पुरातनं सद्वियेत्ति शब्द प्रसिद्धिः स मञ्जाली यस्य तच्छब्दित ित्तिगत्ति धित्तं द्रव्यं तदर्था यस्य तद्वित्तिकं वृत्तिं वाञ्छितलोकानां ददाति  
 यत्तद्वृत्तिकं किञ्चित्ति एत्ति पाठान्तरं तत्र जनेन कीर्तितं समुत्कीर्त्तितं वा गाएत्ति न्यायनिर्णयकत्वात् न्यायज्ञी तथा ज्ञानसामर्थ्यमनुभूतं तदप्रसादनेन  
 लोकेनेति । सच्छतं सध्वजं सधंठमिति व्यक्तं । सपडागाएपडागमंडिग सङ्घपताकया वर्त्ततइति सपताकं तच्च तटेकां पताकामतिक्रम्य या पताका  
 सा अतिपताका तथा मण्डितं यत्तत्तथा । वाचनात्तरे सपडाए पडागाएपडाग मंडिएत्ति सनीमइत्यो लोममथप्रमार्जितकयत्तं । कथनेयहीए

दिग्भिभाए पूषभद्देणा मंचेइएहोत्या चिराईए पुव्वपुरेसपण्त्ते पोगणे सद्विए वित्तिए कित्तिए गाए सक्त्ते सज्झए सधंटे

देपणहारनाज्जारप्रतिविंबदीमइहिवइयच्चयं यणं कल्पिपइइ नंचंगनगगीजेपहिलं यपाणो णकारअलंकारभणोतिनगरीनइ बडियावाहिर उत्तरदिग्म-  
 अनइंपरित्यिमकं पूर्वदिसनेहनत्रीदिग्भिभागत्रिचानुं पतलइं देगानकुलि तिहां पुणं भदएह्वइनामइचेत्यव्यंतरनउथानकटेहरउं होत्याइतउ तंकेइ  
 वउइ चिरकालनउउआदिनिवेशयापिउइइतिहां पूर्णिपेकपइभावेणएइभाषत्रजे एहआराधवाजोगइइ पुरातनजूनकइइ शब्दप्रसिद्धतेइनी  
 जगमाहियईइइ पित्तिकं जेआराधइतेहनइवं धितनउडे गहारइइ घनीकौत्तिंविमतरोइइअथवागोभानं वामइइं एइवउपावइइ न्यागनीकरणहार  
 इइ क्विसहितइइ ध्वजामहितइइ घंटाइमहितइइ पताकाध्वजासहितइइते पताकाध्वजातेइजपरिपताकानांहीमीटीतेणइकरोमंडितगोभितइइ

कृतवितर्क रचितवेदिक । साठकोटयसहिते साठयं गङ्गाम् । खगणदिनोपलेपन तन्मोडयं कुडामानानां' शेटिकादिभिः सख्यौशरण ततप्लाभ्यां  
 मन्वितमिष मन्वितं पुत्रितं यत्तत्तथा । गोश्रीससरसस्तर्चंदण दहरदिक्षप चं गलितले गोश्रीपेण सरसरत्तचदनेन च दंरेण पद्वेनेन चपेटाप्रकारेण  
 वा दसाः पञ्चागुलयहस्यका यत्तत्तथा । उवविय चन्दणकनसे उपचिता निवेगिता चन्दनकलसा मङ्गलघटा यत्तत्तथा । चंदणचटसुलय  
 तोरणपट्टिदुवारदेसभाए चन्दनघटाय सुदुक्ततोरण्यानि च द्वारदेशभाग प्रति यन्नि स्तचन्दनघट ससततोरण प्रतिहारदेशभागं देशभागाए देशाएथ ।  
 आठश्रीसत्तविचनवद्वगवारियमसदासकलावे आसक्तो भूमौ संवद्वनत्सत्त उपरिसवद्व विपुलौविस्तीर्णं वृत्तोवर्तुं न यग्वारिमोसि प्रलंबमान  
 माण्यदामकलापं पुष्यमानासमूहो यत्तत्तयति । पञ्चवज्रमरमसुरभिगक्षपुपुजीवयारकक्षिए पञ्चवर्णेन सरनेन सुरभिणा मन्नेन चित्तेन

सपडागे पडागाद पडागमंडिए सलोमइत्ये कागवेयदिए लाउल्लो न्यमसहिते गोश्रीस सरम रत्तचंदण दहरदिष्य  
 मंचगुलितले सुवचिय चंदणकनसे चंदणघट सुक्षय, तोरण पट्टिदुवारदेसभाए आसक्तोसत्तविचनवद्व वग्वारिय मसक्त

श्रीमद्वत्यरु जपीमोरपीछनीतेणइमनित कोषाच्छदवेदिकादिना कोषसाउ शीपुउ छदनेसाउल्लोदकहतापलीनाउ घउनाउइथिकारणमहितपुत्रिउ  
 पर्विउच्छद गोपीवं शत्रुनाचंदन सरमतत्काननाचस्था रत्तचन्दनरत'जपी तेइतददहरयहुनपणउ ठेणइदीषाच्छद पर्वगुलितचपेटाहाथाजिहा वारणइ  
 उपरितथाप्याच्छदचंदननाकस्यमांगनकघडाजिहा चंदननाचडा अनइसकतरुडा कोषाच्छदतोरण प्रतिहारवारणानादेशविभागमतिच्छदजिहानगरि  
 आसक्तवृतांभूमिपडतीउसत्तजपरिसंबंधएहवविपुसविस्तीर्णं वद्वकक्षितांगटचउ वग्वारियकक्षतां सवमानसत्तौ माळफूखनीदाममाथानसकसाप

पुष्पपुञ्जलक्षणेनोपचारेण पूजया कलितं यत्तत्तथा । कालागुरुपवरकुन्दरुक्कतुरुक्कधूमसधमघत्तगन्धबूथाभिरामे कालागुरु प्रभृतीनाम्बूपानां यो सध-  
सघायमानो गन्धसङ्घन उद्धूतस्तेनाभिरामं यत्तत्तथा । तत्र कुन्दरुक्कंति क्रीडा तुरुक्कंति च सिसहकं सुगंधवरगंधगंधिए सुगन्धा ये वरगन्धाः प्रवरवासा-  
स्तेपाङ्गन्थो यत्रास्ति तत्तथा । गन्धवट्टिभूए सौरस्थानिशेषाह्वद्रव्यगुटकाकल्पमि यर्थः । नद्धनट्टे त्वादि पूर्ववन्नवरमिच । भुयग भुजङ्गा भोगिनद्वत्यर्थः  
भोजका वा तदर्चका मागधाभट्टाइति । बहुजणजाणवयस्स विस्सुवकित्तिए बहोर्जनस्य पौरस्य जानपदस्य च जनपदभवलीकस्य वियुतकीर्तिकं प्रतीत-

दासकलावे पंचवणसरस सुरहिसुक्क पुष्पपुंजीत्रयारकलिए कालागुरुपवरकुंदरुक्क धूव सधमघंतगंधद्रुयाभि  
रामे सुगंधवरगंधगंधिए गंधिवट्टिभूए णड णट्टक जल्ल सद्दा मुट्ठिय वेलंवय पवग कहक लासक आइक्खक लंख  
मंख तूणइल्ल उंववौणिय भुयग सागर परिगए वज्जजणस्य विसुय कित्तिए वज्जजणस्य आइस्सु आइण्णिज्जे

समूहच्छजिहां पंचवर्णसरसतत्कालनाजतस्यां सरभिकहतांसुगंधसुकन्त्यानाख्याच्छइ फूलनापुंजठगत्तते हरूपउपचारपूजातेषइकरी कलितमनीहर  
संयुक्तजिहां कणागुरुकालउपर्व्वाउपगुरुप्रधानवीडनामिसुगंधद्रव्यविवीप तुरुक्ककंसेवहकद्रव्यविवीप धूपदयांग सधमघंतकं प्रतिदेदीप्यमान  
शोभतउगंधनठउद्धूतन्नइशीभायमानतेषइअभिराममनीहरच्छइ सुगंधवरप्रधानगंधवासादिकतेषइगंधपणठंययउं गंधिनीवातीपसुखतेषइ  
सहितच्छइजे नटते कहिइजेनचावइ नटगते कहिइजेपोतइनाचइ रासडीजपरिरमइ सल्लजेठी मूठइकरीवठइ वेत्तन्नयकहतांभंछेष्टाकरइ पवगते  
जिवानरनीपरिजदकइ कहगतेजेकथाकइइ लासगकहतांजेरासगावइ शुभाणभनाकहणहार धंयनइपगइयेइइ विवफलइकरीभिसामाने तूणानइ

ख्यातिक । बहुजनपरस पादुरससि आशोसदातुः कश्चिदिदद्व हस्यते । आइणिकेसि आइवनीयं सम्पदानभूतं । पाहुणिकेसि प्रकपेण प्राइवनीय । अचणिके वदनगन्यादिभि । वन्दणिके खुतिभि । नमंसणिके प्रणामत पूयणिके पुयै । सकारणिके वञ्चै । सम्भाणिके बहुमान-विषयतया । कक्षाणं मङ्गल देवयं वेदय विषएणं पञ्जुवासणिके कल्याणमित्यादि बुध्या विनयेन पर्युपासनीयस्तत्र कल्याणमर्थेहेतु मङ्गलमनर्थं प्रति-हेतिहेतुद्वैवतं देव वैल्यभिष्टदेवता प्रतिभादि दिव्य प्रधान सचे सत्य सत्यादेशलात् सचोवाए सत्यामिलाव सत्यवेव सेवाया सफलीकरणात् सखिइयपाइइरे विहितदेवतापतिचार्यं जागसइस्यभागपडिच्छए याग पुजात्रियोपाः तत्तइसारां भागमंग प्रतीच्छति

पाहुणिके अचणिके वंदणिके नमंसणिके पूयणिके सकारणिके सम्भाणिके कक्षाणं मंगल देवयं वेदयं विषएणं पञ्जुवासणिके दिव्ये सचे सचोवाए सच्यप्यभावे सखिइयपाइइरे जागसइस्य भागपडिच्छए वज्जलयो अचै इ

आकारइवाजिषवजाइर वीषानावजाइएइर संपंनारमाठएइराइठी मागधभाटबहुभा तेएइकरोपरिगतवहितएइवोवैल्य बहुजनवषयाओकनगर नावासोतथाजनपददेशगाभिंवासीसोत्र तेमाधिं विद्युतविख्यातविस्तारपामतीकीर्तियगइर वषासोवनइ पाहुसुखं पाहुतिनादातारखिधेदमंभषो देवतापुभाहानकरइतेइनइ पाहुणिके क० पाहानयोग्य पाहुणिके क० विमेषकरीपाहानयोग्यवेयचतेइनइमनटयाइइर चंदनादिकइकरोषर्षिवा योग्यइर श्रुतिकरोसत्रिवाधेदिवायोग्यइर नमंसणिके क० प्रणमैकरीनमस्कारयोग्यइर पुष्यादिकइकरोपूजनोकाइर सकारणिके कइतामस्कारिकर करीसस्कारकरिवायोग्यइर सम्भाणिके क० बहुसतमानदेवइकरोमानिवायोग्यइर कल्याणकइतांप्रयंनठकारणइर मंगलकइतांदुरितनठटासएइर





वृत्तम् । शिष्येति शिष्यो न तु वचः । त्वत्त्वेति । तीमो वर्षादिगुणप्रकर्षवान् । कियत्ते कियत्त्वापत्ति इह कल्पयन् । कल्पयन् इत्यस्य विशेषणमिति न पुनश्चक्षता तथाहि कल्पयन् कल्पयन्त्याया वादित्यावरणजन्यो वस्तुविशेषः । घणकालयकविच्छापत्ति सन्धीन्यं ग्राह्यानुपवेद्याद् बहुच निरन्तरच्छाय इत्यर्थः । महाभक्तिपुरं वभूएति महाभक्तिवृत्तस्य तेषु पाययति यत्तवन्धो वनपण्डरिति । कन्दमनोइत्यादीनि दमपदानि तत्र कन्दोमूलाना-

कियत्ते कियत्त्वापत्ति नोले नीलच्छाप इति ए हरियच्छाप शिष्ये तिव्वच्छाप तिव्वच्छाप घणकलिष कलिच्छाप रन्ध्रे महाभक्तिपुरं वभूए तेषु पायवा मूलमन्तो कन्दमन्तो तयामन्तो साहसन्तो

कान्तिजेहनो सीतताठउस्यंछे, सीतताठउषभामपमास्यं नीलच्छापिनिष्ठा शिष्यसवीगटउषपर लपउनथो निष्कसवीगटउषवभासप्रभाहृजेहनो तौषवर्षादिकिकरीसहित उत्तमवर्षनीपवभासप्रभाहृतीवर्षावभासहृद कल्पकाशरथण्ड, कल्पकालीहृदकायाविशेषकान्तिजेहनो नीलरथर्ष इमगूर नाशठमरिपो नीलोहृदकायाकान्तिजेहनो हरितहृदकायाप्रभाकान्तिविशेष सीतताठउस्यंछे सीतताठीच्छायाविशेष यक्षीर्षातिहृदकी निष्कसवीगटउषपरिषपउनरिं निष्कसवीगटेच्छागविशेषकीकान्तिजेहनो तौषवर्षादिकिकरीउरालहृद उत्तमवर्षादिकिकरी उरालहृदकायाकान्तिहृदकी साधोमाधियापानइपसवहृदकीवमर्षतररहितहृदकीहृदजेहनो यतिरमणीक महामोटाशिवशानिहृद वससूहसरोपठ तेवमर्षसंधीपादपठच मूलवर्षहृदतेमूलप्रथीमादितिरक्षीपसरहृद कदसहितैकदतेमूलपनइयहृदनेविषालइपुहृद स्वंधंमन्तोटाघणयतघणसहितहृद त्वचासहितकान्तिपुरंउतेषहृदहितहृद साहसन्तोटीहासतेषहृदकीमद्वित प्रवासनागहापस्यवर्षातेषहृदसहित पवनगहामोटापानहृदितेषहृदसहित

मुपरिष्ठचावयवविशेषो मतुप्रत्ययाद्येह भुक्ति प्रशंसायां वा । स्तम्भः स्फुटम् । तथेति त्वक् वृत्तम् । शाला शाला । प्रवालः पल्लवाङ्कुरः । शेषाणि प्रती-  
तानि । हरियमन्तोत्ति काचदृश्यते तत्र हरितानि नीलतरपत्राणि । अणुपुल्वंसु जायकुरुलवट्टभावपरिणयति आनुपुर्वेण मूलादिपरिपाट्या सुष्ठुजाता  
रुचिराः हृत्तभावैश्च परिणताः परिगता वा वे । तथा अणुग साहस्यसः हृत्तिडिमा अनेन शालाप्रशाखाविटपयस्तम्भभागो हृत्तविस्तारी वा येषां ते ।  
तथा अणुग नरवामसुष्यसारिय अणुग्लक्ष्मण विउलवट्टखंधि अनेकामिर्नरवामाभिः सुप्रसारिताभिराहो घनो निविडो विपुलो त्रिस्त्रीणो बही जातः  
स्तम्भो येषां ते । तथा वाचनान्तरेऽत्रस्थानेऽधिकपदान्येवं दृश्यन्ते पार्श्वेणपडियाणयशाला उदौण विच्छिन्ना उखयनयपण्यविष्यहाइयउलंवपलंव

पत्रालमंतो पत्तमंतो पुष्पमंतो फलमंतो बीयमंतो अणुपुल्वंसुजाय कुरुल वट्टभावपरिणयाएकखंधा अणुगसाला  
अणुगसाहस्यसाहविडिमा अणुगनरवामसुष्यसारिय अणुग्लक्ष्मणविउलवट्टखंधा अच्छिद्रपत्ता अखिरलपत्ता

फूलसुगंधदुर्गंधतेण इउसहित फलआपापणौजातिनातेण इकरी बीजफलसंबंधियातेण इकरीसहित आनुपूर्वीअनुक्रमइ सजातकूष्ठीपरिजपना रुचिर  
मनोहर वाटुलइआकारइपरणम्याएहवाहच एकधउच्छइवेधउनथी अनेकधणीशापतिण इकरीसहित अनेकधणीशाषामोटीअनइप्रशाषनान्हीडलि  
एकमूलधडयकीचिडु दिग् च्यारिशाषतिभिचालइकपचीपांचमीशाषतेविडिमकहिइ तेणइकरीसहितहचछइ । अनेकधणानगरमनुथनावामविहइबांइ  
पसारीनइलांबीकरियइएतलइ एकवामएहवाषणावामपसारिताअथाद्यच्छइजेहनइ घननिविडिधपुलविस्तीर्ण धउच्छइ जिणियानडानइविषइच्छिद्रनथी  
विरलांपानडानथीमिलतजछइ अधीसुष्यपानडंछइ वचनइउत्साकारिविशेषपत्रकाहिरनीकल्यंनथी चूंनंअनइपांडुरंपांडुरानडंजिहंनथीभाट

पक्षवशादप्यसाध विधिना प्रवाहैयपत्ता अण्डैयपत्ता इति । अयमर्थः प्राचीनप्रतीचीनयोः पूर्वापरदिशोरायता दीर्घां शाखा याखा येषां ते तथा  
 उदीचिनदिचिषयोदत्तरयाभ्ययोर्दिशोर्विस्तीर्णां विच्छिन्नवन्ती ये ते तथा । अवनता अधोमुखा नता आनन्ताः प्रणताय न तु प्रवृत्ताः विप्रभाजिताय  
 विधीयती विभागवत्थ. प्रवृत्त्वा अधोमुखतया अवलम्बनाना प्रकल्पायातिदीर्घां शाखा प्रयासाय यस्मिन् स तथाविधो विटपो येषां ते तथा अवाचीन-  
 पत्ता अधोमुखपर्णा अगुहीर्णपत्ता वृषवृत्तताया अवहिनितपर्णा । अवाधिकतवाचनादुचियते अष्ठीरूपता नीरभ्युपवा अविरतपत्ता निरन्तरद्वारा  
 प्रवाहैयपत्ता अवाचीनपत्ता अधोमुखपत्ताया अवातीतपत्ताया अवातीतपत्ताया अवातीतपत्ताया अवातीतपत्ताया अवातीतपत्ताया अवातीतपत्ताया  
 पाण्डुपत्ता । अवहरिविमसतपत्तभारंघकारगभीरदरिद्रिजा नदीन हरिदेन भिंसतति दीप्यमानिन पचभारेण दक्षपयेनान्वकारा अन्वकारयन्तो अतएव  
 गभीराय ह्ययन्ते ये ते तथा । उवणिगणवतवपत्तपक्षवकीमसउल्लसख तकिसखयसकुमालपवालसोद्वियचरंजुरगसिहरा उपनिर्गतैर्नवतखपपपसवे-  
 रत्यभिनवप्रगुच्छै तथा कीमजोल्बवैयसकिः नियस्ये पत्रवित्रीपै तथा सकुमारप्रवाहं गोभितानि वराहुराथि अपमिखराथि जेयन्ते तथा इह ए

अवाहैयपत्ता अण्डैयपत्ता निव्यूजठ पडुपत्ता अण्डैयपत्ता अण्डैयपत्ता अण्डैयपत्ता अण्डैयपत्ता अण्डैयपत्ता अण्डैयपत्ता अण्डैयपत्ता अण्डैयपत्ता  
 यणवतरण पत्तपल्लवकीमल उल्लस खलंत किसलय सुकुमाल पवाल सोद्वियवरं कुरगसिहरा यिच्च कुसुमिया

कीनदगाथाळई नर्धपनदगोर्धाभिंसतदेदीप्यमानएषवा पत्रवउजेभारसमूहतेणइकरीअधवार तेणइकरीगंभीरदीसताळई उवनिगणयकहतां  
 नोबल्यानवीतरुर्ना पत्रपनदपल्लवकीमल उल्लसखपलतांहाचतंजिकिसलय सकुमालसुर्हाखजेप्रवाचतेणइकरीसीभतापरप्रधानअकुराएषवा अपयिधर

अङ्गु रप्रवालकिसलयपलाणां अल्पबहुतरादिकालकृतायस्थाविशेषाद्विषयैः सभाव्यतइति । णिच्चं कुसुमिण् इत्यादि व्यक्तां नवरं । माइयत्ति मयूरिताः । लवइयत्ति पल्लविताः । थवइयत्ति स्वावकवन्तः । गुलुइया गुरमवन्तः । गोच्छिया जातगुच्छा यद्यपि च स्वावकगुच्छयोर्विशेषो नामकोशोऽधो तस्त्रथापीड प्रुष्यपत्रकृती विशेषो भावनीयः । जमलियत्ति यमलतया समर्थेपितया व्यवस्थिताः । जुवलियत्ति युगलतया स्थिताः । विणमियत्ति विशेषेण फेज्जपुष्यभरिण नताः । पणमियत्ति तथैव नन्तु मारथाः प्रयन्दस्यादिकर्मार्थत्वात् । णिच्चं कुसुमियमाइयलवइयवइयगुलुइयगोच्छियजमलियजुवलियविणमियसविभत्तपिंडमंजरियडंसयधरत्ति केचित् कुसुमितायेकैकगुणयुक्ताः अपरे तु समस्तगुणयुक्तास्ततः कुसुमिताय ते इत्येव

णिच्चं माइया णिच्चं लवइया णिच्चं थवइया णिच्चं गुलुइया णिच्चं गोच्छिया णिच्चं जमलिया णिच्चं जुवलिया णिच्चं  
विणमिया णिच्चं पणमिया णिच्चं कुसुमिय माइय लवइय थवइय गुलुइय गोच्छिय जमलिय जुवलिय विणमिय

जेहना नित्यसदाजपनाकइकुसुमफूलजिह्वां नित्यसदामाइयाकइतांमउयामउरलागाकइ नित्यसदालवइयाक० पमयलागाकइ नित्यसदापणमियाक० प्रकर्पिकरीभारिगाढानम्या नित्यसदागुलुइयाक० जपनाकइरनतानाममूइकइ नित्यसदागोच्छियाक० गुच्छलागाकइरपतनागुच्छ नित्यसदाजमलियाक० समीयेणिहचरह्याकइ नित्यसदाजुवलियक० विविष्टचएकठाययाकइ नित्यमदाधिणमियाकइतांफूलफननरुभारिंनम्याकइ नित्यसदापणमियाक० प्रकर्पिकरीभारिगाढानम्याकइ नित्यसदाकुसुमियक० जपनांफूलकइ मउग्यामउरलागा लवइयपणधनागाकइ थवइयजपनाफलनास्रयक गुलुइयजपनालतानासमूच्च गोच्छियगुच्छलागाकइ जमलियसमीये णिहचरह्या जुवलियविविष्टचएकठा विणमियफणफूलभारिंनम्या पणमियफलफूल-

कार्त्तव्यः नवर । सुविभक्ता सुविविक्ता सुनियततया पिण्डो बुद्ध्या मञ्जुर्धिय [प्रतीतास्त्राप्य भवतसक्ता] श्रेष्ठरक्षाया धारयन्ति ये ते तथा ।  
सूयवरहियमयसाक्षकोदसकोदगकाभिगारककोदसजीवजीवकर्मदीमुहकविचपिंगलकखकारं डक्कवायकसहसारासपपेगसउणगणमिधुणविकारद्वयस-  
दुणद्वयमदुररणादए युकादीनां सारसात्ताना मनीश्रेया सकुनगणानां मियुनैर्विरचित शब्दोभक्तिकञ्चोत्रतिमद्दक मधुरल्लरस नादितं  
सुपितं यस्मिन् स तथा वनबंधदति प्रकृत । सुरन्ने सतिमयरमणोय । संपिण्डियदरियभरमदुकरिपहकरपरिक्सिमसतक्षप्ययकसुभासवखोलमदुर

पणमिय सुविभक्त पिंडमंजरिवडंसयधरा सूय वरहिय मयण साल कोदल कोडंगक भिंगारक कोडलक जीवजीवक  
खदीमुह कविल पिंगलकखकारं डक्कवाय कलहंस सारस अणेगसउणगणमिड्डण विरद्वय सहुणद्वय मज्जरस  
रणादए सुरन्ने संपिण्डिय दरिय मसर मज्जकरि पहकर परिलित्तसत्त छप्पय कुसुमासवल्लोल मज्जरगुमगुमंत

भारिनया रुडोपदिभिभागकीघाच्छद सुनियतपपरजेहना पिण्डरुपधईएहवीमञ्जरी तिहदलभवतसकशिखरतेहनाधरएहवचवन मूडामयूर  
मयणसानिकहतांकावरि कोदलप्रसिद्ध कोडगकजीववियेय मिगारकजीववियेय कुंडलकजीववियेय जीवजीवकजीववियेय मंदीमुखजीववियेय  
कपिलजीववियेय पिगाचजीववियेय कारडलजीववियेय चक्राकभीववियेय कलहंससंधंसनीजातितिवियेय सारसजीववियेय अनेकचंपायकुनपपियाना  
गयसमूहतेहनामिधुनदुगल तेषदकरीविरचितकीघायद्वीएहसदुवद्वयकं जचइया दरलेमधुरल्लरएहन तनादिनयद्वद्वलेणिवनपंचद्व अतिमय  
सुरमणीक वषाएकठावया दरियकं दर्पवत एहवाम्नर भमरीतेहनापहकरसमूहद्वजिहवां परिलित्तभनेराठांमयोषावतिहांसयपामता एडवा

गुमगुमंतगुजंतदेसभागे संपिण्डिताः दत्तानां भ्रमरमधुकरीणां वनशताना मेव पक्षकरत्ति निकरा यत्त स तथा परिलियमाना अन्यत आगत्य लयच्छाती मत्तपटपदाः कुसुमासवलीलाः किञ्चल्लम्पटाः मधुरङ्गसुगुमायमानाः गुञ्जन्तय शब्दविशेषं विदधानाः देशभागीषु यस्य स तथा ततः कर्मधारयः । अभन्तरपुष्पफलेवाहिरपत्तीच्छये पत्तेद्वियुष्मे द्वियच्छयपडिवलिच्छये अत्यन्तमाक्कादित प्रत्यर्थः एतानि क्रीण्यपि क्वविहृवाणां विशेषणानि दृश्यन्ते । साउफलत्ति मिष्टफलः निरोयपत्ति रोगवर्जितः अकण्टकप्रति क्वचित् गणाविहगुच्छगुम्भंडवगरम्भसीद्विएत्ति अत्र गुच्छा वृन्ताक्यादयो गुल्मा नवमालिकादयो मण्डपकालिता मण्डपादयो रम्भेत्ति क्वचित् क्वचित् दृश्यते । विचित्तसहसेडकेष्वहुलेत्ति पाठान्तरं तत्र विचित्राः शुभाः सेतवोनामालिबन्धा यत्त केतुबहुलाश्च या सा तथा । वावीपुक्खरणीदीद्वियासुयसुविवेत्तिरम्भजालहरण । वापीषु चतुरसास पुक्खरिणीषु वृत्तासु

गुंजंत देसभागे अब्भंतरपुष्पफले वाहिरपत्तीच्छये पुष्पेहिय पुष्पेहिय लच्छयपडिवलिच्छये साउफले निरोयए अकंटए गणाविह गुच्छ गुम्भ मंडवगरम्भ सोहिए विचित्तसुहकेलभूए वावी पुक्खरणी दीद्विया सुय सुविवेत्तिय

मत्तमातापटपदभ्रमर कुसुमपूलनत्रासवकिंजल्कारसतेशनालीललोभिया मधुरगुमगुमाटकरतांगुंजता शब्दकरतातेहनद्वेयविभागिच्छद् अब्भंतर-  
माहिलफूलच्छदलिहां वाहिरिपत्रपांनडांसुं भाष्यायउटांकाउच्छद् एतलद्वपानउदकरीनद् अत्रपूलद्वकरीनद् अत्यंतटांकिउच्छद्किच्छद्दिअगासउदी-  
सतउनथी स्वादुमीठांफलच्छदलिहां निरोयएकहतांरोगरहित अकंटएकहतांकांटांरचित नानाविधकहतां नानाप्रकारना गुच्छादिक गुल्मनव-  
मालिकादिक मंडपद्रापनामंडवा तेषद्वकरीरमणीकयोभितच्छद् विचित्रनामाप्रकारसहस्रभरुडी केतुष्वजातेजिहांठांमिच्छद् वापिशुपणीच्छद्





सर्वतः समन्तात्प्रविशन् इत्यादि सुगममापन्नलताशब्दादिति । पञ्चमलताहिसि पञ्चलताः स्थलकमलिन्यः पञ्चकाभिधानहचलता वा नागादयो ह्यहविशेषा स्त्रेषां लता खरुका खएव तत्रागोकः कङ्कली चूतः सप्तकारः वनः पीलुकः वासन्तीलता अतिमुक्तकलता च यद्यप्येकार्थनामकीये-

कुस विक्रसविभुद्धरूक्त्वमूला मूलमंतो कंदमंतो एतेष्विवस्यस्यो भाणियव्वा जावसिवियपविमोत्रणा सुरन्मा पासादौया दरिसणज्जा अभिरूवा पडिरूवा तेणतिलिया जाव णंदिरूक्खा अखे हिं बड्ढहिं पञ्चमलयाहिं णागलयाहिं असोअलयाहिं चंपगलयाहिं चयलयाहिं वणलयाहिं वासंतिलयाहिं अइमुत्तलयाहिं कुंदलयाहिं सामलयाहिं

हचतेणिं दाडिमहचतेणइ सालहचतेणइ तालहचतेणइ पियहचतेणइ पीयंगुहचतेणइ पुरोयगहचतेणइ राजरुचनानामहचतेणइ नंदौरुचनानामिहचतेणइकरी सर्वदिशिननइसर्वविदिशिनइविपइसघन्नइसंपरिक्खित्तैअतिशयस्यखवीडाउच्छइते अगोक तेतन्नकनानामहच लउकहचच सौवइहच जावहचशब्दशकीअनेराहजजाणवा नंदौरुचनानामहच कुयडाभविशुकयकं बाउलजवासापोजडीतयालांपमांढणांतेणइकरीरहितविशुद्ध निदोषव्वंतउमूलच्छइ पृथिवीमांहितिरच्छाविस्तरइ तेमूलतेणैसचित मूलथउनइविचालै कंदुइतेणैकरीरुहित एहसर्वथडादिकशब्दवर्णकहचनउतेसर्व भाणियव्वाकं जाणिया जावशब्दथकीअनेराइबोलेरथादिकसर्वअनइशिविकापालिपीप्रसुखतिहांप्रविमोचनम् काइछइ सुष्ठु भलारमणोक जेह्वनइजो तांजचित्तप्रसन्नयाइ देयतांढष्टियमत्तानपामइ अभिरूपमनोहरच्छइ प्रतिकरूपदेयणहारजुअरप्रतिविचदोसइ तेतिलकहच णंअलंकारभणी जावशब्दथकीअनेराइलाणिया नंदोरुक्खचअनेराइ घणाइक पञ्चनीलनांकांवाडांडकीतेणइकरी नागहचनीलताकांवातेणीइ अगोकहचनीलताकांवाते-

ऽधीता स्वधापीठ भेदो रुठितो ऽवशेष म्यामा भिव्यु श्रेयलता रुठिगम्या इष सतावर्षकानन्तर मयोक्षवर्षकं पुस्तकान्तरे इदमधिकमधीयेते तस्युपं ययोगवरपायवस्य उवरि बहवे षट् षट् मङ्गलगा पणसा षष्ठा षष्ठाप्यिति बोधाकरणात् प्रत्येक ते ऽष्टाधिति षष्ठा षण्ये त्वष्टा धिति सङ्ख्या ऽष्टमङ्गलिकानीति च सञ्ज्ञा । तत्रहा सोवत्यार सिरिवत्यार नदियावत्तत्र बहमाण्यु महासण ५ कलसर्षे मच्छ ७ दृष्यणात् तत्र श्रीवल स्तोत्र्यंहरद्वद यावयमत्रियेयाकारो नन्द्यावत् प्रतिदिग्मकोण' स्वस्तिकविशेषो रुठिमन्त्रो वर्षमानक सराव पुरुषारुद्रः पुरुष इत्यन्ये भद्रासन सिद्धासण दर्पण आदर्शः श्रेयाधि प्रतीतानि । सम्बन्धयणामया षष्ठा षष्ठा आकागस्तिकवत् स्रष्टा द्रव्यपुत्रनिर्हंतत्वात् स्रष्टामस्रणा रघा दृष्टारषष्टा स्रथानया प्रतिमेव महामृदा मुकुमारयानया प्रतिमेव प्रमार्जनिकाइव शोधिता अतएव निरयानीरुजलोरहित निर्भ्रुवाकठिनमखरहिता निष्पका चार्द्रमखरहिताः निष्कूबडष्वाया निरावरपदीप्तय स्रष्टा सप्रभा समो रिया सकिरणा स्रज्जीया प्रत्यायवस्तुषोतका पासादीयार । तस्युण यसोगवरपायवस्य उवरि बहवे किरइवामरुक्कया स्रणवर्षंभामरुक्कया नीचवामरुक्कया सुक्लिषवामरुक्कया शक्तिरिप

सञ्ज्योसमंता संपरिचित्ता तात्तुणं प्रसमलयाभो णिचं कुसुमियाभो जाय वडंसयधरीश्रो पासादीयाञ्चो दरिसणज्जाभो

पीयद् वपकस्रचनीलताकावतेषीयद् धूतपाशानीकावसतातेषीयद् वनएकजातीयस्रचतेइनीलताकावदतेषीद् वार्धसीयनामावचतेइनीलता कावतेषीद् चद्रमुत्तानामस्रचनीलताकावतेषोद् कु दस्रचनीलताकावतेषीद् सामस्रचनीलताकावतेषोयद् सर्वदिगिषनइविदिगिनइविपद्मस्रचद्र संपरिचित्तेपतिग्यसुवोडिस्रचद्र तेहजेपदमलताकावनीजाति नित्यसदाइकुसुमितफूलइकरोसहित जावय्यदयकीप्रनिराइयोक्त षवतसकथिखरतेइनी



केस कञ्जन्गी खंजणसिंभेय रिष्टय जवूमस' पसपक सए वधए नीनुपलपत्तनिकर अयसिक्कुसुमप्यगादि नीलदल्ययं तत्र पञ्चनकी  
 यमस्यतिविशेषः वनधरकीयेज्ज वसदेववस्त कञ्जन्गी कञ्जन्गी मत्रियादिविषाणच्छेद रिष्टक एत अयनकी वीजकाभिधानो  
 वनस्यति सनवन्धन घनपुष्पुक्त । मन्कयमसारकनिष्पणकीयरा सिवखे मरकत एत मसारी मसुणीमारक पापाणचिजिय' सचाव कपपट'  
 सथायते कसिसति कलियं कसिसिरीय' नयनकीका नेमम्यतारा तद्वासिधयं' काल दल्ययं । पिष्टघषये चिन्धघवन' अहमिरे अष्टभिरा

कञ्जलंगी खंजणसिंभेट रिष्टय जंघफन असणक सणंघण खीनुपनपत्तनिकर अयसिक्कुसुमप्यगाभा मरकत  
 ससार कलित्त खणकीयराभिरणे पिष्टघणे अहसिरे अयंसयतलोचने सुरन्धे ईहाभिय उमभ तरग नर मगर

ज वपएवतेहनएज डगगउ सुष्टुपमापोपेनखै रेपुसिरीयिन्नापट्टेहवउखर कियदेकालउखरवर्णिकरी अत्रनकवनस्रतिःशियघनमीघसरिपनअपाण  
 तरवार कुपकयक० नीतउकमस हसधरधनदेवनाकोयेज्ज० वस्तनीलदुवर्णिइइ आकाशकागदण्णिकेगमसाकना कञ्जन्गीक० काजलहरउकर  
 कालउ खजणक० गाठसानउ' जगण नृगभेदक० मद्रियसौगनाभीपजाव्याघाट रिष्टयक० परिष्टरत्तनिरीय जावुसुचनउफन असनकवीथानउसुच  
 उरधंधपक० सणपूजनउधीटभीमेत्यलकमनापत्रपागडा तेहनउनिकरममूइ अममीनउपूवतेहम'रथी प्रकामप्रभाहरेलेहनी मरकतनामारड  
 ईदनीकमणिकनिसक० कडिवाधवानावाधो नयननेवतेहनीकीकीतेहनीराशिसमूहतेहसरिपुजेहनवर्षसतेजघपूखर अहसिरेपाठपूणाहरेलेहना  
 पायमगक० पारोनागतकानीउपमाहजापिषउ अतिययधरमणीक इहाभियवरगडा उपभबन्नद तरगवीडा नरमनुच मगरमण्ड विष्टगपविशा

अहसिरे पाठपूणाहरेलेहना

षष्ठकोणाइत्यर्थः । आर्यसयतलोवमे सरस्वती इहामिय उसम तुरग नर मगर विहग वालका किणर रर सरभ चमर कुंजर वणलय पलमलय  
भत्तिपित्ते ईहाम्याः इकाः व्यालकाः स्नापदभुजगाः । आर्द्राणग रूय बूर णवणौयतूलफरिसे आजिनकं चर्ममयवस्त्रं कूयं प्रतीतं बूरो वनस्पतिविशेषः  
तुल मर्कतूलं सीहासणसंज्ञाणसंज्ञिए सिंहासनाकारः पासादीए जायपडिफुवेत्ति ॥ छः ॥ वाचनागरे पुनः शिलापहकवर्णकः किञ्चिदन्यथा दृश्यते स च  
संस्कृतौव लिख्यते । अक्षनक घन सुवलय हतधरकौशेयक सहयः घनो मेघ इत्यर्थः आकाय केशकज्जस कर्कोतनेन्द्रनीलातसीकुसुम प्रकाशः  
कर्कोतनेन्द्रनीला रत्नविशेषो अक्षान्नः शुभेदरिष्टक नौशगुणिकागवलातिरेकभ्रमरनिशुखस्वभृतः अक्षकौटविशेषोऽङ्गारविशेषोवा अक्षानं  
सौवोराक्षनं शुभभेदो विषाणच्छेदो विषाणविशेषो वा रिष्टः काकः फलविशेषो वा भयवा ऽरिष्टनीले रत्नविशेषो गुणिका वर्णद्रव्यविशेषो गवलां

विहंगं वालग किंखर रर सरभ चमर कुंजर वणलय पलमलय भत्तिचित्ति आर्द्राणक रूय बूर णवणोत तूलफरिसे  
सीहासणसंज्ञाणसंज्ञिए पासादीए दरिसणिज्जे अभिखवे पडिखवे ॥ छः ॥ तत्पणं चंपाएणयरौए कुंणौएणाभंराया

वालगसप्यं किंनरव्यंतरविशेषं करस्यगला सरभअष्टापदजीव चमरीगाइतथाचमर कुंजरहस्ती वननीलता पदमनीलता इत्यादिकभातिरूपचित्रा-  
मलिथाच्छइ आजिनकचर्मनउवल रूअपीज्यउरू बूरवनस्पतीनाफूल नवनीतमांषण आकतूलहंसतूलतेचसरिषीफिरसजेहनुकुमालच्छइ सिंहासन-  
नउजेचउसस्थानतेहवउछइसंस्थानजेहनउ तेष्टथिवशिलापट्टदीठइचित्तप्रसन्नथाइनिर्मलथाइ दीठइनेत्रअमक्लामानापामइ अभिरूपमनीहरच्छइ देवण  
हारनांजुभाररूपप्रतिबिंबइदीसइ हवइराजानुवर्णकलिधियइछइ तेचंपानामइनगरीतेहनइविपइ कुंणिकएहवइनामइछत्रपतिराजा प्रतिशयसुंवसइ

सहपत्र्यो मीतेभ्यो इतिरेको नीरातयाऽतिरेकवान् य स तथा स चासो अमरनिशुभस्वमूलयेति कर्मधारय निकुरन्व्य समूह जस्यप्रसन्नसन्न  
 कुसुमवन्धनीलोत्पलपत्रनिकरमरकजायासकनयनकौडाराशिवर्णं धायासको ह्यविशेष स्विग्धो घनीगतएव शुभिर रूपकप्रतिरूपद्वयनीय  
 रूपको. प्रतिकूपो रूपवान् पतएव द्यंनीयथ द्यंनयोभ्यो य स तथा सुभाजासकपरिगतप्रान्त इत्ययं. ॥ छ ॥  
 राचवर्णक निख्यते । मद्यथा हिमवत महत मलय मंदर महिद्वारे महादिमवात् य महान् श्रेयराजपवंतापिपया तथा मलयपवंतापियेपो  
 मन्दरो भिदु मंडैन्द्रः पवंतापियेप शक्तो वा तद्वत्कार प्रधानो य स तथा । पचन्तविचष्टदोहरायकुसवससुषुए अत्यन्तविद्युहो निर्दोपो दोषं-  
 चिरकाखोनो यो राधा कुसकूपो वय सुख सुष्टु, प्रसूतो य स तथा । शिखरार रायसक्यवधिराद्रयगमगे राजखचणै स्वशिक्षादिभिः विराजित  
 महमद्र गात्र यद्य स तथा मकारस्तु प्राकृतमैनोप्रभव । सुदरपति सुदित प्रमोदवान् यद्यवा निर्दोपमात्रको यदाए सुदमोजोहोदुलोणि

- परिवसद् महयाहिमवतमहत मलयामंदर महिंदसारे अश्वतनिसुद्ध दौडरायकुसुमवससुषुए शिखरंतरंराय  
 लकखणविराड्भ्रंगमंगे बहुजण बहुभायपूजिए स्वगुणसमिष्टे, खत्तिए मुद्दए मुद्दए मुद्दाहिसिते माउपिलसुजाए दय

खदतिहाराजधानीच्छद्द महयानोठछदिमवंतमहादिमवतपवंततेहसारापठच्छद्द मळयाचलपवंतसरिपच तिमिरपवंतसमान महेंद्रनामिंपवंतप्रथया  
 महेंद्रगको द्रतेहनीपरिनीटउप्रधानगुणदकरीसचित अत्य तद्यणउविशुद्धनिमंश दोषंमो टउजेराजाननउकुलपनदूवयचत्तमच्चियनउते हगदूविपद्द  
 सुप्रसृतअन्मपायठच्छद्द निरतरचनररहितपलउजेराजाननामघतेणदूकरीविराजमानमोभताच्छद्दभगउपांगयरीरनाप्रवयवेजेहा बहुषथादानसोका

सधीश्रीति । सुषाहिसिन्नेति पिठपितामहादिभिः राजभिर्वा यो राज्येऽभिषिक्तः । माउपिउसुजाएति पित्तोर्विनौततया सत्युतः । दयपत्तेति प्राप्तकरणागुणाः । सौमंकरेति सीमाकारी मर्यादाकारीत्यर्थः । सीमन्धरेति हतमर्यादापालकः । एवं खेमंकरे खेमंधरेति खेमं पुनरनुपद्रवता । मंगुस्सिदेति मनुजेषु परमेस्वरत्वात् । जणवयपियत्ति जनपदानां पितेन हितत्वात् । जणवयपुरीहिएति जनपदस्य शान्तिकरत्वात् । सेउकरेति मार्गदर्शक इत्यर्थः । केउंकरेति अद्भुतकार्यकारित्वेन चिह्नकारी । यरपवरेति नराः प्रवरा अस्येति कत्वा । पुरिसवरेति पुरुषाणां मध्ये प्रधानत्वात् । पुरिससीहेति मूर्त्वात् । पुरिसवग्घेति रोषे सति रौद्ररूपत्वात् । पुरिसासीविसेति पुरुषधामावाशौविषय पुरुषाशौ-

पत्ते सौमंकरे सौमंधरे खेमंकरे खेमंधरे मंगुस्सिंटे जणवयपिया जणवयपाले जणवयपुरीहिए सेउंकरे केउंकरे यरपवरे पुरिसवरे पुरिससीहे पुरीसवग्घे पुरिसपुंडरीए पुरिसवरगंधहत्थी अड्डे दित्ते वित्ते

बहुमानघणउमानदेईनड्डुपूजइइअच्चंइइइ सर्वसमस्तजेराजाननागुणतेणइकरीसमूहपरिपूरुषं चत्रियजात्यवंतच्छइ सदाप्रमोदसहित पितामहादिक परिवारमिलीराज्याभिविककीधउच्छइजेहनउ । तेमातापितानउसुविनीतपणइकरीनइसत्पुत्रसुलच्छइ दयाकरणातउगुणजिण्णियापामिउच्छइ सीममर्यादानउकरणहार कीधीमर्यादानउधरणहार कल्याणउकरणहार उपद्रवटाळीप्रजानउपालणहार मनुष्यनउद्रंइएखर्यवंत जनपददेशनालोकनउ पितासमानच्छइ जणपददेशनालोकनउप्रतिपालकच्छइ जनपदेशनालोकनुपुरीहितथांतिनुकरणहारउपद्रवनिवारक मार्गनउषाउणहारच्छइ अद्भुतकार्यनउकरणहारलोकमांछिप्रसिइकरइ नरमनुष्यमांछिप्रवरप्रधान पुरुषमनुष्यमांछिकेसरीसिंघसमान पुरुषमनुष्य

विष्य प्राणोविषयं सर्वं कोपसाफल्यकारणमर्थान् । पुरिसपुंठरोपत्तिं सुखायिनां सेख्यत्वात् पुण्डरीकं च सितपद्म । पुरिसवरगघृष्टयो प्रतिराजभञ्ज-  
कत्वात् । षट्षेति सद्यः दिक्षेति ह्यो दर्पवान् दिक्षेति प्रसिद्ध । विम्बिष्वित्तुभवणस्यप्राणजाणवाह्याद्येषु विस्त्रोर्षाणि विस्तारवन्ति  
विपुसानि प्रभूतानि भवनमयनासानि यस्य स तथा यानवाहनानि रथाखादौनि आकौर्षाणि गुणाकौर्षाणि यस्य स तथा ततः कर्णधारयं  
यद्यथा विस्त्रोर्षेविपुनभवनानि मयनासनगानवाहनानि अकौर्षाणि यस्य स तथा । नष्टपणवद्वायुरूपरयने नष्टप्रभूत धन गणिमादिकं यद्भङ्गि च  
जातरूपरक्ते सुवर्षरोष्ये यस्य स तथा । आरगपठनसपठते षायोगस्यार्षाभय प्रयोगा उपाया सम्प्रयुक्ता व्यापारिताः येन तेषु वा  
सम्प्रयुक्तो व्यासृजो य स तथा । विच्छद्भिपुठरभसपाणि विच्छद्भिंते त्यक्ते नष्टजनदानेनाविमिटोच्छिष्टसंख्यात् सञ्जातविच्छद्भे वा नागाविषे प्रपुटे  
भक्तपाने भोजनपानीये यस्य स तथा नष्टदासीदानेनाविमिसमवेसगन्धमूर नष्टवो दासीदाणा गोमन्दिपगवेसकाय प्रभूता यस्य स तथा गवेषका उरन्वा ।

विस्त्रोर्षे विस्तलभयण मयय्यामणलाण वाह्यादस्य नष्टधण नष्टलोयसूवे रयते आरग प्रसृगसपठते विच्छद्भिश्च पर

मन्दिप्राणमानान् पुरपमन्यमादिप्राणोत्पत्तिसंज्ञानान् पुरपमन्यमादिपुंठरीककमसमानसञ्जज्ञानं पुरपमन्युच्य  
मादिहरये नष्टधक्षीसमानवैरोनुभजणहार धनधान्यादिकपरिपूर्यं च नष्ट दोयतत्रप्रसिद्ध विन्नेकविस्थातच्छद विस्त्रोर्षं पणश्च विपुलघर्षा भवनजेघर  
यल्लाकादिकापासणमडादिकमकटादिकबोडादिकतिण्णश्च कोष्काखीषपरिपूरण्यच्छद षणाउधनगणिमधरिममेषयारिज्ज्जादिषणु जातरूपसुवर्षं रजत  
रुपुच्छरैषेधनश्च आरगपयंनश्च काभविमर्षाठमणादिते इनधोमयोगत्तयाव्यापारादिकते समप्रयुक्तप्रयुज्याच्छदलेणश्च नायोता पठरघर्षाभतिपाणी



पडिपुणजंतकोसकीडागाराउधागारे परिपुर्णानि यन्वाणि च पाषाणचेपयन्वादीनि कीशो भाण्डागारः कीडागारश्च धान्यगृहं आयुधागारश्च महारण-  
शाला यस्य स तथा । बलवंति प्रभृतसैन्यः । दुब्बलपञ्चामित्ते दुर्बलाः प्रत्यमित्ताः प्रातिवेशिकनृपा यस्य स तथा । श्रोत्रयकंठयंति उपहृता विनाशिताः  
काण्टकाः प्रतिस्यर्हिगीत्रजा यत्र राज्ये तत्तथा क्रियाया वा विशेषणमेतत् एव मत्स्यान्यपि नवरं निहताः कृतसम्बद्धपहाराः मञ्जिताः कृतमानभङ्गा  
उद्धृता देशान्निर्वासिताश्च तेषांविद्यमाना इति तथा शत्रवो ऽगोत्रजाः खसौन्दर्यातिशयेन पग्भ्रूताः पराजितान्तु तद्विधराज्योपार्जने

भक्तपाणे गज्जदासौदास गोमहिंस गवेलकप्यभूते पडिपुणजंते कोस कोडागारा उधागारे बलवं दुब्बलपञ्चामित्ते  
श्रोत्रयकंठयं मलित्रकंठयं उद्वियसत्तुं अकंठयं श्रोत्रयसत्तुं निहयसत्तुं मलियसत्तुं उद्विन्नसत्तुं निज्जिन्नसत्तुं  
परादन्नसत्तुं ववगयदुग्भिक्खं मारिभयविप्यंमुक्कं खेमं सिवं सुग्भिक्खं पसंतडिंबडसरं रज्जं पसाहेसाणे विहरति ॥६॥

लोकजिमद्वेष्टते णद्विशेषेपद्दिवरावद्वेष्टद्वं बहुघणीदासोतथादास गोवृषभमहिषमहिषीभद्रसिंगवा गाद्वेष्टेएलकचेटागाडराच्छालौप्रभृतघणीद्वेष्ट प्रति  
पूर्यं पूरउच्छेद्यतपाषाणशिलानालिगोलादिप्रमुखलक्ष्मीनउभंडारद्वं धाननाम्नागारभंडारकोठार आयुधपांडांतिमूलभालिसौंगण्यप्रसुधप्रायुध तेहना  
आगारद्वेष्टेहनेआपणपद्दुबलवंत दुर्बलद्वेष्टपत्यामित्रैरीजेहना विणास्याकंठकसघलाद्गोत्रीजेणद्दं ऋद्धिनद्दुअपरहरवद्दुमानभंगकीधाद्वेष्ट देशथकीकाढा  
द्वेष्टैरीनद्द प्रतिमल्लैरीद्दरहितद्वेष्ट प्रतिमल्लजीत्याद्वेष्ट हस्यायिणास्याशत्रुवैरीजेणद्द जीताजिणद्दुवैरीशत्रु ऋद्धिअपरहरीद्वेष्ट शत्रुवैरीनी देशथकीकाढा  
द्वेष्टशत्रुवैरी विशेषथकीजीताकशिआख्याशत्रुवैरी तेहनाराज्यनद्दलेवद्दुपरानयपमाडाशत्रुवैरी व्यपगतगयुद्वेष्टदुर्भिवदुकाजजेहनद्दराज्यद्द देवतादिकनी

ऽकृतसंभावनाभङ्गः स्वगयदुष्किमकलमारिभयविष्यमुकमिति व्यक्तम् । पसतल्लिखइमरति क्विस्या निर्विघ्ना, उमराणि रात्रकुमारदिक्कतयैराज्यादीनि पसतादिहइमरति कविप्याठः तत्राहिततमर गमुकतविदूरोऽधिकविदूरोभा । रत्नपसाहेसापेत्ति प्रयासयन् पालयन् पसाहेसापेत्ति क्वचिन् पाठः तस्मात्प्रयमेवार्थं विहरति वर्तते । ख । रात्रीवचने लिख्यते अहोणपुणप विदियसरीरा क्वचित्तु अहोणपुणप विदियसरीरा अहोनात्यनूरानि लक्ष्यत पूर्णानि स्वरूपत पूर्णानि वा पत्रिस्त्राणि पचापौट्टियाणि यत्र तत्तथाविषयसरोर यस्याः सा तथा । कल्लवज्जण्णुथोववेया लक्षणाणि स्त्रिकक्षमादीनि व्यञ्जनानि मयीतिसकादीनि तेषां यो गुणः प्रयस्यत्य तेनोपयेता युक्ता या सा तथा । माणुभाणप्यमाणपडिपुणसुजायसब्बगस दरंगो तत्र मान ललद्रीणप्रमाणता कथं जसस्यातिथ्येकुळे प्रमातव्यमानुषे तिरेयित्ति यज्जल निखरति तवदि द्रोणमान स्यात्तदा तन्मोच्यं मानप्रप्त सुचते

तस्सुण कोणियस्स रथो धारिणोनामदेवोद्धोत्या सुक्कमाल्लपाणिपाया अहोण पडिपुण पंचिंदियसरीरो लक्खण वंजण गुणोववेया माणु न्माण प्यमाण पडिपुण सुजाय सवंगसुंदरंगौ ससौसोमाकारा कतंपियदंसणा सुक्खवा

कीर्धीमारिपनदूवदरोनाभयय काविप्रमुकररुत्तच्छद छेमकल्याणच्छद छपद्वयरहित, भिचापरसुखिभिसावुइच्छद प्रयात्तउपगम्याच्छदंइवउपद्रव उमरमाहोमाधिरेजादिकनउविरोध एहउतराज्यप्रमुणउप्रसाधउप्रतिपाद्यतउ विहरच्छदद्विजयवतवत्तदू । ख । दिवदूराथोनउवर्ण कलिखिदर छद तेइकोणिकनामाराजानद धारिणोएइइदनामददेवोपट्टराणोद्धोत्याकुती सुक्कमाल्लसुद्धासाच्छदपाणिआथप्रनदूपायकहंतापगजेइना अहोण हीणानयीलक्षणदकोप्रतिपुर्णं पूराक विसहित पाविद द्वियउदितयरीरजेइणउ लक्षणवाचिप्रादिक छ्यजनमस्तित्तकादिक गुणथोदयंगामोयंवातरौ तेणरुउपेतसहित भानल्लद्रीणप्रमाण लन्मानपव्वंभारप्रमाणता प्रमाणेऽप्यगुत्तयरीरनउमान प्रतिपुर्णं पूरउ सुजातभदा सवसदूचगोउपांगद

टीका

२३

सत

धाना  
वेध

तथा उन्वान मर्द्धभारप्रमाणात् कथं तुलारीपितं मागुषं यद्यर्द्धभारं तुलति तथा तदुन्वानप्राप्तं भित्युच्यते प्रमाणं तु स्त्राङ्गुलेनाऽष्टोत्तरयतोच्चयता ततश्च मानोन्वानप्रमाणैः प्रतिपूर्णाव्यनूतानि सृजातानि सुनिष्पन्नानि सर्वाण्यहानि शिरःप्रभृतीनि यत्र तत्तथाविधं सुन्दरमङ्गशरीरं यस्याः सा तथा । ससौसोमाकारकंतपीयदंसणा शशिवत् सौम्याकारं कान्तञ्च कमनीयमतएव च प्रियं वक्त्रमं द्रष्टृणां दर्शनं रूपं यस्याः सा तथा । अतएव सुररुचि शोभनरूपा । करयत्नपरमिअपसत्यतिवलयवलयिसम्भ्रा करतलपरिमितो सृष्टियाद्यः प्रयस्तः शुभस्त्रिवलिको वलितयुक्तो वलितः सञ्जातवलि मंथो मध्यभागी यस्याः सा तथा । कुंडलुक्लिद्विगंडलेहा सुखलाभ्या मक्लिखिता गखलेखाः कपीलपत्रावल्थी यस्याः सा तथा कुंडलोक्लिद्वितपीनगंडलेखेति पाठान्तरं व्यक्तञ्च । कोमुद्गरयणियरविमल्लपडिप्रणसोमवयणाः कौमुदी चट्टिका कात्तिकीया तत्प्रधानं स्तस्यां वा यो रजनीकरवद्द्रु स्तद्विमलं प्रतिपूर्णं सौम्यञ्च वदने यस्याः सा तथा । सिगारागारचारवेसा नृङ्गारस्य रसवियेयस्यागारमिव स्थानमिव चारुः शोभनी वेशो नेपथ्यं यथा स्यात्तथा प्रथवा

करयत्नपरमिञ्च प्रसत्यतिवलयवलयिसम्भ्रा कोमुद्गरयणियरविमल पडिप्रण सुखलाभ्या गंडलेहा

सुन्दरमनीहरभ्रंगच्छइलेहनु शशिचंद्रमानीपरिसौम्यगोभाग्रमानाकारच्छइजेहनागरीरनु कांतकमनीयमनोहरच्छइप्रियमुच्चाभणदृशं नजेहनु सोभा कारिउरूपच्छ करतलपरमितमूठियाच्छएङ्गवउपगस्तत्रिलदूंसहितवलितउंरूपच्छक०वनियापड्याच्छइमध्यभागिलेहनु कौमुदीकात्तिकीपूर्णं मानउ रजनीकरचंद्रमाते हनीपरदूं विमलनिर्मल प्रतिपूर्णं पूरउ सौम्यकारीवदनमुखच्छइजेहनुउ काननदूविहुं कुंडलदूकरोउक्लिद्वितसतेजकोधाच्छइ गंडलेपात्रपीलनीरेपालेहनी नृंगारगंडनभृपण्यादिप्रधानाकारसंस्थानचारुमनीचरविषयस्यभरणपधानच्छइ संगतकहतांसंगमिलतो गजगमनिचालि

शुभ्रती मण्डणभूपणाटीपद्मप्रधानभाकार' मखान' वाक्य वेधो यथा' सा तथा । मगयगयहमियमणियचिद्विगविनामसखियमलावणियत्रयभुतो  
 वयारकुमना सगता उचिता गतहमितभणितविद्वितविसासा यथा तथा तत्र विद्वितं वेदितं विद्यासो नेववेष्टा तथा सहस्रचितेन प्रसन्नतया ये  
 सन्नाया परस्परभायणलक्षणा स्तेप निपणा या सा तथा तत्र युक्ता' सङ्गता ये उपचारा लोकाव्यवहारा स्तेपु फुयला या मा तथा तत्पदप्रयस्य काभे  
 धारय' । क्वचिन्दमन्यथा हृद्यने म' इत्यणत्रघणययणकरचरणयणलायव्यवितामकनिया व्यक्तमेव नवर' जवन पूर्वकटीभाग सावखमाकारम्य  
 सुदृशयीयता विनाम स्त्रीणां वेष्टात्रियेप' पाइ च खानासगमनानां हस्तभूनेत्रकर्मणां वैव सत्ययते त्रियेपी य' श्लिष्ट' म त् विनाम स्यादिति  
 तथा । कोणिएण्य रण्य' मधि प्रणुरसापविटनादडे मरुफरिमरमरुगधे पचविष्टे माणुस्कार कामभोए पमणुभायमाणोविहरतिसि व्यक्त मेव च नवर'

सिंंगारागारवाखेवसा संगय गय हसिच्च मणियच्च चिद्विद्य विताम ललितम्र संलावणिलुण जन्तोत्रयारगकसला यामा  
 टीया द्रिसिण्ज्जा अभिरूवा पडिख्वा कोणिएणं रया भंभमारपुत्तेणं सधिं' अणुरत्ता अविरत्ता इद्वे सह फरिस

प्रमितहमिचउ भण्यवोखिवउंशास्त्रभणिवउ पनीकचेष्टानउकरिवउं नेत्रनीवेष्टाकटावनउकरिवउ पुसचपणउतेणुप्रहित ससाप्वोखिवउतेइनइ  
 विपदनिपुणगाडोडाहीजे युक्तयोग्यपहवाजेलपचा लोकव्यवहारतेइनइविपदकगलनियुणुइए देपणहारनइचित्तपुसचकरइ दीठइयकरनेत्रयमत्तामनान  
 पानइ अभिरूपमनोहरदीसतीयकीते धारिणीदेवो प्रतिकपदेपणहारनिमंतपणउ पामइ कोणियानामागजा भभमारयेणिकउपुच तेइसाधि  
 अनरत्तगिणीखइ पाठइकीधइपुणविरचपनइइ पूटभलाकइ शब्दनामख फेरउ रसरूप गध पचविधपचप्रकार मायमं वधिया कामपनइभोग

अतुरता अविरता अतुरज्या अतुरि प्रतिकूले सत्यपि न विप्रियेऽपि विरता तां गतेत्यर्थः ॥ छः ॥ तस्मिन्मिल्यादौ त्रिखलकयवित्तिपत्ति त्रिहितप्रभृतजीव-  
कइत्यर्थः छत्तिप्रमाणे छेद मर्द्धनयोदगरजतसहस्राणि यदाह मंडलियाणसहस्रापीडंदाणं सयसहस्रा । पत्तिवाचएत्तिप्रसृत्तिव्याप्तौ वार्ताव्यापारवान्  
वार्तानिवेदक इत्यर्थः । तद्देवसिञ्चति दिवसे भवा देवसिकी सा वासी विवचिताऽमुत्र नगरादावागतो विहरति च भगवानित्यादि रूपा देवसिकी चेति  
तद्देवसिकी अतस्मां निवेदयति ॥ छः ॥ तस्मिन्पुरिसस्मृत्यादि तत्र दिग्गदितभद्रतचैयणत्ति दूरतं भृतिभक्त्यरूपं चेतनं मूल्ययेपा ते तथा तदभ्यतिः

रसखव गंधे पंचविहे माणुस्मृए कामभोए पञ्चगुभवसाणीविहरति ॥ छः ॥ तस्मिन् कौण्डिन्यस्य रणो एक्के पुरिसे  
त्रिखलकयवित्तिभगवत्रो पत्तिवाचए भगवतोतद्देवसिञ्चं पवित्तिं पिवेएइ ॥ छ ॥ तस्मिन् पुरिसस्मृ वहेवे अण्ये  
पुरिसा दिणभत्तिभत्तचैअणा भगवतोपवित्तिवाचअ भगवतोतद्देवसिञ्चं पवित्तिं पिवेदेति ॥ छ ॥ तेणंकात्तेणं तेणं

कामीछइइद्वियर भोगीइद्वियर तेपचणुभवसाणो कद्वतां अरुभवतो भोगयतोयकोयिचरइइ ॥ छ ॥ तं प कौण्डिन्यमारा जानइ एकपुरुष यिपुञ्जविस्तोणं  
घणीकौधीछइइत्तिआजीवकाजेहनइएहवठ भगवंतयोमहावीरनठ प्रहत्तिवाणुकवात्तां नठकथकरइइकाकेहोवात्तां नठअधिकारी भगवंतयोमहा  
वीरनीदिवसरनीगहत्तिवात्तां राजाक्कण्णअगलिककताएहत्तिवाहुजनोअधिकारजाणयउभगवंतं प्राजअसुत्तिगरियामइविचरइइइ तं हनउनिवेदककइण  
हार ॥ छ ॥ तेहप्रहत्तिवाहुकपुरणइ वहेवेघणाप्रनीराणुनपमंआकरइइइ दिग्गदोधउभ्यत्ववइससारउडेइं रायाइइतथाभक्तभी जतं तं हजचैत्यनामूल्यजेइ  
नइएहवाघणापुण्यइइ भगवंतयोमहावीरनीप्रहत्तिनावंदनाहारकइणहार भगवंतनीतेतेद्विषसनी प्रहत्तिभात्तां निवेदइइराजाकीणिकभागलिकइइ ॥ छ ॥

कार्योपस्थादिकाभक्तं च भोजनमिति । भमसारपुत्तेति त्रैणिकराजसूत्र । अथेगणैत्यादि अनेत्रे ये गणनायका मह्यतिमहतरा इहनायका स्वयंपाशा राजस्थानीया महलिका ईश्वरा युवराजा मतान्तरेणाणिमादोष्ययुक्ता । तत्तवरा परितुष्टनरपतिप्रदत्तपदवधविभूषिता राजस्थानीया । माडविया उच्छिन्नमहपाधिया । कोडविया कतिपयकुटुम्बप्रभयोवस्यका । मन्त्रिण्य प्रतीता । महामन्त्रिणो मन्त्रिमण्डलप्रधानाः हस्त्रिसाधनोपरिका इति वृद्धा । गणका ज्योतिषिका माण्डगादिका इति वृद्धा । दोवारिका प्रतीहारा, राजदोवारिका वा । अमात्या राज्याधिष्ठायका । चेटाः पादमूलिका । पीठमूर्धा-  
भास्थाने पायनासन्नसेवका वयस्याइत्यर्थं । नगरनगरवासिप्रकृतयः । निगमा, कारणिका वणिलोया । अष्टिन-श्रीदेवताआसितसौवर्ण्यपद्मविभूषितोच्च-

सर्मेणं कोणिए राया भमसारपुत्ते वाहिरियाए उवङ्गाणसालाए अथेग गणनायक टंडनायक राईसर तखवर  
माडविअ कोडविअ संति महाभंते गणक दोवारिअ अमच्च चेड पौठमइ नगर निगम संठि सेणावइ सत्यवाह द्रुत

तिष्कादिचथामारानइविपइ तिष्कमयइतिष्प्रस्थावनइविपइ कोणिकराजा भमसारत्रैणिकराजानचपुष वाहिरिकीउपस्थानयालावर-  
सियानोसमाजिडोषपरिवारराजा अनेकघषया गणनायकप्रजानांइमहतरमोटादंडनायककटकनास्त्रामो राभितेमहलीकईश्वरयुवराजा तखवर  
महवह्वरानान माहिविषमंडपनाषधिपति कोडवियकुटुंबनामायक, मन्त्रीसामान्यमंडिता महामन्त्रीमोठामन्त्रीखर गथकज्योतिषीषधवाभंठारी  
देवारियकइतापचथियात्रिवारइदिगयात्राकरइतिवारइरपवालो पगईठविंसदारइइ पीठमदंष्टूकवारइइमिवसमान नगरनिवासीलोक निगम  
कारणिकवाणिया ये इववरइसन्नकोसच्चित चतुरगसैन्यकटककदनसनायक सार्थवाहताइलोवतिचलावइ द्रुतमंकादिउजाराइषावइ सधपासकटक



प्राविभोभयपुप समवा वा सर्वपापीभयप्रविष्टारवती न्या एषा यस्या सोभययय । न विरममयमनं न करीत्यधित्यं करोतीति हंगंनघाट  
 धमदिर वन् नुपघातं तदुदे य न व सुदंठ । तथाचि भीडे वसुदंठा वाच्यित्तव्यानसां गंयंयपचोवकारी भवति हलेष सिपापीति यंयंयघाट  
 स.गं यद्वान्येनादिनं सोपुगं नुपघाटि नार्गयय । तथाचि भीडे वसुदंठाटम'सां गंयं' नं य लन्य चौरादिदिसुसं धनादिकवदं न्मालं पापयन  
 परमोयनो भवतीत्ये न सिदापीति यंयंयघाट गदयनो निवपयदव्यानदाशको नियोगयेनरित्ययं । तथाचि भीडे वन्मार्गंमदटाकार, गानां  
 योयनं दगाणे न सिदापीति यंयंयघाट ओषन श्रीरोभायवाधाराय समरवधैयमियुंनंतादयन इति त्रीपदो भौरीष या दगा यस्य न श्रीव-  
 दद । तथा भीय इर समलवधयकागकताय भोगे वा समरसागरासां गंय' गंय' ट यकन्तीनाभियातद् व्यित्तव्याप्यामयेनगता ।  
 तथा वाचनमर्नै'नियनं तदेतगगताय । तथा गदय संपंमव्यान् तदेतगगताय । तथा गदति गम्यते इमिगम्यते इलिते यन्मिभयं

ज्ञेयेतापं परवगदंपरुका यम्मारपातरंतवसुदंठी अप्यडिहयवटनाग दंसगयरे नियट्टच्छत्रसे ज्ञेये जाणए तिरा  
 पुरमादिउ गीवरायचममयरीधि वान्दीरुनकिरनिसपाभोवासभोगनभीपट पुरवमाधिररतपयनग'पदोयमास मगभनलेवीनरवभातीषां  
 मयट'इर संपंनेतववगरनै'दधयदानाकातार व्यामीप्राजटपकोचननादातार भूजातीगनरव्याभोमीचमार्गंनानार कर्मग'पीताठानोरभर  
 मरनवादानार यंनारमयुट्टिरिदरीवगरोपायापकानिगारकर्मवमरुपत्रोयत संपदानादातार गतिपुगानिमाथीकीगनर पागगायवीगुमसकय  
 नमभीरमायापारभूतमकारनितिनचपतकारक यंयंनि'विचरीचकवसिंवारोपादिभुवनकचरा'यपानर यथनिसवपमगनितिएवगारपयानपानर

वनयन एव वलित्वेन वनयन



सुखार्थं । पश्यति प्रतिष्ठन्तास्यामिति प्रतिष्ठा । आधारः संसारगते प्रपततः प्राणिवर्गस्येति तथा त्रयस्यमुद्राद्यतुर्थो हिमवानेति चत्वारः पृथिव्या अन्तार्थेन्तासु स्वामितया भवतीति चातुरन्तः स चासौ चक्रवर्त्ती च चातुरन्त चक्रवर्त्ती वरयासौ चातुरन्तचक्रवर्त्ती च वरचातुरन्तचक्रवर्त्ती सर्वराजातिशायी धर्मविषये वरचातुरन्तचक्रवर्त्ती धर्मवरचातुरन्तचक्रवर्त्ती सकलधर्मप्रणुणां मध्ये सतिगयत्वादिति । तथा अप्रतिहते कटादिभिरस्खलिते ऽविसंवादके वातएव वाधिकत्वाद्वा वरे प्रधाने ज्ञानदर्शने अप्रतिहतवरज्ञानदर्शनवरः कथमस्येते इत्यत आह यतो व्याहृत्तच्छा निवृत्ताज्ञानाद्यावरणी निर्मायो वा । एतच्च रागादिजयात्तस्येत्याह जिने रागादिजय रागादिस्वरूपादि ज्ञानादित्यत आह जाणएत्ति ज्ञायको ज्ञाता रागादिभावसम्बन्धिनां स्वरूपकारणफलानामिति । अतएव तिष्ठेत्ति तीर्णद्रव तीर्णः संसारसागरमिति गम्यते । अतएव तारकः संसारसागरादुपटेगवर्त्तिनां भगवानिति । तथा सुक्तो ब्राह्माम्यन्तरग्रन्यात् कर्मबन्धनादा । अतएव मोचकोऽन्वे पासुपदेगवर्त्तिना । तथा बुद्धेति बुद्धवान् बोधव्यम् अतएव बोधकोऽन्वे पासुपदेगवर्त्तिना । अथ सिद्धायस्यामाञ्चित्योक्तानि । अथ सिद्धायस्यामाञ्चित्योच्यते सज्जन्तु सव्वदरसीत्ति इह ज्ञानं विगेषायबोधः दर्शनं च सामान्यावबोधः सिद्धान्तस्यावां पुरुषस्य कैयित् ज्ञानं नाभ्युपगम्यते प्रकृतिनिकारस्य च देव भावादित्ये तन्मतव्यपोहार्थमिदं । तथा श्रियं सर्वोपद्रवरहितत्वा दचलं स्वाभाविकं प्रायोगिकचलनरहितत्वात् । अगजं रोगभावात् । अनन्तमनन्तार्थ-विषयज्ञानस्वरूपत्वात् । अचयमनार्थसाद्यपर्यवसितत्वात् अक्षयं वा परिपूर्णत्वात् । अथावाध मपीडाकारित्वात् । अपुनरादत्तं पुनर्भवाभावात् । सिद्धि-

तारए मुत्ते मोहए बुद्धे बोहए सव्वणु सव्वदरिसी सिव मयल मरु अ संगंत मयल्लय मञ्जानाह मपुणरावत्तअं सिद्धिगइ

नतिरिति नामधेयं प्रयुक्तं नाम यस्य तच्छिद्यतिनामधेयं । शिष्टतागच्छिति कानं चीपकर्मणो जीवस्य स्वरूप्य लोकाय वा जीवस्वरूपविशेषणानि  
 तु लोकापे उपधारदश्वेयानेति । सपाविषकामरुति सप्राप्तुकामशुभ्राप्राप्तइत्यर्थं । जिणे जाणए इत्यादि विशेषणानि क्कविच ह्यथे । पुनरिमानि  
 परिहसति चरंन् अयोकादिमहापूर्णाहंत्वान् अविद्यमानं वा एह एकांतं प्रच्छन्नं सर्वप्रत्यात् यस्य सोररुहा । जिनः प्राम्भव । केवसानि संपूर्णानि शुभानि  
 पनत्तानि प्राणादीनि यस्य सन्ति स केवसो पतएय सव्वदरिसी । सत्तहल्लुक्खेहिं सत्तहल्लप्रमाणं । समपवरस्सुसंहाणसद्धिए सम तुण्य अथ कावोपरिकाययो  
 संचपोपेतेततया तच्च तच्चतुरस्समिव चतुरलं च प्रधानं सचपोपेतेतयेव समपतुरस्स तच्च तत्स्थान वाकार एते न सखितो य सतया । वज्जुत्तपभनाराच

यासधेयं ठाण संपाविच्चकामे अरहा जिणे केवलौ सत्तहल्लुक्खेहिं समचत्तरस्सुसंहाणसंठ्ठिए वज्जरिसह्नाराएसंघयिणे

दर्शनतेहनाधरणहार केवसप्राप्तपनइकेवसदर्मेन क्कप्रस्सपथायकौनिहल्ल्यादीतरागवयानिर्माययया रागदेयनाजीवणहार पनेरानइरागहेपकीयिवाइ पापण  
 पइसंवारससुत्तारइ पनेरानइसंवारससुत्तारइ आपणसमंथीसू काथा पनेरानइ कर्मयकीसूं कावर आपणपैतत्वनालाण पनेरानइतच्छमार्गबूक्कवर  
 सर्वपदायंसंकासतेहनाजाण सर्ववस्तुनादेयणहार मिवनिरुपट्टय अथत्तवामयकोन चत्तइ अथज्जिहारीगनही पनतलेह्नचपंतनयी अथयजेहगुणय  
 गयो पत्थावाएत्तिहापावाधानवी अणुपरावत्तयंक्कत्तामिहायकीचत्तुपागमननयी सिह्णगतिएहवत्तजेह्नचननामधेयक्कइ एहविठामिपहुविधानी  
 कामनावाञ्छनाक्कइ एतत्तिंभगवत्तमोचपहुविचितेवाञ्छनाज्जकीक्कइ कर्मरूपवैरीइत्था रागदेयनाजीवणहार केवसप्राप्तनाधरणहार सातथायवच्छित्त  
 जंणुपरीएक्कइजेहभगवंतनठ समठपतुरस्सविट्ठु दिविचिणु पासाक्कइसंस्थानक्कइजेहगु गरीर वज्जयोत्तपभजपरिपाटवनारायणिए

संहनन इति प्रथमसंहननः । अणुलोमवाचवेगे अणुलोमो ऽणुक्लो वायुवेगः शरीरान्तर्लक्षित्वायवो यस्य स तथा । कञ्चुग्रहणी कङ्कः पच्चिविशेषः तस्यैव ग्रहणी गुदाशयो यस्य नीरोगवर्चस्तथा स तथा । कवीयपरिणामे कपीतस्यैव पच्चिविशेषस्यैव परिणाम आहारपाको यस्य स तथा । कपीतस्य हि पाषाणत्वानपि जठरान्निर्जरयतीति केवलश्रुतिः । स उष्णपोस पिष्टं तरीरुपरिणए शकुनेरिव पच्चिणइव पोसन्ति अपानदेशः पुरीषो-  
त्सर्गनिर्लेपतया यस्य स तथा । पृष्ठञ्च प्रगीत मन्तरे च पृष्ठोदरयोरन्तराले पाखावित्यर्थः उरु च जंघे इति हन्धस्तत एते परिणता विशिष्टपरिणामवन्तः सुजाता यस्य स तथा । पचमुष्णलंगंसरिसनिस्त्राससुरभिवयणे पन्नं कमलं उत्पलञ्च नीलोत्पल मयवा पन्नं पञ्चकाभिधानं गंधद्रव्यं सुत्पलञ्चोत्पलकुण्ड-  
तयोगन्धेन सौरभ्येण सहगः समो यो निःश्वासः श्वासवायु स्लेम सुरभि सुगन्धि वदनं सुखं यस्य स तथा । छत्रौति छविमान् उदात्तवर्णः सुकुमार-  
त्वचा युक्त इत्यर्थः । निरायंकश्रीत्तमपसत्यग्रइसेयनिरुवमपत्ते निरातङ्कं नीरोग सुत्तमं प्रगस्तमतिखेतं निरुपमं च पलं मासं पाठान्तरेण तलं रूपं यस्य

अणुलोमवाचवेगे कंकगहणी कवीयपरिणामे सद्यिपोस पिष्टं तरीरुपरिणए पचमुष्णलंगंसरिसनिस्त्राससुरभिवयणे  
छवीस निरायंकश्रीत्तमपसत्यग्रइसेयनिरुवमपले जल्ल सल्ल कलंकसेययदोमवज्जियसरीरे निरुवलेवे छाया

पासांमकटबंधवचसंधयणछइ अणुलोमअणुक्लसुखकारिचवायुवेगशरोरमांहिलउयायुवेगछइजेहनउ कंकपंषिठतेरुरीषठवाजाइवानउठांसग्रहण  
नीरोगछइजेहनउ कपीतपारेवानीपरिआहारपचइतेपंषियाकाकरीपाइतेहइपुणजइ शकुनपंपियानीपरिआपानदेशपरडाइनहींधिलजातांलेपन  
लागइ पिष्टउसुच्छितेहनउअंतरविह्वपासांउरुपाथत्तएजेहनीपरिणितछइरूडिपरिणस्याछइजेहना पञ्जराताकमल उत्पलनीलांकमल अयवा पन्न

स तथा पाठान्तरपक्षे षतिष्ठेय इति षतिष्ठेय प्रत्यन्तप्रत्यय ! जसमसकर्मक्षेयदोसवस्त्रियसदोरनिबन्धने याति च ॥ अगति चेति यत्र स्वल्प-  
 प्रत्ययप्रत्यये उवाचो मक्षयेति यत्रमक्ष' स' च कक्ष' च दुष्टतिलकादिक खेदय प्रक्षेदो रजय रेणु स्त्रेयां यो दीपो सात्तित्यकरणं तेन षञ्जित गरीरं  
 यस्य स तथा स वामावतएव निरूपयेति कर्मधारय' । क्रियाचोञ्जोद्भवगमनी छायाया दीप्तया उद्योतित प्रकाशित षञ्जमक्ष' यस्य । षणनिविद्य  
 सुबलकखलुष्यकूडागारनिमपिठियगसिरए घननिचित मध्यर्धनिविड घनवहाययो घनवत् निविड सुवत् सुष्टुस्त्रायुवद लघुणोद्वतं प्रयस्तलघुष  
 कूटस्य पर्यतमिखरस्य आकारेण सत्वानेन निभ सहय यस्तत्तथा पिठिकेव पायाणपिठिकेवाय सुथीयलघुषणं यस्य तत्तथा तदेवविधं यिरो यस्य स घन  
 निविड्यादिविशेषयतिरस्य । सामखिबोडघचनिविद्यफोडियमिठविषयपस्यसुष्टुमखलुषणसुगथसु दरसुप्रसोषगभिगनीचकखलपठिष्टमभरगएणिवनिफु

ओञ्जोद्भयंगमंगे षणनिचियसुवहलकखणुष्यकूडागारनिमपिठियगसिरए सामखिबोडघचनिचिय फोडियमित

नामार्धद्रव्यते हवरीपठनिम्बाससुखनउएववसुगंधवदनसुयच्छइजेइनु खवोसठत्तमवर्षंयत् निरातकरोगरहित सप्तमकहताउत्कृष्टप्रयस्तकृष्ट  
 पनइमेष अतिष्ठेत्तद्रूपधरियउधउखउनिरपमउपमारहितपुखक०मांसकइजेइनउ जसतेजेयोडइप्रयासइजतरइ ससतेजेदोहिनु जतरइ कखकदुष्ट  
 तिन्नादिकपरमेवठं रजरेणु तथादोपबोरीप्रसुपते णइवर्जितरहितछइगरीरजेइनउ निरूपलेपकर्मरूपिपोलेपकसठनसागइ छायाकर्मितियइउलूपाव्यउ  
 चंगोपांमक्षइजेइनउ षणनिविडलोहमयघननीपरिसुबलकखणोपेत्तमयस्तलघुषयोश्चूडागारकूटपर्यतनइआकारइनितसरीपु पिठियपायाणपिठोनी  
 परिसस्तकनउपयच्छइजेइनउएइवठसिरमस्तक , सामखीठघनवदे। उकहताफलघचनिविद्यफोडियफाटावते इनीपरिसुष्टुचंहाशा विसद

वर्णनं च यं वाच्यं तत्र विवर्तते

रं वनिचियकुं चियपयाद्विणावत्तमुहसिरए शास्मली वृक्षविशेषः तस्य यक्षोडं फलं घननिचितमतीवनिविडं स्फोडियंति स्फोटितं स्फोटितं तद्वन् सृष्टवः  
सकुमाराय विशदाय व्यक्ताः प्रशक्ताय शुभाः सुस्माय क्षणाः लक्षणाय लाक्षण्याः सुगन्धयय सुरभयः सुन्दराय योभनाः भुजमीचकवद्रत्नविशेष इव  
भृङ्गवत् कौटविशेषवदङ्गारविशेषवद्वा नीलवन्नीलीविकारवत् अथवा भृङ्गनीलवत् कज्जलवन्मषीव प्रहृष्टभ्रमरगणवच्च निरुजद्विरेफेष्टुन्दमित्य  
स्त्रिभूः कृष्णच्छायी निकुरम्बः समृद्धो येषां ते तथा ते च निचिताय निविडाः कुञ्चिताय कुण्डलीभूताः प्रदक्षिणायवर्त्तीय प्रतीताः सूर्द्धनि मस्तने  
शिरीजांवाला यस्य स तथा । अधिकतवाचनायाः भुजमीचकशब्दा दारभ्य चेदमधोयते न सामलीत्यादीति । दालिमपुष्पकासतवण्जसरिसनिम्बलसुवि  
केसंतकेसभूमी दाडिमपुष्पप्रकाशा च रक्तेत्यर्थं सपनीयसहस्री च रक्तसवर्णसमवर्णेत्यर्थः निर्मला च सुस्निग्धा च प्रतीता केशान्ते वालसमोपे केशभृङ्गः

त्रिसयपसत्यसुऊमंलकवणसुगंधसुंदरभुञ्जमोअगभिंगनीलकज्जलपहिडुभसरगणिद्विनिकुरं वनिचियकुं चियपयाद्विणा  
वत्तमुहसिरए दालिमपुष्पकासतवण्जसरिसनिम्बलसुण्डिकेसंतकेसभूमी घण० छत्तागरत्तमंगदेसे शिव्व ५

व्यक्तप्रगटप्रसस्तरूडांसुस्त्रपातकालक्षण लक्षणोपेतसुगंधमलागंधवतसुंदरमनीहरभुञ्जा मोचक रत्नजातिविशेष भृङ्गकजीवविशेषनीलगुलीजातिजा  
जलमिसिजाति पक्ष्मदोन्मत्त एहवल्भ्रमरगणसमूह तेहसरीपाकालानिद्विषीगटा द्विनिकुरं वसमहनिचयनिविडं कुंचियकुं डलीभूत तथाप्रदक्षिणा  
वत्तसृष्टिमागंइफिरताएहवामूर्द्धमस्तकनइविपइयिरजकेगच्छइजेहना दाडिमनाफूलसरीपीरक्तरातीतपनीयतपाव्युलं सुवर्णं तेहनीपरइरक्तराती एचरो  
निर्मलनिषचोगटी केशनइअतिकेशभृमि केशजपजिवानामस्तकत्वचा मस्तकनीचामड्डीछइजेहनी! छत्तनइआकारइउत्तमंगदेशमस्तकछइजेहनइ

केशीत्पतिस्थानमूला मन्दाकलक् यस्य स तथा । घणनिधिवेत्यादि प्राख्यत् । छद्माकारोत्तमाद्गदेय उक्तत्वसाधय्यात् । पुषिव्यस्यसमृद्धमहदंशसमण्डोत्तरे  
निर्गण विस्फोटकाविकृतचतरहित समभिव्यममतएव सट मनोस्र सट यदं चन्द्रासुसम ग्रयधरशकलसद्वय सखाट मलिक यस्य स तथा । उपुरद्र  
पडिपुण्यसोमवयने इह प्राकृतत्वात् प्रतिपूर्णादुपतिबोम्यवदनमिति इत्यति उदुपतियद्द्र । पूषणीपपमाणपुत्तसवणे फालीनी न तु टयरो प्रमाणयुक्तो  
स्वप्रमाणोपेतो यवणो कर्षो यस्य स तथा । अतएव सुयवण ग्रीभनयोक् ग्रीभनयवणव्यापारो वा । पूषमसस्तकबोहदेसभाए पीनावलक्ष्यो यतो मांगको  
समांसो कपोली गण्डो तयो स्थापिव वा सुखस्य देगरूपो मागो यस्य स तथा । पाणामियथावदलक्षिकपद्मभराद्गणकसिण्णिममुष्टे सागामित मोप  
वासितं यथापं भृशुकाहृद्विरे मनोस्रे क्ख्याभ्रराक्रीवकाचिवे भिघरेखेव तत्रके छणे काले किन्तं च सच्छाये भ्रुवो नेत्रावयवविशेषो यस्य स तथा

समलङ्क मङ्क चंदद्वमसिण्डाले उदुवदूपडिपुखसोमवयणे यज्ञौखपमाणजुप्तसभये सुखयणे पौषमसलकवोजदेस

भाए श्राणामियचावरुल्लिकपद्मभराद्गणकसिण्णिममुष्टे अघदाखियपुं हरी भ्रणयणे कोशामिश्रधवलपत्तलच्छे  
निर्गण्यस्य दव वाठठ तैयदरहितनिदीय समसमलविपमपणारहितसदृमनोमृद्धमठाखठदीपतवदप्रमानाप्रस्रिरीपुं निखाहृद्विरेनठ उदुपति  
चंद्रमाप्रतिपूर्वं पूरतते हसरोयठबोम्यकारीत्तवदनसुखहृद्विरेनठ प्रलौण्यस्रतापतिसुदरपरटापरानघोएइवाप्रमाणयुक्तप्रमाणोपेतएइवाकूहायवण्यकान  
छद्विरेणना इणिकारणिसुयवणमनोहरच्छिकान पीमप्रतियुत्तसंस्रमांसदकरोमव्याएइवाकपोहदेसभागस्रस्रस्रजेइना ; पाणामियस्रतायोड  
उस्यउ मनादुरबापधदुपतेइसरीयोइधिरमनोहर क्ख्याकाशद्वर्विं चभ्रुवाकागमोराइसरीपीतनुसूखल्लण्यकालीनिघचीगटीएइवोमसुखद्वरेइनी अय

॥ ३ ॥

वाचनान्तरे तु दृश्यते, आणामियं चावरुद्रस्तु किण्वहभरा इत्संठियसंगय आययसुजायभमए आनामितचापवद्रुचिरे कृष्णाभ्रराजीवच्च संस्थिते तत् संस्थान-  
वत्यौ सङ्गते उचिचि आयते दीर्घे सृजति सृनिष्यन्ने भ्रुवौ यस्य स तथा । अवदालियपुं डरीयणयणे भ्रविदालितं रविकारे र्विकासितं यत्पूण्डरीकं सित-  
पद्मं तद्वन्नयने यस्य स तथा । अतएव कोआसिय धवलपत्तलच्छे कोकासियति पद्मयद्विकमिति धयले च द्वाचिद्देये पत्रले च पद्मवत्यौ भ्रविणी लोचने यस्य  
स तथा । गरुलायतञ्जुतुं गणासे गरुडस्थे वायता दोर्घा षड्ज्वी भ्रयका तुहा उन्नता नामा नासिका यस्य ए तथा । उभयवियसिलम्पमालविं वफलसणिभा-  
हरोद्वे उभ्रचियति परिकर्मात्तं यच्छिलारूपं प्रवालं विद्रुम मिल्यर्थो त्रिन्वफलं गोरुहाफलं तयोः सन्निभः सहगो रक्तया उन्नतमध्यतया च भ्रधरोद्वे  
अधस्तनदत्तच्छदौ यस्य स तथा । पंडुरससिसअलत्रिमल्लणिसालसंखगोक्खीरफेणकुददगरयसुणालियाधवलदंतसेठी पाणुर नकलङ्कं यच्छगिगकलं चन्द्र-  
खण्डं विमलानां मध्ये निर्मल्ययः ग्रहः गोचौरफेने च प्रतीते कुन्दं पुष्पविगेपः उदकरजय तीयकणा सृणानिका च विगिनो तद्वहवला दन्तयेणि

गरुलायतञ्जुतुं गणासे उअचिअसिलम्पवालविं वफलसखिभाहरोद्वे पंडुरससिसअलत्रिमल्लणिसालसंखगोक्खीर  
फेणकुददगरयसुणालियाधवलदंतसेठी अखंडदंते अप्फुडिअदंते अथिरलदंते सुणहदंते सुजायदंते एगदंतसेठी

दालियकहता विकसरपुं डरीककमलनइसरोपाच्छइलीचनभिइनेत्रजेइना कोआयिभ्रकमल्लनोपरिंपिकमितएस्रंभ्रवलञ्जलपत्रपञ्चयंतभापणिसहित  
अचिच्छइजेइनी गरुडनीपरिंपायतलांबी उज्ज्व कहतां सरसतुं गउंचीनासिकाच्छइजेइनी उअचियकहतां प्रीप्यठमिलम्पमालं परयान्तउ भिं वफलगोचहातेह  
सरीयाभ्रोध्रधरोठनीचिल्लउडोठइजेइनउ पंडुरजजलाकिइनीपरिंपिगिगिंध्रमानासकलखुं उतेइसरीयाभ्रिमल्लनिर्मलविमल्लमां हि विगेपइकरीनिर्मल

यस्य स तथा । प्रखण्डदन्ते सकलरदन । अणुद्विदते पञ्जोरदन्त । अनिरलदते घनरदन । सुषिद्धदन्ते व्यक्त । सुजागदन्ते सव्यष्टिप्यसदत । एगदतसेठी  
विवरणेगदन्ते एकस्य दन्तस्य त्रैविण्यं पत्निर्यस्य स तथा स इव परस्परानुपलस्यमायदन्तविभागत्वात् अनेके दन्ता यस्य स तथा । हुयवद्विषिर्घृतधोयतसत  
वणिज्जरंजतसतालुजीहे इतवदनेन अग्निना निर्दंष्टन्त दग्धमल धीतं जलप्रसाकितं तप्त सन्ताप यत्सपनीयं सुयणं तद्दृक्कतक लोचितरूपं तालु च  
फालुद जिह्वा च रसना यस्य स तथा । अत्रद्विद्वसुविभक्तचित्तमसु अयस्मितानि सुविभक्तानि चित्ताख्यतिरस्यतया अद्भुतानि  
अन्येषु ब्रह्मकेया यस्य स तथा । संसलसद्वियपस्यसंघे लविवल्लहणए मांसक सपचित्मांस संस्थितो विप्रिष्टसखान प्रयस्य सुम मार्टुसस्ये व विपुलो

विवरणेगदन्ते हुयवद्विषिर्घृतधोयतसतालुजीहे अत्रद्विद्वसुविभक्तचित्तमंसु संसलसद्वियपसत्य

जेहववकजस्रसखजेसु गीलीरगाइतु दूध जेहउपेणलसससतयावखोकुदहचतु फूमदगरयपापीनाकणसुषाक्षियाकमलनीनातातु पाधत्रलकमलनीतेह  
सरीपोधवस्रीदतयेणकुरलेहनी) अखंडनयोखंडाषानधीपडमादतजेहना अणुद्वियमधीफाटितिरइमादंतदागजिह्वनाएतलहरदातजोकरानधी अविरस  
नधीविरत्ताअमिसतांदतदांतदद्विह्वना सुनिहपतिययस्युं निहधीगटाकइदतदांतजेहना सुजातअतिभलानीपनाकइदतदांतजेहना एकदांतनीये ण  
पातिहइते हनीपरि अनेकषणासख्याएवधीसखइदतदांतजेहना हुतवइअस्थितेणइकरीधव्यवर्तुतदभतरयखीधीवचयकीतसतपाव्यठ तवणिज्जतापनीय  
रातउ सुवर्धतेहसरीयठ जेहनु जीमगु तसु सपरितुतासु सअनइजीमकइजेहनी) अत्रद्विषबाधतावधीएहवासुविभक्तकुराविभायसयुक्तसुन्दराकार वली  
चित्तरनधीएहवीमयूकइतांअयूदाढीसू खनायेप्रकइलेहनामससमांसइकरीठपचित्तिमखउसठियकइइसखानइसचितप्रयस्यकइउथाईल्लविघनासरीयठ



विस्तीर्णो हनुचिबुकं यस्य स तथा । चतुरंगुलसुष्यमाणकंबूवरसरिसलीवे चतुरंगुललक्षणं सुष्ठु प्रमाणं यस्याः सा तथा विधा कम्बुवरसहशी चोन्नततया  
 वलितययोगाच्च प्रधानशङ्खसहशी श्रीवा कण्ठी यस्य स तथा । वरमहिसयराहसीहसदूत्तसभनागवरपडिपुण्यविलकब्धे वरमधिपः प्रधानसेरीभेयः  
 यराहः शूकरः सिंहः कैयरी शार्दूलो व्याघ्रः ऋषभो हृषभो नागवरः प्रधानगजः एषामिव प्रतिपुर्णः स्वप्रमाणेनाहोनो विपुलो विस्तीर्णः स्वन्वः शंगडेगो  
 यस्य स तथा । जुगसन्निभपीणरद्रयपीवरपठसंहियसुसिलिहविसिष्टघणथिरसुवज्जसंधिपुरवरफलिहवद्वियभूए युगसन्निभो हृत्तत्वायतत्वाभ्यां नूपतुत्यो  
 पौनाद्युपधितौ रतिदौ पश्यतां सुखकरो पीषरप्रकोष्ठाथक्काचिकौ संस्थितौ विग्रिष्टसंस्थानौ सुस्निष्टाः सप्रता विग्रिष्टाः प्रधानाः घना निविडाः खिराः  
 नातिशयाः सुवहाः स्नायुभिः सन्धयः सन्यानानि ययो ज्यौ तथा पुरवरपरिघवन्नगरांगलायहृत्तितौ च बाह्य यस्य स तथा वाचनान्तरेपुरवरफलिहवद्वि ।

सदू लविललहणू चतुरंगुलसुष्यमाणकंबूवरसरिसगौवे वरमहिसवराहसीहसदू लउसभनागवरपडिपुण्यविलकब्धं धे  
 जुगसन्निभपीणरद्रयपीवरपठसंहियसुसिलिहविसिष्टघणथिरसुवज्जसंधिपुरवरफलिहवद्वियभूए भूअईसरविउ ल

विपुलपिहुत्तजाडउहनूयठउं छइजेहनउ चारिअंगुलप्रमाणभलइप्रमाणरकंबुशंखयरप्रधानउत्तमतेहसरीपीथीयागावडिकोटिछइजेहनो वरप्रधान  
 महिपपाडउ वराहस्रअरअनइसीहकेसरीसिष्टशाईलव्याप्रउसभठसभनागवरप्रधानहृत्तीहनीपरिंप्रतिपूर्णं प्रमाणोपेतविपुलविस्तीर्णं पिहुत्तउखंधअंगरेग  
 छइजेहनउ जुगसन्निभजूसरसीपापीणपुष्टजाडा रद्रयनेदेयइतीहनइरतिनादातार तथापीथरपुष्टसमांसत्तपउट्टहायनीकलाचिकाकलाईजेहनोसंठिय  
 रुडइसंस्थानसुसिलिहभलामिलिताएहयाविग्रिष्टप्रधुं तघनटठथिरअडोलएहवीसुवहसंधिछइजेहनो तथापुरवर नगरनीफलिहाअथलाभोगलतेहनीपरिंप्र

इत्येतावदेव भुजविशेषं दृश्यते भूपरिसरविषयमोपादानफलिहसच्छूठदौहवाह भुगतीश्वरो नागराजप्रस्य वो विपुलो महान् भोगो देव स तथा  
सचासौ पादानांमौषितायंप्रस्रयाय पञ्चिषोक्कसि पर्यवसितय प्रवारित इति समास पाठाक्षरे पायाणफलिहसोक्क दूत्ति पादौयते मन्नादित्यादान  
मगसाखानं तस्मादुच्छूठोत्ति नि काश्रित फलिहोत्ति पर्यंजादसः स इव ताविव वा दौघो वाह यस्य स तथा वाचनान्तरे युगसत्रिमवीनरति  
दपीवरप्रकोठयासौ सन्धितोपचितवमस्त्रिसुसंबसुनिगदूपल्वसन्धियेति कायंधारयपदमिति । रत्तनलोवइयमठमंसलसुजायसकथणपसत्यपलिहजास  
पाथी रत्तनसौ लोहितामोभागो उपचिता वृत्रतो सुदुको कोमलो मांसलो सुनिष्पवो प्रयस्य सचथो शुभपिङ्को अखिद्रो जालो दिवचितारा व्या-  
त्तरासमहरहितो पाथी चम्यो यस्य स तथा । पीवरकोमलवरगुलो व्यक्त नवर पीवरा महत्या कचिन्नु हयते पीवरवद्वियसुजायकोमलवरंगुली व्यक्त

भोगआदानफलिहसच्छूठदौहवाह रत्तनलोवइयमठमंसलसुजायलवखणपसत्ययत्यिहजालपाथी पीवरकोमल  
वरंगुली आयवतंबतलिणसूइलखिद्वयन्वे चंदपाणिलेहे सुरपाणिलेहे सखपाणिलेहे चक्रपाणिलेहे दिवासेतियय

वाटुलाभुजहायच्छइलेहना भूपरिसरकहताश्रीपनागतेहनचविपुलविस्तीर्यं मोठठ भोगप्ररोरतेआदानफलिहसच्छूठपसायठ सबकोध  
तेहनीपरि दीर्घनावीकाइच्छइलेहनी रत्तरातांश्रुतकहायनातसा उपचितसयतज वा सुदुपल्वतकोमसमसंलमासप्रथय तपुष्टभया सुजातरुठानोपना  
सकथणपसत्य मद्यतांभस्रुलचणरकरोसहितपखिद्रजावचांगुलीमइविवासइच्छिद्रभतरानधीएइवापाणिहायछइलेहना पीवरलाही कोमलसकोमलवर  
प्रधानअगुलीच्छइलेहनी पायवत्रांवासरीया योडठ आरत्तरातातखिणकहतांपातला सुइपवित्रसविरमनोहरनिहवीगटामखच्छइलेहना चद्रमानइयाकारि

प्रायवतं वतल्लिणसुद्धरुद्रल्लिणकखे प्रायवतं वंत्ति ताम्भवत् आताम्ना ईषल्लोहितः तलिनाः प्रतलाः शुचयः पवित्राः रुचिराः दीप्ताः सिग्धा अरुचा नखाः  
 कारुणा यस्य स तथा । चंद्रपाणिलेहे चन्द्राकाराः पाणौ रेखा यस्य स तथा । एवमन्यान्वपि त्रीणि । दिशासोत्थिअपाणिलेहे दिक्खस्त्रिकः दन्धिणावर्त्त  
 स्वस्त्रिकः एतदेवानन्तरोक्तं विग्रिणपणपञ्चकं तत्प्रयस्तताप्रकर्षप्रतिपादनाय संयहपचनेनाह चन्द्रसूर्यशुक्लदिक्खस्त्रिकपाणिलेखः अतएव वाच-  
 नान्तरे ऽधीयते रविमसिसंखचक्क संत्थिरिअत्तपुविरइयपाणिलेहे व्यक्तं नवरं विभक्ता विभागवत्यः सुविरचिताः सुष्ठुछताः स्वकीयकर्मणा अणेगवर-  
 लक्खणुत्तमपसत्यसुद्धरइयपाणिलेहे अनेकैर्वरलचणैरत्तमाः प्रशस्ताः शुचयो रतिदाद्य रम्याः पाणिलेखा यस्य स तथा । अथ प्रकृतवाचनानुश्रियते कणग  
 सिन्नायलुज्जलपसत्यसमतलउवचियविच्छिन्नपिहुलवच्छिन्न कनकशिलातलवदुज्जलञ्च शुभं समतलञ्चविषमरूपमुपचितञ्च मांसलंवीस्तीर्णं पृथुलञ्चाति-

पाणिलेहे चंद्रसूरसंखचक्कदिशासोत्थिअपाणिलेहे काणगसिलातलज्जलपसत्यसमतलउवचिय विच्छिणपिहुल  
 वच्छिन्न सिरिवच्छे कियवच्छे अकरंडुअकणगरुइयनिम्मलसुजायनिरुवहयदेहधारी अडुसहस्सुपडिपुण्य वरपुरिस

चंद्रसरीषीपाणिहाथनइविपइरेषालोकछइजेहनइ सूर्यनइआकारिसूर्यसरीषीपाणिहाथनइविपइरेषालोकछइजेहनइ शंखनइआकारिंपाणिहाथ  
 नइविपइरेषालोकछइजेहनइ चक्रनइआकारिंपाणिहाथनइविपइरेषालोकछइजेहनइ दिशासोत्थियदन्धिणावर्त्तसाधिआनइआकारिंपाणिहाथनइ  
 विपइरेषालोकछइजेहनइ चंद्रमासूर्यशंखचक्रदन्धिणावर्त्तसाधिओ इणिआकारिंपाणिहाथनइविषइरेषालोकछइजेहनइ कनकसुवर्णतेहनउग्रिला  
 तलग्रिलापट्टतेहनीपरिउज्जलजलनुं प्रशस्तअत्तिसुंदरसमतलअविषमसमतलउपचितमांसइभक्षाउपिहुलविच्छिन्नविस्तारपामतउपिहुलपिहुलउवचस्यलहइय

विमालसुवचरो यस्य स तथा । सिरिच्छ कियवच्छे व्यक्तं वाचनात्तरे तु वचोविशेषाभिर्बह्व्यन्ते उवषियपुरवरकपाठविच्छिन्नपिडुस्रवच्छे उपचित-  
 पुरवरकपाठवहिस्रीर्षं प्रयुक्तं वातिप्रयु वचो यस्य स तथा कथयसिद्धायणुज्जलपसलसमतलसिरिवच्छरद्वयवच्छे पूर्ववत्प्रवर श्रीबले रतिद रम्यमिति  
 विशेष । अकरदुषकणगवद्वयनिकलसुजायनिबहव्यदेशारी अकरदुषकस मांसलतया ऽनुपलक्ष्यमाण प्रष्टव्यग्रास्थिका कनकस्यैव ब्रह्मको ब्रह्मियस्य स  
 तथा तच्च निर्गलसु सुजातसु निरुपहतसु रोगपहतविर्जितं देहं धारयतीत्येव गीलो य स तथा । अष्टसहस्रपण्डिपुण्यवरपुरिसककषणघारेति काविष्टग्रन्ते  
 अष्टसहस्र पण्डितरसहस्र प्रतिपूर्णं मन्वानं सरपुरुषलक्षणानां धारयति यः स तथा । सख्यपात्रे अघोध. पाण्डुरोरवनतत्वात् । सगयपात्रे देहप्रमाणो  
 वित्तपान्नं । एतएव सुन्दरपात्रे व्यक्तं । सुजायपात्रे सुनिष्कण्ठपात्रं । मियमाद्वप्रपौणरद्वयपात्रे मितमात्रिकावलयं परिमाणवन्तो पीनावुपवित्तो

लकल्लगघरे सख्यपात्रे संगयपात्रे सुन्दरपात्रे सुजायपात्रे मियमाद्वप्रपौणरद्वयपात्रे अज्जुषसमसेहियजस्रतणुक्कसिण

अकरदुषकसमांसलपण्डनयोदीसताष्टिकारंठकलेहना कनकस्रवणं सरिपीबधिर  
 खलेहने श्रीवच्छरकरीअज्ञितविष्ठसहितखरुवच्छित्तलेहनाठ अकरदुषकसमांसलपण्डनयोदीसताष्टिकारंठकलेहना कनकस्रवणं सरिपीबधिर  
 मनोहरनिर्मलस्ररहितसुजातरुडद्वनिर्मापठ अथवाअकरदुषकस्रवणं सरिपीबधिर निरुपहतारागादिकदोषरहितएहवादेश्यरी एनाघरणघार  
 छद अष्टसहस्रएकसहस्रपनदष्टाठपरिपूर्णं पूराज शान्तोवरपुरुपतीर्थं करधं वधीवचणसाथीठवक्रादिकतेहनाघरणघार सन्नतजतरतरापासांछरलेहना  
 सगतदेहनद्रप्रमाणद्वयोन्वएहवापासांछरलेहना सुन्दरसोभायमानमनोहरपासांछरलेहना सुजातरुडानीपनालचणसहितपासांछरलेहना मितप्रमाणो-  
 धितमचो माद्वयमात्राद्वसञ्चितपीनमांसरुकरोसपचितसहितरयरतिसुपनादातारएहवापासांछरलेहना वज्ज, प्रसरलसमन्विमपणारहित सेहियमिलती

रतिदो रस्यौ पाशौ केचाधोदेशे यस्य स तथा । उज्युयसमसद्वियजयतणुकासिण्णिहुआइज्जलडहरमणिज्जरोसराई ऋजुकाना मवजाणा समाना मविप-  
माणं समाहितानां संहितानां जात्यानां प्रधानानां तनूनां सूत्राणां कृष्णानां कालानां सिग्धाना मरुचाणाम् आदेयाना सुपादेयानां लउचानां सना-  
वखानाम् अतएव वरमणीयानां च रस्याणां रोम्णां तनूरूढाणां राज्ञिः पंक्तिर्यस्य स तथा । असविहगसुजायपीणकुच्छी मत्सपधिणोरिव सुजातो  
सुनिषन्नौ पीनावुपचितौ कुक्षी उदरदेशविद्येयौ यस्य स तथा । असोदरेति व्यक्तं । सुदकरणे सुचीन्द्रियः । असोदरपद्मः विक्रटनाभद्रति पाठान्तरं ।  
गभ्रावत्तकपयाहिणावत्तरङ्गभङ्गुररविकिरणतरुणवीहियप्रजोसायंतपउमगंभीरवियडयाडे गद्गायत्तं क इव प्रदक्षिणापत्तंरङ्गेरिव वीविभिभिरिव  
भङ्गुरा च भन्ना रविकिरणतरुणति तरुणरविकिरणैर्वोधितं स्पृष्टं अकोमायंतति विक्रागोभवयत्पद्मं तद्वहभौरा च विकटा च नाभि र्यस्य स  
तथा । साह्यमोणंद्मुमल उप्पगणि करिययरकणग च्चकसरिमवरद्दारवलिमच्छं गाह्यति संहृतं सट्टिममध्यं यकोणंदं विगादिवा मयलउ

णिडआइज्जुलडहरमणिज्जरोसराई असविहगसुजायपीणकुच्छी असोदरे सुदकरणे पउमविअडुगामे गंगावत्तक  
पयाहिणावत्तरंगभंगुररविकिरणतरुणवांहियअकोसायंतपउमगंभीरवियडुगामे साह्यसोणंद्मुमलउप्पणणिकरि

जयजाचीजात्यवंत तनुसूअपातलीकभिणक्कालोणिङ्गुचीगटो आइज्जनीकनइ पादेयदेयदेयियायोगलउउप कानायण्यंतएइगोरमलीकरोगराजीथ्रेणिकर  
जेहनी असमाखिलाविहगर्पवियानेहनीपरिसुजातभलीनोपनो पीनसदाभरीपूरीनुपपेटनीवेशपामानापिभागएइनेचना भयमाहिनउतंहुनासरोपउ  
उदरपेटएइजेहनइ युचिपभिनकरणइंद्रियपांचइइजेइना पद्मकनसरोपाणिकटविकस्वरपिपुलीनाभिइइजेइनी गंगानाचायत्तनीपरइ पयाहिणा-  
वत्त दक्षिणावत्तं तरंगकळोल्लिकरोभंगुरभांगा तथातरुणरविस्वर्यनइकिरणइकरो योधितजगाडाउ पकोसायंतकएतादिकनर पद्मतमननीपरइ

प्रतीत दृष्यन्कथादगं कदण्डो निगरिक्षति कारीकृतं यद्वरकनक तस्य य त्वदः खड्गमुष्टि स चेति हृद्द तै सहगो वरवज्रद्वय वलितः  
 क्षामो मधो मध्यभागी यस्य स तथा । पमुद्दयवरतुरगसीधवरवद्विद्यकक्षी प्रमुदितस्य रोगमोकाद्यनुपहतस्य वरतुरगस्यैव सिद्धवरस्यैव च प्रतीतस्य  
 वर्तिता वृत्ता कटौ नितम्बदेशो यस्य स तथा पाठान्तरेण पमुद्दयवरतुरगसीधपदरेगपद्विद्यकक्षीति दृश्यते तत्र प्रमुदितयो वरयो क्षुरगसिद्धयो  
 कटगा सकामादतिरेकेणातिप्रयेन वर्तिता वृत्ता कटौ यस्य स तथा । वरतुरगसुजायगुल्फदेशे वरतुरगस्यैव सुजातः सङ्गुप्तत्वेन सुनिपयो गुह्यदेशो  
 यस्य स तथा वाचनान्तरेण पसत्त्ववरतुरगगुल्फदेशे व्यक्तम् । पादूखड्गवनिदवस्त्रेभ्ये जाल्यखड्गव निरुपलेपो क्षेपरहित शरीर जाल्यखी हि नृप  
 पुरोयाचमुपनिप्तगाभी भवति । नरवारणतुल्लविक्रमत्रिक्रियगई वरवारणस्य गलेन्द्रस्य तुल्यं सहगो विक्रम पराक्रम विलसिता च विलासवती यति

यवरक्षणगच्छस्वरवरवल्लिभ्रमज्ज्मे पमुद्दयवरतुरगसौ हवरवद्विद्यकक्षो वरतुरगसुजायसु गुल्फदेशे आदृश्यह  
 - लच्चणिरुवलेवे वरवारणतुल्लविक्रमत्रिक्रियगई गयमसणसु जायमन्निभोरू ससुगणिसगगूढजाणू एणौकुषविदावत्त

गभीरख डीविकटपसरतीपिपुकीनामिमूच्छद्वेदनी साहतसाच्चित्तनिषासद्वसकीर्णं साणंदकद्वताधिगठो सुसमलोकमसितुनेपुणविषाजद्वसकीर्णं  
 दृष्यन्णि करियाशारीमायडिवानतदरतेपुणमध्यद्वसकीर्णं इद वरप्रधानकणकनच्छर सोनदरीखड्गनीमूठिथरप्रधानवद्वरुषीरउद्वदनाहाधमउप्रायुध  
 एतस्मानीपरिमध्यसकीर्णं ज्ञाणिवर प्रमुदितद्वयसंहितवरप्रधानतुरगघोउठ तथा नोद्वेसरोसिधतं हसरीपीवरप्रधान वद्विषप्रतिवाटुनीलकारखी-  
 कद्विच्छद्वेदनी वरप्रधानतुरगघोउठानी पद्दसुजाततत्तमनीपतउच्छद्वगुप्तगुच्छद्विशद्विद्यच्छद्वेदनेन उ आदृखजातिवतसु दरद्वयघोउठानीपरिजिरुपक्षेप

गमनं यस्य स तथा । गयससणासजायसार्धभोरु गजससनस्य हस्तिनासिकागः सुजातस्य सुनिययस्य सन्निभे सहस्रीं जरु जनुं यस्य स तथा ।  
 ससुगणिसमगूढजागू ससुन्नः ससुन्नकाख्यभाजनविशेषस्य तत्त्वियानस्य च सन्निभस्तद्विश्रिमनगूढे अत्यन्तनिगूढे मांसललादगुह्यते जानुनी अभीयती  
 यस्य स तथा । एगौकुर्विदावस्यद्वाणुपुष्पजंघे एणी हरिणो तस्या इम कुर्वयिन्दस्त्र, गविशेषः वत्स च वृत्तेयर्त्तुले आनुपूव्येण  
 तनुके चेति गस्यं जर्णे प्रस्यते यस्य स तथा अन्ये त्वाहुः पण्यः स्यायवः कुर्वविन्द्या कुटिलकाऽभिधानो रोगविशेषः ताभिस्यजे शेषं तथैव ।  
 संद्वियसर्सासिद्धगूढगुंफे संस्थितो संस्थानविशेषवन्तौ सुद्विष्टो सुघटनो गूढो मांसनत्वादनूपलक्ष्यो गुर्वफो पादसन्निवन्धो यस्य स तथा सुपद्द्विय-  
 कुम्भाचारुचरणे सुप्रतिष्ठितो शुभप्रतिष्ठी कूर्कधरत्तच्छुपवचारु चन्नतलेन गोभनो रानी पादो यस्य स तथा । अणुपुष्पसुसंहर्यंगुनीए आनुपुर्व्येण क्रमेण

वद्वाणुपुष्पजंघे संद्वियसुसिद्धिगूढगुंफे सुपुद्द्वियश्लेष्मच्छारुचरणे अणुपुष्पसुसंहर्यंगुनीए उष्यगतगुतंवाणुद्व

जातिशुद्धघोडिलानुं गरीरमलमूत्रं परडाइनक्षीतिमभगयंतनरुत्तेपनलागे वरप्रधानयारणक्ष्मौ नद्रतुक्तागरीपोधिकमपरक्रमभनद्रविपुलसिर्वायत्ताससहित  
 गतिगमनक्षुद्रजेहनउ गयहस्तीतेहनउससणक० सुं डादंउतेकेहयउ सुजातभलउनीपनउतेहनद्रसंतिभसरीपोउरुश० रायलक्ष्मद्रजेहनो समुग्रडावडउ  
 तेहनद्रुटांकाणुद्विवालयं प्रातरउनजाणियद्द तिमनिमययूडतउगूढगुप्तजागुठींचणक्षुद्रजेहनउ एणीहरिणीनद्रकुर्वविदणविशेषतेहनाभावसंसरोषीवद  
 वर्त्तुलाकारिअणुपुष्पियभनुकमिंजतरतीजंघापींठाक्षुद्रजेहनो संद्वियरुद्धसंस्थानद्रमुंसिद्धिसंनिलितभिलतोयिसद्विक्कहतांप्रधान गूढगुमक्षुद्रगुफ्फनहतां  
 घूटितजेहनो सुपद्द्विप्ररुडउथाप्यउएहयउकूर्कांकाक्षुवउतेहनोपरिचारुमनोपरचरणपक्षुद्रजेहनो अणुपुष्पप्रनुकामद्रसुंहर्यंगुलतीरं प्रांगुलोक्षुद्रजेहनो

राय एतान् तेषु अथवा २२





तस्य तटित् तडित्तय विस्तारित-विद्युतः तरुणरविकिरणानाञ्चाभिनवादित्यकाराणां सदृश्यं समं तेजः प्रभा यस्य स तथा । अण्णासवे प्राणान्तिपातादि-  
रहितः । अममे समेतिगच्छरहितो निर्लोभत्वात् । अकिंचणे निर्द्वैत्यः परिगृहसञ्चाररहितत्वात् । छिन्नसोए छिन्नश्रीता चूटितभववावाहः छिन्नश्रीको  
वा । निरुवलेवे द्रव्यतो निर्मूलदेही भावतन्तु कर्मबन्धहेतुलक्षणोपलेपररहितः । पूर्वीक्तमेव विभेयेणान्याह ववगयपेमरागदोसमोहे व्यपगतं नष्टं प्रेम-  
चाभिष्वङ्गलक्षणं रागय विषयानुरागलक्षणो हेययागिनिष्टे ऽपीतिरूपो मोहयाज्ञानरूपो या यस्य स तथा । निगंथस्सपवयणस्सुःसैए निर्भयस्य जैनस्य  
प्रवचनस्य शासनस्य देशकः शास्ता नायकः तस्यैव नेता स्वामीत्यर्थः । पद्मङ्गावए तस्यैव प्रतिष्ठापकस्त्रैरुपायैर्व्यवस्थापकः । समण्णगपद्दं अमणकपतिः  
साधुसङ्गाधिपतिः समण्णगविंदपरिअट्टए अमण्णाएव अमण्णकान्तेपां हन्दस्य परिवर्द्धको वृद्धिकारी परिकर्षको वा अग्नेगामी तेन वा पर्यायकः परिपूर्णो यः

अममे अकिंचणे छिन्नसोए निरुवलेवे ववगयपेमरागदोसमोहे निगंथस्स  
पवयणस्सुटेसए सच्छनायगे पद्मङ्गावए समण्णगपद्दं समण्णगविंदपरिअट्टए

किरणसरोपउतेजेहभगवंतनउच्छइ प्राणान्तिपातादिकप्रायत्रपांचरचित्त समतालोकतेगइकरीरहित अकिंचणद्रव्यपरिग्रहसंज्ञारहित छिन्नक्रेञ्जउ  
च्छइसंसारमार्गशोकजेश्वर निरुपलेपद्रव्यश्रीनिर्मलउद्देहभावथोकर्मबंधपापरगि व्यपगतताठउच्छइमेसन्नेइरागविषयसंबंधीहेपअप्रीतिरूपमोह  
अज्ञाापणुजेहनउ निगंथप्रवचनसिंहानतनउत्रीजिनशासनउद्देशकउपदेशकरीनइदेपाउण्हार तेहजनउयाज्ञागीपनउद्देश्हारनायकतेहनउ  
स्वामीठाशुरप्रअष्टएल्कुइतेगइअपायइहेतुयक्तिं करीसाचामार्गनाथापण्हार तथाअमणसाधुनागणनउल्लामी समण्णगणसाधुनासमुहइदंअतिशयमोटा

स तथा । अथत्तीमदुद्वयणातिसेसपत्ते चतुश्चि गत् दुद्वानां लिनाता वयवन्ति नचनप्रमुखा संवत्सभायायुगत वचनं धर्मोववीधकारमित्यादिनोक्तस्यारुपा  
 ये इतिगोपा प्रतिगया स्नान् प्राप्नो य स तथा । इह च वचनातिगयस प्रहण मत्वस्तीपकारित्वे न माधान्यव्यापनार्थं मयथा देवैर्मस्वाद्यस्ते पठान्ते  
 यत पाद देह विमलद्वयधं यमियपक्वो यद्विषय अर्यं इडिर गोकुडोराम निव्वीस पंडुर भंस मित्यादि । पणतोससचवयणाप्रयेसपत्ते पचस्त्रियत्  
 ये सत्ववचनव्यातिगोपा प्रतिगया स्नान् प्राप्नो य स तथा । ते शमी वचनातिगया तद्यथा सस्कारवत्व उदात्तत्वं उपचरोपेतत्वं गभीरगयद्वत्वं  
 अनुनादित्त्वं इचिणत्व इ उपनीतरागत्वं न शार्थत्वं प्रव्याहृतपोर्वाप्यत्वं ए यिटत्वं अमन्दिरत्व इ अमन्दिरताभ्योत्तरत्वं इ इदययादित्वं इ इ  
 देमकाचाव्यतीतत्वं इ तत्वानुरुपत्व इ अमकोर्षप्रसूतत्वं इ अत्योन्यप्रप्रद्वीतत्व इ अभिजातत्व इ प्रतिस्त्रिगधमधुरत्व इ अपरममयेधित्व इ अर्थ-  
 धर्मोभ्यासानयेतत्व इ उदारत्वं इ परनिन्दात्त्वोत्त्वमंविप्रयुक्तत्वं इ उपगतद्याधत्वं इ अमपनीतत्व इ उल्पादिताकिचकौगूहत्वं इ अद्भुतत्व इ  
 पनतिविसम्मित्व इ विमलमयिषेपिकिकिचितादिनिपुक्तत्व इ अनेकजातिर्भययादिचिचत्व इ अस्तिमविशेषत्वं इ साकारत्वं इ सत्वपरिरुद्धी-  
 तत्व इ अपरनेदित्व इ अयुच्छेदित्व इ उपवचनातिगया । तत्र सस्कारवत्वं सम्भूतादिसचण्युक्तत्व इ उदात्तत्वमुचैर्हंस्तित्व इ उपचरोपेतत्वमपाम्यता इ

अनुत्तीमनुद्वयणातिसेसपत्ते पणतीमसच्चय्यणातिसेसपत्ते आगासगण्यं चक्रेण आगासगण्यं

परिवारमठ परियट्टिकिचिताहृतकरणाहारअथवापरिकंपकअथे सरपण्ड वरुषीमनुद्वतीर्धकरनावचनप्रसुचयंभायागुवीचिबुधंमंशुकादिचवठं  
 इत्यादिकमंभ्रतिगय नेवाव्याहृदिकिचिमगवतद पात्रीससत्ववचननाप्रतिसेसपतिगयेतेइपपयाव्याहृदिकिचिमगवतद आकागनइविषद

गभीरशब्दत्वं शेषस्यैव४ अनुनादित्वं प्रतिरवोपेतत्वादि५ दक्षिणत्वं सरसत्वं६ उपनीतरागत्वं मालवदेशिकादिग्रामरागयुक्तता७ एते सप्त शब्दापेक्षा  
 प्रतिशयाः अन्येतर्थाशया स्तत्र महार्थत्वं ह्रस्वदक्षिणयता८ अव्याहृतपौर्वापर्यत्वं पूर्वापरवाक्याविरोधः९ शिष्टत्वं अभिमतसिद्धान्तोक्तार्थता वक्तुः  
 शिष्टतासूचकत्वं वा१० असन्दिग्धत्वं अशंसयकारिता११ अपहृतान्योत्तरत्वं परद्रूषणाविषयता१२ हृदयगूढित्वं श्लोढमनोहरता१३ देशकालोर्व्यतीतत्वं  
 प्रस्तावोचितता१४ तलानुरूपत्वं विवक्षितवस्तुस्वरूपानुसारिता१५ अप्रकौर्णप्रकृतत्वं सुसम्बद्धस्य सतः प्रसरणं अथवा असम्बद्धाधिकारत्वात्तिसिखा-  
 रथोरभावः१६ अन्योन्यप्रगृहीतत्वं परस्परण पदानां वाक्यानां वा सापेक्षता१७ अभिजातत्वं वक्तुः प्रतिपादयस्य वा भूमिकानुसारिता१८ प्रतिस्तिग्ध-  
 मधुरत्वं धृतगुडादिवत् सुखकारित्वं१९ अपरममवेधित्वं परमसर्गानुशाटनस्वरूपत्वं अर्थधर्मीस्यासानपेतत्वं२० अर्थधर्मप्रतिबद्धत्वं२१ उदारत्वं अभि-  
 धेयार्थस्याशुच्छत्वं गुणगुणविशिषी वा२२ परनिन्दालोकर्षविप्रयुक्तत्व मिति प्रतीतमेव२३ उपगतस्त्राघ्यत्वं उक्तगुणयोगत् प्राप्तस्त्राघ्यता२४ अनप-  
 नीतत्वं कारककालवचनलिङ्गादिव्यत्ययरूपवचनदोषापेक्षता२५ उत्पादितच्छिन्नकौतूहलत्वं स्वविषये श्लोढृणां जनितमविच्छिन्नं कौतुकं येन तत्तथा  
 तद्भावसत्त्वं२६ अद्भुतत्वं मननतिविलम्बित्वञ्च प्रतीतं२७२८ विन्नमविषेपकित्तिक्षिप्तादिविद्युत्त्वं विन्नमोवक्तुमनसोऽभ्रान्ताता विषेपसूत्रस्यैवाभि-  
 धेयार्थं प्रत्यनासक्तता किलिक्लिषित् रोपभयाभिलाषादिभावार्थां युगपदसकलरणसादियन्दात् मनोदोषान्तरपरिगृहस्तैर्वियुक्तं यत्तथा तद्भावसत्त्वं२९  
 अनेकजातिसंशयाह्वित्वत्वं ह्रस्व जातयो वर्णनीयवस्तुस्वरूपवर्णनानि३० आहितवियोग्यत्वं वचनान्तरापेक्षया टोक्तवियोग्यता३१ साकारत्वं  
 विच्छिन्नवर्णपदवाक्यत्वेनाकारप्राप्तत्वं३२ सत्वपरिगृहीतत्वं साहसीपेतता३३ अपपरिछेदितत्वं अनयायाससम्भवः३४ अब्युच्छेदित्वं विवक्षितार्थ-  
 सम्यक्सिद्धिं यावदव्यवच्छिन्नवचनप्रमेयतेति३५ ॥ अथ प्रकृतवाचना प्रागासगएणन्ति प्राकाशवर्त्तिना चर्त्तेण प्राकासगएणं हत्तेणन्ति हत्त्वन्देशेण

प्रागचिदाहितं आकाशमम्बरमिताभ्यां प्राप्ताभ्यां प्राकथिताभ्यां वा प्राकृत्याभ्यां सुत्याटिताभ्यामित्यर्थं चामराहितं चामराभ्यां प्रकीर्णं काभ्यां प्रागवलाप विह्वल्यय कथित इति संबन्ध गम्यम् । प्रागसफटिवागएणति आकाशमस्य सख्यतया यत् स्फटिक तन्मयेन सपादपीठेन सिद्धा-  
 सनेति व्यक्त धम्मज्जएणति धर्म्यसत्त्ववर्तित्वसदृशेन केतुना महेन्द्रज्जनेत्यर्थं पुरभीति अथत एकठिज्जमाणिणति देवे प्रकथयमाणेनेति सच्चि-  
 दस्य संपरिवुद्धेति सम्यक्परिकरितं समतादेहितत्वं पुञ्जाणुत्थिति पूर्वोत्पूव्यां ज्ञानुत्पूव्यां धेत्यर्थं क्रमेति तदयं धरन् सधरन् एत-  
 देवाश्च गामाणुमान् द्रुज्जमाधीति प्राप्तय प्रतीतो इत्युपामश्च विवक्षितपामानतरो प्रामो प्रामानुपालं तद् द्रवन् गच्छन् एककाद्रुमादनन्तरगाम

कृत्तेणं आगासयाहिं सेअचामराहि आगासफटिआगएणं सपायवीढेणं सौहासणेणं धम्मज्जएणं पुरच्चो पकटि-  
 ज्जमाणेणं ( चउद्धवहिंसमणसहस्यौहिं ) कृत्तोसाएअज्जिआसहस्यौहिं ) सच्चिं संपरिवुद्धे पुञ्जाणुपुत्थिं चरमाणोगामो  
 युग्गामं द्रुज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे चंपाएणयरीए बहिया सवणगरगामं लुवागए चंपनगरिं पुञ्जमहं चेइअं

गतप्राप्तयर्णं द्रुज्जमणं जेइमणवतनरं आकाशमद्विषयगतवर्तं द्रुज्जमणं सिद्धिजेइमद्व आकाशमद्वविषयगतवर्तं द्रुज्जमणं देवतायं तधवका  
 चामरविद्व पानेजेइमद्व आकाशमद्वविषयगतमातवर्तं द्रुज्जमणं सफटिकमयस्फटिकरत्नसपादपीठिकारत्नमयेठवीठटसोचहितवीहा  
 धनसोइमद्वरुपरकरीसहितपासनविमयेजेइमद्व धर्मज्जनेमीठमद्व द्रुध्वजनेणं इंसहितेणद्वधर्मसत्त्ववर्तित्पणठ अथावद्व पुरउपागकीयकीपकठिज्जमाए  
 वजावीतस्यकउदेवताइ जेइमद्व उठउसइससयमणसाधुतपनाकरणहारतेणइकरी कवीससइसपायिं कासाधीतपजसयमनीप्रतिपालणहारतेणइकरी

मनुबलपुत्रित्यर्थः अनेनाप्रतिबन्धविहारमाह तत्राप्यौलुब्धाभावमिति सहस्रहणंविहरमाणेति अतएव सुखं सुखेन शरीरखेदाभावेन संयम-  
बाधाभावेन च विहरन् विहरन् स्थानान्तरं गच्छन् ग्रामादियु वा तिष्ठन् वहियति वहिस्ताय उच्यते नगरस्य समीप सुपनगरं तत्र ग्राम  
उपनगरग्राम स्तसुपागतः ॥ छ ॥ तेषां तेषां ततोऽनन्तरं एमिति वाक्यालङ्कारे से इति असौ पवित्रिवाउएति प्रहृत्तिव्याप्तौ भगवत्प्राप्त्यापारवान्  
इमीसेकहाएति अस्यां भगवदागमनलक्षणायां वार्त्तायां लब्धे समणेति लब्धार्थं सन् प्राप्ताधं सन् विद्मः सन्नित्यर्थः हृष्टतुष्टचित्तमाणंदिष्टि  
हृष्टतुष्ट मत्यर्थतुष्टं हृष्टं वा विस्मितं तुष्टं च तोपवच्चिचं मनो यत्र तत्तथा तत् हृष्टतुष्टचित्तं यथा भवत्येव मानन्दित इपन्मुहसीस्यतादिभावेः  
समृद्धि सुपागतः ततश्च कंदिष्टि नन्दितः समृद्धितरतासुपागतः पीडयणे प्रीतिः तीणन माप्पायनं मनसि यस्य स तथा परम सोमशुषिण परमं

समोसरि उं कामे ॥ छ ॥ तेषां से पवित्तिवाउए इ सोषे कहाए लब्धे समणे हृष्टतुष्टचित्तमाणंदिष्टि पीडयणे परम

सधिं सहितअतिशयस्य परिबन्धा पूर्वागुपूर्वीश्रुतकमएविवरत्तु ग्रामानुग्रामएकग्रामकेडइजेग्रामआवृतेउल्लंघनइह सुपद्रुविचरताएतलइजतावला  
नहो आतमासंयमनइवाधानुहितिसविचारकरताभंगवंत चंपानगरीनइविषइ वाहिरिउवणगरग्रामनगरनइसमीपइडूकडु जेगामतेउपनगरग्रामतिहं  
स्वामीउंवागएआव्या चंपानगरीप्रति पूर्णभद्रनामचैत्यचनदिहराप्रतिसमोसरिवाआव्यारहिवानीकामनायांकाहइ तिवारपच्छीजेप्रहृत्तिवाउकभगवंतनी  
प्रहृत्तिवार्त्तानउंकाहणहारपुरप एहवीकथावार्त्ताजिभगवंतश्रीमहावीर उपनगरग्रामिं आव्या एहवाश्रमंभावलाधइयकइ हर्षविषयपास्युतुष्टसंतीपपास्युउ  
वित्तमाहिआणंउजपनउ प्रीतिप्रै मजपनउमननइविषइ परमउत्कृष्टउसुमनभलउमननउभावजपनउहइ हर्षनइवसइकरीविसर्पमानविस्तारपासताविक

सौमनस्यं सुमनस्कता सञ्जातं यस्य स परमसौमनस्यिकं तद्वाग्वाक्शोति परमसौमनस्यिकं हरिसवसविसप्यमाणद्वियए इयंवेधेन विसर्प्य-  
दिस्यारं मज्जूद्वयं यस्य स तथा सर्वाणि चैतानि, इष्टादिपदानि प्राय एकार्यानि न च दुष्टानि प्रमोदप्रकर्षप्रतिपत्तिहेतुत्वात् स्तुतिरूपत्वाच्च यदाह  
यत्नाहर्ममयादिभि राविममनामुच स्तथा निन्दन्, यत्नदमसखद् मूयास्तत्पुनस्तत् न दोषाय रक्षाएति व्यक्त कयवत्तिकभेति स्यानागन्तर क्तं वक्षि-  
कर्मं स्रगृहदेवतानां येन स तथा कयकोउभयगलयायच्छिन्ने ज्ञातानि कौतुकमङ्गलाग्ने व प्रावयिप्तानि दुःखप्रादिविघाताद्यं मवच्छकरणीयत्वाद्येन  
स तथा तत्र कौतुकानि मपीतिवकादीनां मङ्गलानि तु सिद्ध्यर्थदय्यवतदूल्वाङ्कुरादीनि सुहृत्प्यवेसादमगह्नाद्भवत्याद्पवरपरिच्छिण सुवाका  
द्यानि सुचित्ततदेह येथानि वेगे साधूनि यथथा सुहानि च तानि प्रवेक्षानि च राजसभाप्रवेयोचितानि चेति विगृह मङ्गलानि मङ्गलकरये साधूनि  
यञ्जापि व्यक्तं पवरत्ति द्वितीयावबुंभवमलोपात् प्रवरापि प्रधानानि परिहितो निवसित यथथा प्रवरासो परिहितयेति समास' अप्यप्रवृग्वाभर

सौमणस्यिए हरिसवसविसप्यमाणद्वियए एहाए कयवत्तिकस्मे कयकोउभयगलयायच्छिन्ने सुहृत्प्यवेसाद् संगह्नाद्  
वत्याद् पंवरपरिच्छिण अप्यमङ्गवाभरणोलं कियसरौरे सथायोनिहाओप्रिच्छिणक्त्वमद् सथायोनिहाओप्रिच्छिणि

अरद्वपोच्छद् द्विजं हृदयकमज्जेइनच एहाएखानअगोइच्छकीधी खानकव्य/अंतरकीधावत्तिकर्मसापणाग्दृहेवतानत्पूजियउ तथाछतकीधाकीतुकमपौ  
तिसकदिक् मगखदहीद्रीषादिक् प्रायच्छि ससुपननाविचननिवारण्यवाणजे अरिवाछदते सर्वकीधाजेणद् सुहृत्प्यनवोवागाभाप्रववासुहमसचौगटु ख दरनीदाडि  
फाटउइत्यादिक् सोपरिच्छित प्राविसकपविसराजसभायोम्यवलीमगसौककारियापुवपुधानवस्रगुण्णतिपतिमयसुशरीरद् पहिखा मस्यथोहठभारमसृष्यं

णालकियसरीरेत्ति व्यक्तं नवरं अस्यानि स्त्रोकानि महावर्षाणि बहू मूल्यानि । सन्नाश्रोत्ति स्वकात् स्वकोयात् । जेषेवत्ति यस्मिन्नेव देशे इत्यर्थः । बाहिरियत्ति अभ्यन्तरिकापिचया वाद्याः । उवडाणसालेत्ति भाषानसभेति । तेषेवत्ति तस्मिन्नेव देशे इत्यर्थः । सिरसावत्तंति शिरसा मस्तकेनाप्राप्त मस्पृष्टं शिरसि वा आवर्त्तत इति शिरसावत्तोऽतस्तं । जएणंविजएणंएणंबव्ववेत्ति जयः सामान्यो विघ्नादिविषयो विजयः स एव विशिष्टतरः प्रचण्ड-प्रतिपत्त्यादिविषयः बहूय जयेन विजयेन च बहूँस्व त्वमित्येव माशिशं प्रयुक्तो कोत्यर्थः । देवाणुप्पियत्ति सरलस्रभावाः । दंसणम् अश्वलीकनं कं खंतित्ति

क्खमित्ता चंपाएणयरीए मज्झंमज्झंणं जेषेव वाहिरिया उवडाणसाला जेषेव  
कूणिए राया भंससारपुत्ते तेषेवउवागच्छत्ति२ करयलपरिगहियं शिरसावत्तं मत्यए अंजलिंकडु जएणं विजएणं  
बद्धावेएत्ता२ एवंवयासौ जस्सणंदेवाणुप्पियादंसणंपीहंति जस्सणंदेवाणुप्पिया

बहुमूल्यएहवा आभरणकुंडलहारकडिदोरीसुं द्रुडीप्रमुषद्वयलंकलयौभतू सरौरच्छइजेहनउ स्वकीयआपणाघरथकौअतिशयसुंनिकखमंतिनीकलइ स्वकीय-  
आपणाघरथकौनीकलीनइ चंपानगरौनइगध्वइमध्यइ विचालइ जिणियानकिंकीणिकराजानुघरतिहां जिहांबाहिरियाबाहिरिलीउवस्थानच्छइसिवानी  
शाबासभातिहांसपरिवारउराजाभावीनइवइसइ जिणयाणकिंक्खणिकराजाच्छइ भंससारपुत्ते अणिकराजानउयुत्तवेउउ तिहाकणियाभावइ तिहाकणिया  
भावीनइ करतलहाथविइपरिग्रहीएकठाकरी मस्तकइचटावीश्रावत्तंकरीनइ मस्तकनइविषइ अंजलिबिहायजोडीकरीनइ जयसामान्यपणइ  
विघ्नटलउ विजयविशेषधीमोटावैरीजीपवारूपतेणइकरीनइवधावइतंदुलादिकाइवधावीनइ एहवुंकहइतेप्रहसवाहुक तुम्हेजेहनउअहोदेवानुप्रिय





वा तापत्ययः प्राकृतयै लोप्रभव इति । सोच्चाणिसम्पत्ति श्रुत्या योत्रेणाकर्ण्य निगम्य हृदयेनावधार्य । धाराहयनीयसुरभिक्षुसुमं वचं चुमालद्रुप्रलच्छिद्य-  
रोमश्रुवे धाराभि जलधरवारिधारामिहंतं यन्नोपस्य कदम्बस्य सुरभिक्षुसुमं तत्तया तद्विव चं चुमालद्रयत्ति पुलकितोऽतएव उच्छ्रितरोमश्रुपथ यः स  
तथा इदञ्च विशेषणं क्वचिदेव दृश्यते । विश्रसियवरकमलगायणवयणे विकसितानि भगवदागमनवार्त्तायवणजनिता नन्दान्दातिगयादुत्फुल्लानि वरकमल-  
वन्नयनवदनानि यस्य स तथा । पचलियवरकडगुडियकेजरमडकुं डलाहारविरायंतरद्रयवच्छे प्रचलितानि भगवदागमनयवणजनितसम्पत्तिरेकात्

कूणिण राया संभसारपुत्ते तं सुपवित्तिवाञ्छस्स अंतिण एयसइं सोच्चा णिसम्प हड्डुड्डु जावहिञ्चए विश्रसिय  
वरकमलगायणवयणे पचलियवरकडगुडियकेयरमडकुं डलहारविरायंतरद्रयवच्छे पालं वपलं वसाणघोलंत

कामनावांछाच्छे तं ते हकारणभणी एयणं एह भगवतपाठधाखानौवात हे देवानुप्रियं मरुत्सखभाववंत तुम्हारी प्रीतिनद्रुप्रार्थि सुखउपजाइवाभण्ठी प्रियवाल्लही  
वातनिवेदिमिकहतां संभलावुं छुउ प्रीतिसुखे ते कहतां तुं हनइ भवप्रो कहतां ज्योतिवारपं छोते कूणिणकराजा भंभसारय्ये णि कनउपुत्त तेहप्रह्वच्चिवाचुक  
भगवंतनीवधांसणी नउककणहारपुरुपना अंतिण कहतां समीपि एहयउयंथं जे भगवंत प्राव्याते सांभली नइ निसम्पच्चित्तनइ विपइधरी नइ विस्मयपाप्प्यी  
संतोषपासु जावगद्धथकी अने रादुपुणगद्धिद्वरुपपास्यउ विकस्यां उरुहासपाप्प्यां रप्रधाननेतनयनवदनसुखरूपकमलजेहनउ प्रायल्याभगवंत प्राव्या  
सांभली नइ अरहां परहां हाल्यावरप्रधानकडकतुडियवहिरपा केजरअंगदमुगटकिरीटमस्तकपहिरवानउकुं डलकानना आभरणहारकंठउ आभरण  
विराजमानशी भतरद्वयउररतिसातानउउपजावणहारयचहृदयछरुं जेहनउ पालं वभूमणउपलं गमाननां बुघोलंत मरहापरहाहालता एहवाभुपण

कल्पितानि वराणि प्रधानानि कटकानि च काङ्क्षन्ति तुटिकाय वाङ्मन्त्रका-  
 नेगुराणी चाङ्गदानि सुकुटञ्च किरीट सुण्डले च कर्णाभरणे यथा  
 स तथा शारी सुक्ताकलापो विराजन् शोभमानो रचितो विहितो वर्चसि उरसि येन स तथा तत कर्णधारय पासवपसवमाणवीरुतभूसुण्डधरे  
 प्रखम्बोभुम्बनक प्रखम्बमान खम्बमान शीलञ्च दोलायमान यङ्गुण्य मामरणं तवारयति य स तथा । ससभ्रमति सादर सुरिय च बलमिति भति  
 स्वरितं क्रियाविधिपथे चैते । पञ्चोरुदृष्टिं प्रत्यवरोहति अपतरतीत्यर्थं क्वचिदिद पादुकाविशेष्य दृश्यते वैश्लिष्यविरुद्धिचञ्चर्णानिचणोवियमिसि-  
 मिचितमणिरयणमडियापोत्ति एवधानाचरघटना वरिष्ठानि प्रधानानि वैदूर्यरिष्टाञ्चनानि रत्नविशेषा ययोस्ते तथा तथा निपुणेन कुयञ्चिन  
 जिह्विना धोपियसि परिकर्मिते चैते तथा भतएव मिसिमिसितसि चिकिचिकायमाने मखिरल्लै चन्द्रकान्सादिककैतनादिभि मँछिते भूपिते ये तथा  
 तत पदचतुष्टयस्य कर्णधारय । तदेदमपि भवदुपचरायककुशाद त जडा खग्य कर्षं उष्कंम वाहणाधो वासवीप्रथति तलावण्डु अपद्वल्य

भूसुण्डधरे ससंभ्रमं तुरिञ्चं चपलं नरिन्दे शीहासणालभ्रमुङ्गे इरस्ता पायपिटाचपञ्चोषदृइस्ता पाउआउमुञ्चइस्ता थवदृइ,  
 पचराय ककुहाइं तंजहा खर्गां च्छत्तंर उष्कंसइ वाङ्गणालु वासवीअर्णां एक्कसाश्चिअ उत्तरासगंकरे इस्ता आयंते चोक्त्ते

पाभरणउधरणहार ससभ्रमजतापवाइरुसहित त्वरितमनसुचपसपणुं कायागुचपसजतावलिपण, नरमसुचनचंइइ सिंहासणथकी प्रतिगय  
 सुंछे पादपीठिकासिहासणनउनीविशुधीपगमूकिसागुपीठपीठबोतेइथकीजतरइ तैइथकीजतरीनइ पादुकापगीपडिरवानीपापलीरुल्लजचितते  
 मंकरजतारइ तैपगयीजतारीनइ भवदु पञ्चगामूकीनइ पाचइराजानसंबवीककुचाइविक्कनिचइराजानपणुजणाइ तैकइइइइ खइ तरवारइ अथ

परिहृत्य राजककुदानि राजचिह्नानि इषफे संति मुकुटं बालव्यजननीं चामरमिति । ऐगसाडियं उत्तरसंगंति एकः साटकी यस्मिन्नस्ति स एकसाटिकः  
उत्तरासप्तौ वैकचकम् प्रायन्तेति आघान्तीजलस्यनात् चीक्येति चीचो विवर्चितमलापनयनात् । किमुक्तं भवति परमसूद्रभूए अतीव शुचिः  
संघतः । अंजलिमउखियहृत्ये प्रक्षालिना प्रक्षालिकरणती मुकुन्तितो मुकुन्ताकृती कृती हस्ती येन स तथा । अंचेद्रुत्ति आकुञ्चयति साहदृत्ति संघृत्य  
निवेश्य । तिकुत्तुत्तित्ति विक्रव क्रीन् वारानित्यर्थः निमेद्रुत्ति न्यस्यति । ईसिंपच्चूत्रमद्रुत्ति ईयन्नाक प्रत्युन्नमति । अयनतलं वियुञ्जति पडिसाहरत्ति कर्षुं

परमसूद्रभूए अंजलिमओलिअरग हृत्ये तित्यगराभिमुहे सत्त प्रडुयाइं अणु गच्छति सत्तठपथाइं अणुगच्छिता  
वामंजाणुअंचेइ वामंजाणुअंचेत्ता दाहणंजाणुधरणि तलंसिनिविसेइ साहदुं तिक्वुत्तोमुद्वाणं धरणिगतलंसि  
निवेशइत्ता ईसिंपच्चुणंसति पच्चुणंसिता कइगठुडिअ वंभिआओ भूआओ पडिसा हरतिइत्ता करयत्तजावकट्टु ॥

सखकधराविवानुर उप्पेस सत्तकपहिरयानउसुगटइ याहण पगेपद्धिरयानोमोजडीइ वात्तवीजन चामरए एकमाडोनुं वस्त्रविषालरूपो  
लुनयीतेहनउं उत्तरामणकरइ उत्तरदिसिनइपांधइजं वउरापइ दचिणदिसिनोवउरापइते उत्तरामणकरीनइ आयतेपंगीइकउगजाकरइ चीक्ये  
वीजुंइअसुचिटात्तइ परमप्रकटशुचिपवित्तहवउ अंजलिहाथविइकमसनाठीडानीपरिंक्कयाळइजेणइएहयराजा तीर्थंकरओमहायोरनइअभिसुखसामुइउ  
सातआठपगएकइपंगिं सातपगलांवीजइपंगिंआठपगलांसासुहउत्ताइ सातआठपगलांसासुहउत्ताइ वामजानुडावउंठीषणअंचतिसाहरीनइ जंचउ  
रापइ डावउंठीषणजंचउरापीनइ दचिणदिसिनउंठीषणधंरणिगतकंसिप्रथीतत्तनइविपइ निवेशेइथापइएथीइंलगांडइ इमवारीनइ तिक्वुत्तोकिणि

नयति । छ । नमोत्युष्मिन्त्वादि प्राख्यत् नवर । दौर्वोत्साहं सरथगद् पईहा इत्यत्र जेतमिन् नमोत्युष्मिन्त्वा कायैति । धम्मारियस्सोति

एववयासो कामोत्युष्मं अरिहंताणं भगवताणं आइगराण तित्यगराणं संयंस्वबुद्धानं पुरिसुत्तमाणं पुरिससौहाण  
पुरिसवरपुडरीआणं पुरिसवरगधइत्थीण ( लीगुत्तमाणं लोगनाहणं लोगपइवाणं लोगप्यज्जोअगराणं )  
अभयदयाण च्चत्तुदयाणं समगदयाण सरथदयाण जीवदयाणं वोह्मिदयाणं धम्मदियाणं धम्मनायगाणं

वार मूर्धमस्तक धरणीतस्सविष्टपूनीनातलनइविपइ निवेशइयापइधतीइथायीनइ इंपत्योडठ सुमस्तकजं सु नमणिसहितरापइ इंपतजं बुं नमणि  
सहितरायीनइ खटकहायनाकं कणकुटितवहिरवातेणइ धमितथंभरुपनिच्चसवंतययजेसाय तीप्रतिसाहरतिजं वाकरुइहाधवि जं वाकरीनइ हाव  
जोही मस्तकिसवावीमस्तकनइमिपइइअंल्लोकीकरीनइइइवुं कइतुइवरराजाकृणिक नमस्कारइठ अंइतिवचननाप्रलकारमणी शिथिकमंरुपपरि  
चरीइत्थानिपरिइतनइ तीकैहावाभगवतं ज्ञानवततेइतनइ युतधर्मनीआदिनाकरणहार तेइतनइ तीर्थवहुविंधयीसघनाकरणहारतेइतनइ परनाउपदेम  
विनायापथीखामीपतिदुद्धाते खामीसर्वपुरपमाहिसत्तमतेइतनइ पुरपमाधिंसीसरोपाकियहोक्ख्यानजाइतेइतनइ पुरपमाधिवरप्रधानपुडरीकथमस  
समान जिनकमखपुअपाणोइतनीपाइतिमभगवतकामभोगमसीपाइतेइतनइ पुरपमाधिंवरप्रधानगधइत्थीणमानअन्वतीर्थमिदळांइइभगवतनइदेयीनइतेइ  
नइ लोकसर्वमाधिंउतमएउपरंतवीजुं मोटुकोइतनीतेइतनइ लोकाउअपायजीवाजोनतेइतनायाएपवासातेइतनै लोकाभव्यलोकातेइतनइ खामीहितनाकरणहार  
लोकाउअदराप्रमांणतिहादीवासमानमियाखअधकारटालइतेइतनइ लोकाणधरतिइतनइ प्रकायकरणहारतेइतनइ सर्वस्रसधानर

धम्मसारहीणं धम्मत्रचाउरेतचक्कवट्ठीणं दोवोत्ताणं सरणंगइपइद्धा अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं विश्रद्धेउसाणं  
जिणाणं जावयाणं तिस्साणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मेअणाणं सब्बन्तूणं सब्बदरिसीणं शिव सयल सण्ण  
सयंतं सक्खय सव्वावाह सपुणरावत्ति सिद्धइदनामधेयं ठाणंसंपत्ताणं नमोत्तुणं समणस्स भगवओ महावीरस्स

जीवनइअभयदाननादातारप्राणांतइअयनजपायइ स्वामीसमकितरूपस्त्रीपनतेहनादातारतेहभगवंतइ स्वामीभूलाप्राणीनइमोचमागंनादातार  
तेह्नइ कर्मगचुथीनाठाजीवनइसरणनादातारतेहनै संयसरूपजीवतअनादातारतेहनइ स्वामीपरभधिंजिनधर्मनोप्राप्तितेइनादातारतेहनइ धर्मकैवली  
भाविततेहनादातारतेहनै धर्मनाउपदेयनहारतेहनइ धर्मनायकयणजारतेहनइ धर्मनासारथोभूनाप्राणोनइसार्गइअणएतेहनइ प्यारगतिना  
अंतकारकधर्मतिणिकरोचक्कवत्तिं सारीयाविभुवनं राव्यपालइतेहनइ संसारसमुद्रिंद्वीपसारीयासाणपापदानानिवारकतेहनइ सरणंसंपदानादातार  
गतिजीवनइसुपाभिलापीआययवायोग्यपइठासकजजजीयनाआधारतेहनइ अप्रतिइतअलभितएहवावरप्रधानज्ञानदुर्गनतेहनअधरणशरजेवलदुर्गनो  
तेहनइ कुड्ढअपणाकपटपणायकीनिठत्थातीतरागधया रागहेपनाजीपणहारतेहनइ पनेरानइरागहेयजीपायइतेहनइ आपणपुंसंसारसमुद्रतगातेहनइ  
अनेरानइसंसारसमुद्रतारइतेहनइ आपणपइतत्वनाजाण पनेरानइप्रतिवोधइतेहनइ पापणपइअमंथीयुक्काणतीहनइ अनेरानइअमंजोमूलाअइतेहनइ  
सर्वपदांशंसर्वकालनाजागतिहनइ सर्वयस्सुनादेपणआरतेहनइ शिवनिरुपट्टधपचलठांसयकोपलइनइ अिंद्रारोगनधो जेहनउअंतनयो जेहनउ  
जयनयो जिहांआवाधाकसीइनथी जिहंथिअउचनतउआगमननथो शिवगतिएइवउजेहनू नामधेयनाम एहवइयांगकरसंपाप्तितिहांपइता नमस्कार

धर्मोपाचार्याय न तु कदाचार्याय । धर्मोपाचार्यत्वमेव कथमित्यत आह धर्मोपदेशस्य धर्मोपदेशकायेति । तत्र धर्मात्तरेऽस्ति तत्र धर्मोपदेशकत्वे । इह गुरुभिः  
प्राप्तव्यसिद्धौ ऽहं वन्दे । कश्चादेव मित्यत आह पासदमिति पश्यति मन्वेति पासदमिति कद्, इति ज्ञत्वा इति वेत्ति वेदवृत्ति पूर्वोक्तश्रुत्या स्तोति  
यमसदृति नमस्यति गिरीनमनेन प्रथममिति । अद्, तत्सयसस्यस्योद्देशांति प्रष्टोत्तरं खच रजतस्य तुष्टिदान इदति स्तेति तत्रावश्यके मांषलिकाना  
प्रोतिदान मयं कयोदयनचमान सुभं यदाह विज्ञोव सुवणस्य वारव अहं च सयसहस्राहं तावदयस्य कोटीपीईदाण तु वक्षिषु रायस्य  
पमापं नवरं रथयं तु केनधादिति मंडलियाणं सस्य्या पीईदाणं सयसहस्रादिति इह पुन स्तदष्टोत्तरस्यमान सुभमिति कथ न धिरोध सच्यते

धादिगरस्तु तित्यगरस्तु जाव स पावित्रकामस्तु ममधम्मारियस्तु धम्मोवदेसगस्तु वंदाभिण अगवंत  
तत्यगयं इहगते पासंउने भगवं तत्यगए इहगयंतिकद्, वंटति अमंसंति वंदिता अमंसिन्ता सौहासणवरगए  
पुरत्यामिमुहे निषीअद् निषीइत्ता तस्य प्रवित्तिवाचुअस्तु अद्, तत्सयसहस्रं प्रीतिदाणं दलयति दलप्रत्ता सक्कारेत्ति

सोथो णवधननाप्रसकार अमणत्पनाकरणहार भगवतमपिसावंत महावीरकमंयनुनाजीपणहारतेहनद् युत्तमं नीपादिनाकारणहारतेहनद् पतुविंघ  
योमंघनीथापनानाकरणधारतेहनद् जावयय्यकीवोजाइवोत्तजाणिया जेइनिंमोचजाइयानीवाकाइवेमोचजासदत्तजातासाकडिपरभगयं तवांछद्  
नसोतेहनद् माहरापमार्थार्यपमंसवधीपाचार्यैजिथिधमंसमकान्वावचतेहनद् धमंथोवीतरागनुत्तेहनाचपदेशककथक वादर दू'हायजीउचस्तुतिकरठ'  
भगवतपदिभावतमति तेमगवंततिष्ठातिणामिराहाइतेप्रति इ'इहाकुं'राजसमानइकिये पासउदेपत्तानइटिकरीनइमेसुअनइ भगवंत

भगवति चम्या सागते तथास्यतीति न विरीधः । सकारेदृत्ति प्रवरवस्त्रादिभिः पूजयति । सन्नायेत्ति तथाविधया वचनादिप्रतिपत्त्या पूजयत्येवेति ।  
 एवंसाभिन्निआषाएविण्णएणंबयणंपडिस्सूणीइति वाचनात्तरवाक्कम् एवमिति यथादेशं स्वामिन्नित्यामन्त्रणार्थं इति रूपदर्शने आश्रया तदाश्रां

सम्माणित्ति सकारित्ता सम्माणित्ता एवंवयासौ जयाणं देवाणुप्पिया समणे भगवं महावीरे इहमागिच्छेज्जा इहसमोसरिज्जा  
 इहेव चंपाएणयरौए बहिआ पुसुभहे चेइएअहापटिरूवंउगहं उगिरिहत्ता संजमेणं तवसाअप्पाणं भावेसाणे विहरेज्जा

सहिमावंत तिहातिणिगामरच्छाळतां इहांराजसभाइंरखुहुंतेप्रतिं एहवचं करीनइ वांदइलुतिकरइ नमस्कारपंचांगप्रणामकरइ वांदीनइ  
 नमस्कारकरीनइ सिंहासनवरप्रधानंजपरिवइठठ पूर्वदिसिनइषभिसुखसांसुहठ निषीदतिवइसइ वइसीनइ तेप्रहत्तिवाहुक्कभगवंतनीवधामणीना  
 कथकनइ अहोत्तरशतसहस्रएकलाषअनइथाठसहस्ररूपानाणुं प्रीतिदानसंतीषजपनइजेदान दलयतिआपइ आपीनइ सकारेइप्रधानंवस्त्रनइ  
 देवइकरी वचननीप्रणिपत्तिकरीसन्मानइ वस्त्रादिकइसत्कारकरीनइ वचनप्रणिपत्तिसन्मानीनइ एहवुंकहउहवुराजाक्कीणिक जिवारइअहोदेवान्  
 प्रियसरलस्वभावप्रहत्तिकथक अमणतेतपनाकरणहार भगवंतमहिमावंत महावीरकर्मश्रुनाजीपणहार इहांचंपानगरीनइविषइआवइ पाउधारइ  
 इहांचंपानगरीइसमीसरइएकठार्थईनइजतरइ इहांचंपानगरीनइविषइ वच्चियावाहिरइ पूरुणंभद्रनामिचैत्यचनइप्रासादिंयथाप्रतिरूपसाधुनइ  
 आचारइ अवयहयानकनइविषइजतरवानीप्राश्रतिगृहीमांगीनइ संयमसतरप्रकारतेणिक्करी तपइभेदतेणइकरीअप्याणंआपणउआळा भावे  
 साणेभावतांप्रवत्तावितांरमाडतां विहरेज्जाविचरइप्रवत्तइ तिवारइतुइहे सुअनइएहभगवंतपधया संबंधीअर्थवात्तांनिवेदज्योक्कहिज्यो संभला-

प्रमाणोऽस्त्येव विनयेनाश्चक्रकरणादिना वचनं राजादेयं प्रतिश्रुतीति अयुगगच्छतिइति । छ । कर्मपाठप्यभायाएरयणीएति कल्पमिति च, प्रात प्राचाये ततः प्रकायप्रभातायां रजन्यां पुमुप्यसकमसकोमलुकिचियंमिति पुत्रं विकसितं तच्च तदुत्पत्तं च पद्य मुञ्जीत्युचं' तच्च कमसप हरिषविशेष तयो कोमलमकठोर मुञ्जीकृतं' दक्षानां नयनयोयोन्नोन्न' यकि स्तथा । तत्र अहपडुरेपभाएति अथ रजनी प्रभातागन्तर पांडुरे शुक्ले प्रभाते उच्यते । रत्नासौगण्यगायकिसुषुप्तपुनहुंलसुरागसरिसे कमनागरसहवीहए उखियंमि सुरेति रत्ना- शोकप्य तनविशेष्य प्रकाय प्रभा स च किशुसुख पलासकुसुम सुकमंलस प्रतीत' गुंजा रत्नस्य अक्षविशेष तदहंचेति इत्य एयां यो रागो

तयाणमसपथमठं निवेदिज्जासि सिकृद्, विसृजिते तपणं समणे भगवं महावोरे कल्ल पाथोप्यमायाएरयणीए पुसु  
 प्यलकमलकोमलुम्मिलितंमि अहापडुरेपहाए' रत्तासौगण्यगायकिसुषुप्तपुनहुं गुंजहरागसरिसे कमलागर

विषयो विसर्ग्यं उधाशादेइनइवहरिमोकल्लठ तएथतिवारपद्धी अमणतपनाकरएहार भगवंसमहिमावंत महावीरकर्मयपुनजीपएहार कल्ल  
 विहाइ एतावतातिणिदिवसयकोवीजइदिवसिपाउप्रकाययया धनंतरजनीरापितेप्रभातविहायीइणियवसरइ मुञ्जविकासांउत्पसकमस तयाकमच  
 हरिषविशेष तेविशुनचकोमलपुशुमासउत्पसनीपांयडीनचकसइरियनानेनचउन्नोक्तनविकायथाइजेयइ एहयउभगत पथरजनीरातिगई  
 तिवारपद्धीपडुरजजउउपहाएप्रभातइवठ रत्तासौगरातउप्रयोकहचतेइनापकायसारियठ किसुप्रपलासनुं प्रुख सुकसुखसुखानूं सुखवाच गुजा  
 विथोठीतेइनउचईं तेइनउरागरगतेइसरिपसर्मानरातठ कमसकषागरउत्पतियायकतिवजिखडकमचनावतेइनचवीधकविकायनउकरएहार



रक्तवं तेन सदृशः समी यः स तथा । तथा कमलाकराः पद्मोत्पत्तिस्थानमृता इदादयस्त्रिषु यानि षण्णानि नखिनवनानि तेषां बीधको विकाशको यः स तथा । तत्र उल्लिखिते उद्धते सुरे रवौ । किंभूते सहस्ररस्मिन्नि दिणभरे तेभ्यसा जलंतेति विशेषणत्रयं व्यक्तम् । संपत्तिकंनिसन्नेत्ति पद्मासने निषयः इदं वै वाचनान्तरपदम् ॥ छ ॥ अंतेवासिसि शिष्याः । अप्योगइयति अपिः समुच्चये एकैका एके अन्वे केचिदपीत्यर्थः । उगपव्वइयत्ति उग्रा आदि देवेन ये भारच्चिकल्वे नियुक्ताः तद्धंशजाश्च अत उग्राः सन्तः प्रव्रजिता दीक्षासाश्रिता उग्रप्रव्रजिताः । एवमन्यान्यपि पदानि नवरं भोगा ये तेनैव

संडवोहए उद्धिशंसुरे सहस्युरस्मिदिणअरे तेयसाज खंते जेणेव चंपा यथरी जेणेव पुण्यभहेचेइए तेणेवउवाग  
च्छत्तिरत्ता अहापडिखंउगहंउगिगिहत्ता संजमेणं तवसा श्रप्याणं भावेसाणाविहरति ॥ छ ॥ तेणंकालेणं तेणंसम  
एणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी बहवे समणा भगवंतो अप्योगइया उगणपव्वइआ भोगपव्वइया राइण्य

जठिश्रीछइउदयपामिउछइसूर्यएहवइरातइवर्णइ एकसहस्रकुइरश्लिकिरणजेहना एहवुदिनकरदिवसनुकरणहारश्रीसूर्य तेयसातेजनइसमूहइ  
करोनइजलंतेजाज्वल्यमानदौपतउ जिह्वांचंपानामानगरी जिह्वांपूर्णभद्रचैत्ययचनउदेहरउ तिहंअतिशयसुंआवइ आवीनइ यथापृतिकुपसाधुनइ  
आचारइअत्रगृहथानकनइविषइजतरिवानीआज्जातेगृहीमागीनइ संयमसतरभेदतेपिंकारी तपवारभेदतेपिंकारी आपणउआजाभाविशुणिभावतउ  
पुवत्तावतउरमाडतउ विचरइपुवत्तइछइ ॥ छ ॥ तिणिकाबिसुथाभारनइविषइ तिणिसमयितेहपुखावकाउनइविषइ अमणतपनाकरणहार भग-  
वंतमहिमावत महावीरकर्मशत्रुनाजीपणहार तेह्नइअंतेवासीशियसमौपिनावसणहार वड्वेवघणा अमणसाधुतपस्त्री भगवंतमहिमावंत

गुणत्वेन व्यवहृता स्तद्व्यजाय राजन्वा ये तेनैव वयस्तया व्यसंस्थापिता स्तद्व्यजाय श्रुता' इत्याहुवयविशेषभूता' नागा वा नागवर्धमभूता' कोरव्यसि' कुर्वन् कुर्वन्वयमभूता' चविया' यातुर्व्यसि' द्वितीयवर्णभूता' भवन्ति चारभटाः जोहन्ति भटेभ्यो विप्रियटतरा सहस्रयोषादय शेषावद्वसि' सैवनायका पसत्यारसि प्रमत्तारो' धर्ममास्रपाठका' श्रेष्ठिन श्रीदेवताध्यासितसोवर्णपट्टाह्वितमस्तका' इवमसि इत्या इस्तिप्रमाणद्रविपरामि- पतय' भवे' वचै' एवमादृशोति एवम्यकारा उत्तमजादकुत्तरूपविणयविषयाण्यसखावस्थानिकमपहाणसीदगकतिजुनसि उत्तमा ये जात्यादय द प्रधाने ये सोमाव्यकान्ती तैरे युक्तान्ते तथा तय जातिमष्टिकाः पच कुचं' पैटका' पच रूपं' यरीराकार' धिनयविशाने च प्रतीते वर्णो गौरत्वादिका

यात कोरव्य खत्तिच पव्व' श्रा भडा' जोहा सेणावद् पसत्यारो सेद्वी इवम अर्थे वहवे एयमाइणो उत्तमजाति कुच  
रूप विणय विखाण वस्य लावस्य विक्रमपहाण सोमग कंतियुत्ता वहुवधणधखणिचयपरियालफिडिआ खरवद्रुणाद्

एकेकउपकुलजेचोपादिनायदकोटवालपणइथापाइतातेषयकुलनाजपनातेरेमवइयाप्रमन्यादोचासीधीछद् जेभादोकरद्रपूज्यसागकरीचाप्यति भोगकुलनाजपनातेणेदोचालोधीछद् सामान्यपणि राजतेइलनाजपनाछद् इत्याहुवधवयनाजपना चत्रिथिचइ वणं मांदि' बीजावर्णनाजपना तैणद्रमडन्यादोचासीधीछद् भटसुमटकुलनाजपना येषविप्रियटभटनाकुलनाजपना सेनापतिसेनानायकतेइदीचालोधीछद्' पसत्यारोधर्ममास्रनाभणषहारतेणिदीचासीधी' यो इश्रीदेवताध्यासितसुवर्णपट्टाकितमस्तक जेद्रव्यसुवर्णरत्ननीरासिकरीहस्रीनइठांकितेइवमकधियद् अनैराइवीजावधेक' च पाहवाएहपादिदेइन्द्रकेतलाएककधियद् उत्तममसीजातिमातानउपच कुलनेपिताउपच रूपमरीरशुभाकार विनय'

टीका

७२

सव

वासा  
नोध

कायच्छाया लावण्यं आकारस्यैव स्पृहणीयता विक्रमः पौरुषं सौभाग्यमादेयता कान्तिर्दौर्घिः बहुधन्यनिचयपरियालफिडिषा बहुवो ये धनानां  
 गणिसधरिसादीनां धान्यानाश्च शाल्यादीनां निचयाः परिवारश्च दासीदासादिपरिकर स्तैः स्फुटिता ईश्वरान्तराख्यतिक्रान्तः अथवा तेभ्यः  
 सर्वसङ्गत्यागिन दूरीभूता ये ते तथा पाठान्तरे बहुधनधान्यान्यनिचयपरिवारा यस्यां सा तथा भूता स्थितिः गृहवासे येषां ते तथा यारवद्गुणाद्दरेषा  
 नरपते राज्ञः सकायाद्दुर्घैर्विभवसुखादिभि रतरेको ऽतिशयो येषान्ते तथा इच्छिद्यभोगा ईप्सिता वाञ्छिताः भोगाः शब्दादयो येषां ते तथा सुहसं-  
 पल्लिया सुखेन संपालिताः प्रक्रीडिता ये ते तथा किंपागफलोवमवन्ति विषहृत्फलतुल्यं पुनर्मुण्णिअत्ति ज्ञात्वा विसयसुहंत व्यक्तं तथा जलबुब्बु, अ  
 समानं कुशाग्रे जलविन्दुः कुशाग्रजलविन्दु स्तद्वच्चक्षलं जीवियन्ति लीवितव्यं च ज्ञात्वा तथा बहुवमिण्यंता इदं विषयसौख्यधनसञ्चयादिकम्

इष्टिअभोगा सुहसंपलिआ किंपागफलोवमंचमुणिअविसयसोवखं जलबुब्बुअसभायं कुभग्गजलविंदुचंचलं जीवियं

नमण्युरूप विज्ञानचतराईपणओ वर्यंशरीरनागौरथर्णादि लायल्लआकारनीस्नाघा विक्रमपुरुषाकारप्रधानउत्तमछइजेहनउ सौभाग्यआदेयनामाकर्म  
 कांतिशरीरनादीसिरूपतिर्णकरीयुक्तसहित बहुधणं धनगणिमधिरिमादिकधान्यगोधूमादिकनानिचयकोठारपरिवारदासौदासादिक फिडियाएहणुं  
 सर्वसगच्छाडौवेगलाथया नरपतिराजातेहनागुणथकीअतिरेकअधिक इच्छिद्यभोगामनोवांछितभोगछइजेहना सुहसंपल्लियासुषइंकरीसधलइप्रगट  
 किंपागफलविषहृत्त्वनाफेलनीउपमाजिमतेषाधइमरइ तिमण्णियजायाछइ एतलइविषयसुपपाडुआजायाछइभगवंतइ जलपांणीनानुषु, दुर्पपोटा  
 समानसरिषउ कुयडाभनइअर्गिअणीइजलपाणीनउविंदुओटीपुतेहनोपरिंचवलचपल जीवितव्यआउपूनाजणजाणीनइ एविषयसुपधनसंचयादिक

पशुषु मनित्वरूप रजइव पटाग्रसक्त विधुषित्ताणति विधुषु भङ्गिति विहाय तथा चइत्तत्ति त्यक्त्वा किं तदित्याह हिरण्यं च रूप्यं यावच्छब्दोपादाना  
दिदं ह्यस्य चेषा सुवर्ण चेषा एवं धातुवत्त वाहणं कीस कीदृशगारं रज्जु रङ्ग पुर अनेसर चेषा विपुत्र धण क्षण्यग रथय मणि मोत्तिय संख सिल  
पशास रत्न रथण मार्ये संत सार सावनेक्य विल्विडुइत्ता विगोइत्ता दार्णं च दार्श्याण परिभाशइत्ता मुलाभविता आगाराधो अथगारियमिति  
व्यक्त चैतन्नवर सुवर्णं मठित धन गवादि वल चतुरंनं वाहन वेगसरादिक पुनर्नं गणिमादि अनक मगठितसुवर्णं रत्नानि कर्केतनादीनि मण्य  
चन्द्रकान्तादय मोत्तिकानि सुक्ताफसानि गङ्गाः प्रतीता गिह्यापवाजानि विद्रुमाणि रत्नरत्नानि पद्मरागा आदियद्वाहस्वशब्दलादिपरिग्रह. एतेन  
द्विसुक्ता भवतोत्वाह सन्ति विद्यमान सार स्वापतेथं प्रधानद्रव्य ज्ञिमित्याह विल्विडुग विधेयिण त्यक्त्वा यिच्छइं वहा ज्ञात्वा नि क्रमण मच्चिमकरणत

च गाज्जण अहुवमिण रयमिवपड्मगज्जगसंविधुषित्ताण चइत्ता हिरण्यं जावपव्वइत्ता अप्पेगइत्ता अहुमासपरिआया  
अप्पेगइत्ता यासपरिआया एवंदुमासा तिमसा आअएक्कारसचप्पेगइत्तावासपरिआया दुवास तिवाम अप्पेगइत्ता

पशुवर्षानत्यक्त्वाह रजसहितवज्रपुइतेजिसचक्रगोरजकारियइत्तिमपापमन्त्रलकाटिकीभनगीकीधीजेणइ मस्यगृप्रकारिद्विधूतचस्रगकरोपरिहरीन  
इथियसुयधनस इव चइत्ताकांठीनइरिस्वरूपठ जाअयथ्यकीसुधसं रत्नमणिप्रमुखकांठीनइप्रवल्वादीचालीधीच्छइ भगवतनइसाथइगकेकसाधु  
पंडमासएकपशाठठहृषीच्छइदीवालीधं त्रेहनइ एइथा एकेकसाधुऽमाससुपर्यायदीचालीधीसुउच्छइ इमएकेकनइविमासइवाच्छइदीचालीधा एकेकन  
इत्रिगिमासइवाच्छइदीचालीधा इमथार्यासच्छसातथाठनवदम इत्यारमासदीचालीधाइवाच्छइनावगथ्यकी एकेकसाधुनइवरस इदीचापर्वयलीधी

तथा तदेव गुप्तं सद्भिर्गोप्याप्रकाशीकृत्य दानातिशयादतएव दाणं च दाइयाणंति दानाहेभ्यः परिभाज्य दत्त्वा गीत्रिकेभ्यो वा विभाग्यो दत्त्वा सुंढाम्भूत्वा द्रव्यतः शिरोलुचनैन भावतः क्रीडाद्यपनयनेन आगाराङ्गे हात् नः कस्येति श्रेयः अनगारितां साधुतां प्रव्रजितागताः विभक्तिपरिणामा-  
द्वा अनागारितया प्रव्रजिताः असंयुक्ताः पर्यायसूत्राणि व्यक्तान्येवेति ॥ छः ॥ तेणमित्यादि साधुवर्णकगमान्तरं व्यक्ततेव नवरं मणिवलियति  
मनोवलिकाः मानसावष्टम्बन्तः वाग्वलिकाः प्रतिज्ञातार्थनिर्वाहकाः परपक्षचोभकारिवचना वा कायवलिकाः च्छादिपरिग्रहेष्वग्लानीभवत्कायाः  
नाणबलियाः अर्थभित्तिरिज्ञानाः दंसणबलिया परिचोस्यदर्शनाः चारित्तबलिया इति व्यक्तं वाचनान्तराधीतं चेदं विशेषणद्वयं ॥ छः ॥ अप्येगइया

अप्येगवासपरिआयासंजमेणं तवसा अप्याणंभवेमाणा विहरंति ॥ छः ॥ तेणंकाणेणं तेणंसमएणं . समणस्स भगवओ  
महावीरस्स ओतेवासी बहवे णिगंधा भगवंतो अप्येगइआभिणिवोहियाणायणी जाव केवलणायणी ॥ छः ॥ अप्ये

इवउच्छइ एकेकविवरसनदीचानाधणी ! एकेकविष्टिवरसनोदीचानाधणी एकेकसाधुचारिव्रियात्थारिपांचआदिदेइनइअनेकवणावरसनापर्याय  
दौचालीधांथयाच्छइजेहनइएहवासासुच्छइ संयमसतरभेदतेणइकरी तपवारभेदतेणिकरी आपणउआत्माभावताप्रत्तांइतायका विचरइच्छइपावत्तइच्छइ  
॥ छः ॥ तेणइकालि तेणइसमइ यमणतपनाकरणहार भगवंतमहिमावंत महावीरकर्मशूनूनाजौपणहार तेहनाअंतेवासीशियथसमीपनावासीसाथइच्छइ  
बहवेषणानिगुंथवाछइव्यनोगाठिअम्यंतरकर्मनीगाठितेविटालीजेणइ तेनिगुंथ भगवंतमहिमावंत एकेकसाधुचारित्रियाआभिणिवोधितज्ञानीमति  
ज्ञाननाधणीमतिपरिपूर्णवंत जावअच्छकोशुतज्ञानीशास्त्रनापाठी अर्थवज्ञानवंत मनःपर्यवज्ञानवंत केवलज्ञानवंत ॥ छः ॥ एकेकसाधु यती मनोवलमनि

सर्वपञ्चाणुसमत्वा मनसैव परेषां प्राणानुग्रहो अणुकारोपकारो कर्तुं समर्थादित्यर्थः । एवं वाचा कायेन धेति खेसोसहितपक्षि खेसो निष्ठोवनं स एवोपधेः सुसकणोरोगाद्यनर्थोपग्रमहेतुत्वात् खेसोपधि स्तां प्राप्ता ये ते तथा एवमन्यत्रापि नवरं । जसोसहिति जसो मलं । विष्णोसहिति त्रिभुप प्रथक्पादिविंदव अथवा विदति चेष्टा प्रदति प्रथक्पण ते एव भोपधि इति । आसोसहिति आमर्षण सामर्षं हस्तादिसख्यर्थे इति । सव्वोसहिति सर्वंपव खेसजसविभुट्केयरोमनखादय भोपधि सर्वोपधि । कोट्टसहिति कोठवत् सुखसद्वय सुबाधंघान्यस्य यथा प्राप्तस्याविनष्टस्याजसमरणा-दुर्मितियेपा ते तथा । वीजसुहिति वीजमिष विविधार्थाधिक्यमरूपमहातरजननादुच्चियेपां ते तथा यत्सुहिति पटवत् विविष्टवज्जवनस्यतिविष्टविविधप्रभृतमूत्रार्थपुण्यफलप्रदसमर्थतया बुच्चियेपां ते तथा । पदानुसारिति पठेन सुबाधयवेनेनोपलब्धेन तदनुक्तानि पदयताव्यनुसरन्ति

गद्ग्रा सखवलिषा नयवलिषा कायवलिषा अप्येगद्ग्राभरणेषावाणुगुहसमत्या ३ अप्येगद्ग्राखिलोसहितपत्ता एवं जल्लोसहि विष्णोसहि आमोसहि सव्वोसहि अप्येगद्ग्राकोट्टबुद्धौ एवंवौश्रबुद्धौ अप्येगद्ग्रापयथाशुसारी

करीधीरहृदयाद् यवनद्विहवठसरद्विहवठनिषहप्रथवापनद्वकरीपरपचनद्वसोभासपजानद कायाद्वल्लवतदुल्लापरीसद्वसद्वद द्विकसाहुमयेण मणिकरीसरायपनद्वपगुहपसादकदिवानद्वसमर्थयोग्यद्व परंसाहुदमनकरद नकाद्वद एकेकसाहुखेलमुखमांशिवू म कतेभोपधीसर्वरोगटालिवा समर्थंएवोश्रव्विपामीद्वदएद्ववाभापुद्वद इमजस्यरोरनरसकतेहनभोपधीद्वलेहनौतेषद्वमाससहित विष्णोसहितद्विनीतिवहीतीतितेहनभोपधी तेलंसहित आमोसहितकफादिकानिफरसतेद्वकरीगटाकतेषिप्राप्तसहित सर्वंससमूत्रवेयप्रखिनखोदिकसपपाद्वद इकेकसाहुकोट्टबुद्धिमिधान

अस्य दूयन्तीत्येवं शीलाः पदादुसारिणः । संभिन्नसोअत्ति संभित्ता न बहुभेदभित्वा न पृथक् न युगपच्छृण्वतीति संभिन्नश्रीतारः संभिन्नानि वा शब्दे न व्याप्तानि शब्दयाहीणि प्रत्येकं वा शब्दादिविषयैः श्रोतांसि सर्वेन्द्रियाणि येषां वे तथा । खीरासवत्ति खीरवम्भधुरत्वे न श्रोतृणां कर्णमनः सुशुकरं वचन माश्रवंति जरंति ये ते खीराश्रयाः । महुआसवत्ति मध्वाश्रयाः प्राग्गत नवरं मधुवत्सर्वदीपोपशमनिमित्तचा दाह्यादकलास तद्वचनस्य खीराश्रयेभ्य स्तु भेदेनोक्ताः । सप्यिआसवत्ति सर्पिराश्रया स्तथैव नवरं श्रोतृणां खविषये खेहातिरेकसंपादकत्वात् खीराश्रवे मध्वा अविभ्यो भेदेनोक्ताः । अक्खीणमहाणसोयत्ति महानस मन्नपाकस्थानं तदाश्रितत्वाद्वात्रमपि महानस सुचते ततथाचीणं पुरुपगतसहस्रेभ्योऽपि दीयमानं स्वय

अप्येगइआसंभिन्नसोआ अप्येगइआमज्जआसवा अप्येगइआसपिआसवा अप्येगइआअक्खीण

नउकोठलउभयउडइधान्यविणसइनही तिमसाधुबुद्धिभयाच्छइ इमवीअबुद्धी जिमवीजयकीघणीनिष्पत्तिथाइतिमथोइइकरीघणंजाणइ जिमपहवसपसारी घणाफूलफलगृहितिमबुद्धिं करीवणासत्र अर्थगृहइ इकेकसाधुपयाणसारोतेकहिइजेएकपदकहइतेहनइअनुसारिपदनागतसहस्रकहइ एहवीलब्धि सहित इकेकसाधुसंभिन्नश्रोतसमका नजुआर अनेकशब्दसंभलइ अथवागब्दादिकपांचएकेकइंद्रियइगृहइते गइसहित इकेकसाधुखीरासवासांभलण हारजेसाधुवचनकहइतेदूधसरीपामधुरजानइतेणइसहित इकेकसाधुसांभलणहारजेसाधुवचनकहइतेमधुषांडसाकरसरीपामधुरामीठाजाणइतेणइसहित एहवालब्धिवंतकइ इकेकसाधुसप्यिआसयासांभलणहारजेसाधुवचनकहइतेसर्पिष्ठतसरोषांवचनवीलइस्त्रे हजपजावइतेणइसहितकइ इकेकसाधुअक्खीण महाणसिआतेकहिइइ जे एकइपातइआहारआणीगतसहस्रलचनइदीजइतउपुणपूटइनहीतिणइसहित साधुएहवासाथइलब्धिवंतकइ इमकजुमतो

मभूत् सत् तथाविधसत्त्विविशेषाद्दुष्टित तस्य तन्महानसं च भिषाख्य भोजन मन्वीषमदानसं तदस्ति येषां ते तथा । उज्जुमद्रन्ति ऋज्वी  
सामान्यतो मनोमात्रशास्त्रिणी मतिर्मान. पर्यायज्ञानं येषां ते तथा । विरलमद्रन्ति विपुला बहुविधविशेषणोपेतमन्यमानवस्तुपाहित्वेन  
विक्लीर्णा मतिर्भ्रम पर्यायज्ञानं येषां ते तथा तथाचि घटोत्तनेन चिन्तित स च द्रव्यत सोपर्णादि 'चेन्नत' पाटलिपुत्रकादि काशत  
सारदादि भाष्यत' काशवर्णादिरित्येव विपुलमनयो जानन्ति ऋजुमतयस्तु सामान्यत एव तथा षड्दृतीयांगुन्यने मनुजचेवे व्यथस्मित-  
रुद्रिना मनोपाशिका प्राया इतरे तु संपूर्णैरिति । विरल्विणिद्रिपत्ति विक्रवण्या वैक्रियकरणख्वि सेव ऋषिस्तां प्राप्ता ये ते तथा  
चारणन्ति चरण गमनं तदतिमय वदन्ति येषां ते चारणाः ते च द्विधा अवाचारेणा विद्याचारेणाय तथाष्टमादनेन चेपतो यते यो ऋषिदप पद्यते  
यथा च कश्चिज्जहाथापारसाथित्यैकेनेत्रोपपत्तेन षणोद्गमरचनवराभिधानं द्योपं नेरमस्तक च यावद्दन्तुं प्रतिनिहत्तय तत उत्यातदयेनेहामन्तुं

सहाणमिद्या एवउज्जुमती अप्येगइथा विरलमई विरल्विणिद्रिपत्ता चारणाविव्जाहरा आगासातिवाइणो

सामान्याकारिमनउ चीतव्युत्राणइतएइसहित पाठांतरि ऋजुमतिगुधणो षठाईभंगुलजणाषठाईद्वीपनास प्रोयापचेद्वेयनीमनोगतभात्राणइ विपुल  
मतिनउ रणोपरिपुर्णं षठाईद्वीपनासप्रियापचेद्वीयनामनोगतभात्राणइ एकेकसाधुविपुलमतोविशेषय तीविस्तोसंबंधेनकारेनतिं करीमनउचितव्य जाणइ  
तियसहितएइवासाधुइइ तपकरताविक्लीयगत्तिकरीनइवैक्रियरुपनववाकरिवानौऋषिप्राप्तसहितइजघाविव्जाधारणनोपरिवाइइतेमाटइधारणनाम  
तेचिसहितप्रप्रधादिवियातेइनाधरणचारेतेचिसहितसाधुखि पाकायित्तयतएइइवोल्बिमाधयोतेपाकायातिपालोकाडिइ एकेकसाधुकनकावसोकनस



समर्थो भवति तथा युक्ताः आथा या पुनः पठं पठेन जयत उत्पद्यते यथा न्युतवहिते पटुपटभयोत्पातद्वयेनाटमं नन्दीश्वराख्यद्वीपं सेरुसूक्तं च गंतुं ततो निर्हेत्तयैकेनैवोत्पातेनेहागंतुं समर्थो भवति तथा युक्ताः क्षितोया इति । विल्लाहरति प्रज्ञस्यादितिविधिविध्याविधेयधारिणः प्रागासा-  
तिवाइत्ति आकाशं व्योमितिपतंत्यतिक्रामंति आकाशगर्गमविद्याप्रभावात् पादलेपादिप्रभावाद्वा धिरख्यरुध्यादिक मित् मनिटं वा इतिश्रयेन पातयंतीत्येवं शील आकाशगतिपातिनः आकाशादिधादिनो वा प्रमूर्त्तानामपि पदार्थानां साधनसमर्थंवादिनइति भावः । कणगात्रलिं  
तवीकर्मपंडिवस्वगन्ति कनकमयमणिकमयो भूषणविशेषः कल्पनया तदाकारं यत्तपस्तत्कनकावलीलुच्यते तत्स्वापना चैयं चतुर्थं यत्त मटम  
चोत्तरार्धेणवस्थाप्य तेषा मधोशत्रुमनि चत्वारि पंक्तिद्वयेनाऽवस्थापनीयानि उभयतो रेखाचतुर्केण नवकोष्ठकात्रिधाय मध्यमे शुन्यं

अप्ये गइश्चाकणगात्रलितवोकर्मपंडिवया एवं र्कोवलिं बुडुकुसौहनिक्कीलियं तत्रोकर्मपंडिवया अप्ये महालयंसीह

सुवर्णं मणिसयश्चाभरणविशेषपहारतेहनौकल्पनाइतपकरिखइते कनकावन्नौतपचिल्लीश्रील्लोइतपदिन ४३४ पारणादद पारणैविगइरसहित त्री श्रीश्रीलिइतप  
पारणाएतन्नाजपारणेनीवी लौजीउल्लोइतपपारणाएतलाजपारणाएश्रश्चिल सर्वत्रयेथ मास८  
दिन१८ ते षइसहित इमएकानुलीद्वारकंठाभरणतेहनौकल्पनाइतपकरइ पदिल्लोश्रील्लोइमास१४ दिन२ इगचिपुंश्रीनीयरस४ मास८ दिन८ पारण  
इविधिपदिल्लोपरिजाणयो खुडुगल्लुडुडुंधिंठनिक्रीडितः प्रागल्लोउठसिंहनिक्रीडितकक्कीमइ तेषोभपेजाइंएल्लुशुनकशिइ तिमसिंहप्राधउजाइवल्लो  
पाकुंलोइतिमएतपउपवास१ पारणउवनौर इम१३ इसनवल्लोभडोकरइएकइश्रील्लोइमान६ दिन० चिपुंश्रीलिइवरसर दिन१८ पारणइविधिपूर्विल्लोज

विधाय त्रियेवष्टु तानि स्थापनोयानि तत स्तस्याधोऽध चतुर्थीदीनि चतुस्त्रिंशत्सप्तपर्यन्तानि तत कनकावलिमध्यभागकल्पनया चतुस्त्रिंशदष्टमानि तानि चोत्तरार्धेण च शीणि चत्वारि पञ्च षड् पञ्च चत्वारि श्लोणि द्वे चेत्येवं स्थाप्यानि प्रथवा ऽष्टानि पञ्चत्रिंशत्कोष्ठकान्विधाय मध्ये गूढं कत्वा त्रियेषु तानि स्थापनोयानोति तत उपर्युपरि चतुस्त्रिंशत्सप्तमादौनि चतुर्थीतानि तत पूर्ववदष्टापष्टमानि ततोऽष्टमं षष्ठं चतुर्थं चेति चतुर्थीदीनि च क्रमशेः कोपवासादिरूपाणीति अथ चैकस्यां परिपाटायां विज्ञातिभिः पारणकं द्वितीयस्यां निव्विंशतितेन ततोयाया मल्लेषकता चतुर्थीयावाद्यमिति । अत्र चैकैकस्यां परिपाटायां शिकचवक्त्रो मासा भंघ दिनानि च ह्यादयः । परिपाटोचतुष्टये तु सवकरा भंघ मासा नव दिनानि बाष्टादशेति एवं एकावशो कनकावल्परभिलाषित्वर्थे एकावशो च नान्यत्रोपसन्नेति न विचिता । खुट्टुगर्भोऽनिक्रीडयति वस्त्रमाणमश्वासिंङ्नि- क्रोडितापेचया सुद्रकं सिंहनि क्रोडितं सिङ्गमनं तद्विद यत्तपस्क्रिङ्गनि क्रोडित निराण्यते तद्मनं चातिक्रांतदेशावस्योक्तगत एवमति क्रांततप समावेशनेनापूर्वतपसोऽनुष्ठानं यत्र तत् सिंहनि क्रोडितमिति तस्यैवं चतुर्थं तत षष्ठवतुर्थेऽष्टमपष्ठे द्यमाष्टमे द्वादशदशमे चतुर्दशषा- दशे योऽन्यचतुर्दशे बाष्टादशयोऽशुत्रे विगतमतमाष्टादशे विगतितमं चेति क्रमेण विप्रयते । तत योऽशुत्रादशे चतुर्दशषोडशे द्वादशचतुर्दशे द्वादशे ऽष्टमदशमे पञ्चाष्टमे चतुर्दशपष्ठे चतुर्थं चेति स्थापना चैव । १।२।१।२।३।३।४।४।५।५।६।६।७।७।८।८।९।९।१०।१०।११।११।१२।१२ । अथ च एकास्यां परिपाटायां दिनमानम् । नपकसकलने हे । ४।५।४।५। षट्कसंकलना चैका ३६ सप्तकसकलनायिकेव २८ । पारणकदिमानि । ३२ । सर्वाप १८० एव च मासा ६ दिनानि च ७ चतस्रु परिपाटोच्चेत्तदेव चतुर्गुणं स्वात्मत्र वर्षैर दिनानि २८ । तत्र प्रथमपरिपाटायां पारणक सर्वकामगुणितं द्वितीयस्यां निर्दिशतित्वा ततोयाया मल्लेषकारी चतुर्थ्यां मायामान्त्वमिति । एव महसिङ्गनि क्रोडितमपि नवर मिश्र स्थापना-



पश्चात्त पारपकदिनानि एवं चाटो मासाः पञ्चदिनानि चतस्रु परिपाटीये ते चतुर्णमिति । आर्यविभवहमाणति यत्र चतुर्थं ज्ञत्वा पायामास  
 क्रियते पुनर्यतुं पुन ह्ये पायामान्ने पुनर्यतुं पुनश्रीणि ( सप्तगण्डगासूत्रं ) आयविल्लंकरेद्द् चतस्रु करेद्द् वै आयविल्ले करेद्द् चतस्रं करेद्  
 इत्यादि एवं पगुपरिया एपट्टीए आयविल्लाद् चट्टति चतस्रं तरियाद् जाय आयविल्लंकरेद्द् चतस्रं करेद् ( पायामान्नानि एवं ) यावच्चतुर्थं  
 गतं पायामात्रानां क्रियत इति इद् च यत चतुर्थानां तथा पञ्चसहस्राणि पञ्चायसृष्टिज्ञानि पायामात्राणां भवन्तीति मागिर्यं भिष्यु  
 पञ्चमं मासपरिमाणा मासिकी तां भिष्युगतिमां साधुप्रतिष्ठाविनेप तत्र षड् मासं यावदेकादन्निर्भक्तस्यैकैव च पानकस्येति एवं द्वितीयाद्याः सप्तम्यन्ता  
 एकेकदशविद्युक्ता इति ५८ । सत्तरार्द्धदिएति तिसृणां मध्ये प्रथमा सत्तरात्रिन्दश सप्ताहोरात्रिप्रमाणा अस्यां च चतुर्थं चतुर्थेभ पानुकाहार

निष्कीलियंतयोकम्मपडिवया भद्दपडिमं सहाभद्दपडिमं सव्वतोमद्दपडिमं आयतिलवद्धमाणं तवोकम्मपडिवया मासिअं  
 भिन्नखूपडिन एवंदोमासिअं पडिमं जाय सत्तमासिअं भिन्नखूपडिमं पठमंसत्तगाद्दंदिअं

परि एववातापनाकारणकारसाधिसापुण्ड एकेकसाधुमहाविंशतिश्रीकृततपनाकरणकारसाधिसापुपरिवय्याभगर्थतपधान्याखद्द तपउपवाउ१ पारणउ  
 पण्ड२ पण्ड३ पण्ड४ इम१६ सगीचद्द परिचीचीनीतपदिन४७ पारणा११ चवंमास१८ दिन१८ चिदु चोनिद्वरस६ मास२ दिन१२ पारणागौ  
 तिधिपूर्वकीप्रपरिजाणची भद्दप्रतिमाएकेकीदिगिप्र४४ काठसुपपूर्वदधिणपयिमठत्तरएवप्र४१६ मानउपवामरमहाभद्दगतिमाएकेकोदिगिप्रकेकदिन  
 भगीताउत्तग एवचसोरावि४प्रमाणउपवाम४ चवंतोमद्दप्रतिमाएकपरिवाडोदतपदि१०५ पारणा२५ इमपरिपाटो४ दिन८०० मास२६ दिन२०

विरहित उत्तानकी वा पाश्र्चयायी वा निषद्यीपगती वा ग्रामादिभ्यो बहि विहरति द्वितीयसप्तरात्रिदिवाप्येवंविधैव नवरं उकुडुकी वा लगड  
सायी वा दंडायन्ती वा विहरति एवं तृतीयसप्तरात्रिदिवापि नवरं गोदीहिकास्थितो वा वीरासनिकी वा आम्नकुज्जकी वा आस्तइति । रात्रिदिश्र्चि

भिक्वूपडिमंपडिवशा जावतच्चंसत्तराद्रिश्चभिक्वूपडिमंपडिवशा अहोराद्रिश्चभिक्वूपडिमंपडिवशा

एहवातपनाकरणहारसाधुसाधइइइ इममहासर्वतोभद्रप्रतिमातपपहिलीषीलीदिन१६६ पारणा४६ एवंमासददिन५ इमचारिपरिपाटीमास३२ दिन२०  
सर्ववर२ मासद दिन२० एकैकसाधुआयंक्लिष्वंमानतपनाकरणहारआयंक्लि१उपवास१वलीआयंक्लि२उपवास१वलीआयंक्लि२उपवास१वली  
आयंक्लि३उप०१ इमआयंक्लि१०० लगीचडइसर्वमिलीआयंक्लि५०५०उपवास१०० सर्ववर२४मा३दिन२० एतपगुंमान पहिलीएकमासनीभिचूनीप्रति  
मात्रभियहविशेषकमासलगीदाति१एकेकीभातनीदिनप्रतिखेवी पाणीनीपुणदाति१लेवी इमवीजीभिचूनीप्रतिमाविमासनोविमासलगीदिनप्रतिदाति२  
भातनीदात२पाणीनीलेवी इमत्रीजीभिचूनीप्रतिमासा३लगौ दिनप्रतिभातनीदाति३पाणीनीदाति३लेवी जावशब्दयकीअनेरीइ प्रतिमाजाणवी  
चउथीमास४भातनीदाति४पाणीनीदाति४पांचमोमास५भातनीदाति ५पाणीनीदाति५छट्टीमास६प्रतिदिनभातनीदाति६पाणीनीदाति६सातमीमासदिन  
प्रतिमाभातनीदाति७पाणीनीदाति७तेअभियहपखिषजीनइभगवंतइसाथइप्रवत्तंइइइ आठमीसातदीहनी तिहांएकांतरउपवास३रइ गामबाहिर  
जताणउ अथवापासइ अथवापालगठीबइइइ पाणीरहितएहवीप्रतिमाअभियहपभिचूनइइइ जावशब्दयकीनवमीप्रतिमासातदिवसनीगामबाहिरजक  
डलंगडयायीपानहीमाथानीकीपरीभूमिलागइवीजुगरीरजपाहीइमरइइ अथवादंडायत १ दशमीप्रतिमासातदिवसनीगीहिकासनिअथवावीरासनअथवा

रात्रि दिवसप्रमाणा महीरात्रिको मिथयं पक्षा च पक्षोपवासिको घामादित्यो वधि प्रसवमुजस्तिष्ठतीति । एगरात्रयंति एकरात्रिप्रमाण मक्षा इत्येक-  
 रात्रिको तां पक्षा चाष्टमभक्तिको घामादिवधि रौपद्वन्द्वतगात्रो प्रतिमियनयन शुक्लपुत्रस निरुहृष्टि मिनसुद्रास्त्रापितपाद. प्रकथित भुण  
 स्तिष्ठतीति विगिष्टसहननादियुक्तएव चैसा प्रतिपद्यन्ते पाह च पठिवज्जर एयापो सवयणधिदृजुषो महासत्तो पठिमापो भावियया सप्त गुरुया  
 पणवापो इत्यादि ॥६॥ सप्तसप्तमियति सप्तसप्तमानि दिनानि यथा सा च सप्तभिर्दिनानां सप्तकै भवति तत्र च प्रथमदिने एकादसिर्भक्तस्य  
 केव च पानकस्यैवं द्वादिनेकोत्तरया सहसा सप्तमदिने सप्तसप्तकानि यथवा प्रथमसप्तके प्रतिदिनमेकादसि द्वितीयादिपु

इकारारंदित्र भिक्खु पडिसं पडिसं भिक्खु पडिसं अट्ठमिअभिक्खु पडिसं यवणवमिअ भिक्खु

अवबुजासनि एहदी भिक्खुसाधुनी प्रतिमापमियहपडिवजो विवररुद्धर इयारभोपटोरारविनी भिक्खुसाधुनी प्रतिमापमियहपडिवजो यामवाधिरिच्छहृत्तपि  
 प्रजयवापुत्तररुद्धरुद्धवासाधुभगवतनरुद्धाधि विवररुद्धर वारमोएकरारविनी भिक्खुसाधुनी प्रतिमापमियगुचयिषेपष्टमतपपडिवजद असानिकाउ  
 सगिरुद्धर हृष्टिमीयोन्नेपनकररुद्धवासाधुभगवतनरुद्धाधिविररुद्धर सप्तसप्तमि ग तपदिन४८ पडिवोदिन४८ एकेकोदातिभतिपाणोनी वोजइसातर  
 विविदाति तौजइसातरविण्णिरुद्धाति पुयइसातिथाररुद्धाति पाचमइसातरुद्धाति५५ अट्ठइदाति१५० सर्वदाति१८१ एभिक्खुनापमिगुह  
 विषेप जाण्णिवा अट्ठमपट्टमियादिन५४ पडिवोदिन८८ एकेकोभातपाणीनादाति योजातिमन्ददाति१२ वीकोदिन८८दाति१३ पुथीदिन८८दाति४ पांचमी  
 दिन८८दाति५५ अट्ठोदिन८८अट्ठदाति सातमीदिन८८दाति१०० साठमीदिन८८दाति१०० नवमनपमियाभिक्खुनीप्रतिमापमिगुहविषेपपदिन८८



र्षद्रप्रतिमा तथाहि मूल्यप्रतिपदि एकं कथलं भिषा वा अभ्यवहृत्य प्रतिदिन कथसादिष्ठ्या पषदय पौर्णमास्यां कथ्यप्रतिपदि च पषदयैव भुक्त्वा प्रतिदिन मेकहान्या पसावाप्याया मेकमेव यस्यां भुक्ते सा यवमथ्येति । यद्दमन्तं चंद्यच्छिमिति वैरस्थैव मध्य यस्यां सा तथा यस्यां हि कथ्यप्रतिपदि पषदय कथलान् भुक्त्वा ततः प्रतिदिन मेकहान्या पसावाप्याया मेकं यत्प्रतिपद्येकमेव तत पुनरेकैकहारा पौर्णमास्यां पषदय भुक्ते सा तदुमध्य त्वाहज्जमथ्येति ६ छ ॥ याचनांतराधीन मय पदचतुष्क विवेकन्युग विवेकन्युग सचांतराणां कपायादीनां वाह्यानां च गणगरी राहु-

वय्या वज्जमज्ज चंद्रपच्छिंतंपच्छिवया संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेसाणा विहरति ॥ छ ॥ तेषकालेय तेषंसमएयां

मोकप्रतिमानेकद्वियद् जेमाचउपरिठवदुनही द्रव्ययकीपेचयकौर्णामबाहिरकालयकौगरत्कानिपयवाउण्यकाक्षिपाहारकरीयद्विउजद् तउचउदय भक्तिपूरीयाद् सयरासकरितांक्षिगिमावठंनपरिठउद् भावयकोउपसर्गसहद् इममहामोकप्रतिमाजद्पाहारकरीपडिवजद्दततपोउयभक्तकरद् पाषारविणुपच्छिवजद्दतउपटादयभक्तकरद् एतन्नाकालखगीमावठनपरिठयद् इत्येतेत्रकालभावपक्षिरींजाणवठ इममहामोकप्रतिमानाधणीभगवंत नोमायिजद् जवमन्तसदपडिमतेनदिइलिमजवविषाखद्जाडठविद्दपार्सिंपातसठ तिमपडिवेदकथल कीलि वि प्रोजि जिनिष्ठ इमकरतांपू निमद्द १५तिगारपच्छिजतरगाकवस्रपडये १४वोजद्द१३इमकरतापभावसिंकावस्रएजवमन्तसद्रप्रतिमजाणवी वज्जमन्तप्रतिमानेकद्वियद् जिमयज्जुविषाखद्दपतलुं विषुंपासद्जाडु तिमएप्रतिमापडवे १५पज्जइएकेकजतरतउपूंनिमद्दकत्रस्रनिहायकीयसौएकेकयाध तद्दपमावास्याद् कवस्र १५एकवाचभिगुद्दविशेषनाधरण चारसाधुभगवंतनीसायद्दइ संयमसतरपकारतेणद् तपयारभेदेतेणद् पापखउपाम्ना भावतायकारमाडताहिवरद्दइ ६ छ ॥ तिषिकालइधुयापारानइ



चित्तभक्तपानादीनां तत्प्रतिपत्तिविवेकप्रतिमिति विवक्ष्यते । तद्व्याप्यमिति व्युत्कर्णप्रतिमा कायोत्कर्णं करणमिति । उवद्याणपडिमिति तपोविषयो अभिगृहः यद्यपि दशाश्रुतस्त्वंधे भिक्षुपायकप्रतिमास्वरूपेय सुक्ता तथाप्यौह तथा न व्याख्याता भिक्षुप्रतिमानां प्रागेव दर्शितत्वा दुपासकप्रतिमानां च साधूनाम सभवात् । पडिसलीणपडिमिति संलीनताभिगृहमिति ॥ छः ॥ तेषां कालेण मित्यादि साधुवर्षक गमांतरमेव तत्र जाईसंपन्नइति उत्तममाढकपच्युक्ता इत्यवसेय मन्थया माढकपचसम्पन्नत्वं पुरुषमाचस्यापि स्यादिति नैषा सुक्ताः कश्चिदुक्तः स्यात् । विशेषणकदम्बकं चिकीर्षितमिति । एवं कुलसंपन्ना इत्याद्यपि विशेषणवकं नवरं कुलं पैटकः पचः बलं संचननसंयुक्तः प्राणः रूपमाकृतिः विनयज्ञानि प्रतीते दर्शनं सम्यक् चरित्रं समत्वादि लज्जा अपवाद्भीरुता सञ्जमी वा लाघवं द्रव्यतो अल्प्योपधिता भावतो गौरवत्रयत्यागः । उअंक्ति क्रोजो मानसो ऽवष्टम्ब स्तदन्त क्रोजस्त्रिनः

समणस्सुभगव ओमहावीरस्सु अंतेवासीव ह्वेथेरा भगवंतो जातिसंपन्ना कुलसंपन्ना बलसंपन्ना रूवसंपन्ना  
 विणयसंपन्ना गाणसंपन्ना दंसणसंपन्ना चरित्तसंपन्ना लज्जासंपन्ना लाघवसंपन्ना उअंसो तेअंसो वच्चंसो जसंसो

विषय इतिणसमयि तेदन्नत्रसरनइविषय अमणतपकरणहार भगवंतमहिमावंत महावीरकर्मशत्रु नालीपणहारतेहना अंतेवासीसमीपनावसणहार बह्वेघणाथिविरवरस६० नुं पर्यायथविरवरस२० दीचालीधांडुआच्छइजेहनिश्रुतथविरठाणांगादिकनभेदलह्याएहवाइप्रकारनाथविर भगवंतमहिमावंतजातिमातानउपचनिर्मलछइतेणइसंपन्नसहित कुलपितानउपचनिकलंकतेणइसहित बलसंपणसंघयणसंबंधीवलजोरतेणइसहित रूपशरीरउत्तमआकारतेणिसहित विणयनमणगुणतेणइसहित ज्ञानउत्तममतिश्रुतादिकतेणइसहित दंसणसमकितसावीमतिसहइगानइविषैतिणइसहित

वचसि यचो वचनं लोभाय्याद्युपेतं वेद्या मच्छि ते वचसिन्' वयथा वचं छेज प्रभाव इत्ययं षडहसो वचसिन्ति यश्चिन्न स्यातिमन्तः  
 जितक्रोधादीनि सप्तविशेषणानि प्रतीतानि नवरं क्रोधादित्रय उदयप्राप्तक्रोधादिविफलीकरणतो प्रयत्नेय लोविपासमरणभयविष्यसुखा लोविताप्रया  
 मरणभयेन च विप्रसुखा षडुभयोपेक्षका इत्यर्थं वयप्यहासिन्ति व्रत यत्तिल्य प्रधानं सुप्तमं मात्वादियतित्वपिचया नियन्वयतित्वा चेषां प्रतेन वा  
 प्रधाना ये ते तथा नियन्वयमथा इत्यर्थं ते च न व्यनहारत एवेत्यत पाश्च गुण्यहासिन्ति प्रतीत नवरं गुणा कारणादयः गुण्यमाधत्वात् मीव प्रपञ्चयन्नाह  
 कारण्यहासिन्त्यादि विशेषणसक्त प्रतीतार्थं च नवरं कारणं विच्छन्निशुद्धादि वरणं महाप्रतादि निगृहीतं वनाचारप्रवृत्ते चिपेधन नियय स्यात्तन्निर्णयं  
 विद्विनाशुहानियु वा स्वयस्य कारणाभ्युपगमं फाल्गवं माषोदयनिगृह माहं वं मनोदयनिगृह साधवं क्रियासु दचलं चान्ति लोधीदयनियेधइत्यर्थः

जिचक्रोहा नियमाणा जिचक्रमाया जिचक्रोभा जिचक्रदित्रा जिचक्रिहा जिचक्रपरीसहा लोवित्रासमरणभयविष्यसुखा  
 वयप्यहाणा गुण्यहाणा कारण्यहाणा चरण्यहाणा विगह्यहाणा निच्छयप्यहाणा अज्जवप्यहाणा

परिचक्रमस्मितमहाप्रततिपै सचित जन्वापपवादयकोवीहसु तेणइसहित जन्वयकोपरिहाररीणइसहित वचसोचिन्तनचधीरपणउतेणइसहित तेजगरीर  
 भीषसप्तप्रभातेणइसहित वचनसोभाग्यवंततेणइसहित जसस्योउप्तमजसंबत जीतउं ऊउक्रोषउदयभाब्यउमिःफिसकरइसहर जीतउमानचभिमानप्रकार  
 पाव्यउविफसकरइसहर जीतोहेमायापरनइवंविबुंजेणइ जीतउलोभवांछालोमजपनइविफसकरइसहर जीतीकइइद्रिययांचजिणइ जीतीकइइनिद्रातथा  
 निदा जेणइ जीताकइपरीसहवावीसउदयभाब्यइसहर जीवतव्यजचणउनीवतव्यउतेइतो भागावांछापनइमरणउजेभयतेइयकोविप्रसुक्तसंकाणाइइ

सुक्तीर्लोभीदयनिरोधी विद्याः प्रज्ञासादिकाः मन्त्रा हरिणे गमेथादि मन्त्राः वेदाः आगमाः ऋग्वेदादयो वा ब्रह्म ब्रह्मवयं कुशलाशुष्ठानं वा नया नीतयः नियमा अभिगृहाः सत्यं सत्यग्वादः शौचं द्रव्यतो निर्लेपता भावतो अनवयसमाचारः यद्येह चरणकरणगृहणीयार्ज्जवादिगृहणं तदार्ज्जवादीनां प्राधान्यख्यापनार्थं मवसेयं चारुव्यक्ति सत्कौर्त्तयः शौराद्युदात्तशरीरवर्णयुक्ता वा सत्युन्ना वा लज्जातवस्वीजिद्दिद्यति लज्जाप्रधाना स्तपस्विनः शिथ्या जितेन्द्रियाश्च येषां ते लज्जातपस्विजितेन्द्रियाः अथवा लज्जया तपःश्रिया च जितानीन्द्रियाणि ये स्ते लज्जातपःश्रीजितेन्द्रियाः यद्यपि जितेन्द्रिया इति प्रागुक्तं तथापीह लज्जातपेविशेषितत्वान्न पुनरुक्तत्व मवसेय मिति सोहिति सद्ददो मित्राणि जीवलोकस्येति गम्यं अथवा

मद्वप्यहाणा लाघवप्यहाणा खंतिप्यहाणा सुत्तिप्यहाणा विज्जाप्यहाणा संतप्यहाणा वेअ प्यहाणा वंभप्यहाणा  
नंयप्यहाणा नियमप्यहाणा सच्चप्यहाणा सोअप्यहाणा चारुवणा लज्जा तवस्वी जिद्दिआ सोहो अणियाणा

एहवासाधुसाथइहइ व्रतयतोयपणचंजेहकगहइप्रधानछइ गुणकरुणादयानापधानउत्तमछइ कारणयत्तरीक्रियानापिंडसहिवाप्रधानगुणतेणइ सहित चरणचारित्रमहाव्रतप्रधानउत्तमतेणइसहित नियहअनाचारनियेधवउतेहजप्रधानउत्तमतेणइसहित निययतत्वमार्गमाचारनउनियैयप्रधान तेणइसहित आर्जवमायानाउदयनउंनियहिवइतेहनउप्रधानउत्तमतिणइसहित मार्वंमाननउदयनउंनियहिवेतेहप्रधानउत्तमतेणइसहित लाघव क्रियानइविषइडाहोयारपणचंप्रधानतिणइसहित चसक्रीधनउंनियहिवइतेहप्रधानउत्तमतेणइसहित सुक्तीर्लोभीएणउतेहप्रधानउत्तमतेणइसहित विद्याप्रज्ञासोपमुषप्रधानउत्तमतेणिसहित मंत्रहरिणेगमेपीनाप्रधानतेणिसहित वेदसिद्धांतप्रधानउत्तमछइतेणइसहित अथवाविदधनाजाणछइ वंभचर्या

सोधियोगोष्ठीधयः भक्त्युपपन्नदया इत्यर्थं अपिप्राण्यन्ति यनिदाना निदानरुचिताः अप्युत्पुयन्ति अलोत्पुत्वा सोत्पुत्वा अर्जिता अवहिते सति संयमाद्  
वविभूतमनोवशवः अप्यद्विजेष्वा वा पगतिजेष्वा पतुसमनोवसप सुवामखरयति पतिशयेन यमपकर्मासक्ता दतति शुभभिर्दम ग्राहिता  
निगयिता इत्यर्थः इदमेव नेगुव्य प्रवचनं पुरषोकायोति पुरखुत्य प्रमाणीकृत्य विहरन्तीति क्वचिदर्थं च पठते बहून् आयरिया सर्वदायकलात्  
बहून् स्वक्याथा एतदायकलात् वसनां गृहस्थानां प्रयत्नानां च दीपद्व दोषी मोहतम पटखपाटनपटुलात् दीपद्व वा हीप ससारसामर-  
निमनाना माखासमूतालात् सार्थंति टापमनैभ्यो रचकलात् सरणंति ग्ररण मर्धसम्पदादकलात् गदसि गम्यत इति गतिरभिगमनीया इत्यर्थः

अप्युसुधा अवहितेष्वा अप्यद्विजेष्वा सुसामथरया दता इत्यभेवणित्गर्गथं पावयण प्रुरच्योक्तोद्यो विहरंति ॥ छः

प्रधाननाधरपचार भवसातनवप्रधानसप्तमतेहनान्यायनाज्ञाप नियमपभियुषप्रधानसप्तमतेहसहित सत्यसाधु वीक्षिषु प्रधानसप्तमतेहसहित योषद्रव्य  
योषीभरहितनाभाधयीनिरससासामापारीप्रधान सप्तमतेषिसहित आरमनोहरवर्णं कीर्तितेषिसहितगौरव्यंयुषपववारुहाप्रुम्राजेइनी संयमनोसाजय  
इहहृद जेहृदप्रहृगादिकतपनाकरणहार इद्रियध्पांचनाजोपणहार जगजोवनाभिनिसंलक्ष्ययुषजेइना निषाणु तपवेवोनिप्रार्थिषुं तखिरहित अत्यजे  
इभावरकपउं एतसधोरद्विसनाधणी संयमयकीलेस्थामननुं परणामपाहुं उंवाहिरनीसरतउनयी अप्रतिलेसगएइवीमननीषुभिजीजानीनयो सुभुभलच  
सामान्यपारिलपासवानइविपहरकरातारागो इद्रीनाइमथधार एषुक्निधयसहितनिगुंय भगवतनउप्रयचनसिक्तातभागं पुरउभागलिकरोप्रमाण्याकरीनइ  
विचरइप्रवर्णंइहृद छ तेइ भगवतसहिमाधतसाधुनइपालवादीविहंतविदितजाख्याहइ परवाट परमासनीनागासुपुणविदितजास्याहइ पायावाद्यो

पद्मद्वि प्रतितिष्ठस्यस्यामिति प्रतिष्ठा आययद्द्वयर्थः ॥ तेषां भगवतां आयायायाविति आत्मवादाः स्वसिद्धान्तप्रवादा अपिः समुच्चये पाठान्तरेशात्म-  
वादिनी जैना द्वयर्थः विदिताः प्रतीताः भवन्ति तथा परवादाः शाक्यादिमतानि पाठान्तरेण परवादिनः शाक्यादयो विदिता भवन्ति स्वपरसिद्धान्त-  
प्रवीणतया ततय आयावायंति स्वसिद्धान्तं जसद्भूतं पुनरावर्त्तनेनातिपरिचितं क्त्वा किमिव के प्रत्याह नलवन मित्र मसमातङ्गा इति प्रतीतं  
नलयनाः इति पाठान्तरं नलवनानीवेति व्याख्येयं ततः अस्मिद्भूतसिद्धान्तगणति अविरलप्रशा अधिलोत्तराद्य सम्भूताः सन्तो विहरन्तीति योगः  
रयणकरंभगसमाणति प्रतीतं कुत्तिभ्रात्रणभूयति कुत्तिकं स्वर्गमर्त्यपाताललक्षणं भूमित्रयं तत्सम्भवं वस्त्वपि कुत्तिकं तस्मादेक प्रापयो; इष्टः

तेसिणं भगवंताणं आथवादीविदिताभवन्ति परवादीविदिताभवन्ति आयावादंजमद्भूता लवणमिवसत्तमातंगा  
अस्मिद्भूतसिद्धान्तवाकरणा रयणकरंभगसमाणा कुत्तिभावणभूआ परवादिपरमद्भूता दुवालसंगिणोसमत्तगणिपिंड  
गधरा सव्वक्खरसिणवाद्दणो सव्वभासाणुगामिणो अजिणा जिणसंकासा जिणाइवअधितहंवाकरेमाणा संजनेणं

सिद्धान्तजमद्भूतागुणीगुणोनद्भूतपरिचितकरीनद्भूतमद्भूतकेचनीपरद्भूतमातंगहस्तीनल्लिणवनोपरिंजिमहस्तीनल्लिणवननद्भूतविवद्भूतप्रतिपरिचितकरी रमद्भू अ  
स्मिद्भूतविरलएतलद्भूतनिरताजेहनाप्रश्नद्भूतागणउत्तरंजेहना रत्ननाकरंढीयासरीधाजिमकरंढियासाहिंअमूल्यरतनभग्यातिमगणरत्नद्भूतभग्याच्छद्भूतप्रिआ  
वणभूमौत्रिभुवनचाटसारीपार्तिपिष्ठाटसर्ववस्तुलाभइतिमतेसाधुसर्वशास्त्रनाभणणहारच्छद्भूतपरवादीनामतनाप्रमर्दकनिराकरणचारच्छद्भूत आचारंगादिक  
अंग११अनद्भूतद्विधादवजदपूर्वपद्धारदर्यागीनांजाणलाहा समस्तजेगणिगच्छनायकनलसिद्धान्तरूपपिटारओतेहनाधरणहार सर्वसधलाअजरएकठाकरीनद्भू

छत्रिकापणं स्तवृता समीचितायंस्मादनकम्बिजुक्त्वे न तदुपमा परवाद्रूपमर्यादिति तन्वतप्रमर्दानत् परदारुद्वि अणोक्त ता इत्यादि बोधसुषुवीत्यन्त  
 वाचनान्तरं तत्र अतुपमाना अनिराकता इत्यर्थं अथउच्छिष्टिच्छिति अथयुधिक्के परतौषिकेः अणोच्छिसिञ्जमाणसि अतुपध्वस्यमाना माद्याज्याद-  
 पाल्यमाना विहरति विहरन्ति अयेगदया आचारधरेत्येवमादीनि मोक्षम विभीषणानि नवरं सुत्रकतधरा इत्यस्य प्राक्तनाङ्गधरणा अधिनाभूतले पि  
 तस्यातिमेव धरणाकूतकतधरा इत्याद्युक्तमतएव विपाकश्रुतधरोक्तावपि एकादशाङ्गविद इत्युक्त अथवा विदेविचारणार्थंत्वादिकादशाङ्गविचारका  
 नयपूर्व्यादिगुह्यं तु तेषां सातिग्रयले न प्राधान्यख्यापनार्थमिति अतुंमपूर्वत्वे सत्यपि चादनाङ्गित्वं केषां चित्रस्यासुतुंमपूर्व्याणां चादशाङ्गस्यांश-  
 भूतत्वात् अत आह दुवाकसंगिणोति तथा चादनाङ्गित्वेऽपि न समस्तश्रुतधरत्व केषां चित्रस्यादित्यत आह समस्तगण्यपिङ्गधरा गणीना मथे-  
 परिच्छेदानां पिटकमेव पिटकं खानं गण्यपिटकं अथवा पिटकमिष वाकजुक्त वापित्रकसर्वस्वाधारभाजनविशेष इव यत्तत्पिटक गण्यन

तवमा अय्यायंभायेसाणा विह्वरति तेणकालेणं तेणसमएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी यइवे

जपरइवासमर्थं सर्वभायापार्यं देवतादिकमनीतयासंस्कृतप्राकृतादिकनइअनुगामितेभायानाजाय ते इवोबोलीजाणइ अजिण्यारानहेपजीत्यातउनथीपर जिण  
 रागहेयत्रीत्याएइवीवीतरागसारीया जिणवीतरागनीपरिजेठनाप्रयुनाव्याकरणपडजतरएवितयजुठानथीसावाइइ संयमसतरप्रकारतेणइकरी तप  
 यारभेदेतेणइकरो अय्याणआपणउपायाभायताप्रवत्तायका साधुपिपरइइइ तेणइकाइइअथयापारानइविपइ तेणइसमयितेइअथसरमइविपइ  
 यमएतापनउकरएणइर भगवतमहिमावंत महावीरकमंयनुमावीपणइरतेठना अंतंवासीसमीपनायअणइर अरुवेअयाअणगारधरीममतारइहित

आचार्यस्य पिटकं गणपिटकं प्रकीर्णं श्रुतादेश्च्युतनिर्युक्त्यादियुक्तं जिनप्रवचनं समस्त मनन्तगमपर्यायोपेतं गणपिटकं धारयन्ति ये ते तथा  
 प्रतएव सब्बक्खरसन्निवाद्गणोत्ति सर्वे अक्षरसन्निपाताः वर्यं संयोगान्नेयतया विदन्ते येषां ते तथा सब्बभासाणुगामिणोत्ति सर्वभाषा आर्याऽनार्या  
 समरवाचः अनुगच्छन्त्यनुकुर्वन्ति तद्भाषा भाषिलात्स्वभाषयेन वा कच्चिविशेषतथाविधप्रत्ययजननात् अथवा सर्वभाषा संस्कृतप्राकृतमागधाद्गा  
 अनुगमयन्ति व्याख्यान्तीत्येवं शीला ये ते तथा अजिणत्ति असर्वज्ञाः सन्ती जिनसङ्कासा जिनाद्भवानितथं व्याकुर्व्विणाः ॥ छः ॥ तेषां कालेणमित्यादि  
 गमान्तरं व्यक्तं च नवरं समितिसूत्रे आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमितियत्ति आदाने गृहणे उपकरणत्थेति गम्यते भाण्डमात्रायाः वस्त्रादुपकरणरूप-  
 परिच्छदस्य भाण्डमात्रस्य वीपकरणस्यैव अथवा भाण्डस्य वस्त्रादेश्चैव अथवा भाण्डस्य वस्त्रादेश्चैव अथवा भाण्डस्य वस्त्रादेश्चैव अथवा भाण्डस्य वस्त्रादेश्चैव  
 समित्युपेक्षितादिक्रमेण सम्यक् प्रवृत्ता स्ते तथा उच्चारपासवणखेलसिंघाणजल्लपरिद्धावणियासमिया पुरीषमूत्रनिष्ठौवननासिकाज्ञेयमलपरित्यागे  
 समिता इति शुद्धस्थण्डिलात्रयणात् मणगुत्तेत्यादि पदत्रयं कण्ठ्य मतएव गुत्ता सर्वथा गुप्तत्वात् शुत्तिदियत्ति शब्दादिषु रागादिरहिता इत्यर्थः

अणगारा भगवंतो इरिआसमिआ भासासमिआ एसणासमिआ आदाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिआ उच्चारपास

हवा भगवंतमहिमावंत इर्यामार्गिवालिवओत्तिचांसमितमहुठहाथमूमिआगलिजोईचाशइ भाषाबोलिवत्तंतिहांसमितविचारीनिर्दीषवचननाबोलण  
 हार एषणाआहारनीगवेषणात्तिचांसमितिनिर्दीषभाहारनागृहक आदानगृहिवत्तंभांडमावस्त्रादिकउपकरणउत्तन्नप्र निक्खेपमू किंउत्तिचांस-  
 मितजयणाइपत्तजीप्रमार्जीरुहइप्रवत्तइरुइ उच्चारवडीनीति पासयणत्तइहीनीति खिलसुखनउमल सिंघाणनासिकानउमलज्ञेया जल्लथरीरनउमल

पथना' गुत्तागुम्भिविद्विषि गुत्तानि शब्दादिषु रागादिनिरोधाद् गुत्तानि च पागमयवयोर्योच मित्यादिव्यनिरोधादिप्रियाणि येषां ते तथा गुत्तवभयारिषि गुत्त वसत्यादिगुत्तिमश्रद्ध नैयुनविरति चरत्या वेवत्या इत्येवं श्रीचाः गुत्तप्रश्नवारिण्य अममसि आभिव्यञ्जिकमभिनियद्व्यवर्णा-  
 यकिचनसि निर्द्रव्या नृत्यागुत्तर... वाचनान्तरे अकोडित्यादीन्वेकादय पदानि दृश्यन्ते तत्र अकोडित्यादिषु प्रतीतानि अतएव संतति शान्ता  
 अन्तर्वासा पसतसि प्रशान्ता वडिहंल्या उवसंतसि उपशान्ता उभयत अथवा मन प्रथत्यपेक्षया शान्तादीनि पदानि अथवा शान्ता भवन्नमथाण  
 प्रशान्ता प्रकृष्टविसत्ताण उपशान्ता निवृत्ता' पापेभ्य' अथवा प्रथमप्रकरणमिधानायेकांथं पदत्रय सिद् अतएव परिनिष्पन्ना सकलसन्तापवर्जिताः  
 अथासर्वसि अनायवा अविदारमानपापकर्मबन्धाः अर्गव्यसि अविद्यमानचिरव्यादिगुत्या अ्विसोचसि अ्विद्योकाञ्छिव्योतसो वा अ्विसंसार-  
 प्रवाहा इत्यर्थं निरवशेषसि उपविष्यते एनेनेत्यु पष्ठेपस्यद्रष्टिता कर्मवन्मडैरुवर्जिता इत्यर्थं अथ निरपलेपता नैवीपमानैराह यद्यमथाण्यपदानां  
 च भावनाप्ययनादुराल्ले इमे संग्रहापे कंवेः संखेः जीवेश गयणेः वाएः सारयेसक्तिः६ पुस्करपत्तेः० कुम्भेऽ विहगेऽ खगेः१० भारडेः११ कुजरः१२

वयखेलसिंघाणजल्लुपारिष्ठावणियासमिथामणुगुत्ता वयगुत्ता कायगुत्ता गुत्ता गुत्तिंदिया गुत्तवंभयारा अमसा  
 अकिचणा अ्विखग्नाया अ्विखग्नेः३ निरवलेना कंसपतीवमकुतोः३ संखड्वनिरंगणा जीवोविवचय्यडिहयगती

तेहपरिष्ठावियानरुविपरुसमतजयणावहितपरिठवदृष्टर मनअसथमयकीगीपवीप्रवसंद्दष्टर वचनअसमगीपवीनिवारीप० कायपसथमयकीगीपवीकरीप०  
 सर्वथा गुत्तिवतकधिदृ गुत्तगीपव्यादृदृदिय५ प्रसंथमयकी गुत्तवंभवारीवमतिसमितिमश्रवयंससुधरदृष्टर ममतासाभपणाथकीरहित अकिचनपरिगृह-



वसुदे१३ सीहे१४ नगरायाचिव१५ सागराकखीहे१६ चंदे१७ सुरे१८ काणे१९ वसुंधराचिव२० सहुगहुए२१२ उक्तागाथावुक्कमीणेह तानि पदानि व्याख्यास्यामः वाचनान्तरे इत्य मेव हृष्टत्वादिति कंसपाईवसुकतीया कांश्यपात्री वेति व्यक्ता सुक्तन्यक्तं तोयमिव तोयं बन्धहेतुत्वात् स्रं हो यैस्ते तथा संखीइव निरंगणीत्ति कंवुवत् रङ्गणं रागादुपरञ्जनं तस्मान्निर्गताः जीवइव अप्पडिहयगती प्रत्यनीककुतीर्थिकादियुक्तेष्वपि देशनगरादिषु विहरन्तो वादादिसामर्थ्योपेतत्वेनाखिलितगतय इत्यर्थः संजमेवा अप्रतिष्ठतस्तय इत्यर्थः गगणमिव निरालंबन्ति कुलग्रामनगरादालंबनवर्जिता इत्यर्थः

जच्चकण्णगंपिवजातरूवा आदारिसफलगाविवपागडभावा कुम्भोइवगुत्तिदिच्चा पुस्करपत्तंवनिरूवलेवा गगणमिव

संज्ञाद्रव्यादिरहित छिन्नछेदिउभ्रंथिद्रव्यनीगांठीजेणइ छिन्नछेदिउभ्रंथीतभवनउप्रवाहअथवाशोकजेणइ निरुपलेपद्रव्यथकीनिर्मलदेश भावयथीकर्मलेपरहि तच्छइ कांसानइपावइतोयपांणीनलागइ तिमतेसाधुनइकर्मसे हलागइनइइ शंखजिमरंगरागइरंगाइनहीतिमसाधुरंगरागइकरीरहित जीवनीगति जिमअप्रतिष्ठतकिहीखलइनहीतिमसाधुनीगतिविहारकरिवइअनिवारितहुइ जाल्यवंतकनकसुवर्ण इजिमजातरूपमलनलागइ तिमतेसाधुनइकर्म मलनलागे आदरीसानइफलजिमरूपप्रगटहुइतेहवउदीसइतिमसाधुवाअभ्यंतरइप्रगट निर्मल कुर्मकाछिवउजिमपगधषनइं ग्रीवाकीटगोप वीवर्त्तइ तिमसाधुइद्रियपांचगोपवीपूर्त्तइ पुस्करकमलनिपत्रइपानउइनिरुपलेपपांणोकचरउनलागइतिमसाधुनइकर्मलेपनलागइ गगनआकाश जिमषालंबनथंभादिकरहित तिमसाधुनगरगामकुलनीआलंबनरहित अनिलवायुनीपरिनिरालय एकठामिंवायुनरइइतिमसाधुएकंगंमठामिन

संयत्निविता इति हृदय वायुरिव सप्यतिवशा पामादिष्वेकराविकासान् साग्यसत्सिखं वसुधैव कुटुम्बकम् इति कदाचिद्गोपापादसचण्यावयवसङ्केन गुप्तो भवति एवमेते पञ्चजलकल्पस्रजनविषयस्यै हरश्चिता इत्यर्थं कुम्भोवगुप्तिद्वयसि कच्छयो हि कदाचिद्गोपापादसचण्यावयवसङ्केन गुप्तो भवति एवमेते इषोऽद्रियपञ्चकेनेति त्रिहज इव विष्यमकृति सुकपरिकरत्वाद्नियतवासाश्च खन्यविसर्पणपणजायसि चञ्चो पाटव्यो लोपस्यस्य विषयार्थं नृङ्गं तदेकमेव भवति तददेकजाता एकभूता रागादिसहा विकल्पादिति भारुडपक्वोव सप्यमत्तरित भारण्डपचिपो किलैकं शरीरं पृथग्लोके विपादे च भवति बाल्यन्त मप्रमत्ततयैव निशीह सभते तेनोपमाकृतेति कुञ्जरोद्वसोऽरीरा च्छक्तिविसारा कपायादिरिपून् प्रतीक्षेति वसभोद्ववजायत्यामा

निरालंबणा पणिलोद्ववनिरानया चंदद्वसोमखेसा खरद्ववतेचसो सागरोद्वगभीरा विहगद्ववसव्वञ्चोविष्यमृक्का  
 मंदरद्ववचप्यक्रंपा सारयसलिलं वसुधैव कुटुम्बकम् अथा भारुडपक्वोवसप्यमत्ता कुंजरोद्ववसोऽरीरा  
 वसभोद्ववजायत्यासा सौहोद्ववदुद्धरिसा वसुंधराद्ववसव्वफासविसहा सुद्धञ्जु ग्रामणोद्ववतेचसजज्ञता नत्यियां

रहद चद्रमानोपरि सदासीमनिर्मलमिग्रातेज तिमसाधुमदासोम्यमननसधयो सूर्यनिर्मलजवंतितिमसापुतपते अर्धतसदादीपतच सागरसमप्रजिम  
 गभोरतिससाधुगो रुडपैकपभद्वसमुचित विहगवपियठजिमसर्वपरिवारवोसठामनीममभारश्चित तिमसाधुपरिवारठामनीममतारश्चित मंदरमेचपवंत  
 जिमसंपद्वद्वोतिससाधुपरोसहउपसर्गद्वकंपद्वद्वो मरद्वकटुपानोशतीमासगु सखिस्रगणोऽजिमनिर्मलजितिमसाधुमधुधामिसंखड्डदयनाधयोऽह चञ्चो  
 पटवोनाजीवनद्वनोगवकडुइतिससाधुरागणैयविनाएकमाहद्व भारुडपयोजिमचपमत्तितिमसाधुममाद्वद्वितहद्व कुञ्जरसुक्षीजिमसोऽरीरमूर्तिससापु

गौरिवीत्यत्रबलाः प्रतिज्ञातकार्यभरनिर्वहिका इत्यर्थः सीहोद्वदुडरिसा परीषद्वादि स्वगैरनभिभवनीया इत्यर्थः मंदरीद्वव अप्यकंपत्ति मेकरिवातु-  
 कृशोपसर्कं गायुभिरविवलितसत्ताः सागरी व गंभोरस्ति इवयोकादिकारणसम्यक्प्राप्तिकनचिन्ताः चन्द्रीद्वव सोमलेख्यति अनुपतापहेतुमन-  
 परिणामा सरोद्वव दित्तैर्यात् दीप्ततेजसो द्रव्यतः शरीरदोस्या भावतो ज्ञानेन जञ्जकणमिव जायरूवा जातं लब्धं रूपं स्वरूपं रागादिकुद्रव्य-  
 विरहाद् ये स्ते जातरूपाः वसुधैराड्वव सत्वफासविसहत्ति स्पर्शाः श्रोतीण्यादयो अनुकूलैतराः परीषद्वाप्तान् सर्वाण् विपहन्ते ये ते तथा सुहुगड्वा-  
 सणोद्वव ते प्रसा जलंता सधु हुतं चिमं हृतादि यत्र हुताग्ने वक्तो स तथा तद्वत्तेजसा ज्ञानरूपेण तपोरूपेण च ज्वलन्तो दीप्यमानाः पुस्तकान्तरे-  
 विशेषाणि सर्गख्यं गनीदं चाविकं आदरिसफनगाद्ववपायडभावा आदर्शपक्षे नयनमृष्टादिधर्माः साधुपक्षे अगठतया मनःपारणामाः येषु ते प्रकटभावाः । नलीत्यादि नास्ति  
 प्रकटा यथाऽनुपलभ्यमानस्वभावा भावा आदर्शपक्षे नयनमृष्टादिधर्माः साधुपक्षे अगठतया मनःपारणामाः येषु ते प्रकटभावाः । नलीत्यादि नास्ति

तेभिर्गंभगवताण्यकथ्यपडिबंधे से अण्डिबंधे चउव्विहपण्यत्ते तंजहा दवत्रो खित्तत्रो कालत्रो भावत्रो दव्वत्रोणं  
 कथायादिकनिवारवासूरकायपण्डं जणवइनइइ हषभवलदजिमजातवानभारत्रगी सरइतंनिर्वचइ तिमसाधमहावतभारवहिव्वा समर्थं सिंविजिमअनेरइ  
 जीवइपरामभवइनइो किभसाधुपरीसहइपरामवइनइो वसंधरापयूजिमसर्वफरसकांटाक्काकराअग्निनासहइगिसाधुनापादिकसहइ जिमघृतमधुइंसीयुं  
 हुताग्नेनअज्जिजयति तद्वनाख्यत्वमानदोसइ तिमसाधुज्ञानेजइकरीसदादोपइ नथो तेहभगवंतमहिमावंतसाधुनइ किहांइंकिसीवखुजपरिप्रतिबंध  
 वलगचि तेहप्रतिबंधना चारप्रकारजाणवा वेकरइखइ द्रव्यको चैवयको कालयकी भावयकी द्रव्यको सच्चित्तियागयणी अच्चित्तजपधि

राव सवपन सिं न वरदर का सवपनसुवर्ण भवन २२

तेर्गं भगवता मयं पथो यदुत सुखविदपि प्रतिबन्धो भवतीति तद्यथा द्रव्यत इद्रव्यत सचिन्ता द्युश् चेतनो धामादिपुत्र तत्र चैव धान्यजम्बभूमि  
सुख धान्यमनपवननादिस्यच्छिषं त्रेपाणि व्यक्तानि कासत' समयादिपु तत्र समग्र सर्वनिष्ठः काळ पानत्रिना असङ्घातसमया यावत्  
कारणादिदं हृद्यं प्राथापानू वा लष्ठासनि खासकासहृद्यं घोषे वा सप्तश्लोकमाने मुहुत्ते वा लवसप्तसप्ततिमाने पशोराल-  
पप्रभासा प्रतीता' पयर्षं दक्षिण्यायन मितरश्च अन्वतरेवा दीहकाससंज्ञोएति वपंयतादौ तावत् स्त्रीधादिपुष एवं तैसं न भवद्दति एव समना प्रशारेण  
तेषां न भवति प्रविन्ध इति प्रकृतं वासावासवर्षंति इष्यंषु प्राङ्पि वासो निवास स्पृह्यं. गाभियगरादयति, एकराची वासुमानतया  
अस्ति त्रेपां ते एकरात्रिका एवं नगरे पञ्चरात्रिका इति एतच्च प्रतिमा कल्पिकानाथित्योक्त मन्त्रेषां मामकल्पधिद्धारित्वादिनि वासोचदपममाण-

सच्चिन्तादिस्तमौनेएसुटव्वेसु खेतस्यो गामेवा गगरेवा रश्मेवा खेत्तिवा खलेवा घरेवा अंगणेवा कालस्यो सम र्वा  
श्रावलिचाएवा कावप्रयणेवा दीहका तसंज्ञो भवस्यो कोहेवा सायाएवा लोहेवा भएवा

सहितरुद्रादिकद्रव्यनद्विषद चेतवस्यो गामनद्विषद नगरकररहितरीहृषुविषद अटवीनद्विषद चैवधानवाविवागाठांसनद्विषद स्वनाधानम  
सकशानाठोमनद्विषद घरवनिवानाठोमनद्विषद चलनापांगणानद्विषद कालचक्री समयमूलाकालनद्विषद आंधलीपसव्यातसमग्रपलाव  
ग्रन्थरीवोजउरुकासपयमण्णमासकूप अनेरउरुजेलनी दीर्घमोठकासतेहनसयोगनद्विषद भाशयकी स्त्रीधविषद सांगप्रभमानविषद माया  
परवशाननद्विषद लोभवांश्याविदै भयविषद हाव्यविषद एहवउप्रतिबंधविषु प्रकारनउनेइसाधुनइउउाद तेहभगवतमहिमावतसाधु धर्मीकाल

कथञ्चि वासीचन्दनयोः प्रतीतयोरथवा वासीचन्दनेइव वासीचन्दनको तयोः समानो निर्देय रागत्वात्समः कल्पो विकल्पः समाचारी वा  
 शेषां ते वासीचन्दनसमानकल्पाः समलेष्टुकंचणत्ति समे तुल्ये उपेचणीयत्वात्तेष्टुकाश्चनेयेषां ते तथा समसुखेत्यादि विहरंनौलितदन्तं व्यक्तं वाचनान्तरे  
 पुनस्त्वंजहा इत्यतः परं गमान्तं यावदिदं पठते अंष्टइवा अण्डजो हंसदिः अण्डकं वा मयूरण्डकादिः क्रीडामयूरादि हेतुरिति वा प्रतिबन्धः  
 स्यात् समस्यैकवचनान्तं वेदं व्याख्येय मिकारस्तु प्राकृतप्रभवः पोयएवा पीतको वा शिशुरिति वा प्रतिबन्धः स्यात् अंष्टजेइवा  
 वांष्टजे इवैत्यत्र पाठान्तरे अण्डजं वस्त्रं कीयिकारकीटाण्डकप्रभवं वीण्डजं कर्पासीफलप्रभवं वस्त्रमेव जग्राहिण इवा अवयवहीतं परिवेषणार्थं  
 मुत्पाटितं भक्तपानं पग्राहिणवा प्रष्टश्रौतं भोजनार्थं मुत्पाटितं तदेव अथवा अवयवहीतं अस्यास्तीत्यवगृहिकं वसति पीठफलादिकं

हासेवा एवंतेसिंण भवद् तेषंभगवंतो वासानासवज्जं अठ्ठगिरुह्हेमंतिआणिमासाणि गामेएगराइआ णगरेपंच  
 राइआ वासीचंदण समाणकप्पा समलेष्टुकंचणा सममुह्ठुक्त्वा इहलोगपरलोगअप्पिडिबद्दामंसारपारगामौ कम्म

नाथारमासवर्ज्जीटालीनद . पाठश्रोषभनइसीशलानाएआळइ मसवाळ। ग्रामसामान्यनाहनायामनइविषइएकअक्षीराविरहइ नगरमोटाथोनगर  
 नइविषइपांचअक्षीराविरहइ कीइवांसलइइदइकीइचंदनइचर्चइपुजइतिहांसमानसरिपीकल्पयाचारुइजेहनउ समसमानकल्पयाचारुइलेष्टु पाषाण  
 अनइकांचनसुवर्णनइविषइ समानपणंछइषखभनइदुखनइविषइ इहलोकमनुथलीकनइविषइ राजाकृष्टिपरलोकदेवगतिविषइ इद्रपदवीतिहांप्रति  
 बंधरागवथींसारथारगतिरूपतंहनइविषइपाणिपुहुताळइ कर्मआठपकारतेहअणिगस्युंघानवानिवारिनाभणी जठाकइसावधानइहआळइ एहवाथ

राव धरपत विष वधरार की पात्रसवधयल भात्र २२

टीका

१०१

सब

तथा

१०

पौषगृहिक वा दण्डकादिक मुपधिजातं प्रकृतं तु प्रकृतं न सृष्टोतत्वाद्योगिक मिति अर्थ अर्थद्वयति क-कारस्य बाष्पात्कृत्वाऽर्थात्वाद्यो वा दिग्  
 मिच्छन्ति त्रिदशुं मिति श्रेय तर्खंतस्व ति तां तां दिग् विहरन्तीति योग सृष्टभूयति यद्विभ्रता भावश्चक्षिमन्तः श्रुतिभूता वा प्राप्तसिद्धान्ता लसुभूयति  
 पल्लोपधिपतया गौरवत्यागाद्य पयसा लसुभुतं वायुस्तद्वत् ये सततविद्यारा से लसुभूता पणपयया अनस्यगुन्याः वद्भागमा' पविद्यमानो वा बालनः  
 सम्यन्धी गुन्यो विरख्यादियैषो वा ते तथा अनर्घगुन्या वा भावभजनयुक्ता इत्यर्थः ॥ छं ॥ अथ साधुवर्णकप्रकारान्तरेषीष्यने स च तेसिण मित्यादि  
 सेसंभावविषोमले इत्येतदन्तो पसगनादिनयोमेदप्रतिपादनपर सुगमएव नवरं । वाचनान्तरे जायोमावावुत्ति ति संयमयाचामावायं  
 वृत्ति भंजनगृहणं यावानायावृत्ति' अहं, अररति यथापर पु-रित्यर्थः । तथाधिलतगवनायो अग्निंतरएति पथ्यन्तरं अन्तरस्यैव शरीरस्य ताप-  
 नालव्यगृह्टिभिरेव तपस्तया प्रतीयमानत्वाच्च वाहिरपति वाह्यस्यैव शरीरस्य तापनात्मिकाव्यहृष्टिभिरेव तपस्तया प्रतीयमानत्वाच्चेति अणमयेति

नात्मव्यगृह्टिभिरेव तपस्तया प्रतीयमानत्वाच्च वाहिरपति वाह्यस्यैव शरीरस्य तापनात्मिकाव्यहृष्टिभिरेव तपस्तया प्रतीयमानत्वाच्चेति अणमयेति

त्रिगवायणद्वया अग्नुद्विधा विहरंति ॥ छं ॥ तेषिणं भगवंताथ एतेषांविहरिणो विहरमाणानां इमिए आखूवे अविभं

तत्र वाहिरप तवोवहाणिशोत्या तंजहा अग्निंतरए छव्विहे वाहिरएधि छत्रिहे सेकिंतंवाहिरएछव्विहे तंजहा  
 वाहिरएछइसयमार्गं तेषुभगवंतमहिमायंतसाधुनइ एकारपवननापस्रकारभणो एवइपदिलु कश्चित् तेगइविहरइथाचरइ विहरतापवसंतानइ  
 इमिएइवउ एथाकेवघागदिकश्रीसइविहरउ तेषुपग्निभतरंर्गतंश्रीमाहिससउधेपीतउ वाहिरएउससइनेयोतउप्रगट तपरशेदनेइरुपविधानं  
 कारितनेह तउइउ तेषुइएइ पग्निंतरपणदेयोतउछव्विहेअपकार वाचनोकेतेयोतउजेइछव्विहेअपकार वेकहतातैकिकहताकिहतांतिइवाहातपप्लोके

भोजननिवृत्तिः तच्चैत्कर्तुं न शक्नोति तदा किं कार्यं मित्याह भ्रवमोदरस्य कारणं भ्रवमोदरिका जनीदर त्वर्थः उपलक्ष्यगत्वाच्चास्य न्यूनीपधितापीह दृश्येति तत्रागस्तस्य यत्कार्यं तदाह भिक्खाचरियति वृत्तिसङ्घे प इत्यर्थः तत्राप्यस्तस्य यत्कार्यं तदाह रसच्चाएत्ति तत्राप्यस्तस्य यत्तदाह कायकिलेसे तत्रापि यत्तदाह पडिसंलीणयत्ति इत्तरिएत्ति इत्तर मल्लमालिक मेकोपवासादि धरनासान्तं आवकहिइत्ति यावती चासी

अणसणे उणो अरिया भिक्खा अरिया रसप्रच्चाए कायकिलेसे पडिसंलीणया सेकिंतं अणसणे २ दुविहे पखत्ते तंजहा इत्तरिए अ आवकहिअ सेकिंतं इत्तरिए २ अणेगविहे पखत्ते तंजहा च उत्यभत्ते छट्ठे भत्ते अट्ठमे भत्ते दंसमे भत्ते वारसमे भत्ते चउहसमे भत्ते सोलसमे भत्ते अट्ठमासिए भत्ते दामासिए भत्ते ते भासिए भत्ते चउमासिए भत्ते

नइं देषीत उच्छप्रकारं तेकहइइइ अणसण उपवास एकथी प्रारंभीक्कमासलगी उणोदरी जणैपेटैं जठिवउं पूरउं आहारनलेवउ भिच्चाचारी निर्दोषगोचरी करवी रसनउपरित्यागआं विसनीवी प्रमुखकरिवउं कायागरीरिंक्के गताटिनापली चआतापनादिक करिवउं प्रतिसंलीनता अंगउपांगसंवरी आसननादिक करिवउं तेकेहउते अणसण उपवास सादिकना विपूकारकट्यातीर्थं करगणधरे ते तहइइइ इत्तरिए थोडा कानलगी जे करइ आवकहि एजाव लीवलगी जे करइ तेकेहउते इत्तरिए जे थोडा कानलगी जे करइ अनेकविधि अनेकवणा प्रकार प्रज्ञप्तकहा तीर्थं करदि करइ तेकहइइ चउत्यभत्त एक उपवास छट्ठमे भत्त विइ उपवास दसमे भत्त चार उपवास वारसमे भत्त पाच उपवास चउदसमे भत्त छउपवास सोलसमे भत्त सानउपवास अट्ठमासिए भत्ते पाषषमणपनरउपवास मासमे भत्त मासमणत्री सउपवास दोमासिए भत्ते विमासमणसाठ उपवास ते भासिए

कथा च समुच्चायति अथैवैकपा वाग्लला तया भव यादृक्चित्त वास्तुविक मित्यर्थं पाचोवगमश्चिन्ति पादपक्षे वोवगमम मन्वात्तयाप-

जानं पादोपगममं वापादशिवति व्यापानयत् निहदायान्नायभिभूतो यत् पत्रिवयते निव्याघादशिवति व्यापातविरहित विद्यतोभरत्तमाहृज-  
पंचमाणिभूते क्रमादिभूते निरंतरादि ऐकितं व्यावकट्टिएर दुविशेषयुक्ते तत्रहा पा शोभगमये भक्तपञ्चखलाणे च  
भेदितपा शोभगमये दुविशेषयुक्ते तत्रहा याघादशेषे निव्याघादशेषे नियमा अप्यष्टिकन्ने सेतंपाचोवगमये सेकितंभरा  
वद्यत्तायेदुविशेषयुक्ते तत्रहा याघादशेषे निव्याघादशेषे नियमा सप्यष्टिकन्ने सेतंभक्तपञ्चखलाणे सेतं प्रणयणे

भूते निव्याघादशेषे अथवा न च समादिभूते यादिमासवमपएकसत्रवोसत्रववाच यं समासवमव १५० उपवाच यमासएभूतेकमास  
वम ८० इत्यस्य तेनरुणरिदशोवाचानयनिएकारदेपूदुनइयत्त त्रैवेकते यावकट्टिएत्रावस्योवजगोकट्टिएरी बुविधयिप्रकारप्रप्रसक्तप्रातीर्थकरद  
नेकइदद प. ११३३ नोऽनिवा गोपहाइ त्रैरिचुहनागोहानरतत्रपोतिमनियमप्यइरदइयनयवरोनइ भातपावोभापयनान्तिविहारपषयी  
पयनइरदपयापत्रिहारइरद त्रैवेकते पादोवगममउपनीडाभियुजोनियमोइगीवरद दुविधयिप्रकारप्रप्रसक्तप्रातीर्थं तरद त्रैकइइद  
त्रैगोइवायान्नादिभनदव्यापानअमइरद मोहदायान्नादिभनालिव्यापातकार्दंनघोतिगारकरद त्रैनिवमनिययइकरो पादोवगममप्रतिभक्तम  
मनि रागव्यादिभनद त्रैइरादशोभनउपनीवकोवाकभोवारते पूरुइयत्त त्रैवेकतेमातविणियाहारतउघायादिवाहारपषयीनइकरिधइतेदुविध  
'वद्यत्तायेदुविशेषयुक्ते तत्रहा याघादशेषे निव्याघादशेषे नियमा सप्यष्टिकन्ने सेतंभक्तपञ्चखलाणे सेतं प्रणयणे



अथ चिन्तनं वा दोषैर्दूषकरणं वक्ष्यते वा तस्य वा तस्य वा अथ यौग्यता खटनीयता वा सा तथा अप्पा-

चिन्तनं वा दोषैर्दूषकरणं वक्ष्यते वा तस्य वा तस्य वा अथ यौग्यता खटनीयता वा सा तथा अप्पा-  
 चिन्तनं वा दोषैर्दूषकरणं वक्ष्यते वा तस्य वा तस्य वा अथ यौग्यता खटनीयता वा सा तथा अप्पा-  
 चिन्तनं वा दोषैर्दूषकरणं वक्ष्यते वा तस्य वा तस्य वा अथ यौग्यता खटनीयता वा सा तथा अप्पा-  
 चिन्तनं वा दोषैर्दूषकरणं वक्ष्यते वा तस्य वा तस्य वा अथ यौग्यता खटनीयता वा सा तथा अप्पा-

सप्तमिप्रतिजागरणः रौसहितेहभक्तपञ्चखणमातत्रिविहारवर्षविहारनञ्चकारतेह एअणसणउपवासादिकमूउहवउ तेकेहोउमोयगिया  
 जणोदरीजणउरहिउपूउआहारनलेवते दुविधाबहुपुकार पञ्चसकह्यातीर्थंकरइ तेकहइइइ एकद्रव्यथकोजणोदरीजणोराहवउ बोजउभावथको  
 जणोदरीजणोउरहिउते तेकहिते द्रव्यकोजणोदरीजणउरहिउते तेदुविधबिहुपुकार पञ्चसकह्यातीर्थंकरइ तेकहइइइ एअणसणउपवासादिकमूउहवउ तेकेहोउमोयगिया  
 नादिकमात्रीद्रव्यंणोदरीजणउरहिउउ बीजाभातपांणोआत्रीद्रव्यजणोदरीजणउरहिउउ एकवस्तुचीलपटादिकराषइअधिकनही एकपात्रतूवडादिलाकडातुं मादीनुं  
 रश्चिउउ ३ त्रिविधभिक्षुपुकारपञ्चसकह्यातीर्थंकरइ तेकहइइइ एकवस्तुचीलपटादिकराषइअधिकनही एकपात्रतूवडादिलाकडातुं मादीनुं  
 एहमाहिलुं चियत्तपूतिकारियउविश्वारासकागीउंअथनादीपरेहितएहवउउपगरणउंराधिवउंभोगविवउं तेहएउपगरणवस्त्रादिकद्रव्यनीजणोदरी  
 जणउरश्चिउउतेहपूउउं हवउं तेकेहउंतेभातपांणोतीद्रव्यथको जणोदरीजणउरश्चिउउंते अनेकषणापुकारपञ्चसकह्यातीर्थंकरइ ते कहइ इइ

हारेति इति गल्पावपि च या पटानामप्यत्वात् शीवद्वोमीयदिति इति मतो षष्ठं योऽय एयं व द्वादशाना मर्द्धं यमीपवन्निन्वा दुपावर्द्धाऽवगोदरिका  
दाद्यभिदिति दुभागोमीयदिति इति यत योऽयमहिभागो षष्ठं मित्ययं मृत योऽयमवसमानादिभागो षष्ठमोदरिकेतुरथ्यते यमीमीयदिति चतु-  
र्विधते कवसाना इति गद्वितीयाहं स्व मध्यभागं प्रागत्याचतुर्विगत्या कवलै प्रागावमोदरिकेतुरथ्यते षष्ठ्या प्राप्तेव प्राप्ता इति मृत स्यायाणां भागानां

स कुम्भु, उच्च उगप्यमाणमेते कवले आहारमाहरेमाणे शीवद्वोमीयदिया सोलसकुम्भु, इच्छं उगप्यमाणमेते कवले आहार  
माहरेमाणे दुभागपत्तोमीयदिया चतुर्वोसकुम्भु, इच्छं उगप्यमाणमेते कवले आहारमाहरेमाणे पत्तोमीयदिया एकती  
स कुम्भु, इच्छं उगप्यमाणमेते कवले आहारमाहरेमाणे क्विचूयोमीयदिया यत्तोसं कुम्भु, इच्छं उगप्यमाणमेते कवले आहारमाहरे

कुम्भु, टपं नपुमाणजे शिवनपतावतासुप्र १ भुवमादिमाहरेणवापाठकवलेत्यहतेहनदृष्याहारीकश्चिद्वयशो ककवसपाहारनीपे याहपाठकवलेतेष्वप्या  
हारजायिनाभर्गत्तद्वृत्ताप्या कुम्भु, टपं नपुमाणलेकवसएतावताले सुखिमुखमादिमाहरेणवापाठकवलेत्यहतेहनदृष्याहारीकश्चिद्वयशु वती  
सुखनपाहारनीपे च्याहृदारकवनेते उपार्द्धजपोदोजापिती कुम्भु, टपं नपुमाणलेकवसएतावतासुप्रमुमादिमाहरेणवापाठकवलेत्यहतेहनदृष्याहारीकश्चि  
षष्ठं कश्चिद्वय वतीसकवसपाहारनीपे विषादभो ककवसते द्विभागपत्तजपोदरीजाणधी कुम्भु, टपं नपुमाणलेकवसएतावतासुप्रिमुखमादिमाहरेणवापाठकव  
यत्तले चतेहनदृष्यतीमीयदिया योजापहं नदृमध्यभागपत्तकश्चिद्वयशोसकवसपाहारनीपे च्याहृषकीसकवसते द्विभिभागशीधोचतयउभा गनफीधतेप्राप्त  
जपोदरीप्रावको कुम्भु, टपं नपुमाणलेकवसएतावतासुप्रमुमादिमाहरेणवापाठकवलेत्यहतेहनदृष्यिचूयोमीयद्विद्वयशोसकवलेत्यहतेहनदृष्यिद्वय वतीय

प्राप्तत्वाच्चतुर्थं भागस्य चाऽप्राप्तत्वादिति किंचूणसोयरियति एकत्रिंशतो द्वात्रिंशत एकेनोनत्वात् पमाणपत्तेति द्वात्रिंशता कवलैः प्राप्तप्रमाणो भवति साधुर्न न्यूनोदरइति एत्तीति इतो द्वात्रिंशत्कालमानादेकैषापि घासेणति घासेन णीपकामरसभोईतिवत्तत्त्वंसियाइति नाल्यर्थे मन्मभीकृति वाच्यं

माणेऽप्यमाणपताएत्तो एणेणविघासेणजण्यंआहारमाहरेमाणे समणेणिगंगे ये णोपकामरसभोई तिवत्तत्त्वंसिआ सेत्तंभत्तपाणदव्वोमोअरिआ सेत्तंदव्वोमोअरिआ सेकितंभावोमोअरिआ २ अणेगविहापणत्ता तंजहा अप्पकोहे अप्पमाणे अप्पमाए अप्पलोहे अप्पसहे अप्पसंके सेत्तंभावोमोअरिआ सेत्तंओमोअरिआ सेकितंभिव्खायरिआ २

कवलआहारनीअपेचाइएकलोसकवलते माइंएकजणोतेकिंचूणोदरीजायवी कुकुटअंअप्रमाणजेकवलएतावतासुखइंमुखमांहिंमाइएहवावतीसकवलजेव्य इप्रमाणपाप्तपुरओ माहारलेतउसाधुकहिइंपरंजणोदरीनथुहीयइ एकइंपुणयासकवलइतथाएकइसाथइंपुणजंणउंआहारभाहारिमाणेआहारकरतउथ कउ अमणसाधुतपनुकरणहारवाह्यअभ्यंतरगांठोनथीएहवीसाधु० प्रकामरसभोगौ घणाअन्तनउजीमणहारइतिएहवउनकहिइइ तेहएकद्रव्यथकी जणोदरीजणउंरहिवउंपूरउव्वउ तेकेहीतेभायथकीजणोदरीजणउंरहिवउरतेहना तेकेही तेभावथकीजणोदरीजणुरहिवउतेहना अनेकघणाप्रकार प्रजप्तकक्षाभगवंततीर्थंकरादिकइं तेकहइइअल्पभीधअल्पसर्वथानास्तिनउंअर्थंकीधरहित अल्पमांनअभिमांनरहित० अल्पमायामाथापरवंचनारहित अल्पलोभलोभरहितअल्पसहप्रहररानिउपरांतगाठद्वीलइनही अल्पभंभंअचनकलहतेजेहनइविपइनइइ तेहएभावथकीजणोरहिवउएंपूरहवउ तेहएजणोदरीपूरीव्ववी तेकेही भिचाव गोचरी २ अनेकघणाप्रकारप्रजप्तकक्षातीर्थंकरइ तेकहइइअल्पभीधद्रव्यआओनियमकरइइअसुक

स्वादिति अप्यनर्हेति शल्पकसह इत्यर्थः कसहः क्लोषकार्थं अप्यर्भंभेति शल्पभङ्गाः अविद्यमानकसहविशेष शल्पशब्दाभावात्प्रवचनोऽप्यस्ति द्वाभिन  
इवररति द्रव्याश्रिताभिपद्येण वरति भिषा मटति द्रव्याश्रिताभिप्रहं वा चरत्याशयेने य स इत्याभिपद्येरक इह व गिचापर्याया प्रकान्ताया यदु  
द्रव्याभिपद्येरकइदृशस्य तदर्थैधर्मिणो रभेदिविषयणात् द्रव्याभिपद्यय लैपकतादिद्रव्यविषय चेवाभिपद्य स्वगुणपरगुणमादिविषय कालाभिगृहः पूर्वा-  
डादिविषय भावाभिगृह सु गानइवनादिप्रसुतपुरपादिविषय अविख्यतपरएति वरिषस्य स्वप्रयोत्रनाय पाकभाजना इदृश तदर्थं मभिगृह्यतवरति  
तद्वेषणाय गच्छतोऽराशिस्तवरक एव सुतररापि निख्यतवररति निश्चित पाकभाजनादयुक्त उखित्तनिख्यतपरएति पाकभाजना इतिशय्य  
निश्चित तत्रैवाव्यय पव्याने यत्तदुशिसनिश्चित अथवोतिषस्य व निश्चितं च ययरति न तथोप्यने निख्यततवकिञ्चतवररति निश्चित भोजनपात्रा

अथेगविहापणत्ता तं द्वाभिनगइचरए खेत्ताभिगइचरए कालाभिगइचरए भावाभिगइचरए उखित्तचरए

गिक्विसचरए उखित्तणिक्विसचरए गिक्विसतुक्विसचरए वट्टिञ्जमाणचरए साहरिञ्जमाणेचरए उन्नयोश्चरए  
उद्रव्यसैसुाकशि चेवाभिपद्येव्यवामपरपामविपद्येवेषाथीनियमकरइ कालाभिपद्यते कश्चिद्यदनेपूर्वात्प्रमध्याद्द्विविपद्यपसु तीथेकाईपाथारलेठ एपभि  
पइकरियठ भावाभिपद्येनेपुश्यहमतुपयवाक्लोइमतोपषवाएतुयदतुइत्यादिनभियइकारियठ अणपइकात्रइभाजनमांश्चिथकलजपाठाउतेइगवेपइ  
निमित्तपनेयिषाण्यतेइनीगवेपणाकरे उपत्तनिखित्तनेजेजपाडोनदूपनेविषाण्यतेइनीगवेपणाकरइनियद निमित्तउखित्तनेजेपनेइभाजनघा  
नीनइरासायणइवात्रिठपडाठंएइवापभियइसहितपाथारण्यइ वट्टिञ्जमाणइनीरानदूपरीसीतउतेइनीगवेपणाकरइ साहरियमांशद्वाराताउठकरिया

सृष्टिचक्षुः च स्थायं तत एव निश्चितोत्तिष्ठतं वह्निज्जमाणचरणैः साहचरिज्जमाणचरणैः यत् क्रूरदिकं शीतनीकारणार्थं पटादिषु  
विस्तारितं तत्पुनर्भोजने चिप्यमानं संक्रियमाणं सुच्यते उवणीयचरणैः उपनीतं केनचित्कश्चिदुपडोक्तं प्रहेणकादि अत्रणीयचरणैः  
अपनीतं देयद्रव्यमथा दपसारितं मत्स्यं स्थापितं मिथुनैः उवणीयावणीयचरणैः उपनीतं सत् प्रहेणकाद्यपनीतं स्थानान्तर-  
स्थापितं अथवोपनीतं चापनीतं च यद्यरति स तथा अथवा उपनीतं अथवा उपनीतं निराकृतगुणं उपनीतापनीतं  
यदेकेनगुणेन वर्णितं गुणान्तरोपेक्षया तु दूषितं यथा ऽहो शीतलं जलं केवलं चारमिति यत्तु चारं किन्तु शीतलं तदपनीतोपनीतं सुच्यते इति अतश्चाह

अवणीयचरणैः उवणीयचरणैः असंस्कृचरणैः संस्कृचरणैः तज्जातेसंस्कृचरणैः  
अस्यायचरणैः मोगचरणैः दिष्टलाभिनैः अपुष्टलाभिनैः भिक्खलाभिनैः अभिक्खलाभिनैः

भणीवस्त्रविषदूमीकलउकरीमू'खउतेवलीभाजनिषालीतउतेहनीगवेषणाकरइ उवणीअचरणैः किणहोवणीभणोआखउतेहनीगवेषणाकरइ अवणीय  
परीसामां'हिकउवणु'जाणीउसाखउतेहनीगवेषणाकरइ उवणीअवणीयचरणैः उवणीअवणीयचरणैः उवणीअवणीयचरणैः उवणीअवणीयचरणैः  
अवणीयउवणीयचरणैः चरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः  
वेषणाकरइ तज्जातेसंस्कृचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः उवणीयचरणैः  
गृहतेहनीगवेषणाकरइ दिमौनपणइआपइतेहनीगवेषणाकरइ दिष्टदीठउवाहाराअथवादीठउदातारतेहनीगवेषणाकरइ अदिष्टदीठउवाहारा  
अथवाअदीठउदातारतेहनीगवेषणाकरइ पुष्टलाभिनैः कोईसाधुनइपूखोनइअइतेजेठं एहवीगवेषणाकरइ अपुष्ट कांइसाधुनइअपूखाउवणइएह

अथोयस्योयपरएतित ससद्वरएतित संसद्वरएतित न खरटितेन हस्तादिना दीयमान संसद्वरएतित तच्चरति य स तथा अससद्वरएतित उक्तविपरीत तुल्याय  
ससद्वरएतित तल्लानेन देयद्रव्याविरोधिना यत् संसद्वरं हस्तादि तेन दीयमान यचरति स तथा अण्यचरएतित अत्राती अणुपदार्थतसोजन्यादिमाय  
संयचरति य स तथा मोषचरएतित व्यक्तं दिदृक्षाभियन्ति दृष्टयेव भक्तादेहं दृष्ट्वा पूर्वोपलब्ध्यादायकात्ताभो यस्यास्ति संसद्वरं हस्ताभिक अदिदृक्षाभिएति रक्षा-  
दृष्टस्यापि अपवारकादिमध्यान्निर्गतस्य योत्नादिभिः कृतोपयोगस्य भक्तादे रदृष्ट्वा पूर्वमनुपलब्ध्यादायकात्ताभो यस्यान्ति स तथा पुटुकाभिएति पुटुस्यैव  
चे साधो कि ते दीयतइत्यादि पश्चिन्तस्य यो न्नाभ स यस्यास्ति स तथा अपुटुकाभिएति उक्तविपर्ययादिति भिक्खात्ताभिएति भिक्खेव मिथा तुक्कमवज्जात  
वा तन्नाभो ग्राह्यतया यस्यास्ति स भिक्खात्ताभिक अदिदृक्षात्ताभिक अदिदृक्षात्ताभिक अदिदृक्षात्ताभिक अदिदृक्षात्ताभिक अदिदृक्षात्ताभिक अदिदृक्षात्ताभिक  
विशेषात् प्रातरेव दीयावधुमिति श्लोकादिभिएति उक्तविपर्ययात् अणुगिलायएति अत्र भोजन विनाग्यायति अत्रग्यायक स चाभिगूह-  
पनिधिका परिमियपिद्वाराएति परिमितपिच्छपात एवं पोषादिसाभो यस्यास्ति स तथा सहे सणिएति सहेपथा गच्छादिदोपरहितता सहेस्य वा निवृ-  
त्तपनिधिका परिमियपिद्वाराएति परिमितपिच्छपात एवं पोषादिसाभो यस्यास्ति स तथा सहे सणिएति सहेपथा गच्छादिदोपरहितता सहेस्य वा निवृ-

अणुगिलायए ओवणिएति परिमितपिच्छपात एवं पोषादिसाभो यस्यास्ति स तथा सहे सणिएति सहेपथा गच्छादिदोपरहितता सहेस्य वा निवृ-  
वत्तपनिधिका परिमियपिद्वाराएति परिमितपिच्छपात एवं पोषादिसाभो यस्यास्ति स तथा सहे सणिएति सहेपथा गच्छादिदोपरहितता सहेस्य वा निवृ-  
अथभोजनविनात्तामानापामएककेतेहमासाधुताठावासीकूरप्रमुखपाद्वारख्यद सधुएविकरुष्टस्त्रि आगकिअन्नादिषाणोमू खरतेगवेपद परिमितमान  
सहितगिच्छाएजपिच्छपाद्वारनागुण्यकरएहवामाधुगवेपदखद सुवृनिदीपयकारहितपाद्वारगवेपदखद सखदितिकुच्छकीनोसख्यादकरोपाद्वार

ज्ञानस्य श्रूयतेरेपया यस्यास्ति स तथा संख्येदत्तिएत्ति सङ्गाप्रधाना दत्तयो यस्य स तथा दत्तस्य एकक्षेपभिच्चात्तक्षणः णिग्धीत्तिएत्ति निर्गु तघृता-  
 दिविक्रतिकः प्रणीयरसपरिच्चाई प्रणीतरसं गलघृ तदुघादिदिन्दिः प्रायं विलएत्ति प्रायान्तं श्रीदनकुलाषादि आयामसित्यभीष्टत्ति अथथावण-  
 गतिसित्यभीक्षा अरसाहारेत्ति अरसो द्विग्वादिभि रसंस्कृत आहारो यस्य स तथा धिरसाहारेत्ति विगतरसः पुराणधान्योदनदिः अंताहारैत्ति  
 अन्ते भव मन्त्यं लघन्यधान्यं वक्कादि पंताहारेत्ति प्रकर्षेणात्त्यं वक्काद्यो व भुक्तावशेषं पर्युपितं वा लूहाहारेत्ति रुचं रुचस्वभावं क्वचित् तुच्छाकारैत्ति  
 दृश्यते तत्र तुच्छो अल्पोऽनारथ ॥ द्वाणद्विईएत्ति स्थानं कायोत्सर्गं स्तेन स्थिति र्गस्य स स्थानस्थितिकः पाठान्तरेण ठाणाइएत्ति स्थानं

**अणोगविहेपयन्ते तंजहा णिव्वितिए प्रणीअरसपरिच्चाए आयं विलिए अरसाहारे विरसाहारे  
 अंत्ताहारे पंताहारे लूहाहारे सेत्तरसपरिच्चाए सेकिंतंकाय किलेसेअणेगविहेपयन्ते तंजहा द्वाणद्वितिए ठाणा**

गवेपइच्छइ तेभिचाचरीगीचरीकरिवानउभेदकहिउ तेहकिंप्रअकरइच्छइ रसघृतादिकनउपरित्यागपरिच्चार २ अनेकघणाप्रकारनउ प्रज्ञगतकइइतीशंकर  
 तेकइइच्छइ नौवीविगइइपांचरहित प्रणीतरसघृतनाबिंदुआभरइते आहारपरित्यागकरिवउ आयं विलकूरउडदनावाकलापांणीस्यु' ल्यइ आयामसित्य  
 भीई उसामण्यमांहिलासीयजिमइ अरसाहारे हीं गुजीरादिकइवघाखउआहारनलेवउ विरसाहारेजूनाधांनपाडिलनउआहारल्यइच्छइ अंताहार  
 बालवणादिकनउआहारल्यइच्छइ पंताहारे तेहजेताउउ' जगथं' जपरडि लूहाहार लूपउआहारल्यइ तेहएरसघृतादिकनउ'परित्यागल्यजिवउ'  
 तेहकेहवउकायाशरीरनइजेके शक्तामनाजपजइतेहनअनेकविधघणाप्रकारप्रज्ञगतकद्यातीशंकरइ ते हइच्छइ द्वाणद्वितिए काउसगुकरौजभउरइइ

काथोक्तं मतिगच्छति करोतीति खानातिग लुडुवासाश्चिपयति प्रतीत पठिमद्वारेति प्रतिमा सासिन्वाद्य वीरासत्तेति वीरासज  
 निवासननिविष्टस्य भुन्यन्सपादस्य चिंसासनापनीदे याह्यमयस्थान तयस्वाशिश च वीरासजिक निसञ्जिएति निपद्यायताभ्या भूम्यासुपयेमन-  
 तथा धरति नैपथिक दृश्यायसगडभाएति कश्चिच्छते तय दृश्ये वायत मायामी यस्याशिश स दृष्ट्यार्थिकः सगडवक्रकाष्ठ तदृच्छते य स सगडयाथी  
 तस्य पार्श्विकागिराश्लेष पृष्ठभिव वा भूमो लगतोति आयावएति आतापयति योतादिभिर्देहं सत्तापयतीत्यातापक आतापना च त्रिविधा भवति  
 निष्यद्योगक्षटा इनिष्यत्रस्य सयमा ऊर्ध्वस्थिनय लघन्या निष्यन्तातापनापि विधा सधोमुखगायिताः पार्श्वगायिताः सत्तानगायिता चेतिः इनिष्यवा-

इए लुडुवाशणिए पठिमद्वारे वीरासणिए निसञ्जिए लउडसाई दृष्टाईए आयावए आयाउडए अकंशुअए  
 अणित्ठूए सख्यगायपरिक्खन्नाविमूसविष्यमुक्के सेरतंकायकिलेसे सेकिंतपडिसलौणया २ चतुल्लिहापण्यरता तंजहा  
 ठापाएए काउसगविनाहामदवासादपरजमउरएद लुडुवासाणिए लकट्टपगभिरदसद पठिमद्वारेप्रतिमा १ रतेहाउपलकवी १ रासणिए १ बालव  
 टयदुगोएगनीवामूकदपददवाजवटपाळउकरदपण्णते षण्णपास निरुदरतिवीरास यकदिदनेसञ्जिएपानठीनाखोवइसद लकट्टवाकौकाठतेइनीपरे अप  
 गनीपदडीमाथानाकोपरीसागवीजोउ सु इंलनीपरंसावउयईउद लठनापनाथा तापनाउरीरइमइदं आयाउडएव लकट्टपमावरनरापद अकंशुगरीरे  
 याजकेनई षण्णदुएमु लउ सु सु परठधै'नसो सखंगाउउरीरनीपरकंण्णायसयूपादीमादिकममारियातथाविमूपाय गारभोभाकरधीतेपेविप्रमुत्तरधितळे  
 तेइएकायागरीरनउक्के यस्माननापमाडिवउ स्थितेप्रतिबंधीनतापगनउपगसपरिवा तेइनाथारप्रकारप्रप्रस्तकहातीधंकरळे तेकचेळे इद्रिय



तापनापि विधा गोदोहिका उकुटुकासनता पर्यङ्गासनता चेति लक्ष्णं स्थानातापनापि विधैव हस्तिसौखिका एकपादिका समपादिका चेति एतेषु चाता-  
पना भेदवितयेषु क्रुधादित्रयं प्रत्येकं योजनीयमिति अवाचरुएति अपाठतकः प्रावरणवर्जक इत्यर्थः अकंडूयकानिष्ठौवकौ व्यक्तौ ध्रुयके समंसुलोभंति  
क्वचिद् दृश्यते तत्र धृतानि निःप्रतिकर्षतया त्यक्तानि केशशशुरीमाणि शिरीजकूर्चकवादि लोमानि येन स तथा किमुक्तं भवति सर्वगतप्रतिकर्षविभूषा-  
विप्रसुक्तइति ॥ सोऽद्वियविसयप्यशरनिरोहोवति अत्रिन्द्रियस्य विषये शब्दे प्रचारस्य प्रवृत्ते निरोधो निषेधः अत्रिन्द्रियविषयप्रचारनिरोधः

इद्विअपडिसंलीणया कसाथपडिसंलीणया विचित्तसयणासणसेवणया सेकिंतइद्वियपडि  
संलीणया २ पंचविहापखता तंजहा सोइद्वियविसयपयारनिरोहोवा सोइद्वियविसयपतेसुअत्थेरागदोसनिगहो  
चक्खिंद्वियविसयपयारनिरोहोवा चक्खिंद्वियविसयपत्तेसुअत्थेसुरागदोसनिगहो घाणिंद्वियविसयपयारनिरोहोवा

नउंयतिशयसु संलीनतासवरिवउ कषायनउअतिशयसु संलीनतासवरिवउ जोगमनवचनकायानाव्यापारतेहउअतिशयसु संलीनतासंव  
रिवो विचित्तलीपशुपडकरहितशयनीपाअथपाटिआसणवाजवटपाटलाहैवावरि हिवैकेहोते इद्रनीअतिशयस्योसंलीनतासवरिवो २ पंचविधपांच  
प्रकारप्रज्ञप्तकह्यातोर्थेकारणधरे तेकहैछे अत्रिंद्विकानतेहनौजेविषयशब्दतेहनैविषेप्रवारप्रवर्तितोतेहनौनिरोधरूंधिवौनिवारवौ अत्रिंद्विय  
कानतेहनो पत्तकाननैविषेआवौनेपास्योपहुतोअर्थरूढोपाडूउंशब्दतेहनैरागहैअनिगृहिवौनिवारिवोएतलेरूढेगन्देरागनांशिवोपाडूइंशब्दतेहनौधरवो  
चक्खिंद्वियनेवजेतेहनौजेविषयरूपतेहनैविषेप्रकारजेप्रवर्तितोतेहनौनिरोधरूंधिवौनिवारिवो चक्खिंद्वियनेवतेहनौजेविषयरूपतेहपत्तेचचुनैविषे

उ च सोऽद्विदिविषयपत्तेषु धत्ते सति शीलेन्द्रियगोचरप्राप्तेष्वर्थेषु गच्छेत्पु आर्षं प्रविष्टो ब्रह्मत्यर्थं चारामे सति पुष्पप्रधानवनेषु लज्जाशिशुसि पुष्पकलो-  
 घाणिद्विषयपत्तेषु सुश्रुत्ये सुरागदोषनिगहो जिग्मिभद्विषयपत्तेषु सुश्रुत्ये सुरागदोषनिगहो वा से सत्तं द्रं दिश्र  
 रागदोषनिगहो फ्रासिद्विषयपत्तेषु सुश्रुत्ये सुरागदोषनिगहो वा फ्रासिद्विषयपत्तेषु सुश्रुत्ये सुरागदोषनिगहो वा से सत्तं द्रं दिश्र  
 पडिसं लीयथा १ से किंतं कसायपडिसं लीयथा २ च्चल्विहा पश्यता तं जहा को हसु, द्यनिरोधो वा उदयपत्त

पावोनद्रपांस्यउपपन्नं पर्यं कडउपाक उरुपत्ते हनै विपद्ररागहं पनियचिचनिपात्वे उएतसद्रकडरूपद्ररागमही पाडु पद्रकपहं पनहद्र पाचिद्विषयजेमां उ  
 कातेहनउजेविषय्याधतेहनद्रुविषे प्रवारप्रवर्तितउतेहनद्रनिरोधकं पिबउ निवारिउच त्वाचिद्वियनासिकातेहनद्रजेविषयगघतेउपत्ते मासिकाने विपे  
 पावोनद्र पांस्यउपपन्नं कडउतथापाडुपोरसतेहनद्रुविषे रागहं पनियचिचनिपात्वे उएतसद्रकडरूपद्ररागमही पाडु पद्रकपहं पनयथी जिग्मिभद्विषयजेजिहा  
 तेहनउजेविषययते हनै विपद्रपत्राप्रवर्तितं यत्र तेहनउनिरोधकं धिबउ निवारउच जिग्मिभद्विषयजिहातेहनद्रजेविषयसतेउपत्ते जिहानद्रं विपद्रपावीनद्रं  
 पांस्यउपपन्नं कडउतथापाडुपोरसतेहनद्र विपद्ररागहं पनियचिचनिपात्वे उएतसद्रकडरूपद्ररागमकरिषउपमद्रपाडु पद्रकपहं पनधरिउच फ्रासिद्विषयरोरनीलवा  
 तेहनउजेविषययसतेहनद्रुविषे प्रवारप्रवर्तितं यत्र तेहनउनिरोधकं धवउं निवारो फ्रासिद्विषयरोरनीलवातेहनउजेविषयफरसतेउपत्ते शरीरनीलवाभी  
 विपद्रपावोनद्रपांस्यउपपन्नं कडउतथापाडुउफेरसतेहनद्रुविषे रागहं पनियचिचनिपात्वे उएतसद्रकडरूपद्ररागमकरिषउपमद्रपाडु पद्रकपहं पनउधरउच तेहद्रं द्वियनीपतिउ  
 यस्युं महीनतामवरउच १ द्विप्रग्रहते कयायनी पतिसयसुं संकीनतामवरउच २ च्चरप्रकार प्रपसकझातीर्थकरे मणधरेते कडरुद्र कौधरीसनउं उदयजप

वचन एव लक्षितं नित्यं

स्वाकोहस्रुविफलीकरणं माणुसुदयनिरोधोवा उदयपत्तस्वामाणस्रुविफलीकरणं मायाउदयशिरोहोवा उदय  
 पत्तस्वामायास्रुविफलीकरणं लोहस्रुदयशिरोधोवा उदयपत्तस्वलोभस्रुविफलीकरणं सेतकसायपडिसंलीणया २  
 से किंतंजोगपडिसंलीणया २ विविहापणसा तंजहा मणजोगपडिसंलीणया वयजोगपडिसंलीणया कायजोग  
 पडिसंलीणया से किंतंमणजोगपडिसंलीणया २ अकुसलमणशिरोधोवा कुसलमणउदौरणंवा सेतंमणजोगपडि

जिवत्तंहनत्तविरोधरुधिवत्तंनिवारवत्त उदयप्राप्तजपनीजेक्रोधरीसतेहनत्तविफलीकरण निःफलकरिवत्तदुर्वचननादिकनकहिवत्त मांनप्रभिमानंतेहत्त  
 उदयप्राप्तजपजिवत्तेहनत्तनिरोधरुधिवत्त उदयप्राप्तजपनत्तजमानंनप्रभिमानंतेहनत्तविफलीकरणनिःफलकरिवत्तकुवचनादिकनकाटिवत्तसुखथकी माया  
 परवंचनातेनोउदयप्राप्तजपजिवत्तंतेहनत्तनिरोधरुधिवत्त उदयप्राप्तजपनीजेमायापरपंचनातेहनत्तविफलीकरणनिःफलकरिवीपरनत्तवंधि  
 वत्तंनही लोभांछारूपतेहनत्तउदयप्राप्तजपजिवत्तेहनत्तनिरोधरुधिवत्त उदयप्राप्तजपनीजेकोभांछारूपतेहनत्तविफलीकरणनिःफलकरिवीपरनत्त  
 छेतरियत्तनही तेहएकसायनत्त प्रतिशयसुप्तंलीनता २ संवरिवत्तं तेकिस्यत्तंजोगमनवचनाकायानाव्यापारतेहनत्तअतिशयसुप्तं संलीनतासंवरिवत्त २ तेयोग  
 प्रतिसं विविधनिष्णिकारप्रज्ञप्तकक्षातीर्थंकरत्त तेकहत्तइत्त ममनत्तयोगव्यापारप्रयुंजिवत्तेहनत्तअतिशयसुप्तं संलीनतासंवरिवत्त वचनयोग्यवचनत्तव्या  
 पारतेहनत्तअतिशयसुप्तं संलीनतासंवरिवत्त कायजोगकायानत्तव्यापारतेहनत्तअतिशयसुप्तं संलीनतासंवरिवत्त तेकेहेतेमनयोगमनत्तव्यापारतेहनत्त  
 अतिशयसुप्तं संलीनतासंवरिवत्त अकुसलपाडुं प्रीजिमनतेहनत्तनिरोधरुधिवत्त अकुसलभाकामनीउदौरणाप्रवर्त्ताविवत्त तेहएमनयोगमनत्तव्यापारनी  
 यतिशयसुप्तं संलीनतासंवरिवत्त तेकिस्यत्तवत्तवचनयोग्यवचनकाव्यापारनोअतिशयसुप्तं संलीनतासंवरिवत्त अकुसलपाडुं प्रीवचन तेहनोनिरोधरुधिवत्त



दायकजगोचितेषु गीहविशेषेषु शय्या यत्र प्रसारितपादैः सुष्यते संस्वारकक्षु ततोहीनः ॥ छः ॥ पायच्छिन्तति श्रत्याचारविशुद्धिः सा च वन्दनादिना विनयेन विधीयत इत्यत आह विणश्रीत्ति कर्मविमयनहेतुर्ब्यापारविशेषः तद्धानेव च वैयावृत्यै वर्तत इत्यत आह वेयावच्चंति भग्नादिभि रुपष्टम्भः वैयावृत्या-  
त्तराले च स्वाध्यायो विधेय इत्यत आह सञ्ज्ञावत्ति शोभनो मर्यादया पाठ इत्यर्थः तत्र च ध्यानं भवतीत्याह आश्रयंति शुभधानादेव हेयत्यागो भवतीत्यत आह विउसगोत्तिं शालोयणारिहिति शालोचनानां गुरुनिवेदनां विशुद्ध्ये यदर्हति भिन्नाचर्याभिचारजातं तदालोचनार्हन्तद्द्विषयत्वादालोचनानालक्षणा विशुद्धि

उत्रसंपनिस्साणंविहरद्द सेत्तंपडिषंलीणया सेत्तंवाहिरएतवे २ छः ॥ सेकितंअभिभंतरएतवे २ छ्विहेपस्यत्ते  
तंजहा पायच्छिन्तं विणउ वेआवच्चं सञ्ज्ञाउं ज्माणं विउसगो सेकितंपायच्छिन्ते २ दसविहेपस्यत्ते तंशालोअणा

उपाचय संथारउडाभतथाकांवासंघी अंगीकारकरीनद्रुमु च्छपाधिं पाडिवहारउसगीनद्रविचरद्द तेहएतलिंप्रतिसं लौनतासं चरिवानुअधिकारह्वो  
तेहएतलइवाह्यतपनीअधिकारपूरुओहवपो ॥ छः ॥ हिवद्द अयं तरतपछ्मसेदेवषाणद्दइतेकेहउते अभ्यं तरअंतरंगमलनुसोधणहारतप छ्विहेहप्रकारं  
प्रप्रसकह्यउतीर्थंकरणधरे तेकहइहइ प्रायच्छिन्ततीचारदूषणनिवारिषाभणी शालोयण विनयकर्मनिवारणहाररूपव्यापार वैआवच्च  
आधारदातादिकउठंभदेवउ सञ्ज्ञायमर्यादासहितपाठभणिवो ध्यानशुभधानद्रुकर्मनिर्जरवुं विउसगशरीरादिकवोसिराविवो तेहपायच्छिन्त  
अतीचारनीशुद्धभणी शालोयणलेवी तेकिमतेदसविधदशप्रकारप्रप्रसकह्यातीर्थंकरणधरते कहइहइ गुरुआगलिअतीचारनिवेद्दशालोयणार

रपि शाश्वतीचकारंभित्तुम् तस्या एव तथोक्तपत्त्यादिति एव मन्वात्त्वपि नवर परिक्लमणारिभित्ति निव्यादु छत तदुभयारिहेति शाश्वतीचकारंभित्तुम्  
समाध विवेगारिहेति अयुष्टमन्वादिदिविषेचन विवसग्नारिहेति कायोत्कर्णं तवारिहेति निविंक्ततादिकं तप' छेदारिहेति दिनपञ्चकादिना प्रमिणपर्याय-  
च्छेदनं मूर्त्तारिहेति पुनर्प्रतौपल्यापन अतनवृत्त्यारिहेति अचरिततथोविधीयस्य ततोचनब्रह्मपनं पारंविष्यारिहेति तथोविधेयस्यैवाभिचारपरगमन मिति

रिहेपडिक्लमणारिहे तदुभयारिहे विवेगारिहे तवारिहे छेदारिहे मूर्त्तारिहे अथवदुभयारिहे पारं  
विष्यारिहे सेनपायच्छित्तं से किंतंविष्यए सप्तविहेपयत्तं तंअहा आथविष्यए दंसणविष्यए चरित्तविष्यए मणविष्यए  
वद्विष्यए कायविष्यए लोगोवयारविष्यए से किंतंविष्यए पंचविहेपयत्तं तंअहा अथिष्यवोहिथयाणविष्यए सुअ

ते येउद्ययाये एउक्लमणारिहेतमिच्छादुक्लउदेवोते ये उद्ययाए तदुभयारिहेअलोयैमिच्छादुक्लउदेवोते येविषु गुहयाए विवेगारिहेपयुष्टमातादि  
नु टालिपुते ये उद्ययाए विवपारिहेकाउसमनु करवु ते ये अयुद्ययाए तवारिहेतपनोवापार्थविक्तादिक्लउ करवु ते येअयुद्ययाए छेदारिहे  
दिनपचकादिनेक्लमिपर्यायनु जैदतेवैअयुद्ययाएयथायोम्यशङ्कुकरिनु मूर्त्तारिहेक्लसोकीनीवारमहाप्रतजचराविवा अथवदुभयारिहेजेयकीपतीचारसागा  
इहतीउद्यकीवेगलुरापयउ पारविष्यारिहेमालिकियादिरीचीकेतलउएकतपकरावोमाउठामादिपयायए तेउएमायच्छित्तदसमेदजाणवाञ्छिवद  
तेकिमतेविनयकर्मनउत्तिर्णारिथो सतगिहेउत्तमकारकक्षा तेक्लउदक्लउ पाथविष्यएअनपुनुविमयकरवउ दसंनसम्यक्ननउविनय आरतअनुविनय  
अननोविमयकरवो अचननोविनयकरवो कायानोविनय लोकिक्लसोक्लसंधीविनय तेकिमतेम्यानोविनय पचविधप्रकारप्रप्रक्लकक्षातोयंकरद

आसणाभिगच्छिर्वन्ति यत्रयत्नोपवेष्टुमिच्छन्ति तत्र तत्रासननयनं भास्यप्ययंति आसनदानमात्रमेवेति किरियायंति क्रियावादिनां संभोयस्त्विति एकसामा-  
 खाणवियण ए उहिण्याणवियण ए मयपज्जवणाणवियण ए से किंतं दसणवियण ए दुविहे पसुत्ते तंजहा सुसु  
 सणावियण ए भणच्चासायणावियण ए से किंतं सुसुणावियण ए अणेगविहेपसुत्ते तंजहा अब्भुट्ठाणेइवा आसणाभिगच्छिवा  
 आसणप्यदाणेतिवा सक्कारेइवा सम्माणेइवा क्तिकम्मोइवा अंजलिपगहेइवा एयसुअणुगच्छणाविअसुपज्जुवास  
 णया गच्छं तस्सपडिसं साहणया से तं सुसुसणावियण ए से किंतं अणच्चासायणावियण ए पणतालीसविहेपसुत्ते तंजहा

तैयथाकहइइह अभिण्णिवोहियणाणवियण ए मतिज्ञाननोबिनयकरवोज्ञाननागुणवर्णकह्या सभणाणवियण ए श्रुतज्ञाननोबिनयगुणवोत्तवा अविध  
 मयादासहितज्ञानजाणपणोगुणवषाण्णिवा मनपर्याविज्ञाननोगुणवर्णवोजइज्ञाननीनास्त्रिकरीयइ केवलज्ञाननोविणयगुणवोत्तवा तेकिमदर्शन  
 सम्यक्कनोबिनय दुविहेविइप्रकारे प्रज्जसकह्यातीर्थंकरइ तेकहइइइ सुअणुगुरनीसेवातेचरूपविनयसाधविवो अनायातनाटालिवीतेइरूपविनय  
 तेसुशूषागुरनीसेवतिचरूपविनय अनेकविधघणाप्रकार प्रज्जसकह्यातीर्थंकरइइह अब्भुट्ठाणेइवागुरआव्यइउठीजभाषाइवो आसरजिहंर  
 बइसवावांछइच्छेतिहारभासनज्जेइनइजाइवो एभासननोपभियइजाणवो सकारवस्त्रनीनिसंत्रणाकरवो सन्मानदेवोजे  
 सुहेभलइभाव्या क्तिकम्मं गुरनैवांदणाहादसविधकरवो अंजलिहायविजोडीआगलिजभारश्चिवो एयस्सुभावताहुइतेहनइअगुगच्छणासामुहा  
 वालीनइंजइइह क्खितभावीनैठांमरह्यानोपर्युपासनाआगतस्वागतिसेवाकरवो गच्छं तवात्तं प्रयाणकरतां नीपडसंसाहणाप्रतिग्रयसु'वोलाविवाजा

परहंताणं षण्चासादयथा अरुहंताणस्तु षण्चासादयथा अरुहंताणस्तु षण्चासादयथा एवं लवज्जायाणं  
 धेराणं कुलस्य गणस्य संबन्धस्य किरियाणं संभोगिअस्य आभिणिवोदियणाणस्य उद्विषणाणस्य सुषयाणस्य मण  
 पञ्चवयाणस्य केवलणाणस्य एतेसि चैववससंजलणया रुत्तं चणचासादयाविणएसे किंतं  
 चरित्तविणए पंचविहेपस्यत्ते तंजहा सासादअचरित्तविणए परिहारविमुद्धिचरित्त

वधं तेहगुहनीसुखपावेवाकरवीतो एविनयकश्चिबोभगवतइ तेकेहवोपनायातनाटाखिवितेइरुपविनय पंपतालीसध३भेदमप्रथ कझातीर्थकरइ  
 तेकइइइइ अरिहंतविद्यमानविइइतातेइनी पनासातनाअनायातनाटाखिवो परहंतभगवतनीमप्रथभाथोलेधर्मदुर्गतिएउताराषइ तेइनीपनासा  
 तनाअनायातनाटाखिवो आचार्यंप्रकारनामतिपासक तेइनीपनायातनाअनायातनाटाखिवो इमसपाथायलेहादसगीनाजाणते इनीपनायातना  
 असातनाटाखिवो थिवरत्तिथिमकारनानीपायातनाटाखिवो १५ धंद्वादिककुसनीपासातनाटाखिवो कोटिकादिकगणनीपासातनाटाखिवो अमणसंधनी  
 आसातनाटाखिवो क्रियाबादीक्रियामानइतेइनीपासातनाटाखिवो समीगौसरीपीरुठीसमापारीते इनीपासातनाटाखिवो आभिणिवोदियाणस्यमति  
 प्राग्नीपासातनाटाखिवो १६ उद्विष्याणस्यधधिप्राग्नीपासातनाटाखिवो १६ सुययुतप्राग्नीपासातनाटाखिवो १६ मणपञ्चवयाणस्यमनपयुव  
 ज्ञाननीपयातनाटाखिवो १५ केवसर्णाणस्यकेवसर्जाननीपासातनाअसातनाटाखिवो एइयनरनीमत्तिकरे बहुमान्जप्रपर्व३० प्रकारइवा एपनरनीव  
 गुणवर्धनीकरीनेदीपाविवीएव३५ प्रकारइवा तेइएपायातनाटाखिवानीविनय ते किमर्तं वास्विइपाचनीविनयगुणवर्णं विवा पंचविधपांचमकार



वारिकताया इति ॥ छः ॥ मनोविनये लिख्यते—जे भ्रमणेति यत्पुनर्मनश्चित्त मसंयतामा भिति गत्यते सावळीति सहावयेन गहितकर्मणा हिंसादिना वतंत इति सावय मेतदेव प्रपंच्यते सक्रियक्ति कायिक्यादि क्रियोपितं सकलसेत्ति सकलश्रं कर्क शभावोपितं कटुएत्ति परेषा मालनीषा कटुकमिव कटुक

विणए सुज्जंसं परायचरित्तविणए अहक्खायचरित्तविणए से किंतंमणविणए दुविहेपस्यत्ते  
तंजहा पसत्यसणविणए अपसत्यसणविणए जेअमये सावज्जे सक्रिए सकल्लसे काडुए

प्रप्रथकघातौर्धकरे ते कहे भगवंत सामायकषारित्तनवकारकरे मभंते सामाग्र्यं एहउच्चाररूपते हनुं विनय छेदोपस्थापनीयः वारिकपहिलौ सामाद्रुक  
षारित्ते दीलवद्याणामहा व्रतनुं चषरिवोते हनुं विनय परहारविशुद्धिवागस्रीतलव्यावर्षाकालउपयासादिकमागृदलगीतपकरद्गकवाहिरहीनइअलगा  
क्रियाकरइते हरूपषारित्रविनय० मूसं परायपातलाकपायपापाछिवासूक्ष्मोभरूपदसमागुणवां पालगीडुइते रूपषारवते हनीविनय० यथाख्यागचारि-  
त्रकषायरहितपांचमोच्छ्रयन्इजिनकेवसीनइइते हषारित्रनीविनयगुणवर्णनारूपते हषारित्रपांचनीत्ताचविवीपूर्णह ते किमते विनयम  
ननीविनयकहिवी दुविधिविहुं प्रकारप्रप्रकक्षातीर्थिकरइ ते कइइइइ प्रप्रस्तभलोमननीविनयमननीभलोप्रवत्तां विवी अप्रगस्रापाडूउमनउविनय  
जिहामनपाडुं प्रवत्तां वियइ ते हवैकछाउकिमते विनय अप्रस्तपाडूउं मनप्रवत्तां वियइते हनउविनय रते किस्वीछइ जेमअंतःकरणसंयतनीकेहवउ  
सावयभवयपापैकरीसहित सक्रिएं कायिक्यादिक क्रियासंघित सकर्कसकठीरभावते, एइकरीसहितछइ अप्रणनइं परनइकडूआसरीपउ निदु, र

मनिष्ठमित्यर्थं. निद्रुतेति निद्रुत्साईवानुगत फलहेति खेदानुगत अहयकरेति आशयकरमगुमकापीयकारि कुतइत्याप छेयकरेति च फलादि-  
छेदनकारि भेयकरेति नासिवादीनां भेदनकारि परितावणकरेति माणिनानुपतापहेतु' अहयणकरेति मरणान्तिक्कवेदनाकारि धनहरणाद्युप-  
द्रवकारि वा सुषोषवाइएति भूतोपघातो यत्नास्ति तद्भूतोपघातिका मिति तद्वाप्यगारति एव प्रकार असयतमन सहयमित्यर्थं. मणोषोपघारेणंति न

विद्रुते फलसे अयइयकरे छेयकरे परितावणकरे अहयणकरे तद्वाप्यकारंमणोषोपघारेज्जा  
सेत्तअपसत्यमणोविणए सेकितंपसत्यमणोविणए २ तंचेवपसत्यणे म्ब्व एवंचेवचइविणओवि एतेहिपदेहिंचेवणेथ्वलो सेत्तं  
वइविणए सेकितंकायविणए दुविहेपखसे तंजहा पसत्यकायविणए अंपसत्यकायविणए सेकितंअपसत्यकायविणए २

सुखमात्रपथारहित फलसे विकरीसहित आशयण पनच पाविधुं'वहनच'करणहार छेदकरइत्तादिकछेदु करणहार नात्रिकादिकनुभेदु  
करणहार माषीनिपरतापपतिययसु माषीनेतापशु करणहार अहयणमर्यातवेदानचकरणहार भूतमाषीनु उपघात तथाप्रकारतेइवचमननोधररू  
प्रपत्ते तेइएप्रमस्तनइपाइूचमननचविनयकहिषो शिवइतेकादिवच सेते किंकिमतेविनयप्रमस्तनचमनतेहनोविमय २ तिमइजप्रमस्तनेमनगिरवच  
करियचमकंउरकूएपनिठु, इइत्याकिमउरपापजोडिवच दूमचप्रयस्तपाइूचमयस्तमलउवचनचपुविनय एणइलपइं'नेचवएसायजेसकरिएसकक  
सेकइएनिद्रु, देपजेवएपसावलो चकरिएपककवेपकइूएपनिद्रु, देसंथधिकारजाणिवचतेइपचनचविनयकछाउतेहिपचकछाउतेकिकिमतेविनयकायास  
रीरनीविनय दुविहेवइप्रकारे प्रपत्तकछाउतीर्थकरइ तेकइइकर प्रयस्तमसउकायासरीरशु विनय अंपसत्यपाइू'उकायासरीरनु'विनय तेहिचइते

प्रवर्त्तयेत् अणोत्तंति असावधानतया उल्लङ्घयेत्ति कर्त्तव्यमिति मतिरस्येन तदेव सुलङ्घन मिति सध्विन्दियकायजोगुंनययति सध्वेन्द्रि-  
 याणां काययोगस्य च योजनं प्रयोजनं व्यापारणं सर्वेन्द्रियकाययोगयोजनते ति अबभासवर्त्तयति प्रथ्यासह्यतिता समीपवर्त्तित्वं परच्छंदाणुवर्त्तियंति  
 सत्तिवहेपण्यत्ते तंजहा अणोत्तं गमणे अणोत्तं ठाणे अणोत्तं निमीदणे अणोत्तं तु अट्टणे अणोत्तं अणोत्तं  
 उल्लङ्घणे अणोत्तं पल्लंघणे अणोत्तंदिअकायजोगुंनयया सेत्तंप्रसत्यकायविणए सेकिंतंप्रसत्यकायविणए एवंचेवप  
 सत्यं भाणियव्वं सेत्तंप्रसत्यकायविणए सेत्तं कायविणए सेकिंतंलोगोवयारविणए २ सत्तत्रिहेपण्यत्ते तंजहा अबभास

किमंतंविनयप्रसूपाडू उकायासरीरनुं विनय सत्तविहेसातइप्रकारप्रप्रमकछठतीर्थंकर तेकइइइइ अनयुक्तप्रसावधानपणइगमनजाइवठं भावि  
 वुकरइ अनयुक्तप्रसावधानपणइठांणइयानकठभौरही अनयुक्तप्रसावधानपणैंनियीदनभूमकानइत्रियेवैसे अनयुक्तप्रसावधानपणैतुअट्टणंसइवठ  
 करइ अनयुक्तप्रसावधानपणइपाडतयाकाडउक्तं घणविफलागट्टपौनजाइ अनयुक्तप्रसावधानपणैपक्षंघनउत्कृष्टणैपाळुवैलिनवारइपुणफलांगइटपै  
 अनयुक्तप्रसावधानपणैं सर्वेन्द्रियपांचइअनेकायासरीरयोगमनवचनकायानाव्यापारयुं कैप्रयुं जइत्तिवारइ तेइएअप्रसस्तपाडू उकायासरीरतेहयिनयक  
 हिवठ तेहिवठं कहठं सेतेकिंकिमंतंविनयप्रयस्तभलउकायासरीरतेहनउं विनय इमइजपूर्विक्लोपरइं प्रयस्तभलउजाणिवउ साथधानपणइजाइवठं  
 रहिवुं वइविवुं वइवठं जाणिवउ तेइप्रगप्तभलउकायासरीरतेहनउं विनयजाणिवउं तेइएकायासरीरतेहनउं विनयकहाउं तेइयसेतेकिंकिमंतंविनय

तस्य सवयत्तं विद्वं बलान्तरं का वानसवयत्तं मीना २२

परमिप्रायाशुचरत्तं कञ्जहेतुति कार्यहेतोः शानादिभिमिस भक्तादिदानमिति गम्यं कथयपडिकरियन्ति पद्यापितीहमनेनेति युष्माग भक्तादिदान  
मिति पत्तगवेवययति प्राप्तस्य दुस्वितस्य यार्तास्वेपणं देसकाशयुयति प्रस्तावप्रता पवसरोचितार्थसम्पादन मित्यर्थं सवत्येष्टु अपडिकोमयति  
सर्वप्रथोजनेवाराध्य सम्यन्विष्यागुयुय्यमिति वियावचेत्ति व्याप्त भक्तपानादिभिरपष्टथ सेहति अभिनयप्रप्रजित तपस्यो पष्टमादित्तपका

वत्तित्रं परच्छेदाशुनसिच कञ्जहेतुं कथयपडिकरिया अत्तगवेवयया देसकालण्या सवत्ये सुअपडिलोभया सेत्त  
लोगोवयारविणए सेत्तंविणए सेकितचेववेआवचे २ दसविहेपखत्ते तजहा आयरियवेआवचे सुवज्झायवेभावचे

लोकसंबधी विनयर लोकमाधि निम सागतिसागति करर तिम ए विनय सत्तविहे सातेपकारे प्रप्रत कञ्जठ तीर्थकारर ते कष्टर कर  
पभासवत्तिचं गुदनर समीपि प्रवर्तितवठ परच्छेदाशुवत्तिच पारकष्टर गुदनर तथा साधर्मिक तु अभिप्राय केहि प्रवर्तितवठ कार्यं प्राणादिकनर  
हेतु निमित्त इमातपांणी प्राणी चर कथयपडिकरिया एण एहगुं मयाध्यठ इषी बुधि विनय करर पत्तगवेवयया प्राप्तो गवेयया चात्ति  
जपनी जाणी तेहनो उपसम तेहनो गवेयया करर देयकासुनयप्रस्ताय पवसरनठं जाविषठ सर्वे पर्थं प्रयोजननर विपद प्रप्रतिसीम सामुदठ  
पत्तंरठ परावठठ किमर न यावद तेह ए लोकोपचार लोकिच विनय कञ्जठ जे एतच्छर विनयतठ पधिकार पूरठ इडठ तेहिय किकिम ते वियावय  
भातपाणोपादिकरं उवडंम साहाण्य देवठ तेहनो दगविध दयप्रकार प्रप्रत कञ्जा तीर्थकारर ते कष्टर करर आचार्य आचारनठ प्रतिपालक तेहनठ  
वेपवच पाहारादिकर उपष्टथ साहाय्यदिर उपाया गहादसगी भाभण्यद्वार तेहनठ वेपवच भातपाणो पादिके उपष्टथ साहाय्यदर मियनवि

सेहवे आवचे गिलाणेवे आवचे तवस्त्रिवे आवचे धेरेवे आवचे साहस्त्रि आवचे कालवे आवचे गणवे आवचे  
 संघवे आवचे सेसंवे आवचे सेकिंतं सज्जाए २ पंचविहे पणत्ते तंजहा वायणा पडिपुच्छणा परिं अट्टणा अणुप्येहा  
 धम्मकहा सेलंसज्जाए सेकिंतं ज्जाणे २ चउल्विहे पणत्ते तंजहा अट्टे ज्जाणे षट्ठे ज्जाणे धन्मे ज्जाणे सुक्कज्जाणे  
 अट्टे ज्जाणे चउल्विहे पणत्ते तंजहा असणुसुसंपमोगसंपउत्ते तस्सुविप्यमोगस्सतिसमयागएआविभवइ सणुसुसंपमोग

दीपतनउं वेयावच्चभातपाणीइउवष्टं भसाहाय्यदिइ

वेभावच्चभातपाणीइंसाहाय्यदिइ विवरजातिथवरादिकतेहनउवेयावच्चभातपाणीइंउवष्टं भसाहाय्यदेवउ गच्छसुसुदायतेकुलतेहनउवेयावच्चपाहारादि-  
 कइंउपष्टं भदिइ कुसुसुदायतेगतेहनउवेयावच्चआहारादिकइंउपष्टं भदिइ गणुसुसुदायतेसंघतेहनुवेयावच्चआहारादिकइसाहाय्यदिइ एतलइ  
 वेयावच्चदयभेदनउपूरउवष्टं भगवंतइकहिठ तेहिवउककठ तेकिंकिमतेसज्जायकर्मनिर्जराभणीपाठनउभणिवठ पंचविधपंचप्रकारप्रसप्तकक्षातीर्थं  
 करइ तेकइइइइ वायणागुरुसमीपिपरवाडिलेवी पडिपुच्छणासंटेइऊपनइप्रूच्छिवठं परियट्टणावाली २ ते हजभणिवठं तथाभणानउं गुणिवउं अणुप्ये हा  
 पयंनउं चीतविवठं करइ धम्मकथापांचमांवरसीधम्मोनुकहिउं करइ तेइएतलइसज्जायापांचभेदकशा तेहिवककठउतेकिंकिमध्यांनअंतरंगविपइरुध्याइतेध्यान  
 २ चउल्विहेस्यारप्रकार प्रसप्तकक्षातीर्थं करइ तेकइइइइ पार्त्तध्यांनविषयानउरंजितविपयसंघंधिध्यानधरइ रोड्रुध्यांनहिंसानुं रंजितहिंसानुं सायात्रीजध्यांन  
 धम्मध्यानजिनवचनार्थनिणं यफुपजध्यांन शुक्लध्यांननोरंजनध्याबरं वुतेध्यांन पार्त्तध्यांनविषयानउरंजितध्यान चउल्विहेस्यारप्रकार प्रसप्तकक्षातीर्थं करइ

गिलाणमंदकाडिवठतेहनोवेयावच्चभातपाणीइंसाहाय्यदिइ तपस्वीच्छुचइमादिककरैतेहनउ

तत्र धनवन सिद्धवत्परि का अंगानसंघव भाव २३

धरति क्वचित् जन्मादिभिः साधर्मिकं साधु साध्वी वा कुर्वं गच्छत्सुदाय गणः कुसानां सुसुदाय सहो गणससुदायः इति । ए ॥ यमणुखसपभो  
 मसपउत्ते न्ति यमनोष्ठी यनियो यः यद्धादि ह्यस्य यः सप्रयोजो योग खेन सप्रयुजो यः स तथा तथाविधः सन् तस्थिति तस्यामनोप्रस्य यद्धादे विप्रयोग-  
 सति समन्वागतयापि भवति वियोगविस्तारगतः स्यात् वापौल्यनरवाक्याविषया ससुसुदायं पसावार्त्तस्थान स्यादिति श्रेयः धर्मधर्मिणो रभेदादिति  
 तथा मणुषसंपयोगसपउत्तेत्ति व्यर्थं नवर मनोऽन्न धनादि तस्थिति मनोऽन्नस्य धनादे यविष्ययोगसद्वसमन्वागतप्राविभवदन्ति व्यर्थं नवरं प्राप्तस्थान  
 मसा युष्यत इति वाक्यशेषः तथा आर्थकसंपयोगसंपउत्तेत्ति व्यर्थं नवर परिशुचियति सुपौप्रोत्तिनेवनयोदिति पचनान् वेदितः प्रीतो वा य कामभोग  
 पूर्ववत् तथा परिशुचियकामभोगसपयोगसपउत्तेत्ति व्यर्थं नवर परिशुचियति सुपौप्रोत्तिनेवनयोदिति पचनान् वेदितः प्रीतो वा य कामभोग  
 सपउत्ते तस्युश्चिष्यश्चोगरसतिसमन्वागतप्राविभवद् आर्थकसंपयोगसपउत्ते तस्यविष्यश्चोगरसतिसमन्वागतप्राविभवद्  
 परिष्कृतिसियकामभोगसंपयोगसंपउत्ते तस्युश्चिष्यश्चोगरसतिसमन्वागतप्राविभवद् आर्थकसंपयोगसपउत्ते तस्यविष्यश्चोगरसतिसमन्वागतप्राविभवद्  
 तिकच्छदच्छद यमनोऽन्नपाठ आर्यद्धादिक तेहनसंयोगनिष्पन्नपनर तिवाररत्तेहनसविद्योगवाक्यद्वीतव्यदिकिवाररं एलास्यद मनोऽन्नगण्धादिकतेष  
 नदसंयोगखपनरमिसद तेहनापविष्योगनठवीतविषयसमाथादएहनसविरहमवाक्यसकश्चिद एव पातकरीगतेहनदसयोर्गखपना तेहनावियोगनसं  
 र्वीतविषयसं एमजापद एरोगनठविरहकश्चिदस्यद परिशुचियवेव्याजिकामभोगतेहनदसंयोगनिष्पन्नयकार तेहनाप्रविद्योगनुर्वीतविवुं एमजापदरियेएह  
 नठविद्योगद्वद् प्राप्तस्थानविषयानुंदित तेहनाप्राक्खणार्त्तस्यपचारंभियस प्रप्रप्तकजातीयेकरर तेकश्चदद्वद कंदणया मोट्टइसादरंविषा

शब्दादिभोगो मदनशेवा वा तस्युक्ति तस्य कामभोगस्य श्रवित्थषीगस्यइसमखागएत्ति प्रीयत्त् कंदणयत्ति महता शब्देन विरयणं सो भणयत्ति दोनता तिप्पणयत्ति तेपनता तिपि: चरणार्थत्वा दश्रुविमीचनं विलपनता पुन: पुन: क्लिष्टभायणमिति ॥ उतस्सदोषेत्ति उतस्सणेनवाहुल्येनानुपरतत्वेन दोषोहिंसा ऽदृतादसादानसरं च गाना मन्यतम: उत्थाणदोप: तथा बहुदोषेत्ति बहुष्वपि सर्वेष्वपि हिंसादिपु ४ दोप: प्रहृत्तिलचणो बहुदोष: शयाण- दोषेत्ति अज्ञानत्त् ज्ञाज्ञासंस्काराहिंसादिष्वधर्मस्वरूपेपु धर्मबुद्ध्या या महत्ति स्मज्जचणो दोषो अज्ञानदोप: प्रासरणंतदोषेत्ति सरणमेवात्तोमरणान्त:

पखत्ता तंजहा कंदणया सोअणया तिप्पणया विलवणया रुद्धेअण्ये चउव्विहेपयत्ते तंजहा हिंसाणुवंधौ सोसा  
णुवंधौ सेणाणुवंधौ चारक्खणाणुवंधौ रुद्धस्खणंअणस्स चत्तारिलक्खणापयत्ता तं उतस्सणदोसे वज्जदोसे अखाणदोसे

पनुनुं करिवचं सोअणया शोचकरइ दोनपणुं प्राणइ तिप्पेणया आंसुत्तोनापिवो विलवणयावत्तो र हाट्टेइइत्यादिभापियचं रौद्रध्यानं हिंसा नो रंजितध्यानं चउव्विहेच्यारप्रकारइप्रसप्तकज्ञातीर्थं करइ ते कहइइइइ हिंसाणुवंधौ हिंसाजनुं चीतविवो सोसाणुवंधो नू जचीतविवुं तेणाणुवंधो चोरी नू जचीतन सारक्खणाणुवंधो असुकानइवंदोपाणइदेवराविवो एहवुं चीतविवुं वुंतनरूप रौद्रध्यानं हिंसानो धितनरूपते ह न अणारिलक्खणएइ एणइलक्खणइ रौद्र ध्यानजाणियइ तेप्रसप्तकज्ञातीर्थं करइ ते कहइइइ उतस्सणदोसे प्राणिं हिंसास्वपापदत्तमैशुनपरिगृहमां हिंत्तो अनेरादोपत्तागर बहुदोषे हिंसा दिकनइ विपइ षणो प्रवर्त्तवो अखाणदोसे अज्ञानयकी कुगालसंस्कारथकी हिंसा दिकनइ विपइ धर्मं बुद्धिप्रवर्त्तवो एदोस प्रासरणांतदोसे सामरणांत लगेजेहनइ पयात्ताप नावइ हिंसाइ जनइ विपइ प्रवर्त्तवो कालसुरीयानीपरिं धर्मध्यानं जनवचनो अर्थनिर्णय रूपते इ चउव्विहेच्यारप्रकारकहागणधरइ चउपडो यो रिया रि

प्राप्त्यान्तात् प्राप्तात्प्राप्तं न सञ्जातासुतापस्य काष्ठसोष्णरिवादि रिव या चिसादिषु ४ प्रवृत्ति सेव दीप प्राप्तात्प्राप्तदोषः । इत्थं वातिरोद्धे परिष्कारं-  
 तथा साधुविशेषदे धर्मोक्त्याचिन्त्यतेति चतुर्षु भेदश्चास्यनासुमेचास्येषु पदार्थेषु प्रत्ययतार समवतारो यथासाध्यस्वरूपो  
 यस्य तत्रतु प्रत्यवतारमिति प्राणाविजयति प्राणा विजयो निर्णयो एत तदाप्राविष्य प्राकृतत्वा दायाविजय प्राणागुणानुबिम्बन  
 मित्यर्थ एवं श्रेयसदात्म्यपि नवर प्रपाया रागद्वेषादिजन्या अनर्था विपाक कर्मकस संस्थानानि लोकोपमसुद्राद्यास्तय ॥ छ ॥ प्राणावर्द्धति  
 नियुक्तादियद्दाना निरस्यवर्द्धति स्वभायत एव तत्त्वयद्दानो उदयवर्द्धति साधुपदेशात्तत्त्वयद्दानां हस्तवर्द्धति प्रागमासत्त्वयद्दानां आसत्त्वयपति प्रासत्त्व

प्राप्तात्प्राप्तदोषे धर्मोक्त्याचि चतुर्विधे चतुर्षुसोद्यारे पण्यते तंजहा प्राणाविजये प्राणायविजये विवागविजये  
 संठाणविजये धर्मस्यस्यज्जाणस्य चत्तारिलकत्वणा पण्यता तं प्राणावर्द्धे णिसम्भवे सुत्तवर्द्धे सुत्तवर्द्धे धम्मस्सुत्तं

प्रत्ययतार एतच्चत्तारिचोक्तप्रकारः प्रप्रतकत्वातीवकरत् तेककरत्वे प्राणाविजय प्राणाजिनप्रवचनतेइतो विजयनिर्णय प्राणागुणयो  
 चित्तन प्रवायविजये रागद्वेषयत्रीचनर्षणपक्षर एतन्नोचितन विपाकविजये कर्मसु कस्तभोगत्याविनानकुट्टरएतन्नोचितन संठाणविजये शीपससुद्रादिका  
 तथालोकरनासंस्थानप्राकारतेइनोचितन जिनवचनार्थनिर्णयकरूपधर्मध्यानतेइना चारिलकत्वणत्वर इषिकस्यरधर्मध्यानयुधौजाणियर एतत्तु प्रप्र स  
 कत्वातीवकरत् तेककरत्वर भगवतनोपाशानोचितेइतीवइदृश्यानिनु क्तिसुसहस्रं निरस्यंउपदेशपापरसाचीवविशाचीसहस्रथा उपदेशगुरुभवितेइ  
 नोचितसहस्रथा श्रुतमिहातनोचितेइनातत्वनीसहस्रथा जिनवचनार्थनिर्णयकरूपजोधर्मध्यानतेइना चारिपालवनधर्मध्यानकरूपचरनरियत्तेइतिवकता



नानि धर्मध्यानशौचगिह्वरारोहणार्थं यान्यासस्वप्नान्ते प्राथोयन्ते ताव्यासस्वप्नानि वाचनादीनि अनित्यत्वाग्ररणत्वाच्चै कत्वसंसारानुपेक्षाः प्रतीताः  
 ॥ छः ॥ पुहत्तत्रियक्के सविआरीरित पृथक्के न एकद्रव्याश्रितानामुत्पादादिपर्यायाणां भेदेन वितर्कौ विकल्पः पूर्वगतशुतालम्बनी नानानयानुसरणलक्षणो  
 यत्र तत् पृथक्त्ववितर्कं तथा विधारी अर्थद्विषङ्गने व्यञ्जनादर्थे मनःप्रवृत्तियोगानां चान्यस्मादन्यतरस्मिन् विचरणं सह विचारेण यत्तत्त्वविचारि सर्वधनादि-

ध्याणस्स चत्तारिआलंबणापखत्ता तंवायणा पुच्छणा परियट्टणा धम्मस्सुणंज्जाणस्स चत्तारि  
 अणुण्येहाओ पखत्ताओ तंजहा अणुव्याणुण्ये हा असरणाणुण्ये हा एगत्ताणु ण्ये हा संसारणुण्ये हा  
 सुक्कज्जाणे चउव्विहे चउण्णडोआरे पखत्ते तं जहा पुहत्तवियक्के सविआरौ एगत्तवियक्के अविआरौ

आलंबनदोरडोपरिवलगनरूप प्रज्ञप्तकक्षातीर्थं करइ तेकहइरुइ वायणागुरुसमीपिंपरवाडिलेवी पुच्छणाषंदेहजपनइं पृच्छिबीं परियट्टणा वाकीर तेह  
 जभण्णिवीं धर्मकथापांचमांहिंबइसीधर्मनउकंहिबीं जिनवचननिर्णयरूपजेधर्मध्यानतेहनी चारिअनुप्रेचाविचारणाचिन्तनरूप प्रज्ञप्तकक्षा  
 तीर्थंकरइ तेकहइरुइ एसंसारीकसर्वपदार्थान्नित्यरुइएहवीविचारणाचिंतन संसारमांहिकोकेहनइसरणइनयोएहवीविचारणाचिंतन एकजीवएकलभो  
 आव्यओएकलीवासइएहवीविचारणाचिंतन संसारगतभागतिरूपफिरवीरुइएहवीअनुप्रेचाविचारणाचिंतन शुक्कध्याननीरंजनरूपतेहचउव्विहेच्यार  
 प्रकार चउण्णडोयारेच्यारिप्रत्यवतारएतत्तइच्यारघोक्कसोलप्रकार प्रज्ञप्तकक्षातीर्थंकरणधरइ० तेकहेरुइ पुहणएकद्रव्याश्रितत्वादिकपर्यायनाभेदज्  
 आपण्णइं करीवितर्कविकल्पविचारवीशब्दधकोपर्थविषइअर्थयकीशब्दनइविषइमनि करीविषरतेषसहितएहवोचिंतविबोतेशुकुध्यांन शुं प्रथमभेद

स्वादिनुसमासात् तथा एगस्यिक्के पविपारो। ए श्लेनभिदेनोत्पादादिपर्योवाणा मन्वतमैः कपर्यायानम्यनततेत्यर्थोऽपि तत्कं पूर्वगतश्रुताय्याव्यजनरूपा पर्यरूपां वा यस्य तदेकत्वमितर्कं तथा न श्रियते विचारो एवं व्यञ्जनयो रितरत्नादितरत्न तथा न प्रथमोना मन्वतराया दन्वत् चस्य तद्विचारादिति सुब्रह्मिदिएपप्युक्तिवारति सूक्ष्मा श्रिया यत्र निरुक्तवाचनोयोगत्वे सत्यैर्निरुक्तवाचनोयोगत्वात् तत्सूक्ष्मश्रियं पप्रतिपत्तनश्रीस प्रवृत्तमानपरिणामत्वा देवतश्रि निर्वाणगमनकाने श्लेषनिन एत स्थादिति समुच्छिन्नमभिरिए पशियद्येति समुच्छिन्नम चोणा श्रिया काश्रियादिका श्लेषुभीकारे निरुक्तयोगत्वेन यजि स्यात् तथा पनिवर्तिनं पञ्चागर्तनस्यभाप गिति । छ । विवेमेति देहादात्मन पावनोवा सर्पधर्मोगतानि विवेचन पृष्ट्वा पृथक्करण श्रियेकं विवृतमनेति युक्तयो नि यदतया श्लेषोपरित्याग सखे हेति देहादुपसर्गजनित भयं वञ्जन वा व्यथा तदभावो पत्यय वससोहेति देहादिसप्तमायाकाजितम्य सूक्ष्म-

सुब्रह्मस्युक्त्याप्यस्य सुब्रह्मस्युक्त्याप्यस्य ॥ छ ॥ तजज्ञ

सत्त्वात्तादिकजेद्रव्यनापर्यायते इतुं एकपणु पभेदएइतुं शितकंधिकत्वस्यथापर्यायमाहिएककोदेपर्याय पाखिवोररिहवत् पर पविचारीसुचार्य विचाररद्वितएवो जुभेदनाश्रवत् सूक्ष्मश्रियाकाशयोगनदुक्थियदपरतैपपठिवाहेतिश्रायकोपरिणामयवं मानदुयदुपररुओणनथादभेदेथलोगश्रितिशर्वाणगमनवेनाहंनथाद ससुच्छिन्नपगभीकायकी इत्यादिसर्वक्रियापनिवद्येतिश्रायकोपाखत्तनिवर्तनही एभेदेयैकुभीकारण्यवेसापयोगगुणठायाहंतागदुपुदएपउखउभेदजाणियत् यस्तथामनोरजनरूपतेहनो व्यारिसचपखदएइसचणएइसकथाननउधशोपुद मन्वाकश्रातीशकरइ शैकइइइइइ श्रियेकदेइइयकीवाला जूत पाज्जायकोयरोरजुज एइवउचिततवितरुणुगीसर्वतगनु परित्याग सखे हेदेवादिप्रउपसर्गमितपनिष्ठवावाधायेइतही खर्ताव्यभोहिदमभनही

टीका

१२८

सुब्र

वासा  
बोध

पदार्थविषयस्य च संसोहल्य मूढताया निषेधी असंमीहः ॥ अवायाणुप्येहसि अपायानी प्राणातिपाताद्याअध्वारं ज्ञानार्थानामनुप्रेचातु-  
चिन्तन मपायानुप्रेचा असुभाणुप्येहसि संसारशुभत्वानुचिन्तनं अणंतवत्तिथाणुप्येहसि भवसंतानस्थानन्तसृत्तितानुचिन्तनं विपरिणामाणुप्येहसि

विवेगे विउस्सुग्गे अल्लेहे असम्मोहे सुक्कसंणंज्जाणस्सुचत्तारि आलंबया पयत्ता तंजहा खंतौ सुत्तौ अल्लवे महवे  
सुक्कसंणंज्जाणस्सुचत्तारिअणुप्येहाओ पयत्ता तंजहा अवायाणुप्येहा अणंतवत्तिआणुप्येहा  
विपरिणामाणुप्येहा सेत्तंज्जाणे ॥ छः ॥ सेकिंतंविउस्सुग्गे २ दुविहे पयत्ते तंजहा दव्वविउस्सुग्गे भावविउस्सुग्गे अ

असंमीहे सूकापदार्थनद्विविचारवद्भूमूक्तनद्वैतही४ अथवादेवादिक शुक्लध्याननीरंजनरूपतेहनाचारिआलंबन धर्मध्यानरूपघरतेहनद्वैतखरिंचडतांवल्लगवा  
रूप दोरडीरासहीसरीषांतीथंकरदूकह्या तेकहदूकद्वैत जमाकीधनुपरित्याग सुत्तौलोभनउपरिहार आर्जवमायानउपरिहार अभिमानउपरिहार  
शुक्लध्याननीरंजनरूप तेहनीच्यारिअनुपेचाविचारणाचित्तमाहिंचितनरूप मज्जसकह्यातीथंकरद्वैत अत्रा० प्राणांतिपातादिआयवद्धारना  
जपजात्याअपायअनर्थतेहनीअनुपे चांचितन असंसारनाअसुभपणानउ'चितन अणंतसंसारनीसंतानअणितेहनउअनंततापणानीअनुपेचा  
चित्तन विपरिणामा० वस्तुनउल्लिखिं२परिणामपर्यायतनथादूकद्वैतएहवाअनुपे चाएहव'चित्तन तेएतलइंध्यांननउसंबंधपूर्णहवउ ॥ छः ॥ द्विवतेकह्यउते  
किंकिमतेविउस्सुग्गल्यजिवउपरिहरिवउ दुविहेविउभकारि मज्जसकह्यउतीथंकरद्वैत तेकहदूकद्वैत मज्जसकह्यातीथंकरद्वैत भावयकीविउस्सुग्गल्य  
जिवउ'परिहरिवउ' तेहिवकहउतेकिंकिमतेद्वैतस्सुग्गल्यजिवउपरिहरिवउ चउल्लिखेच्यारिप्रकार मज्जसकह्यातीथंकरद्वैत तेकहदूकद्वैत शरीरनउ

पद्मना प्रतिक्षण विविधपरिणाममनानुचिन्तन मिति सभारविचरन्तीति नारकायुष्कादिहेतूनां मियाहृष्टित्वादीनां त्याग कर्माविचरन्तीति

सेकितंद्वेषितस्वर्गो २ चउख्विहे पणत्ते तंजहा सरीरविउस्वर्गो गणविउस्वर्गो सुवहिविउस्वर्गो सत्तपाणविउस्वर्गो  
सेतंद्वेषितस्वर्गो सेकितंभावविउस्वर्गो २ तिविहे पणत्ते तंजहा कसायविउस्वर्गो संभारविउस्वर्गो कम्मविउ  
स्वर्गो सेकितंकसायविउस्वर्गो चउख्विहे पणत्ते तंजहा कोहकसायविउस्वर्गो गाणकसायविउस्वर्गो मायाकसाय  
विउस्वर्गो लोहकसायविउस्वर्गो सेत्तकसायविउस्वर्गो सेकितसंभारविउस्वर्गो २ चउख्विहे पणत्ते तंजहा शेरइअ

विउस्वर्गत्थप्रवचंपरिहारवचं मण्यक्खनउविउस्वर्गत्थजिउषउपरिहरिवु उपधिवक्कादिकनउविउस्वर्गत्थजिउषउपरिहरिवचं भातपाणीनीविउस्वर्गत्थजिउषो  
परिहरवो तेद्वयथकीविउस्वर्गत्थप्रिवोपरिहरवो तेहिवकउचकिंकिमभावथकीविउस्वर्गत्थजिउषोपरिहरिवो २ द्विविधिविहुंपकारे प्रपत्तकप्पामीधंकर  
तेकउदअए कपायनीविउस्वर्गत्थप्रिवोपरिहरिवो सभारनीविउस्वर्गत्थजिउषोपरिहरिवो कर्मनीविउस्वर्गत्थजिउषोपरिहरिवो तेहिवकउचतेकिंकिमततेत्तपायनी  
विउस्वर्गत्थजिउषोखिउषउविउ ३ ए, एकार प्रप्राकप्प्राणधरादिसइ तेकहेत्ते कोधरीउतेइरूपकपायनीविउस्वर्गत्थजिउषोखिउषो मंनयभिमामरूप  
कपायतेइनीविउस्वर्गत्थजिउषोखिउषो मायापरनइवंविधोतेइरूपकपायनीविउस्वर्गत्थजिउषोखिउषो कपायतेइनीविउस्वर्गत्थजिउषोखिउषो  
धोतेसएतमरं कपायथादिनीविउस्वर्गत्थजिउषोखिउषो तेहिवकउचतेकिंमसंभारनीविउस्वर्गत्थजिउषोखिउषो एारप्रकार प्रपत्तकप्पामीधंकर तेक

६. सारविउस्सुग्गे तिरियसंसारविउस्सुग्गे देवसंसारविउस्सुग्गे सेत्तंभारविउस्सुग्गे केत्तंभारविउस्सुग्गे  
 विउस्सुग्गे २ अट्टविहे पणते तंजहा गाणावरणिज्जकम्मविउस्सुग्गे दरिसणावरणिज्जकम्मविउस्सुग्गे वेअणी अकम्म  
 विउस्सुग्गे ओ हणोयकम्मविउस्सुग्गे आअ अकम्मविउस्सुग्गे णामकम्मविउस्सुग्गे गोअकम्मविउस्सुग्गे अंतरायकम्म  
 विउस्सुग्गे सेत्तं कम्मविउस्सुग्गे सेत्तं भाअविउस्सुग्गे ॥ छः ॥ तेषं कालेणं तेषं समएणं सअणस्सु अगवओ महावीरस्सु

कहइ छइ नारकोरुपससारनाविउस्सुग्गर्थजिवोछ, डिओ ियिंवरुपसंसारतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ मनुअरुपसंसारतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ  
 देवरुपसंसारतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवो तेएतलइसंसारच्यारगतिरुपनोविउस्सुग्गत्यजिवो तेहिअइअइउतेकिंकिमकर्मपापयिंउरुपतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवोछा  
 डिओ अट्टविहेआठिप्रकार अत्तभतकह्यातीर्थंकरइ तेअइअइइ ज्ञानावरणीयकर्मपापनायुंजरुपपांचप्रकारतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ दशंनावरणीय  
 कर्मपापनुंजरुपनवप्रकारतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ वेदनीयकर्मपापरुपबिहुंप्रकारतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ मोहणीयकर्मपापरुपअष्टाशीसप्रकार  
 तेहनउविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ आरुपारुपकर्मपापपिंडस्वरुपच्यारिप्रकारतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ नामकर्मपापपिंडरुपएकमओविहंप्रकारिंतेहनो  
 विउस्सुग्गत्यजिवो गोत्रकर्मपापरुपपांचिप्रकारतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ अंतरायकर्मपापरुपपांचप्रकारतेहनोविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ तेहएतलइ  
 कर्मआठनओविउस्सुग्गत्यजिवोपरिहरिवो तेएतलइभावथगीविउस्सुग्गत्यजिवोछाडिओ ॥ छः ॥ तिण्णिकालिचोथाआरानइनिपइ तिण्णिमइअअसरइ  
 मस्सायनइविपइ अमणतपनाकरणहार भगवंनमहिमांत महावीरकर्मण्युनाजीपणहार बहवेघणा अण्णारसाधुघरनीमसताग्घित भगवंत

प्रागवस्थादिकं चेतनो ज्ञानमत्यन्तकलादीनां त्यागः । अथेवमद्या पायारपरित्यादि प्रतीत कश्चिद् दृश्यते तच्छतच्छसि उच्यते तदि  
 तदिति तदंगोक्तमिहाह देहीदेही एवमाकरणं साधारणवस्तुत्वेन साधुबाहुभ्यप्रतिपादनाद्यं गच्छागच्छति एकाचार्यपरिवारो गच्छेत्  
 चरभूत्वा गच्छागच्छि याचयन्तीति योगः दण्डादण्डादिवच्छब्दसिद्धि एव गुणगुणिकं फुडुफुडु च नयर गुणग गच्छे कश्चिद् उपाध्यायाधितिः फुडुय  
 सपुत्रो गच्छेत् प्रएगण्यावच्छेदिकाधिति इति यद्य प्रकृतवाचना पाचार्यति सुवार्थो पृथगिति परियहति परिबर्त्सयति  
 तायेन अणुत्वे इति चतुर्षु यन्ते तावेव चिन्तयन्ति एकदेशीनोति पाचित्तत्वं प्रत्याक्षयते श्रोताय शभिरित्याद्येप्यः विच्छेदवशो घोति

यहने अणुगामभगयंतो अप्येगर्दि या श्रायारधग जात्रविवागसुधरातच्छ २ तदि २ देसे २ गच्छागच्छ गुग्मागुर्मं  
 फुडुफुडुं अप्येगर्द्वाचार्यति अप्ये गइयापडिपुच्छंति अप्ये गइयापरियहति अप्ये गइया प्रयुष्ये इति अप्यगइया

सहिमावतत्वेवृत्त इति समाधुपाचारंगनाधरण्यहार पतत्ररूपाचारंगन म एनारुइमाधु जात्रमदयको सूजांग ठाणग समवायग विवाहपयतो ज्ञाग  
 सपानकदगाग अतगड यतुरीवर्षाई प्रयव्याकरण इत्यारमो विपाकश्रुतकूप भल्लाखइ तिहार ठगाननरूपिपदते गइरनि देहीर पवगुइभागाइविरैषणा  
 एकठायइमइएकपाचार्यनोपदि गइर गच्छनाएकैग इपाव्याविति त नाग्वागच्छनादेमगणावच्छेदपधिति एकेशसाधुशागसति कइतामूनोवाचना  
 खइरइ एकैकमाधुपडिपुच्छ तिकइतांपयनाहीसाधिकरइखइ एकैकसाधुपरियहं तिकइतांपाच्छित्त उ भण्डं गुणरखइ । एकैकमाधुपण्येहं तिकइतां  
 यद्यंनोहितमकरइ । एकैकमाधुपाचेपणोत्सनाएइवोकरइमिनमाभक्तण्यहारतत्वमार्गप्रतिपायिते हनी कयाकरइखइ एकैकमाधुविरियणीविचेपर

विचिप्यते कुमार्गविमुखो विधीयते श्रोतायकाभिस्ता विचिप्यते संवेयणी श्रोति संवेयते मोचसखाभिलाषी विधीयते श्रोतायकाभिस्ता संवेदन्यः निव्वेयणि-  
श्रोति निर्वेद्यते संसारनिर्विकोविधीयते श्रोतायकाभिस्ता निर्वेदन्यः तथा उडुं जाणू अहोसिरति शुद्धयिव्यासनदळ्ळं नादौपयहिकनिषयाया प्रभावाच्चो  
कुट्टकासनाः सन्तो अपदिश्यन्ते जह्णं जाशुनी येषान्ते जह्णं जानवः अधःशिरसी प्रधीनुखा नोहं तिर्गम्वा विचिसट्टयइत्यर्थः ज्ञाणकोट्टोवगयत्ति ध्यानरूपो यः  
कोष्ठस्वमुपगता ये ते तथा ध्यानकीष्ठवेयनेन संवृतेन्द्रियमनोवृत्तिधाना इत्यर्थः संयमेन तपसाऽऽत्मानं भावयन्ती विहरन्तीति प्रकारान्तरेण  
स एवोच्यते संसारभउविगतिप्रतीतं जंमणजरसरणकरणगंगंभोरदुक्खपक्खविभयपउरसज्जिलं जन्मजरामरणान्वेव कारणानि साधनानि यस्य तत्तथा तच्च

अक्खेवणी प्रो विक्खेवणीओ सज्जेअणीओ णिव्वेप्रणीओ चउं व्वहाओकहाओकहंति अग्र्ये गइया उडुं जाणू  
अहोसिरा ज्ञाणकोट्टोवगया संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति संसारभयुव्विग्गा भौआ जम्मणजरसरण

कुमार्गथकीजपरानिउत्तरइतेहनोकथाकरइ एकेकसाधुसंवेगिनीदेशनाजिसंभलइं प्राणीसुक्तिसपाभिलाषीकरइतेहनोकथाकरइ एकेकसाधुनिर्वेदणीदेश  
नातेजेसांभलीप्राणीनइवैराग्यजपणइतेकथाकरइ एकेकसाधुअचिपणी१ विचिपणी२ संवेगिणी३ निचेयणी४ एत्थारकथाकइभव्यंजीवनै एकेकसाधुजइ  
जंउजजाणुठीचणकरीअधोगिरिसस्तकनींचउकरीअनइ ध्यानधर्मनउकीठाहृदयसांहिंउपगतधरीइंद्रियपांचइसंवरौमनसंवरौनइ संयमस्तरप्रकारतेणइ  
तपबारभेदतेणइकरी आपणउआत्मा भावताधर्मनइविषइजप्रवत्तं ता विचरइप्रवत्तं इच्छइ संसारचारगतिनभयगतिअगतिअमण्यकीउहेगपास्याच्छइ  
बीहनाच्छइगर्भवासथकां चिवइसंसारसमद्वर्णं वियइच्छइ जन्मजरामरणएहजकरणसाधनजेइनाएहवउगंभीर जेदःखतेहजएक्ख, विभयकइतां चालतउ

तद्भीरु दुर्लभं च तदेव प्रच्युत प्रचुरं सत्कृतं यत्र स तथा त संसारसागर तरतीति योग सजोगविद्योगवीरुचितपासगपसरिय बहव्य महज विपुल  
 कर्मोक्त कलुष विमलिय लीभ कसककलित कोसवदुल संयोगविरगा एवबोधयशरंग यत्र स तथा विनाप्रसङ्गचिन्ता सातत्यमित्यर्थं स एव प्रच्युत  
 प्रसरो यस्य स तथा बधा हननानि बन्धाः सञ्जमनानि तान्निव महात्तो दीर्घा विपुलाय विस्तोर्णा कर्मोक्ता महोर्णयो यत्र स तथा कर्त्तव्यानि विलयि-  
 तानि यत्र स तथा स वासी लीभय सएव कसककायमानो यो कोलो ध्वनि स सङ्को यत्र स तथा तत सयोगादिपदानां कर्मधारयो यतस्तौ  
 एवमाणकेण तिव्यलीसणपुष्पं पुष्पभूयोरोगवेक्षणपरिभवविश्रिवायकसधरिसणासमावड्वियकठिण्यनपत्यरतरंगरगतनिशसुधुभयतोयपहं अपमान  
 शिवापूजनशिव केनो यत्र स तथा तोमर्खिमनं चाल्यं निन्दा पुल पुनप्रभूता अनवरतोद्भूता या रोगवेदना पाठात्करे तोमर्खिसन प्रजु पतानि च प्रभूत-  
 रोगवेदनाग परिभवविनिपातय पराभिभवसम्बन्धं परपधर्पणाचनिदुरवचननिर्भक्तानि समापयानि बहानि यानि कठिनानि

कारणं गंभीरदुक्त्वपक्वुविभचपउरसखिल सजोगविद्योगवीचीचिंतापसगपरिचयवद्वयमहङ्गुविउलकल्लोलकलुषात्रिल  
 विचल्लोभकलकलंतवोलवहुलं श्रवमाणणफेणतित्वक्लिंशयं पुलंपुलप्यभूयरोगवेक्षणपरिभवविश्रिवायकसधरिसणा

प्रचुरघणउभक्तितर्पाणीच्छद्विज्ञा संयोगविद्योगरुपियात्रीचोतरगतयाचितपासगरुपियउपसरिचपसज्यावधप्रकारबंधनतेरुजमहजमोटाविपुनविस्पीर्णं  
 कर्मोन्विज्ञातायाकरणविकवितजिज्ञाकद एवउक्षोभतिज्ञाकलकलायमानएवबोलीनयन्तेवदुक्त्वद्विज्ञा अपमानसपूजनतेरुलफेनजिज्ञाकद  
 तिव्यगिउषणपत्य तनिन्दातया पुर्णुलनिरतरप्रभूतजपनीजेरोगरोदनातयापरिभवतेषतवनिनिपात तथाफिरसधरिसणाकठीरयचनइजेतिभकप्यनातेष



वाक्योदयानि कर्मणि ज्ञानावरणादौनि तानि चेति ब्रह्म स्वतएतान्येव ये प्रस्तराः पाषाणस्रैः कृत्वा तरङ्गैरङ्घ्रिभिश्चलन्विलं ध्रुवं स्तुभयमेव मरण-  
 भौतिरेव तोयपृष्ठं जलोपरितनभागो यत्र स तथा ततः कर्मधारयो अथवा अपमानफेनमिति तोयपृष्ठस्य विगेषण मतो बहुबोहिरिवातस्तं कसाय-  
 पातालसंकुलं कपायएव पातालाः पातालकलशस्रैः संकुलीयः स तथा तं भवसयसहस्रकलुसजलसञ्चयं भवगतसहस्रास्त्रै व कलुषीजलानां सञ्चयो  
 यत्र स तथा तं पूर्वं जननादिजन्यदुःखस्य सलिलतोक्ता इह तु भवानां जननादिधर्म्यतां जनिविशेषसमुदायतोक्तेति न पुनरुक्तत्वमिति पद्मभयति  
 व्यक्तं अपरमियसहेष्ककलुसमद्वाउवेगउह्नुस्ममाणदगरयंध्रारवरफेणपउरआसापिवासधवलं अपरिमिता अपरिमाणा या सहेच्छा बृहदभिलाषा  
 लोकास्त्रेषां कलुषा मलिना या मतिः सैव वायुवेगीत उह्व्यमाणं उह्व्यमाणं वा उत्पाद्यमानं यदुदकरजउदकरेणुससूहस्तस्य रयो वेग स्त्री नान्यकारी यः  
 स तथा वरफेनेनेव प्रसुग सा पिपासाभि स्तत्र प्राणाः अप्राप्तार्थीनां प्राप्तिसम्भावनाः पिपासास्तु तेषा मेवाकाङ्क्षा अतस्ताभिर्धवल इव धवलो

समावडिअकटिणकम्मपसत्थरतरंगरंगतनिच्चमच्चु भयतोअपट्टं कसायपायानुसंकुलं भवमयसहस्रकलुसजलरुंचत्रं  
 पतिभयं अपरिजिअ सहस्र कलुस सतिवालुवेगेउह्व्यस्ममाणदगरयंध्रारवरफेणपउरआसापिवासधवलं

जसमावडिनियिवहुकठिनकर्मैरूपियापत्थरतरंगतरेणइतरंगतघातततनित्यगास्वतउजेस्तुनउभयतेहजतोयपट्टं जलनु जपलउभागद्वइजिहां कषाय  
 क्रीधादिकहतेहकपियापातालकलशतेणिकरीसंकुबव्यापुच्छइ भवसंधारनाजिसतसहस्रलाषतेहकपकलुषजलउह्वलापाणोनउसंचयससूहद्वइजिहां० पति  
 भवमाहितकीआफणीजभयजपजावइ अपरिमितअपरिमाणवणीजिमहाइच्छामोटीअभिलाषाएहवालोकनीकलुषउह्वलीमतितेहरूप वाउवेगउह्वस्ममाण  
 वायुरानइवेगइकरीजं चओजच्छालीतउजेदगरयणंणोतउरजसमूहतेहनउरयवेगतेणइकरीअंधकाररूपवरप्रधानंफेणफौणवौपसुरघणोआसाधंच्छारूप

य स तथा तत कर्मधारयो षतस्त मोहमहावत्त भोगभममाण गुणमाणुच्छलत पयोपिपस पाणिय पमाय खंड वहुदुड सावय समाहयुद्धायमाण  
 पवभारघोरकंदिय महारवरवंत भेरवरव मोहकपे महावर्ते भोगकप आत्यन्कखेन भमद्र प्यशगाकुलीभव दुच्छलप उतपतत् प्रत्यवनिपतथाध पतत्  
 पानीवं जस यत्त स तथा प्रमादा मथादय क्त्वाएव षण्डव हुदुष्टस्त्रापदा रौद्रमुरिचुदृष्टस्त्रापदा रौ सहाहता प्रहता उद्धावन्तय उचित्तन्तो वा विविध  
 सेटमाना समुद्रपपे मफलादय ससारपपे पुकयादय खेपो प्राग्भार प्रीतीवा समुहो यत्र स तथा तथा चोरो य क्त्वावन्तमशरण स एव रवन् प्रति-  
 मन्दकारणतः म्प्रायमानो भेरवरवो भीमघोपो यत्र स तथा तत्पदत्रय कर्मधारयो षतस्तं षण्णभमतमच्छपरिहल्य षबिहुतिंदिय महाभगर

मोहमहावत्तभोगभममाणगुणमाणुच्छलंतमच्चोपिपसपाणियपमायचंडवज्जुदुडसावयसमाहयुद्धायमाणपठभारघोरकंदिय  
 महारवरवतभेरवरव अण्णभमतमच्छपरिहल्यषबिहुतिंदितमहामगरतुरिअचरियखोखुवभमाणनच्चंतचवलचचल

पिपासटपतेण्डकरीषुनुच्छद्विहा मोहकपमहापाषर्तं धियद्भोगकपभमतमांडलईकरीगुण्णमाणव्याकुलपण्डुलच्छतउस्यततउपव्योनिवयंतनोचउपा  
 छउपउतउपापीजसजिहाप्रमादमदादिकपचितेहकपचठरीद्रवहुषयादुष्टस्त्रापदमीवसपांदिकतेयइजेसमाहतामाहख्याउहायमाणज वाविविधजसतामा  
 विष्कारुपपुवयतेहनउपभारपूरसमूहिकापीरबद्रजेकंदियपाक्त्वादमहारवचननापच्छिहदारवंतमम्प्रायमानभेरवरववीहामणउ यच्छद्विहा षण्णभमत  
 भमतामच्छमाच्छिसपरिहल्यद्वयडाहाजिहापनिधुतउपममरहितजेईद्रियपाषतेहकपमहामकरमोटासच्छतेहनातुरियजतायजिचरितषालिवउ तीणदुखो  
 दुग्भमाषकहापत्यतचोभपासतउ नचतनाचतउद्विजिमषपसषभयिरपणएकठामयकोबीजइठामिजातधुम तममतउजसपापीनउसमूहद्विजिहा

तुरिय चरिय खोबुधभासाण नच्चंत चवल चंबल चूर्णंत घुम्भंत जलसमूहं अज्ञानान्येव भ्रमन्ती मत्स्याः परिहस्यंति दत्त्वा यत्र स तथा अनिभृतान्य  
 रुपशात्तानि यानोद्धियाणि तान्येव महाभकारास्तेषां यानि ल्वरितानि योषाणि चरितानि चेष्टितानि तैः खोबुधभासाणि भृशं चुभ्यमाणी नृत्यन्निव  
 नृत्यं च पलानां मध्ये चवलथास्थिरत्वेन चलंश्च स्थानान्तरगमनेन घूर्णंय भ्रास्यन् जलसमूहो जलसङ्घातो अन्यत्र जलसमूहो यत्र स तथा ततः कर्ण-  
 धारय स्वतस्त्रं अरइभयविषायसोगमिच्छत्तसेलसंकडं अरतिभयविषादयोक्कमिथ्यात्वानि प्रतीतानि तान्येव शैलास्तैः सङ्कटो यः स तथा तं अणाइसं-  
 ताण्यसम्बंधणकिलेसचिक्खिस्सडुत्तारं अनादिसत्तान मनादिप्रवाहं यत् कर्णवन्धनं तच्च क्केशाथ रागादयस्सन्नचणं यच्चिक्खिस्सं कर्हमस्सेन सधुदुस्सारी  
 यः स तथा तं अमरासुरनरतिरियनिरयगइगमणकुडिलपरिवत्तविउलवेलं अमरतिर्यन्मिरयगतिपु यद्गमनं तदेव कुटिलपरिवत्तवर्त्तपरिवर्त्तना िपुत्ता च  
 विस्तीर्णा वेला जलवृद्धिलक्षणा यत्र स तथा तं चउरंतमहंतंति चतुर्विभागं दिग्भेदगतिभेदाभ्यां महत्तलं च महाशामं अणवदग्गंति अनवदग्गमनन्त

चलंतं घुम्भंतं जलसमूहं अरतिभयविषायसोगमिच्छत्तसेलसंकडं अणाइसं ताण्यसम्बंधणकिलेसचिक्खिस्सडुत्तारं  
 अमरासुरनरतिरियनिरयगइगमणकुडिलपरिवत्तविउलवेलं चउरंतमहंतं मणवदग्गरुइसं सारसागरं भौमदरि

अरतिअसाताभयबोहकविषादचिंताशोकदुःखमिथ्यात्वकुदेवकुगुरुकुधर्मीमान्यनाते इरूपयेलपर्व तद्दजसंकडसंकीर्णं व्यापिउच्छइजिह्वाअनादिसंतानअनादि  
 प्रवाहजेकर्मबंधनाक्के शरोगादिकतिहजचिक्खिजकठतांकदंमतेण इदुत्तारजतरतांदीहिलउक्के अमरदेवताअसुरदैत्यनरमनुष्यतीर्थवनारकीगतिएंलइ  
 चारगति तिहंगमनजाइवउ'तेहजकुटिलपरिवर्त्तनावक्रगतिं परिभ्रमणवत्तियइविपुलविस्तीर्णं छइजिह्वां चउरंतमहंतं चारइदिशिनविभागजेहनइविषइ

मित्वर्थं स्वस्ति विष्णोर्षं ससारसागरमिति व्यास भीमदरिद्रिष्णिव्यासि भीमदग्भ्योयस्त तरन्ति सप्तयन्ति सप्तमयोतेनेति योग-  
 विष्णुतेन धीर्द्विधियनिष्पन्नपिण्डुतिरध्वव्यनेन धनिक मत्पर्यनि प्रकम्पो पविचलो य' स मध्यपदलोपादृतिधनिमिति प्रकम्प स्तेन त्वरितं चपल मति  
 त्वरितं यथा भवतीत्येवं तरन्ति संवरवेरन्तु गङ्गायसुपठसेण संवर प्राणतिपातादिविरतिक्रपो वेराग्य कषायनिग्रह' एतन्नचणो य स्तुष्ट उच्य  
 कृपकम्पाविमोद स्तेन सुसुसंप्रयुक्तो य' स तथा तेन पाणसितविमन्मृगिण्यति शानमि न सित सितपट स विमल छिन्नो यथ स तथा तेन पाकारयेह  
 प्रासतमौनोपमय उन्मत्ताविपुसुसहस्रिष्णामएवं सव्यस्रकपो विद्युतो निर्दोयो सख्यः शवातो निर्यामग कर्णनारो यत्र स तथा तेन धीरा पचोभा' भंय  
 मयोतेन प्रीसकनिताइति च प्रतोतं पसत्यन्नाणतथवायपणेनियपहाविरण प्रगस्तथ्यानं धर्मादि तद्दुर्दयसप स एव वातो वायुक्तेन यत् प्रकोदित

सगिञ्ज तरति धीर्द्विधियाग्निप्यकपेण तरिय चालं संवरवेरगतरगकव्यसुसपटतेण पाणसितविमलमूभिण्यं  
 सम्पत्तयिसुदलद्विष्णुज्जामएणं धीरामंजमयोएखमीलकलिआ पसत्यन्नाणतववायपणोस्ति ग्रपहाविएणं उज्जम

खट पनवदयेदहनचपतनयो बहककताविष्णोर्षं सवारसागरएइवसंतारकपिठ समुद्रइह भीमयोशामणच देवतायका तरतेतरे धृतधीरपण्डतेह  
 जयजुषधतेणइपियगाठठनि प्रकपपठोसतुरियचपसगाठठं जतावसठ' भवरथैरायकपियचतुरंगखचक्रुषायभठतेहकरोससपठसठदिनकइभगवत  
 तथाप्राणकपियउसितमिठविमसनिर्मसजं यउकीधठकइजिहा सव्यस्रकपियचविद्युसनिर्वोपसाधउवाय्यवइरनिर्यामकनापुगउभिहा धीरएइवा  
 साधुसठमवइएइकरीसवारसमुद्रतरइसाधुकेइवासीककलियाकइतासीकइमंपुणं प्रगस्तथ्यानपनइतपतेइजयायतेइनीप्रे रणायकीप्रकर्षइ' धावियइ

प्रेरणं तेन प्रधापयिती वेगेन वलितो यः स तथा तेन संयमपोतेनेति प्रकृतं उज्जमवसायगच्छियशिञ्जराण जयण उत्रश्रीगण . एदं सण विरुद्वयमंडभरिअसारा  
 उद्यमी श्रनाबस्यं व्यवसायो यस्तु निर्ययः सद्वगापारोवा ताभ्यां मूल्यकल्याभ्यां यद्गृहीतं क्रौतं निर्जरण यतनोपयोगज्ञानदर्शन विरुद्वयत्ररूपं भां उक्तगण्यत्तं  
 तस्य भरितः संयमपोतभरणेन पिच्छितः सारो वैस्त्रे तथा श्रमणवरसार्थवाचाइति योगः तत्र निरुद्धं रणं तपः यतना बहुदोषत्यागिनाल्पदोषा यययं  
 उपयोगः सावधानता ज्ञानदर्शनाभ्यां विशुद्धानि व्रतानि श्रयवा ज्ञानदर्शनं च विशुद्भवमाखुं तेन भरितः सारो वैस्त्रे तथा जिणरवयणीवदिदमणेण अकुडिलेण  
 चरित्तिसुहृवरमंडभरियसारात्ति तत्र ज्ञानदर्शनचरित्राख्ये च विशुद्भवमाखुं सुप्रतयः सम्यक् श्रुतग्रन्थाः सजिनान्ता वा सुसुचयो वा सुतः  
 शिद्वमहापट्टणाभिसुद्धा समणवरसत्यशदत्ति व्यक्तं सुसुदसुसंभाय सुपण्हसासति सुश्रुतयः सम्यक् श्रुतग्रन्थाः सजिनान्ता वा सुसुचयो वा सुतः श्रयवा  
 सभापो येषां सुखेन वा सभायत्तइति सुसभाषाः शोभनाः प्रत्याः येषां सुखेन वा प्रत्यालं ये ते सुप्रत्याः शोभना आसाः वाक्या येषां ते स्वासाः श्रयवा  
 सुखेन प्रशान्ते शास्यन्ते च शिच्यन्ते ते ये ते सुप्रत्याः शोभनाः प्रत्याः येषां सुखेन वा प्रत्यालं ये ते सुप्रत्याः शोभना प्रथवा सुप्रत्याः श्रयवा  
 शिद्वमहापट्टणाभिसुद्धा समणवरसत्यशदत्ति व्यक्तं सुसुदसुसंभाय सुपण्हसासति सुश्रुतयः सम्यक् श्रुतग्रन्थाः सजिनान्ता वा सुसुचयो वा सुतः श्रयवा  
 सभापो येषां सुखेन वा सभायत्तइति सुसभाषाः शोभनाः प्रत्याः येषां सुखेन वा प्रत्यालं ये ते सुप्रत्याः शोभनाः प्रथवा सुप्रत्याः श्रयवा  
 सुखेन प्रशान्ते शास्यन्ते च शिच्यन्ते ते ये ते सुप्रत्याः शोभनाः प्रत्याः येषां सुखेन वा प्रत्यालं ये ते सुप्रत्याः शोभना प्रथवा सुप्रत्याः श्रयवा

निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण  
 निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण  
 निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण  
 निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण  
 निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण  
 निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण  
 निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण  
 निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण  
 निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण  
 निणरवयथोत्रदिदमणेण अकुडिलेण

प्रसवनीया मृत कर्मधारयदति दूद्वज्जवति द्रवन्तो वसन्तः धनेकार्थत्वादातूनी चिन्मयसि भयमोहनीयोदयनिर्दिधान् गयमयसि उदयविक्रमता  
 करणात् सजयति संशमवन्तः कुतश्चत्वाह विरयति यतोनिष्ठताः हिंसादिभ्य स्वपसि वा विग्रीयन्तरता चिरता' विरया वा निरीरसुक्षा विरजसो वा  
 पपापाः सद्ययापोविरयति कश्चित् हयते तत्र सविधेभिस्तथा इत्यर्थं मुक्तसि सुक्ता धन्ये न लक्ष्यसि सद्युक्ता पत्योपधित्वात् चिरवकत्वसि अप्रमात्तायो-  
 कादावियुक्ता माहू मोचसाधनात् णिष्ठुषा प्रयात्तत्तय चरतिधन्यति व्यक्तं चत साधुवर्णके जितेन्द्रियत्यादीनि विग्रीयन्तानि यद्गुणो अधीतानि

मिहमहापट्टणामिमुहा सम्यग्तरसत्यवाहा सुसुइसुसंभाससुपयहसासा गामेगामे एगराय णगरे२ पंचरायं  
 दूद्वज्जया जिद्रुदिया णिग्भया गयमया सचित्ताचित्तमौमिएसुद्वेसुविरागदृ'गया संजया विरया मुक्ता लज्जश्चा चिरव  
 कंछा माहू णिज्जयाचंतिधम्मं ॥ छः ॥ तेषंक्कालेणं तेषंसमएण समणस्सुभगवद्योमहावीरस्स वहेत्रेथसुरकुमारा

पयसुभायभायामभितिभावित्रसुपयहकृताप्रयुतेहजसतधान्यपयवायोभनपासावाक्षा सामान्ययामरनद्विपदएकधरीरात्रि श्रीधंतमोटीनगरप्रति  
 पावपहोरावियाथद दूद्वज्जताविचरता जितेन्द्रियदृद्रियलेणइलीतो निभंयसमयरचित गयचनाठभयजेइयको सचित्तियिष्यणो पचित्तयस्युपावनिपय  
 उपधितचित्तियिष्यणोतेइरूपद्रव्यत्रम्भुनद्वैराय्यपणु'गयापाम्याहद सजतसवमवत विरताहिंसादिकषकोनिष्ठया सुतगाठजीइमू'काया सद्य  
 इत्यणयोढीकपधिरापयाथको निरवकंषापणपाम्यानोवाच्छारहित साधुमोचसाधयाथको निष्ठतयांतिष्ठत्तिगाधयोविचरदृधर्मकरियामति । छ' ।  
 तेणदकालिपुथापारानद्विविद तेणदमसदृतेइयवसरद्विविद अमणतपनाकरणहार भगवतमहिमावत महावीरकंमंगतुनाजीपणहार तेहनद्ववहचे

ते परिहिताय निवसिता इति समासः वयंचेदित्यादिद्युतं तत्र त्रीणि वयांसि भवति यदाह श्रीपौडशाज्ञवैवाली यावत् क्षीरान्नवत्तकः सधामः सप्ततिं यावत्  
 परतो वृद्धउच्यते प्रायस्य वयसो श्रितकामे द्वितीयस्य सर्वथैवाप्राप्तो भद्रं यौवनं भवत्येवेति भद्रे यौवने इत्युक्तं तलभगयतुडियपवरभूसरणनिम्नल  
 मणिरयणमंडियभूषा तलभङ्गकानि वाह्यभरणानि वुटिकाय बाहुरचिकास्ता एव वरभूषणानि तैर्निम्नलमनिरलैश्च मण्डिता भुजा यथां ते  
 तथा चूनामणिचिंधगया चूडामणिलक्षणं चिह्नं प्राप्ताः श्रूयन्ते चासरादीनां चूडामण्यादीनि चिह्नानि यदाह चूडामणिप्रणिवद्ये  
 गरुडे षड् अस्त्रं वज्रमाणेय मयरे सीहे हत्थी असुरार्हेणं सुगुप्तं चिन्मं महद्विभ्रति महर्दयो विशिष्ट विमान परिवारादियोगात्  
 महज्जुइयति महादुगतयो विशिष्टशरीराभरणप्रभायोगात्, महाबलति विशिष्टशरीरप्राणाः महायसति महायससो विशिष्टकीर्तयः सहासीकृत्ति

तलभंगयतुडिअपवरभूसरणनिम्नलमणिरयणमंडिअभूआ दसमुद्दामंडिअगहत्था चूलाअणिचिंधगया सरुवा सह  
 डिआ महिजुत्तिआ महब्बला महायसा महाणुभागा हारिविराइतवच्छा कडंगतुडिअथंभिअभूआ

लगोमध्यम तिवारपक्षीवृद्धकहिइ भद्रउत्तमयौवनवयनइविषद्वत्तंदृक्कइप्रवत्तंद तलभंगयबाहुनाआभरण तुडिअबाहिरथा एहवाप्रधान भूषण निम्नल  
 मणिरत्नइकरीमंडितभुजहाथजेहना दसमुद्रामुद्रड्डीतेणइमंडितमांड्याहइअगृह्णभंगुलीजेहनी चूडामणिआभरणविशेषचिह्नतेणइ प्राप्तसहितछइ  
 सुसुभलउरूपछइजेहनु मीटीकृद्विचिंधविशेषमंनपरिवारादिक मीटीयतविशिष्टशरीरनाआभरणनायोगयकी मोटउयय मोटउययविशिष्टकीर्तिनाधणी  
 मोटासुखनाभोगयणहार मोटउअनुभागअचिंत्यशक्तिनाधणी हारनइपरिहरइविराजमानियत्तस्यलक्ष्यजेहना काटककंगतुडियबहिरपतिणदथंभ्या

महाशौच्याः मद्याणुभागसि पवित्रायस्त्रियुताइति इहैव गमास्तर इारविरानितवचस कटककण्टिककण्टिकभित्तमुजा इह कटककानि कण्टिकानि कण्टिका वापु-  
रक्षताः चर्मयकुंडनमदग इकण्टिकोठधारो अहदानि बाह्याभरणत्रियेषान् कुण्डलानि च कर्णोभरणत्रियेषान् मृदगण्डानि च उल्लिखितकपोखानि कर्णपोठ-  
कानि कण्ठाभरणत्रियेषान् धारयस्तो येष योना ये ते तथा विचित्रहस्ताभरणसि व्यक्त िविचित्रमाहामत्रितियमठठा विचित्रा माहा कुसुमसूत्रा येषां  
गोशो च मन्त्रे सुकृष्ट किरौट येषो ते तथा येष सुगम वर्णकास्त यावत् नवर माथ्यानि पुष्याणि वादि शरीर प्रकम्ब्यो भुष्यनक वनमाहाभरणत्रियेषां  
प्रकम्बपनमाहा वा तथा कण्ठतो जाणुप्रमाणत्वादिति दिव्येण देवोचितेन प्रधानित्यर्थं सवाण्यसि संज्ञेन वज्रहृत्पभगाराचिष्येभ्यं सठायिणति  
समवसरत्रतत्रयेनेत्यर्थं रदोएति परिवारादित्या जुहति युक्ता विचित्राथयोगीनेन पभांएति यानादिदीप्ता छायाएति शोभया मशोएति अर्चिपा

चंद्रगयकुंडलमदृगडतलकण्यौठधारो विचित्रवर्थाभरणा विचित्रमाहा मञ्जलिमखडा कल्लाणकयपवरवरथपरिहया  
कक्षाण्यकयपवरमल्लाणुनेवणा भानुरवोदौ पलंबवणा मा त्रधरा दिव्येणवखेणं दिव्येणगंधेण दिव्येणखेवेण दिव्येण  
फासेण दिव्येणसंधाएण दिव्येणसद्भाणेण दिव्याएरुदोए दिव्याएजुतोए दिव्याएप्पभाए दिव्याएच्छायाए दिव्याए

यभरुपथरदृष्टाण्डरमुद्रावजेवना अगदवापुनापामरणकुंडलकाननापामरणमदृगडतलकपोनदेयजेषद् एहवाकर्णपोठिकानापाभरणतेवना  
धरणधार विचित्रविधिवस्त्रापाभरणाधारधार विचित्रनानाप्रकारनोमालाफूलसबंधिनो मवलिसस्तकनद्विपद्मसुगटखड्गेडमष्ट कल्याणकारियावर  
प्रधानवक्षपट्टिगोजेषद् कल्याणशारीयोवरप्रधानमाल्यफूलमदनद्मनुक्षेपनविलेपनकीडाखड्गेचै भासरेदेदीपमानवोदीमरीरजेहनु प्रबंधम्भूंमण  
अनद्वयननोमाहातेहमाधरणधार दिव्यदेवतानद्दयोज्यप्रधानवर्णमरीरादिकनोतेषद्मरी दिव्यदेवतानद्दयोज्यप्रधानगधसुगधतेषद्मरी दिव्यदेवतानद्



शरीरस्वरत्नादिते जोज्वालया ते एणंति तेजसा शरीरसम्बन्धिरोचिषा प्रभवेन वा लीसाएत्ति देहवर्णे न एकार्थी वा व्युत्यादयः शब्दाः प्रकाशप्रकल्प-  
प्रतिपादनपरायेति न पौनरुक्त्यमिति उज्जोएमाणत्ति उद्योतयन्तः प्रकाशकरणेन पभासेमाणत्ति प्रभासयन्तः एकार्थी चैता विनिरत्तति रक्ताः  
सातुरागाः तिक्खु त्तोत्ति त्तिःकलः त्तेन वारान् आदच्चिणात् पाश्र्वात् मदच्चिणी दच्चिणपाश्र्वात् वंदंतित्ति स्तु वन्ति नमंरंतित्ति  
नमस्यन्ति शिरोनमनेनेति ॥ वाचनान्तरे दृश्यते सादं सादंति स्वकीयानि २ नामगोवाणि याहच्छिकान्वर्गाभिधानानौति साविंतित्ति

अच्चौए दिव्वेणंतेएणं दिव्वाएलेसाए दसदिसाओ उज्जोवेसाणा पभासेसाणा समणस्स भगवओ महावीरस्स  
अंतिअंआगन्मागम्मरत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं परेइ रत्ता वंदंति णमंसंति

योग्यप्रधानरूपतेणइकरी दिव्यदेवतानइयोग्यप्रधानसंघातयज्जपभनाराचसंघयणतेणिकरी दिव्यदेवतानइ  
योग्यप्रधानसमचउरसंस्थानतेणइ दिव्यदेवतानइयोग्यप्रधानंत्तुत्तिवंपपरिवारादिकनीतेणइकरी दिव्यदेवतानइयोग्यप्रधानंत्तुत्तियुक्त्तिनइयोगतेणइकरी  
दिव्यदेवतानइयोग्यप्रधानप्रभाशानादिकनीदीप्तितेणइकरी दिव्यदेवतानइयोग्यप्रधानंत्तुत्तियुक्त्तिनइयोगतेणइकरी  
तेजतेणइकरी दिव्यदेवतानइयोग्यप्रधानंत्तुत्तियुक्त्तिनइयोग्यप्रधानंत्तुत्तियुक्त्तिनइयोगतेणइकरी  
करता प्रभाकांतिविस्मारता अभण्णानाकरणहार भगवंतमहिमावंत महावीरकर्मगतुनाजीपणहारतेहनइ अंतिंसमीपिं प्राधीनइसानुरागसंज्ञपरं  
घणइआविवइरागउच्छउनयाइ अमणतपनाकरणहार भगवंतमहिमावंत महावीरपूतिं चिणिवार दच्चिणदिशिंपारंभीनइपूदच्चिणाकरइंकरीनइ वांदइ  
सुतिकरइ नमस्कारपंचांगपूणामकरे वादीस्तुतिकरीनइ नमस्कारकरीनइ अतिप्रासन्नकूकडानइइ प्रतिदूरवेगलानइइ सुश्रूपापरमसेवाकरइ नमस्कार

श्रावयन्ति । छः । नागेत्यादि व्यक्त नागादीनां च नागफणादीनि चिह्नानि भवन्ति तानि क्रमेण दर्शयवाह नागफण्डारः गरुडरश्च पुरुषसप्तसप्त  
 सोष्ठ्यं पद्यवरश्चैवैर्गर्भकः मयस्कवरमलठट्टं यद्वमाणाऽऽ निजुप्तविक्षिप्त चिन्धगया नागफणादयो गजान्ता भद्रायिहानि येषां सुकुटागो तानि तथा तानि  
 च मकराहानि च मकरचिह्नानि यानि वरसुकुटानि तानि च वर्षमानकं च शरारवं पुरपाकटपुष्टपरुपं वेति हृद्दहानि च तानि नियुक्तानि यथास्थान  
 नियोजितानि विविधानि च विविधानि चिह्नानि च लक्षणाणि गताः प्राप्ता ये ते तथा इह च्छे पुरयकलसकियऽऽर्धे ससौहेत्येव वाचित् विज्ञेयो

वंदन्ताणं शमंसिन्ता शञ्जासणे णाद्रपूरे सुखसमाणा शमंसमाणा अभिमुहा विणएणं पंजखिओडा पज्जुवासंति  
 । छः ॥ तेषकालेणं तेषंसमएण समणस्स भगवओ मंहावीरस्स वहेवे असुरिंदवज्जिआ भवणवासौदेवा अतियंपा  
 सुग्भवित्था णागपइणो सुवण विज्जु, अग्गीआ दीवा उदहो दिसाकुमाराय पवण घणियायभवणवासो णागफडा गरुण

शरोरनइंनमावता अभिसुखसांसुहा विनयएकरोसहित पूंजखिहायविइलोडोमइ पर्युपासनासेवाविष्णुकार्णौकरइ । छः । तिण्णूकाउरनइ  
 सुयापाराणइविंतिपिसमवइतेपवसरनइविपइ अमचतपनाकरएषार भगवतमहिमावंत महावीरकर्मगतुनालोपणहार वहेवेघणा असुरेइपसर  
 कुमारवर्णीटोतीमइ भवननावसणहारपातासवासीदेव नवनिक्कायनादेवता अति समीपिपासवभरित्थाप्रगट्टूयापासधारियाः नागनापतिठापुरतेनाग-  
 कुमार सुवर्णनापतिठापुरतेसुवर्णकुमारइ विदुत्तकुमारइ अजिकुमारइ दीपकुमारइ उदधिकुमारइ दिगिकुमारइ वायकुमारइ अनितकुमारइ एहमवन  
 पातासवासीघरनावसणहार । एहनाचिह्नअणइणइ नागकुमारनइफण्डाहइ गरुडचिह्नइ पुरुषकलसचिह्नइ शीघणचिह्नइ श्योडाउ

दृश्यत तत्र नागफेणादिभिः रक्षिता येऽर्कसा सुकुटा स्ते तथा शेषं तथैव भुयगवद्भयोत्ति महोरगाधिपाः किंभूतास्त्राद्व्याह महाकायत्ति दृष्टहेहाः  
 दृष्टं च विशेषण मवस्थाविशेषाग्रय मन्यथा सर्वैरेव सप्तदशप्रमाणा भवन्ति यदाह भवणवणजोद्धसीहंभीसाणेसत्तहोतिरयणोश्री गन्धर्वनिकायगणत्ति  
 गन्धर्व्याणां व्यन्तराष्टमभेद्भूतानां निकायोवर्गोविषां ते गन्धर्वनिकाया गन्धर्व्याएव तेषां ये गणा राशय स्ते तथा पाठान्तरे गन्धर्वपतिगणार्थेयि व्यक्तमेव  
 किंविधास्ते इत्याह निलणं गन्धर्वगौरद्वयोत्ति निपुणे सूक्ते गन्धर्वे च नाटोपेतगानि गौतमे च नाटावर्त्ति तमेये रतिर्येपान्ते तथा अणपत्तिकादयो अष्टौ

वयर पुण्यकलससौह हय गय मकार मलडवद्धमांण गिजुत्त चिंधगया सुख्वा महड्डिया सेसंतंचेव जाव पञ्जुवायंति  
 ॥ छः ॥ तेषां कालेणं तेषां समएणं समयस्सु भगवओ महातौरस्स वहवेव्राणमंतगादेवा अंति अं पाउभमित्या पिमाय  
 भूत्राय जक्वरक्वसाकिंनरकिंपुरिस भुअगपतिणोअमंहाकाय गंधव्वणिक्कायगणाण्डणगंधव्वगौतरइयो अणपणिअ पण

धिक्क६ गयहस्तीचिक्क७ मकरमच्छतुंचिक्क८ सुकुटनइवैपैवर्षं मांनशरावसंपुटनचचिक्क९ तिहंजोइत्रैतिहंजोडाछइ विविधप्रकारनांचिक्कगतपाम्या  
 छइजेहनाधथी सरूपथोभनरूपनाधथी महाक्कडिपरिवारसंबंधिनीतेणइसहित्ति थियथाकतुसर्वपहिहीपरिजाणिवुं जावगन्दय तोसर्ववोल पर्युपासनासेवा  
 इप्रकारनीकरइछइ तिणि कालिव उथा भोरानइविपइ तिणिसमइ ते प्रवसरनइविपइ अणतपनाकरणहार भगवंतमहिमावंत महावीरकर्मशत्रुना  
 जीपणहार बहवैघणावाणअंतरवासेपातालवासीवाणमंतरदेवता अंतियंसमोपिंपाउभमित्याप्रगटहुअ पाउधारिया पिशाचनामा? भूतनामा? ३  
 यचनामा? ३ राजसनामा? ४ किंनरनामा? ५ किंपुरिसनामा? ६ भुजगपतिमहोरगनामिमहाकायाएसातहाथटेहप्रमाणनाधगौ गंधर्वनामा? ८ एआठएव्यंतर

व्यन्तरनिकायविशेषभुता रत्नप्रभापुत्रिव्या उपरितनयोकनयतवर्तन किंदिधाएत इत्याह चक्षुस्यस्यविशेषकोस्यद्वयप्यथा चक्षुस्यस्यस्यविताः अतिव  
 पक्षमानसाः क्रीडन क्रीडाद्रव्यस्य परिहासस्तमितया स्तत आर्थाधारय गंभीरहसियभण्डियगोयनस्यरङ्गे गभीर हसित येषां भणित च वाक्यप्रयोग  
 प्रिय येषां गीतनृतनयोपरतिर्गेषां ते तथा गदिरहसियगोयनस्यरूपति कविहृद्यते व्यक्त च यथमालामेलमठकुण्डलसच्छन्दविचविद्याभरणचारुविभुसण-  
 धरा वनमाना रत्नादिमय पाप्रयदोग आभरणविशेष आभिलन पुष्पयेश्वरक सुकुट सुवर्णादिमय कुण्डलानि च प्रतीतानि एतान्येव स्वच्छन्दविक्रु-  
 ब्विंताभरणानि स्वाभिप्रायनिर्मितासङ्कारा स्वयंश्चारुविभूषण भूषा तथादर्यन्ति ये ते तथा सख्योत्थयसुरभिजुसुमरुद्रयपक्षयसीर्षतकतनियसतसिचरा  
 वणमालरुद्रयचष्ठा सर्वर्तुकाणि सर्वमृतुमभधानि यानि सुरभीणि कुसुमानि तै परविता या सा तथा सावामो प्रलम्बाच गोभनाच कान्ताव विक-

पण्यश्च इंसिवादीश्च भूषवादीश्च कदीय महाकदिधाय कङ्कड पययदेवा चचनचवलचित्त कौलगाद्व्यप्यथा गभीर  
 हसिश्चभणिश्चप्रौद्यगौश्चश्चरङ्गे वणमालामलमसुकुण्डलसच्छन्दविचआहरणचारुविभुसुगंधरा सख्योत्थ

निकायनागपमनूप निवणगधर्वमलजनाटिकसहितगीतविपदतथानाटिकरहितगीतविपदरतिसाताहृद्वेहनर चणपनीनामाः पण्यपचियनामिहर  
 इंसिवादिनामहर भूतवादीपनामै कदीय महाक दिवनामहर कुण्डल ० प्रयतनामिपाठय देयतांवाणमतद चवलस्यस्यविचमननापशी क्रीडा  
 श्रुंनपनद्रव्यपरिहासप्रियवावहृद्वेहनर गंभीरकारिययोङ्कुण्डलकतिवठवनद्रुमस्थितश्च कोलिवस प्रिसवाद्यु गीतमनरुद्रयिदु तेषुदकरीरतिव्याता  
 पामइच्छ वनमालारत्नमयपाभरणपामसफसनसेहरु सुकुटवीनाकुण्डलकाननायाभरण सख्यदपोतानरुच्छ दिपापषाप्रभिप्रायकेहरविक्रुष्यंजे

व्यन्तरनिकायविशेषभुता रत्नप्रभापुत्रिव्या उपरितनयोकनयतवर्तन किंदिधाएत इत्याह चक्षुस्यस्यविशेषकोस्यद्वयप्यथा चक्षुस्यस्यस्यविताः अतिव

सन्तीच चित्राच वनशालाच वनस्यतिस्रक् इति समासः सा रचिता वक्षसि ये स्ते तथा कामगमिति इच्छागामिनः कामरूपधारिणिः  
 णाणाविहवन्नरावरवत्यचित्तचिह्नयनियंसया नानाविधवर्णोरागी येषु तानि तथातानि वरवस्त्राणि चित्राणि विविधानि लीनानि दीप्तानि  
 वा निवसनानि परिधानानि येषां ते तथा विविधदेशीणेष्वल्पगह्वियेसा विविधदेशिनेपथे न नानादेशरूढवस्त्रादिन्यासेन गृहीतो वेषो नेपथं  
 ये स्ते तथा पशुइयकंदप्पकलहकेलि कोलाहलप्यया प्रसुदितानां यः कन्दर्पः कामप्रधानः केलिः काम एव वा कलहचराटो केलिश्च नर्म कोलाहलश्च  
 कलकल स्ते स्वरप्रकृताः प्रिया येषां ते तथा अथवा प्रसुदितश्च ते कन्दर्पादिप्रियाद्येति समासः ह्रासबीलबहुला पाठान्तरे ह्रासकेलिबहुलाइति

सुरभिक्षुसुमसुरद्रुपलंबसोभंतकंतकंतविअसंतचित्तवणमालरइअवच्छा कामगमा कामरूपधारिणी णाणाविहवस्याराग  
 वरवत्यचित्तचिह्नियंसया विविहदेशीणेष्वल्पगह्वियेसा प्रसुइअकंदप्पकलहकेलि कोलाहलप्यया ह्रासबील

आभरणअलंकारचारुमनोहरविभूषणतेहनधरणहार सव्वोचयकइतांसघलीइत्तुनासुरभिगंधकुसुमफूलतेशइकरौसुभलीरयरवताकौघुइ प्रलंबलां  
 बीसोभायसांनकांतमनोहरधिक्षसतीचित्तआथयकार्णिवनमालावनसतीनाफूलनीमालातेरचीछइवंचहृदयनद्रुविपइजेहनइ कामइच्छाइंगमनकरइ  
 छइ कामवांछितरूपतेहनधरणहार० नानाप्रकारनउवर्णं रागछइजेहनउ० वनप्रधानवस्त्रविविचित्रविक्रियकहतांदीपतांनिधंसणपहिद्याछइ विविध  
 नानादेशनानिपथ्यवस्त्रपहिरश्चइथह्याउछइवेसजेशइ प्रसुदितहर्षनइयोगइकंदप्य कामचेष्टतेहसंबंधीकलहवडवाडिअनइकेलिनरमपणइकोलाहलकलकल  
 शब्दप्रियवालहछइजेहनै ह्रासउंधनइबीलककूतूलकोलाहलबहुलषणुंजेहनइ अनेकघणामणिवद्रकांतादिकरत्नकर्कतनादि विविधनिज्जुत्सिजोडमा

व्याप्त पथेगमणिरयश्च विविह निशुक्तसिचिधगया चनेकानि वहुनि मणिरत्नानि प्रतीतानि विविधानि बहुप्रकाराणि नियुक्तानि नियोजितानि येषु तानि तथा तानि विधाणि विधानि गता प्राप्ता ये ते तथा विधानि च विधायादीनां क्रमेणैताशुच्यन्ते विधाद् कस्यच भाए१ सुखस२ वडे ३ तद्वयहीदृखद्वी४ पासोप५ चंपएवा६ नागी७ तद्व तुं दुरीरेवद १६॥ जोतिव्यवर्णं को व्यक्तो नवरं अकारकायसि मरुसा यदुल्ल व प्रत्येकं ज्योतिषामसङ्घातत्वात् तत्तत- वणिककणगवणा तस्य तपनीयस्य सुवर्णस्य य कणको विन्दः प्रसाका या पयवा तपनीयं रत्नं सुवर्णं कानक सुवर्णं नैव पीतं तद्वद्वर्णो येषां ते तथा

वज्रला अणेगमणिरयण विविहृणितुत्तविचित्चिंधगया सुकृशा मरुद्दिद्या जाय पञ्जु वार्धति तेषां कालेण तेषां समएणं समणसु भगवच्चो मङ्गावीरसु जोतिसियदेवा च तिस्र पाण्डुभवित्या मिहस्यतौ चंद्र गूर सुक्ल सणिच्चरा राहू धूमकेतु बुहाय अंगारकाय तत्ततवणिककणगवथा जेगहा जोद्दसंचारं चरति कोउ भगद्दरद्दभा अङ्गावीरविहायणवत्तत्त

खरजेहनद्विये एहवाविषिवधयापकारे विहृते हगतम्याहृद् सुकृशमस्वारूपवत मरुद्दिपामहाक्वद्विपरिवारनाधयो जायगण्यकीबीजाइवोखमनुक्ल मिं पयुंगसनासेवाचरद्दताहवा तिष्णिकालरपुयाधारानद्वियद्द तिष्णिसमद्विपद्दसप्रस्ताधनद्वियद्द अयतपना कारणहार भगवतमद्विमावत मङ्गावीरकर्मयु नाजीपणहारनद्द ज्योतिषोदेवता उद्योतेनाकरणहार अतिधंसकीपमगटद्दुषापाउधरिषा हृदस्यति१ चंद्रमार सूर्य३ शुक्र४ ग्रहैवर५ राहू६ धूमकेतुकेतुनाति७ बुध८ अंगारकमगकट९ बहुवधनेते परंख्यातामथो तातथोतापनीयतपाथ्यथोकनकसुवर्णं नासरीयथोवर्षं खरजेहनसजेप्रच पठासीन्दहृज्योतिषीनसचारखइहसगतिकरद्दजगमद्दपाधमैकोतु कविपद्दमशुच्यगतिमशुच्यलोकविपद्दरतिचंतोपयामद्दहृद् अङ्गावीरसजेप्रकार

जेयग्रहसि उल्लाव्यतिरिक्ता जोइसंति ज्योतिषके चारं चरन्तीति भ्रमणं कुर्वन्ति केजयन्ति केतयो जलकेत्वादयः किन्मूता गरुप्रयत्ति मगुयलोकापि चयोत्तं  
ठियलेस्सन्ति स्थितलेख्याः निचलप्रकाशा चारिणीयत्ति सच्चरिण्यत्रः अतएवाइ अविस्वासमंडलगइत्ति प्रतीतं नामं कपगण्डियचिंधमउडा नामाडितानि

देवगणा णाणासंठाणसंठियाओ पंचवखाओ ताराओ ठिअलेस्खा चारिणोअ अविस्वासमंडलगती प्रतीयंणासंक्कप्पा  
गण्डियविंधमउडामहड्डिया जावपज्जुवासंतौ ॥ छः ॥ तेणंकाणेणं तेणंसमएणं समणस्स भगवओ महावोरस्स  
वेसाणियादेवा अंतिअं पाउबभवित्या सोहम्भी साण सणंकुमार भाडिंद वभलंतक सहसुक्क सहसुया राणय पाण

नचत्र अश्विनौभरणौकृत्तिकारोहिणीशुक्रगिराश्राद्रांपुनर्वसुपुष्याश्रुषे पामवापूर्वाफाल्गुनौउत्तराफाल्गुनिहस्ताचिंवास्तातिथिगाखाअनुराधाज्येष्ठामूला  
पूर्वाषाढाउत्तराषाढाअभिजित्पुष्यवशाधनिष्ठागतभिषापूर्वभद्रपदाउत्तराभाद्रपदादेश्वतोएदेशतानागणसगूहनेसरग्रहनचतंतत्तानामघणिसंस्थानिधिपूर्णा  
चउष्णाशाटलाहइ पचवर्णं शालानीलारातापोलाधउलाएपांचय ॥ कक्षा तारातोकोडिकोडोहइ स्थितलेख्यानियलप्रकाशइठामिरइइकइ चालइअरहा  
परहा० फिरइंजेज्योतिषीनांमंडलांविमाननोगतिनइवीसामउनथो प्रथेकरंपल्ये कैनामाकित त्रापापणइनामइंगटविज्जइइमुटइजेहना मोटोक्कधिप  
रिवारसंबंधिनो जावगइयकीवीजाबोलयचनपर्युपासनसेयाकरैकइ॥ छः ॥ तेणइकालइवउथाआरानइधिपइ तिणिसमयितेअअसरनइपिइअमणतपना  
करणहार भगवंतमहिमापंत महावीरकर्मयनुनाजीपणहारनइ वैमानिकदेवताविमाननामसणहार अंतिअंसमोपिंगटइंताहूभापाउधारियाआख्या  
सौधर्माइइइगानेइइसनलक्ष्मारेइइमाहेइइ४ वस्त्रेइइलांतकेइइ६ मचाशुकैइइ७ सहस्राणैइइ८ आनतेइइ९ पाणतेइइ० आरणेइइ१ अय्यतेइइ२ प्रकर्षेइ

प्रकटितानि चिह्नप्रधानानि युक्तानि यैरिति समासः । अ. १ वेदानि त्रयणंकोवि व्यक्तौ नवर वाचनान्तरगत त्रिचिदस्य व्याख्यायते तदन्तर्गतं त्रिचि-  
दपिक्ततयाचनान्तरगतञ्च तत्र सामाख्यतापत्तोसच्छ्रित्या सामानिका इन्द्रसमानायुक्तादिभावा प्रयक्तिंया महत्तरकल्पा पूज्यस्थानीया शब्दोगयाद्य  
सपमश्चिद्विपरिचयणीपयपरच्छेदिद्विपरिदुष्टा सह लोकापत्ते सोमादिभिर्दिक्पावननियुक्तकै र्यां यपमद्विषय प्रथानजाया परिपदस्य वाच्यमध्यमाख्यन्त-  
राजस्यमध्यमोत्पलटयदिवारविशेषभूनाः पनोकाणि च इच्छाः प्रपदातिप्रथमसंज्ञायाश्च जनरूपपण्यै चैव्यानि साक्षरत्वा थाप्तरत्वा इति इच्छो पतत्ये.  
सम्परिहता इति देवसहस्रानुयातमार्गे एतद्वरगणेशेः प्रयते समनुगम्यमानाय ते सत्रोक्तचेति समासः सर्वादिभूयिता सुर-  
समूहनायका सोम्यवावरूपाः देवसहस्रसहस्रकयाज्ञीया देवसहस्रेण जयगण्डे कृत शालोत्रे इत्येते वेदां ते तथा मिमः भद्रिस्वर वराहः ऋमसः चन्द्रः ५

यारण अयुतवयस्रं पश्चिच्छादेया त्रिणदंसपुस्रसगा गमणत्रयितहासा पालक पुष्पक सोमस्य सिरिवच्छ एदिश्रावस  
कम गम पौदगम मणोगम विमल सख्यश्रोभङ्गामधिक्जेहिं विमार्णेशि छहिस्या वदिका त्रिणित् मिग सश्चि

इंपधरतादेवता जगसाधनादयंनदेशिवाभषीजताभलाषीसुक भगवाथभषीपानिवानरविपद्जनितजपसुद्धरइपंजेइने पाञ्चकविमानः पुष्पकविमानः  
शोमनसविमानः श्रोषख्यविमानः नदियावत्विमानः कामगमविमानः प्रीयगमविमानः विमलविमानः सपतीभद्रविमानः  
एडवद्गामः उत्तरवैक्रियमानविकुर्वाद्दधीनः चैठाजतरदरदशीपावद वादिवाभषी जिनेद्वीनारागप्रतिं चगचिह्नः महिपचिह्नः पराद्विचिह्नः  
समसतोक्तचिह्नः ददुरदेशकचिह्नः इयथोदुचिह्नः गजपतिहस्तोचिह्नः मुजगसर्पचिह्नः ख्योभीवचिह्नः सपमर्शकचिह्नः १० विस्तर प्रगटपथइए



इयं गयपई० भुयग ८ खगा ८ उसभकं० विडिमपागड्यिचिंभसछा खगादयो दश दयानां शक्रादीन्द्राणां विक्रभूताः तत्र वराहः शूकरः खड्ग आटव्य-  
 चतुष्पाद्वियोगः ऋषभो हृषभः शेषाः प्रतीता स्त्रव खगादयो ब्रह्मा लाञ्छनानि विटपेषु विशरेषु शेषां सुकुटानां तानि तथा तानि प्रकटितचिह्नानि  
 रवादिदीप्त्या प्रकाशितखगादिलाञ्छनानि सुकुटानि शेषां ते तथा (पालकः पुष्पकरः शौसनसः शीवच्छः नन्द्यावर्त्तः कामगमः प्रोतिगमः मनोगमः  
 किंविधैस्त्रैरित्याह तत्रादिवागरकरातिरेगपपेहिं मणिकनकरत्तैर्विटितं युक्तं यज्जालील्लं हेमजालं प्रभोज्जं सर्वजालकं तेन पर्यन्तेषु परिगतानि तानि तथा तैः मणिकणगरयणवडियजालुल्ल-  
 हेमजालपेरंतपरिगयेहिं मणिकनकरत्तैर्विटितं युक्तं यज्जालील्लं हेमजालं प्रभोज्जं सर्वजालकं तेन पर्यन्तेषु परिगतानि तानि तथा तैः मणिकणगरयणवडियजालुल्ल-  
 त्तदामत्तवंतभूसणेहिं सहप्रतरैराभरणविशेषैर्वरसुक्तादामलक्षणानि लब्धमानानि भूषणानि शेषु तानि तथा तैः पचलियवंधावलिमडूरसह्वंसंतितलता-  
 लगौयवाइयरवेणं पचलितयायाः घण्टावल्याः यो मधुरशब्दः स तथा वंशस्य त्रैणसूक्तो च वीणा तत्तताबास हस्तताला श्रयवा तालास हस्ततालास कंशिका  
 यन्तो अस्वरं दिश्य शोभयत्स्वरितं संश्रुस्थिताः स्थिरयसो देवेन्द्रा इति व्यक्तं हृष्टतुडमणसति अतस्तेन कारणभूतेन मधुरेण मनोहरेण पुर-  
 खानेवाह कपवरविमाणाह्वा कल्पेण यानि वरविमानानि तेषामधिपा इत्यर्थः समनुयान्ति सरवरेन्द्रानिति शोभः अतएव सरवराः सविमाणविचि-  
 चिंधनामंकविगहपागहमछाडोवसुभदंश्रिण्ला स्वविमानविचित्रचिह्नानां नामाहविकटप्रगटसुकुटानास्य य आटोपः स्फारता तेन शुभा ये दृश्यन्ते तथा  
 ते विचित्रकल्पवरविमानाधिपाः समन्तितिति समनुयान्ति नामाहविकटप्रगटसुकुटानास्य य आटोपः स्फारता तेन शुभा ये दृश्यन्ते तथा लोयंतविमाणवाशिणोयाऽविदेवसंघायति लोकास्य

मन्त्रसोक्त्यान्ते समीपे यानि विमानानि तदादिनो लोकान्तिक्काचापोत्थयं पक्षेयविरायमाथविरयमणिरयणकुंडलाभिसतनिष्कानियगं कियविधिषा-  
 पागच्छिद्यर्धमरुचा प्रत्येकं विराजमानानि शोभमानानि विरचितानि कर्णेषु जतानि मणिरत्नकुण्डलानि येषां ते तथा भिर्धतन्ति दीप्पमानानि निर्ध-  
 खानि निजाहृतानि निजशेन नामादिनाच्चे नाहृतानि विचित्रानि प्रकाशितानि चिह्नानि च विह्वप्रधानानि वा सुकटानि सुकु-  
 टानि येष्टे तथा तथाशायतसि दर्शयन्त अप्यणोसमुदर्थतसि आळीय श्चय्यादिसमूहं पेच्छ ता विष परस्परिहोचसि प्रेषमाथाय परर्षी. उत्तमा एषं  
 कष्याकथा सुरवराः क्षिण्णदर्वदणनिमित्तसत्तोरपसि क्षिनेद्रवन्दनहेतुभूतभावेन चोद्दयमद्रन्ति मे रितबुद्ध्य चर्पितमागसा क्षीतकक्ष्य मनुवर्त्तमाना देवा  
 क्षिण्णदसण्णुगमण्यजषियहासा क्षिनदर्शनाय यदुत्तुर्धं शीघ्रमागमनं तेन जनितोदयो येषां ते तथा विपुसवससमूहंपिंडिया विपुषी वल्लसमूहं सेव्य-  
 समुदाय पिण्डितो ये ष्टे तथा कथमित्याह सभमित्याह सभमित्याह गगणतलविमलविपुष्पगमणगद्गवसपक्षियमणपवणलदणसिचिघवेगा गगनतले  
 विमन्त्रे विपुक्षे च यद्गमन तस्य समन्त्रो शीघ्रवेगदति सव्यस्य गति यथा स्वरूपत एव यस्य तद्वतिचपत्वं तच्च तच्चरितं च गन्तु प्रसर्ततद्विध यश्चनं पवन  
 य तयो जंघनशीलो अतएव शीघ्रो वेगो येषां ते तथा नानाविधयानवाहनगताः यानानि रथादीनि वाहनानि गजादीनि चरतविमलधवलतातपसा  
 विचरन्ध्विजपदाश्चविमापदेशरयण्यभाएप्ति वैक्षियाणां यानादीनांश्च रत्नानाश्च स्वाभाविकानामितरेषां च या प्रभा सा तथा तथा उल्लोएतानहं  
 कथमित्याह त्रिंशतिमिदं करोता नमएवेत्ति अम्बिद्वोए युक्ता इति शेषः दृष्टियंति शोभ प्रघाता.) गमांतरमिद पसठिहवरमठवतिरोहधारी प्रद्वयाः शिथि-  
 चक्रगना गाकृन्धनानी वाधाजनकत्वात् नुकुटा यत्तुत्वा श्रेखरभिश्रेयाः तिरोटोत्सएव शिखरवययुक्तास्तान् धारयन्ति ये तन्धीत्ताय ते तथा कुण्डलोद्यो-  
 तिताननाः मरुच्छदितक्षिरयति नुकुटेन दीप्ता शिरोजा नस्तकवेमा येषां ते तथा नुकुटदोमशिरस्वा धारत्ताभित्ति लोहितवशा पठमपठदगोरत्ति कमल-

गर्भकालाः पौता इत्यर्थः सेयसि शुक्ताः त्रिवर्णा एव वैमानिका भवन्ति यदाह काण्यत्तयस्ताभासुरयसभा दोसुहोति कप्ये मुतिसुहोति पम्हगोरा तेषं परं  
 स्रक्त्रिसा देवा शेषं व्यक्तमेवेति (पुस्तकान्तरे देवोवणंकोहृष्यते सचैवं तेषं कालेषं तेषं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स वइवे अच्चरणसंधाया अंतियं  
 पाउबभवित्था ताउणं अच्चराओ चंतधोयकणरुअगंसरिसप्पभाओ धातं अग्निना तापितं धीतं जलिन जालितं यत्कनकं तस्य यो रचको वणं स्तरसहयप्रभाः  
 गौराह्य इत्यर्थः समदूकं तायं बालभावंति प्रतिक्रान्ता इव शिशुत्वं मध्यमजरठवयोविरुद्धताः नवयौवना इवेत्यर्थः अणदूधरसोअवावरुवा अनतिवरं अनि-

वंराह छगल ददुर ह्य गयपति भुअग खग लसभंक विडिम पागडियचिंधमउडा पसिठिलवरमउ डतिरौडधारी  
 कुंडलउज्जोविआणया मउडदित्तसिरया रत्तामा पउमपरहगोरा सेया सुभवणुगंधफासा उततजविउल्लणा विविह  
 वत्यगंधमसुधारी महड्डिआ महजुत्तिआ जाव पंजलिउडा पज्जुवासंति ॥ छः ॥ तएणं वंपाएणयरीए सिंधाडग तिग

चिक्रसुगटइजाणिया प्रसिठिकअतिगाढानहोवरप्रधानसुकुटअनदूकपरतिरीहमेपरउतेहनाधरणधार • कुंडलकाननाप्राभरणतेणइउच्योतवंतकीधा  
 भाननसुखजेहना सुकुटिकरीदित्तदेदोप्पमानंशिरोजमसूकनाकियजेहना रातीप्राभाकांतिदूइजेहना १२ पल्लकमलनागर्भनीपरिं गौरापोतवर्णं छइ  
 ३।४.५ कल्पलगीछइ बीजासर्वस्वैतधवलवर्णं छइ शुभमलउवर्णं गंधफरिसदूइजेहना • उततप्रधानविकुर्येणाइनवनवापदार्थनोपजाविवानोयत्तिछइ  
 धिविधप्रकारनाप्राथयंकारीयावस्त्रगंधसुरहासरिफूकमालाधरणधार मोटीकृद्विपरिवारनीधणोछे मोटीदुतिप्राभरणसंधिनीदूइजेहना जावअब्  
 थकीबीजाइवील प्रांजलिपुटहायविइनीटाछइ पर्युपासनासेवाकरदूछइ ॥ छ ॥ तएणंतिवारपच्छोचंपानगरीनद्विपइ सिंधोकाफलनिप्राकारिधामक

यमानडासतया प्रधान न विद्यते प्रतिबन्धं यस्मात्तदनतिवर्तमानि वा सौम्य नीरोग चार मोहन रूप यासां ता स्यात् निरवद्ययसरसलीप्यककच  
 तदणवयभावसुवगथायो निरुपहतं रोगादिना प्रबाधित सरस च नृहाररसोपेत निरुपहतो वा स्वारसो वत्र तत्तथाविधं योवन तथा कर्कशो पद्मबा-  
 हृतया य स्तदणवयोभाव स्तारस्य त शोपगता या स्या स्यात् इह च योवनतदणभावयोर्व्येकार्यता तथापि सरसत्वाद्वाक्त्वस्यययोर्व्येकार्यतायोरौरा-  
 श्रिययो प्रधानतया विवक्षितयोर्व्येयो राधारतया भेदेन विवक्ष्यात्त यो नरुक्तमिति निश्चयवद्वियसदाधा न जरा प्रादुर्बन्तौत्वर्थः सुवंगसु दुरोचसि  
 इत्यियनेवत्तरद्वयमण्डिगदियेसा इष्टवस्त्राभरणादिरूपनेपथस्य रचिनेन रचनेन रतिदोषा अतएव रमणीयो नृहोत प्राप्तो वेप प्राकृतिविशेषो  
 यकाभि स्या स्यात् किन्ते सति तद्यथायं हारदुहारपाठतदप्यकुं उक्तवास्तुतगहेमद्विनासकणकासस्तुतगपोरितियकडगपट्टु, नएगावदिकठसुस्तमगदग-  
 धरकमेवेष्णसोपिसुप्तगतिज्ञगफुक्तगविश्वलियकणवासिसिसरससभस्यमसभस्यतदियदस्यमास्यहरिसखेजरवसयपाकवप्रगुलेकागवत्तकखदोषारसादि  
 याचदमूर्माखियाकविमेइसकसावपरगपरिरेगपायजासर्धटियासिंविथिरयोदजासखुद्वियवरने सरवसयमासिया कथयपिगसजालगमगरमुष्-  
 विटायमाणेजरपचस्त्रियसदासमृषपरोरति हारादीनि मकरमुखविराजमाननूराक्तानि प्रचक्षितानि सन्ति सदास्ति प्रयद्वन्ति यानि भूप्यानि  
 तानि धारयन्ति वा स्या स्यात् तत्र हारो पद्मादयसरिक' पद्मंहापो नवसरिक पाठस्तत्त प्रयुक्तानि भाविस्ययुक्तकट्ट्यानि रत्नकुण्डलानि प्रतीतानि  
 पयवा प्रयुक्तानकुण्डलानि प्रयुक्तानि यानि कुण्डलानि तानि तथा तथा व्यासुक्तानि परिच्छितानि प्रक्षयितानि वा यानि हेमजासादीनीति कर्म  
 धारय सन्न हेमजास सखिन्द्र. सुगर्षोवहारविशेष' एवं मण्डिजावमपि कनकजासहेमजासयोस्तु पाजारसतो विशेष स च रुद्रिगस्य सूचक वैकल्पकलत  
 सुवर्षं मूत्रं चरितियसि चरसि विक तिसरकं कट्टकानि कट्टकानि खट्टु, गति पट्ट, शीयकविशेष एकावलो नानामण्डिभयो मासा खण्डमूत्रं गद्याय-

वृत्तान्तस्य चतुर्विंशत्यध्यायः

लब्धि सङ्कलकविशेषः मगधकं धराचं च रुडिगम्यं त्रैवेयकं कण्ठकं श्रीणिमूत्रकं सोषणं कटीसूत्रं तिलको विशेषको लसाटाभरणमित्यर्थः फुलकं  
पुष्याकतिललाटाभरणं सिद्धार्थिका सर्वपप्रमाणसुवर्णं कण्ठरचितसुवर्णमणिमयी कण्ठका कर्णवालिका कर्णोपरितनभागभूषणविशेषः शशिसुरऋषभ चक्र-  
कानि तलभंगकं च रुडिगम्यानि त्रुटिकाः बाहुरत्निकाः हस्तमालकोऽङ्गणेत्तिका हरिसत्ति रुडिगम्यं केयूर मङ्गदं बाह्याभरणविशेषः वलयानि कटकविशेषाः  
प्रालम्बो भुस्वनकं प्रालम्बो गलाभरणविशेष इत्यर्थः अङ्गुलीयकान्यङ्गुल्याभरणविशेषाः वलाचं रुडिगम्यं दीनारमालिका चंद्रमालिका मूर्धमालिकास्तु दीना-  
राद्याकतिसालाः काष्ठीमेखलयोः कट्याभरणयो यद्यपि नामकोशे एकार्थत्व मधीयते तथापीह विशेषो रुडे रवसेयः कलापः कण्ठाभरणविशेषो मेखला-  
कलापः इति वा द्रष्टव्यं प्रतरकाणि हस्तप्रतला आभरण विशेषाः परिहेरगति रुढावसेयं पादनाल्लंबटिकाः पादाभरणविशेषाः क्लिष्टिणीकाः सुद्रवषिटिकाः  
रत्नोरजालं रत्नमयं जङ्गयोः प्रलम्बमानं सङ्कलकं चंद्रिका स्तूपान्तवषिटिकाः वरनूपुराणि प्रतीतानि चंद्रिका रनूपुराणि वा सुद्रवषिटिकाप्रधानतुलाको  
टिकानि चचनमालिका पादाभरणविशेषाः कनकनिगलानि निमडाकाराः सोषणं पादाभरणविशेषाः जालकं चरणभरणविशेषः मकरसुहविराजमान-  
नूपुराणि प्रतीतानि दसहृष्यरागरद्वयस्तमणहरेति दयार्द्धवर्णैः पञ्चमैः रागै रञ्जनद्रव्यैः कुसुमादिभिर्धानि रक्षितत्वेन रत्नानीव रत्नानि मनोहराणि च  
तानि तथा तानि अंशुकानि निवसिता, इति योगः महार्घाणि नासानिःश्लासवायुवाह्यानि लघूनीत्यर्थः चक्षुर्हराणि अज्ञाधारकत्वात् वषणंशर्शयुक्तानि  
अतिशयवर्णादीनीत्यर्थः इयत्तालापेलवाद्दरेगे अश्ललाबाभ्यः सक्रायात् पेलनानि सुकुमारास्मृतिरेकेण यानि तानि तथा धवलेत्ति कानिचिद्वलानि  
कण्ठखचिथंतकम्मे कनकखचितं सर्वमण्डितं अन्तकम्मे अश्लकम्मे वाल्लक्षणं येषां तानि तथा आगासफालियसरिससणहे आकाशस्फटिकयो-  
राकाशरूपस्फटिकस्य वा सदृशी प्रभा येषां तानि तथा अंसुए नियत्याप्नोत्ति वस्त्राणि निवसिताः आयरेणंति व्यक्तं तुसारगोकुञ्जोरहारदगरयण्डरदुगुल

सुकुमासुकयदमयिज्जसत्स्विराह पाठयापोति व्यक्तं नपरं तु सारं द्विभं सुगरयन्ति उद्वरजसहस्रपष्टुराणि यानि दुष्कृतानि वज्रादि तान्येव सुकुमा-  
सानि सुकृतानि रमणीयानि च यान्युत्तरोयादि' नानि तया तानि प्राहता. वरचन्दनवर्चिता वराभरणभृषिता इति व्यक्तं' सव्योऽयसुरभिक्षुसुमसुरइय  
विविधतदमलधारिणोषो सर्वेषुंके सुरभिक्षुसुमे सुरचित विविधं वरं मान्यं मासो धारयन्ति यास्यच्छोषाय तास्यया सुगंधिषुषु गरागवरयासपुष्पिपूरगवि-  
राइया सुगन्धिषुषुंररागेण च देहरस्यनेन वरवाचे पुष्पपूरकेण च पुष्परचनाविशेषेण विराजिता यास्यस्यया पचियसखिरीया अधिकं सह त्रिया मोभया  
यास्यस्यया सनमदरधुषधुधिया सनमाना मध्ये यो वरधूपं स तथा तेन धूपेन धूपिता ह्यतसो गन्ध्या' वास्यस्यया सरोसमाण्येना श्रीदेवता सा च  
सोके मोमनचेयेति कृता यतस्तयोपमा कृतेति दिव्यकुसुमसज्जदानपत्रभज्जलिपुष्पापो दिव्येर्वरे कुसुमेरविकसिते मोन्ये विकसिते दोमभिय तन्मयमाद्याभि  
प्रजा पूजायज्जा' पञ्चकिपुटा पञ्चलय एव यामां तास्यया सद्ये न च सुराणां स्त्रीषोष सुष्पिता च द्रानगा इति व्यक्तं' वदविसासिणीयोसि चन्द्र  
येव शिवास' कान्तिर्यासां तास्यया चन्द्राहं समकलाटा' चन्द्राधिकसौम्यदर्शना उक्त्वा प्रयोचतमाना इति व्यक्तं' विष्णुयण्णिरीरसुरदिप्य ततेवपद्यित  
रर्शनिकासो विद्युतो ये पना सरोषय शिरणा' सूरस्य च यदीत' ते तस्त्रोभ्यो पधिकार' पधिकारी सास्यया सिंगारासारसारवेसापो यद्धारो  
रद्ययियेपस्तनपधानपात्रार पात्रतिपाठ च येको नेपय्यं' यासां तास्यया अथवा यद्धारस्वामारमिव यायायेयास्य यास्यस्यया सगयगयइवियमभियचेष्टिय  
विश्वस्यसवियसंकाषनिज्जपनुतोषयारकुसलापो सङ्गतान्यु'वितानि यानि गताथीनि तेषु निपुषाया सङ्गतोपचारकुसलाय यास्यस्यया तत्र गत गमनं  
इति तं दान भवित यपन वेष्टित चेष्टाविसासो नैत्रविकार' यदाच हापो सुखविकार स्यात् भावयित्तसमुत्तव' विशापो नैत्रलो प्रेयो विश्वनी भूसुसु-  
इत सन्नमित समारुप्य संज्ञाप परस्वरभाष्यं पाठ च सजापो भाष्यं मिश' अथवा चकितेन सह य सजापः स तथा सन्नित्तचर्णं चेदं पक्षपादाङ्ग-

विन्यासो भूनेत्रोष्ठप्रयोजितः सोऽर्द्धं कामिनौनां यत्कलितं तत्प्रकीर्तितं उपचारः पूजा सुन्दरस्तनजघनवदनकरचरणनयनज्ञावख्यरूपयौयनविलास-  
कलितताः सुन्दरा स्तनादिनयनात्ता अथयथा यासां लावण्यप्रधानरूपेण सृष्टनोयेनेत्यर्थो यौवनेन धिलासेन च कलितता या सा स्त्रिया इह च विलास  
एवं लक्षणे शास्त्री यदुक्तं स्नानासनगमनानां हस्तभ्रूनेत्रकर्माणां चैव उत्पद्यते विगेषो यः श्लिष्टः स तु विलासः स्यादिति श्लिष्ट इति सुश्लिष्टः सुर-  
बधुप्रोक्ति विशेषपदं सिरोसनवणोयमद्यसुकुमान्ततुलकाशास्त्रो शिरोपं शिरोपाभिधानतरकुसुमं नवनोतं च स्रचणं ते च ते स्रटुकसुकुमारै चाल्यन्त-  
सुकुमारै इति विशेषपूर्वपदः कर्मधारय स्रत्सुभ्यः स्योर्पो यासां ता स्त्रया व्यवगयकलिकबुसधोयनिष्ठंतरयमलाप्रो व्यपगति कलिकबुपे राटोपापकर्मणी  
यासां ता स्त्रया धोतो प्रचालितौ निष्क्रीतौ रजोमलो यासां ता स्त्रया ततः कर्मधारयः सोमाउत्ति सोम्या नोरगाः कंताप्रोत्ति काम्याः पियदंसणाप्रोत्ति  
सुभगाः सुरूपा इति व्यक्तं जिणभत्तिदंसणाणुरागेण हरिसियाप्रोत्ति जिनं प्रति भक्ता कृत्वा यो दर्गनानुरागो दर्यनेच्छा सतया तेन हर्षिताः सज्जातरो-  
माद्यादिहर्षकार्यः श्रोवद्भयायाविति प्रवर्पतिताथाप्यवतीर्ण्यः जिनसगासंति निनसमीपे दिव्ये ण मित्यादि देववर्षं कवचेयं नवरं द्विगामोश्चेवति कर्षस्थान-  
स्थिता इति ॥ कः ॥ तएणंति ततो प्रनन्तरं णमित्यसत्कारे सिंघाडयेत्यादावयं वाक्यार्थः सिंघाडकादिपु यव सघाजनशय्यादय स्रच यदुजनो प्रन्यो-

चउक्क चच्चरं चउम्भुह महापहपहेसु महयाजणसहे इवा जणवूहेतिवा जणवो जंतिवा जणकलकलेतिवा जणुम्मौतिवा

तिच्चात्रिकंजिह्वांपंथतीनमित्त्तइ चउकजिह्वांपंथत्थारमित्त्तइ चच्चरनिष्वांपंथत्थामित्त्तइ प्यारिसुघप्रासादनइविपइ मधामोठउजेपंधराजसार्गंतइनइ  
विपइपंथसिरीनइविपइ० महामोठउजनतीकनउयत्तइ पाचापसत्तापरूप जनतीकनउव्युत्समूहमित्त्तइ जनलोकनउवोत्तगद्ववोच्चिउसमभाइरनहो

न्यस्येव भाष्यातीति तत्र सिघाटक सिघाटकाभिधानफलविशेषाकार स्थानं विकीर्णमित्यर्थं. चिके यत्र स्थाने रथावयमौलको भवति चतुष्क यत्र रथा  
 चतुष्कौलक स्थाग चत्वरं यत्र बहवो मार्गा गिखन्ति चतुर्मुखं तथात्रिदिवकुलादि महापथो राजमार्गं पन्था रथ्यामात्र महायाजनसहेद्रवा महान्  
 जनगण्ड परस्तरालापारिरूपः इकारो वात्याज्ञकारार्थो धामण्ड पदान्तरापेक्षया समुच्चयार्थं पथवा सहेद्रवसि द्रुह सन्धिप्रयोगादिति प्रथो द्रष्टव्यं स  
 योपप्रदर्शने ततय यत्र महान् जनगण्ड इति तत्रस्तु क्वचित् बहुजणसहे इति पाठी व्यक्तय यत्र च जनघूइइति वा लोकासमूह परस्परैण वा पदार्थानां  
 विविधेष्वेव न वसंत इत्यर्थं एवं सर्वत्र क्वचित्पाठानि जणशपइवाजणुक्तावेद्र वा इति तत्र धनवादी जनानां परस्परैण वस्तुविचारेण उत्सापस्तु तेषामेव  
 काजा वर्णनमाह च उभायणमालाप प्रकायोऽनर्थकं यत्र. काजा वर्णनमुक्ताप सत्तापो मापण मिथः एव बोली अथ्यक्तवर्णोच्चनिः कसकल स एवोपल्य्य  
 मानवर्णविभाग ज्ञानिं सत्याथ दस्तनिका सधुतर समुदाय एव सन्धियातो प्रपरापरस्त्वानिभ्यो जनानामेकत्र मौलनमिति एवमिति पञ्जमाणप्रकारवस्तु  
 पाइकुइति चास्याति सामान्येन भासइति भापरे विमेषत एतदेवार्थं हयं पदहृदेनाह मन्नापयति प्ररूपयति चेति भयवा चास्याति सामान्यत भापते

जणुकृतियातिवा जणसन्निधाएतिवा बहुजनयो अणमथस्तुएवमाइवस्तइ एवंभासइ एवंपणवेइ एवपरूवेइ एवखुलु

जनलोकतकत्रजलगण्डयोलितवर्भलाइ जनलोकनालनीलोकनाघणासमवायपरिर्वकोर्णं जनलोकनीलकडियाथोलालोकनसमवाय जनलोकतु  
 सधियातपनेरा२थोनकथकीधवीलोकएकठामित्था बहुवणानजनलोक अथोऽन्यपरस्तरं एइववथाइकउइजेइवठकुइतेहकचकइइ एइवववचनइ  
 करीनइभापइ एइवठमघापइयर्मनाफलनइजण।विवइ एइवठ परूपइनाभलणहारनइठिपइवात यणावइ एवंइणइप्रकारिखलुनियइसहितचठी



विशेषतः प्रज्ञापयति व्यक्तपर्यायवचनतः प्ररूपयत्युपपत्तितः इह आगएत्त चंपायां इह संपत्तेति पूर्णभद्रे इह समोसठेत्ति साधुचित्तावग्रहे एतदेवाह  
इहचंपाएइत्यादि ब्रह्मपडिकुर्वन्ति यथा प्रतिरूपमुधितमित्यर्थः तं महत्फलंति यस्मादेवं तस्मान्नहृदिगिष्टं फलमर्थी भवतीति गम्यं तच्चारुवाणति तत्र

संपाविश्रोकासे पुंवागुपुञ्चिं  
वाहिं पुणुभद्रे चेईए अहा

तित्यगरे त्वादीगरे सयंसंबुद्धेपुरिसुत्तमे जाव  
इहसमोसठे इहेवचंपाएणायरीए खलु सोदेवागुप्पिया तहहारु

अप्पाणं आवेमाणे विहरंति तं महत्फलं  
अप्पाणं मीचपामिवातीकामनायांछादूजेहनइ पूर्वांपूर्णं भद्रचेत्वनइविपइ इहचंपान

नाजीपणहार शुतधर्मोसूतयकीआदिनाकरणहार तीर्थवतुर्दिपसंज्ञनाकयक  
जात्रयद्धयकीप्रनेरात्रोत्त मोचपाउधारिया इहांपानगरोब्भुविपइ पाव्यापाउधारिया साधुनइयोय्यपगुहमात्राधानक  
पुरुपमाहिउत्तमप्रधान इहांपानगरीनइविपइ पूर्ण भद्रचैत्यप्रासादनइविपइ साधुनइयोय्यपगुहमात्राधानक  
उत्तमप्रधान इहांपानगरीनइविपइ वाहिरि पूर्ण भद्रचैत्यप्रासादनइविपइ विवरइहइ तेमहाफलसोडउं  
प्रासादनइविपइ इहांपानगरीनइविपइ इहांपानगरीनइविपइ विवरइहइ तेमहाफलसोडउं  
इहांपानगरीनइविपइ इहांपानगरीनइविपइ इहांपानगरीनइविपइ विवरइहइ तेमहाफलसोडउं  
इहांपानगरीनइविपइ इहांपानगरीनइविपइ इहांपानगरीनइविपइ विवरइहइ तेमहाफलसोडउं

राव धनपत सिंहा बालर की आत्मसंयत्त भाव २२

प्रकारस्वभावानी महाफलजननस्वभावानमित्यर्थः यामगोवस्त्वुचिति नाश्री यादृच्छिकाभिधानस्य गोपस्य गुणनियम्याभिधानस्य रावणयाएति श्रवणमेव  
श्रवणता तथा श्रवणित्यर्थं चिर्मगपुणत्ति कि पुनरिति पूर्वोक्तार्थस्य विग्रीपयोतनार्थं अत्रेत्यामन्त्रणे अथवा परिपूर्णं एवाय मन्त्री विशेषणार्थं अभि  
गमणवदनमसणपडिपुच्छपञ्जुवाशयथाएति अभिगमनमभिसुखमन वन्दनं स्तुति ममस्वन प्रथमन प्रतिप्रच्छन गरीरादिवात्ताप्रिय पर्थ्युपासन  
सेवा एतेषां भावस्तप्ता तथा तथा एग्युचिति एकस्यापि आरियसु आर्येस्वाक्येपिठकत्वात् धर्मियस्युति धर्मिकस्य धर्मप्रयोजनत्वात् अतएव सुवचन-

वाणं अरहंताणं भगवंताण यामगोवस्त्वुविस्त्वुवयताए किमंगपुण अभिगमण वंदण यामंसणपडिपुच्छण पञ्जुवासण  
याएकस्त्वुवि आयरियस धम्मिअस सुवयणस सवणताए किमंगपुण विपुलस गहणयाए तगच्छामोण देवा  
णुप्पिया समणभगवंसहावीरं वदामो यमसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कक्काणं मंगल देवय चेद्धेअ विणएण पञ्जुवा

भगवतश्चानवतमहिमावंतनच नामवहंमान गीतत्राख्यपतेहनइ संभलिवइकरो किस्सु कहिवउ छइअगयध्दधामंअणइइयकौअभिगमनयासुहाजारावउं  
वंदणस्तुतिअरवी नमस्कारप्रणामनच करिवउं पूछिवउ गरीरादिकवात्तानच पयुं पासनामेवाकरिवो एकवचनइ आर्यनि पापमय्यनामसुखनउ धर्मसं  
वधिपी सुवचनभलावचनसंभलिवइकरो तउवलोसु कहिवउ छइअगयध्दसवोधनविइइ विपुलविस्तारसहित अर्थतपदेशमोअसाधननउ यइणवुद्धिं  
पडिवइकरीनइ तेइकारणथकौगच्छामवाणुजाइयइ अहोदेवातुप्रियसरसस्वभाववंत अमणतपनाकरणहारभगवतमहिमावतमहावीरकर्मग्रनुनाजीपण  
हार वादीइस्तुतिकरीजइनमस्कारप्रणामकरीअइ सत्कारवक्कादिकनइकरिवइ सन्धानयोग्यप्रणिपातनइकरिवइ कख्याणनउ कारण इरितउपगमिमानउं

स्येति वंदासोमोत्ति स्तुमः नमंसासोत्ति प्रणमामः सकारिमोत्ति सवृक्षीः आदरं वस्त्राद्यर्चनं वा विदधः संभाषिमोत्ति सम्मानयाम उचितप्रतिपत्तिभिः कक्षाणं मंगलं देवयं वेदयं पञ्चुवासेसो कल्याणं कलागणहेतुत्वाद्भ्युदयहेतुमित्यर्थो भवन्तमिति योगः मङ्गलं दुरितोपशमहेतुं देवतं देवं चैत्य मिष्टदेवप्रतिमा तदिव चैत्यं पर्थुपासयामः सेवामहे एयंनेति एतद्गणवन्दनादि अस्माकं पेशभाषेति प्रेल्भवेति जन्मान्तरे पाठान्तरे इहभवेय परभवेय हियाएत्ति हिताय पथ्यान्नवत् सहाएत्ति सुखाय शर्मणे स्वमाएत्ति चमाय सङ्गतत्वाय निस्त्रेयमाएत्ति निःत्रेयसाय सोचाय अणु गामियताएत्ति अनुगामिक्रवाय भयपरम्परासु सानुवधसुखाय भविगतीति ज्ञाना इति हेतोरित्यर्थः उगत्ति आदिदेवात्सापिता रचंगजाः उगपुत्ति त एव कुमारवस्था भोगति आदिदेवस्थापितगुर्वंगजाः भोगपुत्ति त एव कुमारावस्थाः एवं पदद्वयोच्चारणेन जीपपदानि ज्ञेयानि उगपुत्ति त एव कुमारावस्था क्वचित्पठति इक्खागानभेयाक्कीरव्वा तत्रेच्छाकयो नाभिशंगंजजाः नाशति नागवंत्या ज्ञातवंत्या वा कीरव्वन्ति तत्र राजन्वका भगवहयस्वंगजाः क्वचित्पठति सामान्यराजकुलोनाः माह्वन्ति प्रतीताः भङ्गति सूराः जीह्वन्ति योधाः सहस्रयोधादयः पसत्यारोत्ति धर्गंशास्तापाठकाः कुर्वंगजाः खत्तिगति सामान्यराजकुलोनाः माह्वन्ति प्रतीताः भङ्गति सूराः जीह्वन्ति योधाः सहस्रयोधादयः पसत्यारोत्ति धर्गंशास्तापाठकाः

सामो एतेणे पेशभवे इहभवेअ हियाए सुहाए खमाए निखेअसाए आणुगामिअत्ताए भविस्सुइ तिकट्टु बहवेउग्गा उग्गा पुत्ता भोगा भोगपुत्ता एवंदुपडोअरेणं राइखा खत्तिआ माह्वणा भडा जोहा पसत्यारो मसुइ लेच्छईपुत्ता अशेय

कारण देयइष्टदेवतानीप्रतिमासारीपठ विनयइक्षरीनइ सेवाकरिस्व।विणिप्रकारइएहयोमसा गौरनउवन्दनअप्पनइपेआभवेजन्मातरनइविपइ इणिभव नइनिपइ हितभणीपथ्यान्ननीपरइ सोख्यमणीसर्वअभिलपितवस्तुमेनथासमर्थ निःत्रेयससोचमणो भवनीपरंपराइअभनाअनुबंधमणी दुसइ एहवव करीनइ वसुवैवणाउअक्खलनाजपनाच्चणिय उअक्खलनाजपना पुत्रपौत्रादिअ भोगकुलनाजपना एमविपत्ययतारउअ उअपुउर

महद्वेष्यद्वि मल्लिकिनी छेच्छकित्तय राजशिशिया यथा श्रुयन्ते शेटकराजस्याष्टादशराजा नवमसदं नवलेच्छदं कासो कीसलगा अद्वारस गण-  
रायाणो द्विती राईसरतसुधरनाडवियकोडवियदशमशेठिविष्णवदसत्यशहपभित्तिप्रोत्ति राजानी माण्डविका ईश्वरा युवराजा अणिमाचैक्ययुक्ता इति  
केचित् तत्त्वरा परितुटनरपतिवित्तीर्णं गृहव्ययिभूमिपिता राजस्थानीया माण्डविका मण्डपधिपा कोटु विका. कतिपयगुटुवप्रभयो पत्रलगका इत्या.  
यद्द्व्यनिषयात्तरितो महेभो न हग्रने श्रेष्ठिन श्रोदेशताध्याधितसोवर्णं पद्विभूमिपिनोत्तमात्रा सेनापतय नृपनिरुपितायतुरश्रसेत्ननायका सायं

बह्वे राईसर तलवर माण्डविय कोडुविप्र दृग्भ सेठि सेनावद् सत्यवाह प्रभित्तिश्रा अण्येगद्भावदणवत्तिश्र अण्येगद्भापू  
अण्यत्तिथ एवंसक्कारवत्तियसम्भाणवत्तियदसणवत्तियं अण्येगद्भाश्रकृविणिच्छयहेलं बोसुयाइसणेस्त्रा

भोगभोगपुत्रपरविदराजानाराजानपुत्र चवियचतियनापुत्रद्वः माछणभाहणनापुत्र भटाभटनापुत्र योधयोधनापुत्र परत्वार परत्वारनापुत्र  
मल्लकीमल्लकीनापुत्र केच्छईलेच्छज्जातिनचतिय सेछइचचियमालपनापुत्र अनैराइवहवैपणा राजाभंडवीकईसरगुपराजा तसपरमउडवडराजान  
माण्डवियमठयनापधिपति कोडवियगुटुयनामायक गजाततक्ष्मीजेहनद नगरसेठिवडा सेनापतुरगसेनाकटनानायाक सायंवाडसायताडासीभित्तना  
पलावणपार मधुतिपयादिदेहनद एकेकपूर्वदकछातेगदिवास्तुतिकरवातियदजनिमित्तदयावद एकेकपूजानिमगुप्यादिकपूजिवद्वितीमपूजानदल  
निमित्तदयावद इमसत्कारवफ्लादिकषोडादिकषोडानिमसत्कारनदजनिमित्तपावद सन्धानजठीजभावाइरउंबहुमानदेवउ तिथिनिमित्तिपावै दंसष दशंगन  
कोइवानिमित्तदजयावद कोलूडलएमतिनद्वनिमित्तदंजयावद एकेकशयंसूयादिकनेहनानियकहतानद्वेत्तद्वनिमित्तदंजयावदषद एकेकपश्रुतगधी

वाचाः सार्थनायकाः वंदनवर्तियति वंदनप्रत्ययं वंदनार्थमित्यर्थः षष्ठ्यर्थे जइंकारणाइंवागणाइं पुच्छिस्सामोत्ति कचिद् श्रुते तत शर्धान् जीवादीन् हेतून् तद्वसकानव्यव्यतिरेकयुक्ता कारणान्युपपत्तिमात्राणि यथा निरुपमसुखः सिद्धी ज्ञानानायाधत्वप्रकृपीदिति व्याकरणानि परप्रश्रिताथीत्तररूपाणि कथवलिकम्पसि कृतं वलिकर्म स्वगृहदेवतानां ये स्ते तथा कथकीउयसंगलपाशच्छित्ति कृतानि कौतुकमंगलाल्येव प्रायशित्तानि दुःखप्रादि-

मोसु आइनिखुंकिथाइंकरिस्सामो अप्पेगई अट्टाईहेजहिं कारणाइं वागरणाइं पुच्छिस्सामो अप्पेगई आसव्वओ समंताए सुद्धे भवित्ता आगाराउ अणगारिअं पव्वइस्सामो पंचाणुवइयं सत्तसिक्खावइयं दुवालसेवहं गिहिधम्मं पडि वज्जिस्सामो अप्पेगई अजिणभत्तिरागेण अप्पेगई अजिणीअमेअं तिकट्टु गहाया कथवलकम्मा कथकीउअसंगल

सांभल्याजिसूत्रार्थविचारतेसांभल्लिवाभणीभावइच्छइ एकेनसांभल्याजिविचारादिकतेहनानियत्तपणुं करिवाभणीभावइच्छइ इकेकट्टहस्यउग उग्रपुत्रादिक अर्थजीवादिकपदार्थ हेतुनैगमादिकतेपिं करी कित्तइकारणप्रत्यकयानाकतर पुच्छिस्सांप्रत्यहारइतेमवानुभावनइ इकेकट्टहस्यउमकार सर्वप्रकारइसर्वपणइ समंतातुमनवचकायासहित सुडिइंद्रियधुक्कायधमस्तकएवं१० प्रकारसूडुअइंनइ आगारगट्टहस्यवासच्छांडो नइ अणगारिसाधुपणउं परिवल्यत्वनउअंगीकारकरिस्सा पंचअनुव्रतधूलपाणातिपातादिक सातिशिञ्जात्ततेकेहां गुणत्तत्रेशियत्वात्तत्र४एमिलीमातइ षादनविधवारइप्रकार गृहस्यआवकसुंधर्मपडिविजिस्सांअंगीकारकरिस्सा इकेकट्टहस्यजिनभत्तिवीतरागप्ररिहंतनइभत्तिभणीभावइ इकेकट्टहस्यजोतएअमंशरउपाधारच्छइते हनइनिमित्तइभावइच्छइ एहयुं करी नइस्नानकीधा धरनादिवपूज्या कीधां कौतुकमपीतिलकादिकमंगलीकदच्चोद्रीवसरपगच्छित्तस्वप्रविधभणीजेकरिवा

टीका

१६६

सुत्र

वाचा

बोध

विवातार्थमप्यशरणीयत्वाद् यैस्ते तथा तत्र कौतुकानि मयीतिवकादौनि मगत्वानि तु विद्यायंकद्वयव्यवसायीनि सखीजनपधोयन्ति काचिद्भूयते तत्र उच्योनेन प्रभुतज्जकषादनक्रियया धोता धोतगाथा ये ते तथा इदं च खानस्य प्रपुरजसलसुवनाथं विगीपण खानस्यतिरिक्ताप्रयोजनगतं वेद मिति सिद्धमाकठेमाज्जकइति गिरसा कण्डे च मान्नास्यता धृता यै स्ते तथा आविश्वमणिसुवन्ति आविश्वमणिरिचितं कप्ययहारदुहारतिसरयपालंबपलंबमाया कइसुत्तपुक्यसोहाभरणा कल्पितानोष्टानि रचितानि वाशादौनि कठीनूक्तानि येपामन्यानि च सुकतगोभान्याभरणानि येपान्ते तथा पवरयत्यपरि श्रियन्ति नियमितप्रधानवामसं चदणोलितगायसरीरा चन्दनानुक्तिमानि गात्राणि यत्र तत्तथाविधं शरीरं येपान्ते तथा वाचनान्तराधीतमय पश्यसक जाणयन्ति दानानि शकटादौनि शुक्लमयन्ति युव्यानि गोकवियप्रसिद्धानि जपानानि हिन्दुप्रमाणानि चतुरस्राणि वेदिकोपयोगिभूतानि गिज्जिनि

पायच्छिता सिरसा कंठेमालकडा आविश्वमणिसुवन्ता कप्ययहारदुहार तिसरय पालंबपलंबमाया कइसुत्तय सुकयसोहाभरणा पवरयत्यपरिह्रिआ चदणोलितगायसरीरा अद्येगइशाहयगया एवंगयगयारहृगया स्रिवियागया छद्द सिरसामस्तद्द पनरकठगजदमालापडिरीकद्द पाविश्वपडिखाकइमपिसुवन्तंशभरण कप्यापडिखाहारपठारमरिदुं चंद्दहारनवसरिनच श्रिखिसरि आभरणविगीप पार्श्वभक्तुमवठं पखंवायमाननावठ मीठठं कइिनउकणदोउउ सुकतमसासोभाषाभरणनोक्कइलेहनद्द प्रवरप्रधानवज्जपडिख्याकइलेणद्द चदनईकरीचमुक्तिबोप्याकइंगात्रयरीरजेहनो एकेकपुशपादिदइइयधोइइइषडोइइइदिवापावइछे इमगजहाथीइइषडोइइपावइकइ रयमोटासंघामिकतिणि वइमो यिधिकापान्नोचूटाकारिजपरइंठांकीतिणवइसो संदमानिकापुइपप्रमाणसुपासुतविगीपइइइमो इकेकपायविहारचारिणीपगइंजविचरीनद्द

हस्तिन उपरि कोक्करूपा या मानुषं गिलतीति वैथिक्लिन्ति लाटानि यानि श्रुतुपत्नानानि तान्यन्यविषयेषु थिलोओ अभिधीयन्ते पवहृणन्ति प्रवहृणानि  
 वेसरादीनि सोयन्ति शिविकाः कूटाकाराच्छादिता जम्भानविशेषाः सदमाशियन्ति स्यन्दमानिकाः शुरुषप्रमाणायामा जम्भानविशेषा एव पायविहारचा-  
 रेणं पादविहाररूपी यथारः सञ्चरणं स तथा तेन पुरिषत्रागुरन्ति वागुरा ष्टगन्धनं पुरुषवागुरे च सर्वतोऽवस्थानात् पुरुषवागुरा वगावर्गिं गुम्भापुगिन्ति  
 क्वचिद्दृश्यते तत्र वर्गः समानजातोयहृन्दं वर्गेण२ च मूत्वा वर्गावर्गिं अतएवेच्चाव्ययीभावसमासः गुम्भापुगिन्ति गुल्भं हृन्दमात्रं गुल्भेन च२ भूत्वेति

संदमाशियागया अप्पेगइआपायविहारचारिणोपुरिसवगुरापरिखित्ता अहया उक्किठ्ठीहृणायवोल  
 कलकलरवेणं पक्कुविभअमहाससुहरवभूतंपित्रकरेमाणा चंपाएनयरोए सज्जंअज्जेयां शिगच्छति२  
 त्ता जेणेवपुणभद्देइए तेणेअउवागच्छेइ२त्ता समणस्स भगवओ अहावीरस्स अट्टरसामंते छत्तातीए

वादिवापु षववागुराजिमसृगवांधिवाोनौवागुरावांटीजइतिमद्दहामनुष्यइंजपरिवया मोटइप्रकारइ उल्कुष्टउसीहसंबंधिउनादकारतांआनंदजपनइमोडउ  
 शब्दकरतांवीलशब्दनीसमम्भिनपइइ कलकलशब्दसमम्भाइएहवउंरवशब्दकरतइ पक्कुविभयधतीवेलइजिमगाजइजपइइमहाससुहरमोटाससुद्रतिमलोक  
 नगरमाहिंसहारवशब्दकोलाहलत्रायउरेवालउरेसूरयाइंछेइरेइशिपपरिंकरतांथका चंपानगरीनइनिपंइ मध्यइमध्यइविचालइ नौकलइनगरमाहिंघनी  
 नौसरीनइ जिणइथानकइपूर्णं भद्रयजनुं चैत्यदेहरउच्छेइतिचां तिणइथानकैआनइपाउधारइ तिहांआवीनइ अमणतपकुंकरणधार भगवंतमहिमा  
 वंत महावीरकर्मयनुनाजीपणहारतेहनइ अनिदूरनहीअतिवेगलानची छत्रयमंअजयगोकवृत्तादि क तोर्थेकरभगवंतनामतोयचउलोसमांहिला पासइ

शुभभागल्य मद्यसि मद्यता रवेणेति योग सङ्गृह्यसोहनायसोसककक्षरविर्णति चत्कृष्टयानन्दमहाध्वनि सिङ्गनादय प्रतोतः सोस य वर्ष-  
व्यक्तिकर्त्तनो ध्वनिरेव कक्षकलय व्यक्तयपन सएव एतत्सप्तषो यो रय स तथा तेन पञ्चभुभियमहासमुष्टवभूयपियकरेमाणत्ति प्रचुभित महाजसधे  
योपप्रप्तमिव तन्मय मिव नगरं विदधानादत्त्वर्थं णचिदिदं पदचतुष्टय इत्यते पाथददरेण भूमिकंयेमाणत्ति त्वरितगमनजनितपादप्रहारेण समर-  
तस मिय फोडे माणत्ति पादपातप्रतिरवेणाकाय स्फोटयन्त इव एगदिसिंति एकया दिया पूर्वीत्तलक्षण्या एगाभिमुष्टत्ति एकभगतवन्त गभिलक्षणीकृत्य  
सुखं येपात्ते एकाभिसुपा तिल्यगराददेवेत्ति तोषंकरातियेपान् जिनातिमयान् जाणवाहणार ठावइ तिसि यानानि गकटादोनि वाहनानि गया-  
दोनि स्नापयन्ति स्त्रिरीकुर्वन्ति षचिद् विद्वंभतोति इत्यने तत्र विज्ञेयेण स्रथयन्ति नियसोक्तुर्यन्ति ( इतो याचनान्तरगत बहु सिध्यते जाण्णार सुय  
तिसि भुवि विन्यस्यति वाहणारविसर्ज्जेतिसि चरणार्थं सुत्कनयन्ति पुष्पतंनोखादयपाठपमादय सधिसार्त्तंगारति सचिसाय सचेतनमसहस्रार च  
राजनचण विसर्ज्जयन्तोति योगः किरुप सधिसमित्याह पुण्यतामूनादिक मादिगन्दात तथा प्रसङ्गारच तथा प्रसङ्गारच कियिपमित्याह प्रायु-

तित्ययराभिसेसे पासंति पासिसा जाणवाहणारं ठावइतिसि जाणवाहणेहितो

पञ्चोरुहति पञ्चोरुहिसा जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव लुवागच्छइ लुवागच्छिसा

वेगसायकीदेपर तेदेपीनइ जानगाहलोपहिसिवाहनस्यभयोळादिकयापइचरकरइ यापीनइ यानगकटादिवाहन स्यभयम्मादिकयमी छेठाजतरइ  
छेठाजतरीनइ जिघांयमणतपनाकरणहार भगवतमसिसावत महावीरकर्मगुनाजीपणहार तिहांसमीपइपावइभगवतपासइ तिहांसमीपइपावीनइ



समणं भगवं महावीरं तिव्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेति करित्ता वंदंति णमंसंति वंदित्ता णमंसित्ता णञ्चासथे  
 णाइदूरे सुखूसमाणा णमंसमाणा अभिमुहा विणएणं पंजलिओडा पज्जुवांसंति तएणसे पवित्तिवालए इमीसेकहाए  
 लद्धेसमाणे हइतुडे जाव हियए रहाए जाव अप्पमहग्घाभरणालंकिअसरीरे सयाओ गिहाओ पडिणिव्वमइ  
 सयाओ गिहाओ पडिणिस्किमित्ता चंपानगरिं सज्जं सज्जं णं जेणेव वाहिरियासव्वेवहेडिह्लावत्तव्वयाजावणिशौयइ

अमणतपखी भगवंतज्जानवंत महावीरकर्मशत्रुनाजीपणहारप्रतिं तिव्खुत्तोविणिवार आयाहिणंपया० दचिणदिसिनउपासउमयादादेईनइप्रदचिणाकर  
 इते प्रदचिणाकरीनइ वांदइसुत्तिकरइ नमस्कारप्रणामकरइ वांदीसुत्तिकरीनइ अतिआसन्नकूकडउनही अतिदूरवेगलउ  
 नही सुश्रुषामलौसेवासाचवती नमस्कारप्रणामकरता अभिमुखेसामुहा विनयइंकरी प्रांजलिपुटहाथविजीडीनइ पर्युपासनासेवाकरइ तिवारपखी  
 तेप्रवृत्तिवाइकभगवंतआव्यानीवातनउकथक एहवीकथाजिभगवंतपाउधाया तेअर्थविवरासहितलह्यइथकइ हर्षविस्रयतुष्टिसंतोष जावथकीबीजाइ  
 वील हिवैहर्षपास्यउ खानकीधुं जावशब्दादिकथकीदेवपूजादिक अत्यथोडाभारअथवामहाअर्थ बहुमूल्यएहवेभारणेअलंकयउमीभनीकशरीरकै  
 जेहनउ एहवउप्रवृत्तिवाइक आपणाघरथकीनीसरइ आपणावरथकीनीसरइ चंपानगरीप्रतिमध्यइमध्यइविचालइ जिहांवाहिरलीसभासगलीइंस  
 भामांहिठलीलहुडीइहांसर्ववत्तव्यताविचारकहिअओ जावशब्दथकीबीजावीलजाणिसिंहासणिवइसईसीनइ तेप्रवृत्तिवाइकभगवंतनीवधावणी

राव धनपत विंश बलादेव की शोचन संयत्त भग २२

धादिक पायुधं सुखादि आदिगन्धाच्छ्वेषामरमुकुटपरिगृह पाहणाभोयसि उपानहो च एगसाक्षिय उत्तरासंगति एकयाटकवन्त मुत्तरीय  
 विन्यासविधियं प्रायत्तन्ति आधान्ना गौर्षाद्यं हतशतशसर्वां चोक्तन्ति आशमनादपनीताशुचिद्रव्या परमसर्द्धभूयसि अतएवात्यर्थं शुचीकृता अभि-  
 गमेणति उपचारेणाभिगच्छन्ति भगवंतसुपचरति चकृष्णोवेत्ति दर्यने मणसाएगतीभावकरणेथति अनेकत्वस्य एकत्वस्य भवनं एकत्वोभावस्यस्य यत्  
 करणं तस्यथा तेन एकत्वोभावकरणेन आत्मन इति गम्यते मनस एकापतयेत्यर्थं काविकपर्युपासनामाह सुसमाह्वियपसंतसात्रित्यपाणिपाया सुसमा  
 हितैर्विद्विष्व्यात्मनिभूतैः प्रयासै रन्तर्हसगा उपयान्ते सन्नि संहर्तं संकीर्तीकृतं पाणिपाद येस्ते तथा अतएव अंजनमसनियहत्या अच्युत्तिना  
 अच्युत्तिरूपतया सुकुचितौ सुकृत्ताकारो हतौ हन्तौ येस्ते तथा वाविकपर्युपासनामाह एवमेयं भर्तसि एवमेतद्गदन्तभट्टारकेति सामान्यतः अनितद्वने  
 यति विज्ञेयत एतएवासंदिष्टमेयति गहाराया अविषयइत्यर्थं अतएव इच्छियमेयति भगवन्मुखात् पतत् प्रतीक्षितमान्द्वीतमेतत् इह च किञ्चिदिष्ट  
 मन्यत् प्रतीक्षितमेवैत्यत उच्यते इच्छियपदिच्छियमेयति स्वयेण एवमष्टे प्राणद्वितोऽयमर्थं इति भाषसियाए तद्विस्तसि तद्विन् भगवद्वचने चित्त भाव  
 मनी येषां ते तद्विज्ञा सामान्योपयोगापेक्षया वा तद्विज्ञा तन्मनसो द्रव्यमनप्रतीताविधीयोपयोगं वा तद्विस्तसि तन्मेत्या भगवद्वचनगत-  
 उभाक्तपरिणामविधीया वेग्यादि लयादिद्रव्यसाविव्यजनितचात्मपरिणामो ज्ञानादिद्रव्यसाविव्यान् परिणामो यः आत्मन क्कटिकस्त्रेय तत्रार्थं  
 ज्ञेय्यागदः प्रयुज्यते तज्जन्तवसियसि इहाध्यवसायो पध्यवसित तद्विस्तत्वादिभावयुक्तानां सतां तद्विन् भगवद्वचने एवाध्यवसितं क्रियासम्पादनविषय  
 येषां ते तदध्यवसिता तत्तिल्वज्जज्ञवसायसि तद्विचयेव भगवद्वचने तीप्रमध्यवसान अथपविधिक्षियाप्रत्यविधीयरूप येषां ते तथा तद्विस्तसि तद्विन्  
 भगवत्त्वर्पितानि करणानोन्द्रियाणि शब्दरूपादियु योषचसुरादीनि येस्ते तद्विस्तकरणाः तद्विस्तसि तस्य भगवद्वचनस्य योऽयं सत्रोपयुक्ता ये ते

तदर्थोपयुक्ताः तदभावणाभाविद्यन्ति तेन भगवद्वचनेन तदर्थेन वा यका भावना वासना प्राक्तनसुहृत्ते तथा भाविता वासिता न वागनान्तरसुपगता ये ते तद्भावनाभाविताः अतएव एगमनन्ति अद्वितीयमनसः अतिप्रगन्धतया प्रधानमनस इत्यर्थः अत्रिमण्ति अशून्यमनसः अदीनमनसो वा प्रसुदितत्वात् तद्भावनाभाविताः अतएव एगमनन्ति अद्वितीयमनसः अतिप्रगन्धतया प्रधानमनस इत्यर्थः अत्रिमण्ति अशून्यमनसः अदीनमनसो वा प्रसुदितत्वात् अणन्नमण्ति भगवन्मनस इत्यर्थः निमित्तं भवति जिण्वयणधर्माण्यरागरत्तमणा जिनवचने जिनवदने वा धर्मानुरागेण रक्तं मनो येषां ते तथा एका-र्थिकानि चैतानि तन्मनःप्रभृतौनि सर्वाणि पदानि तदैकागताप्रकल्पप्रतिपादनार्थानीति विद्यःसिचवरकमलनयणवयणन्ति विक्रियतानि वरकमलानीत्र नयन-वदनानि येषां ते पर्युपासत इति । समोसरणाइति समामरणानि वसतराः गत्रेसइति भगाद्वरध्यानावगमाधुं निरूपयत क भगवानवद्भित इति जानी-तेति भावः आगंतारेसवन्ति आगन्ताराणि येवागन्तु का वसन्ति आगमागारेसवन्ति आराममध्यवर्तिगृहेषु आएसलेसुवन्ति आनेसनानि येषु लोका आविसन्ति तानि चाऽऽवन्कारक आनरादिद्वयानानि आयमनेसुवन्ति आयसथाः परित्राजकृष्णा-नानि पणिवगेहेसवन्ति पण्यहृहाणि हृदा इत्यर्थः पणिवसालासुवन्ति भाण्टगानास गृहं सामान्यं गाना तु गृहमेवा दीवतरमृचतरच एवं जाणगिहेस जाणसालासन्ति कीट्यागारेसन्ति धान्यगृहेषु सुमानिसन्ति श्मशानेषु सुत्रागारेसन्ति गुल्बगृहेषु परिहिण्डमानेतिभतनं परिवोले

एवं जाणगिहेस जाणसालासन्ति कीट्यागारेसन्ति धान्यगृहेषु सुमानिसन्ति श्मशानेषु सुत्रागारेसन्ति गुल्बगृहेषु परिहिण्डमानेतिभतनं परिवोले एवं जाणगिहेस जाणसालासन्ति कीट्यागारेसन्ति धान्यगृहेषु सुमानिसन्ति श्मशानेषु सुत्रागारेसन्ति गुल्बगृहेषु परिहिण्डमानेतिभतनं परिवोले

यिसीइत्ता तस्मपन्त्रित्तिनाउअस्सु अइत्तेएससयसहस्साइ पौइंदाणांइलवयति २त्ता सन्नारेति सस्मानेति सन्नारेत्ता सस्मानेत्ता पडि  
नाकयकनइ अत्तेएससयसहस्साइ पौइंदाणांइलवयति २त्ता सन्नारेति सस्मानेति सन्नारेत्ता सस्मानेत्ता पडि  
मानदियधं सत्कारवस्सादिमज्जाधीनइ सर्वांनजमानदेहेनइ तेहनइअिसंघप्रतिमउनाजइ तितार पड्ढोनेकूणिअराजा भंगमारयेणिजउ

साचेति ममागम कुर्वन् ॥४॥ प्रकृतवाचनाशुश्रिवते वक्ष्याम्यतः सैन्यव्यापारपारायणं चाभिशेकति अभियेकमहंतीत्याभिषेकं पृथ्विर-  
 यणनि पधानश्चिन्तन पडिकल्पेष्टिति नतिकल्पय सत्रम् कुरु पाठेकंति प्रत्येकमेकैकयः जप्ताभिसुदानि ह्युत्तारति युक्तानि वली-  
 यदादियुतानि क्वचित् युग्यानि पठान्ते तानि च जम्पानविशेषा जाणादति यक्षटानि सखिभतरयाहिरियति सदाभ्यन्तरेण नगरमध्यभागेन वाहि  
 रिजा नगरवर्षिभांगो यत्र तप्तया ( क्षियाविशेषयश्चेदं चासित्तसंमिश्रयोवर्षिकं चासिता सुदकच्छटेन संमार्जितो कषवरयोधनेन उप  
 निता गोमगादिना केचिन्त्यान विंशतगतिगवतुक्षवचरउप्युपहापचेस इदंश्च वाक्यदयं क्षत्रियोपलभ्यते तथा ) चासित्तसिम्हंरुस

निसृज्जे इ ततेण से कूणिएराया मभसारपुसे वलवाउञ्च आमंतेति आमंतेसा एववयासौ खिप्पामेव भोटेवाणु  
 प्पिआ चाभिशेकं हत्थिरयण पडिकल्पेष्टिं ह्यगयरहपरलोहकनिञ्चचारंगिण सेणं सणादिष्टिं सुमहापमुहा  
 णयदेवीण वाहिरियाए उपट्टाणमानाए पाडिएक्क पाडिएक्कादं जप्ताभिसुहादं जुत्ताइजाणाइ उवट्टवेइ चपं

पुवट्टु न० कटत्तन उपधिकाारीतेवति चामं इवेडावइनेहायीनइ एइपठ कक्षतठह्ववचो क्षिपततावसापष्टीदेवाणुप्रियमरससभावनचोएवचन अभि  
 येककोपउइएइवचो इत्थिरस्यपधानसक्तीप्रतिं प्रतिकल्पससक्त्वइससक्काकरोयं गारो घोडाहाथीरथप्रवरप्रधानयोधसुभटसत्रद्वयहृगृगारकरीकक्षितमनो  
 इरपणु करपोषारिप्रकारनीसे नाकटकसवह्वयस्यकरचो सुभद्राप्रमुखजेसमकदेवोपटराणीतेइनो वाहिरिकीइइसयानोगासासभाहृदितिही प्रये कइं २  
 एकेकीराणीनउएकेसचोरइमसगन्तीराणीनायानक०रथ याताभगवतनइवादिवाजाएवानइ चंभिसुसस्युषयोप्रीयागवसदैकरीसदितगाडीवक्षिउवस्थापय

सोऽपापाठोऽग्रे एतस्य वक्ष्यमाणत्वात् छेयापरिषदसमस्तपणाविक्रमेषि हिं छे मी निपुणो य आचार्यः शिष्योपदेशदाता तस्योपदेशाद्या मतिर्बुद्धिस्तस्या  
 ये कल्पना विकल्पाः क्लृप्तिभेदास्तौ तथा तैः किंविधैः सुणिउणेहिंति व्यक्तं निपुणं नरेर्वा उज्जलणेवत्यपरिपत्यिचति उज्जलनेपथ्ये न निर्मल-  
 वेपेण ह्यथंति शीघ्रं परिपवितं परिच्छीतं परिहृतं यत्तत्राथा तत्याठान्तरे उज्जलनेपथ्येरिति ससज्जंति सुष्ठु प्रगुणं धम्मियसणद्धबपकवप्यउप्यो-  
 लियकच्छवच्छनैवियबद्धगलवरभूसणविरायंति धर्मणि नियुक्ता धार्मिकाः तैः सन्नद्धं क्षतसन्नाहं यत्तत्ताग्निं कसन्नद्धं हृदं कवच सन्नाच्चविविषोयस्य  
 तत्तथाः तदेव वक्ष्यवचिकं अथवा धर्म्मितादयः शब्दा एकार्था एव सन्नतताप्रकर्षाख्यापनार्थाः भेदो वेपा मग्नि सच कूटितोऽवसेगः तथा उत्प्रीडिता गाढी-

सगृहाहेहिं सण्याहिता एअमाणत्तिअं पच्चप्पिणाहिं तएणं से हत्थिवाउए बलवाउयस्स एअमइं सोच्चा  
 आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ पडिसुणित्ता छेआयरिअ उवइस मतिविकप्प गाविकप्पेहिं सुणिसुणेहिं उज्जल  
 णेवत्थहत्थपरिवत्थिअभुसज्जं धम्मियसण इवइकनइयउप्योलियकच्छवच्छगेवेयवइगलवरभूसणविरायंति अहि्य

कइकरीनइ सन्नाहीसज्जणं गारीनइ एहमारीआज्ञाकहणच्छइते काजकामकरोनइ सउं पओ तिवारपच्छेति हत्तिवाहुकच्छथीनउपोतारसहावत बलवाहुक  
 सेनाकटकनानायकनउ एहवओ अर्थजेसे भासज्जकरउते कानविपइसंभलीने स्वांमीनीआज्ञाहं विनवइं करोनइ वचनविषेपथी संभलइ विगेषसांभलीने  
 छेकनिपुणएहवा आचार्य विजानी तेहनाउपदेशको जेकल्पनागादिअल्पकार तेण इकरीसुनिपुणभलीरचनाकरीअइ अथवाअतिनिपुणमनुअइंकीधउ  
 छंजलउनेपथ्यवेप तेणइकरीहत्थगीध परिवच्छिअपरिवकोछइहाथीनउवे परथ्यउकइभलउसज्जकीधउ धग्गियकइतां एहनांअधिकारियातेणइसअउसन्नाउ

रिचनपु विंश अथोप शि अनासवयना मत्त २२

ज्ञाना काचा इदयश्चुर्वचसुरसि यस्य तत्तथा वचः कश्चरति पाठान्तर तथा वद ग्नेवैयक ग्रीवाभरण मछे यस्य तत्तथा तथा वरभूपणे विराजमान  
यत्तथा ग्नेवैयकनभभूपणविराजितमिति पाठान्तर ततो धर्मितादोना कर्मधारय' अत स्तत् पश्चियतेयुत्तति क्वचिद्भूम्यते तत्राधिककाधिकेना  
त्यंबमधिकेन अदितानो वा मद्रूणा मरुतिना इपयेन तेजसा प्रभावेण युक्त यस्यतथा तत् सखलियवरकक्षपुरविरादयं सखलिते शाखित्योपेते  
वरे ये कर्षं पूरे कर्षाभरणे ताभ्यां विराजितं यत्तत्तथा तत् पर्यन्तवद्वृत्तमद्रुपरक्यधयार प्रखलान्यवचूखानि इवकन्यस्त्राघोसुखयूचका यस्य तत्  
प्रखलान्यवचूखं मधुकरे अंभरेमंदजसगन्धाकृष्टे कृत मन्थकार यस्य तत्तथा तत कर्मधारय' अतस्त्वात् पाचनान्तर त्वेवं नीय विरचितवरकक्षं पूरं  
सखलितप्रमन्यावपूषु व वामरोत्कराज्ञान्थकारतागुवामराणां कण्ठ्यात् चित्तपरिच्छेयपच्छद विच  
परिच्छेको सधु प्रच्छदो वस्रविश्रीयो यस्य तत्तथा तत् पहरणावरणभरियजुदसल्ल प्रहरणावरणानां भूत यत् युद्धसल्ल

ते अजुत्तं सल्लिअवरकण्यपुरविरादयं पलनवत्तच्चूलमङ्गन्नरकयंघयारं चित्तपरिच्छेन्नपच्छदं पहरणावर

सहितकोधवगाठठ भौछिउकवचईकवचसवाइविश्रीपठये खियकहितगाठीवधीकच्छदियानोरारसहीइ सहितवसहितय'यं घेय्ययीवाकोटितु वामरण  
वद्वराय्यु मखानठ'वरप्रधानभूपणयाभरणतेणइकरीविराजमान अधिकतेजतेणइकरीयुक्तसहितइइ सखलियकहतंखलितपणइकरीसहितपरप्रधान  
जेविकयं पूरकाननाघाभरणतेणइकरीविराजमानसोभायमान प्रखंबकावठउच्चूलगखानइ'नीवसइप्रदेशियिहु पासइभूंमखलिसहनइमइगधियाव्याभसर  
अमपतेणइकरीकीधउधयकारजिहवां चित्रविविन्नपरिच्छेयलधुपच्छदूउच्छाडयवज्जविश्रीपजेहनउ प्रहरणावरणप्रमुखधयीयारणावरणपेठानंषइ

टीका १०० एव वाधा बोध

च सगुणप्रगुणं यत्तथा तत् पाठान्तरे सचापसरप्रहरणावरणभरितयुद्धसज्जमिति सच्छत्रं सध्वजं सघण्टमिति व्यक्तम् सपताकमित्यपि दृश्यते तत्र पताका गरुडसिंहादिचिह्नरहिता पंचमेलयपरिमंडियाभिरामं पद्मभिरामिलकैः चूडाभिः परिमण्डितमत एवाभिरामं रसं यत्तत् तथा तत् श्रीसारियजमलजूलघंटं अत्रसारितमवलम्बितं यमलं समं युगलं द्विकं घण्टयो र्यत्र तत्तथा तत् विष्णुपण्डुवकालमेहं घण्टाप्रहरणादीनामुज्वलदीप्तियुक्तत्वेन विद्युत्कालत्वात् विद्युत्परिगतमिवेल्युक्तं हस्तिदेहस्य कालानमहत्त्वेन च मेघकल्पत्वात् कालमेघमित्युक्तं उष्णाद्रयपव्वयंवचंक्रमंतं स्वाभाविकपव्वंतो हि न चद्रुमते अत उच्यते श्रीत्यातिकपवतमिव चङ्कस्यमाणं पाठान्तरे तु श्रीत्यातिकपर्वतमिव सेवखंति साचान् मसंगुलुगुलंत

यभरिअजुद्धसज्जं सच्छत्रं सध्वजं सघण्टं सपङ्गं पंचमेलअपरिमंडिअभिरामं श्रीसारिअजमलजूलघंटं विज्जु पण्डुवकालमेहं उष्णाद्रयपव्वयंवचंक्रमंतं मत्तं गुलगुलंतं मणपवणजइणवेगं भीमसंगामियाओगं आभिसेकं

करीनइजुद्धसज्जसंगामकरिवाभयोसाप्रधानकीधठइजेहवठतेहवठइस्ती क्वत्रिकरीसहित ध्वजार्करीसहितकै घंटातेणइकरीसहित मोटोपताकाध्वजातेणइसहितकइ पंचमेलकपांचचूलिकासुगटतेणइकरीपरिमंडत इणिकारणिअभिराममनोहर उसारियनीचीमूकीलांतीजमत सरिकीविडुपासइघंटानउगुलविघंटंजिह्वनइहिवद्वतेहस्तीनइउपमाकहैछे विष्णुविजुलीइपिणइसहितएइवभोकाजभोमेघतेसरीपठदीसइइजे उत्प्रातिकदेवतानाचालाधिपतेणइकरीकंपतउपर्वतनिमदीसइएहवउइस्ती चान्ततर्हीइतववीजउपर्वतहीउइनही मातउसमांसलकर गुलगुलाटगव्दकरतश्रीगुंजतश्री मनभनइपवनवायुतेहनइंउज्जयणीतनुछइवेगएतलइएइयकीजतावलाचानइइइमकहतांतीशामणउइइ संगुभिक

रत्नमणपत्र विष्णुवर्चस्य का मनामसंघस्य मना २२

मिति व्यक्त कश्चिद्वाभेदमिति दृश्यते न एवमप्यजदृश्येव न मनपवनजथी वेगो यस्य तस्यथा तत् शीघ्रवेगमिव क्वचित् भीमसन्नामियायोग साधामिक  
साधोग परिकरो यस्य तस्यथा तत् पाठान्तरे सन्नामियापोल्ल साधामिकानोद्यं साधामिकवाचमित्यर्थः पाठान्तरे साधामिक अयोध्य येन सदा

इत्यिरयण पडिककप्यद् पडिककप्येत्ता ह्यगयरहपवरजोहकलिचं चात्तरंगिणिसिंखं सखाहेद् सखाहिता जेयेव  
नलनात्तए तेषेव उवागच्छद् उवागच्छिता एअमायत्तियं पच्चुप्पियद् तएण से बलवात्तए जाणसालिअंसद्दवेद्दत्ता  
एवं वयासी खिप्पामेवं भोदेवाणुप्पिया सुभद्दपमुद्दणं देवौणं वाहिरियाए उवट्ठाणसालाए पडिअक्क पाडिअक्काद्दं

नायोप्यजेवद्दशोसहितपनेरुव हस्तीभूमीनसकद् जेअनिमस्यकिअभियेकअपसखद्देहनिएहअनेराधीयवठ कोकादायीमाहिएरउसमानोठ  
उगुणवंत वियेपयकीसल्लसववपव्वकरद्दकरीनद् हयवीडामज्जहस्तीरवसोटासगामिकयोसुभटपखियारोएणद्दकहितमनोहरताकारउध० चत्तुर  
गिणीआरिमकारनीवेनाकटकसवाहद्दसवव्वहसल्लत्त गारसहितकरद्दसवाहीसवव्वहक्करीमद् जिहांबलवाहुककटकनउपधिकारोक्कद्द तिसां  
पाथद्द तिहांपावीनद्द तेहठाकुएरवीपदीवीडु तीतेहभाआपाणीसउ पद्दतेकामकालकरीमद्द तिवाएपच्चो तेवसवाहुककटकनपोपधिकारी जाण  
गाअवहित्तिनीयावाजेहने हाथिक्कद्दसदातिंसंभासकरद्दहत्तेह तेयानआलानापधिकारोनद्दतेहइयानआलानद्दतेडोनद्द एहपुं कहितउउवउ  
अिअक० जतावउथयाद्द अहीदेयागुप्रियसरसल्लभाववत सुभद्दामसुखयादिद्देनद्दवीपटराणीक्कद्दतेहनी० वाहिरिकीउपस्यानआसाअद्दवद्द  
सिवानीजेसमाअद्दतिहांपाथद्द प्रत्येक्कउजणरदीठद्दवेकीराणीप्रतिद्दकेकउएहवा यात्ताभगवतनद्दवादिवाकाद्दुंतेहनद्दअभिमुण्ण जीवीसल्लकरी



ऽपरो ह्यसौ न शीघ्रं शक्नोति तदयोध्यं जाणाद्दंपच्चुवेक्खेइति शकटादीनां प्रत्युपेक्षते निरीक्षते संपमन्नी इति विर-  
जीकरोति नीयेइति शालाया निष्कान्तयति संवष्टेइति संवर्त्तयति एकत्र स्थाने त्यस्यति दूसेपवीणे इति द्रुष्याणि तदाच्छादनवस्त्राणि  
प्रथिनयत्यपसारयति समलङ्कारेइति समलङ्कारोक्ति यन्त्रयोक्त्वादिभिः कृतानुशाराणि करोति वरभंडगमंडियाइति प्रवराभरणभूषितानि

जत्ताभिमुहाइं जुत्ताइंजाणाइं उवठुवेहइत्ता एअमाणत्तिअं पच्चुप्पियाहि ततेणं से जालसालिए वलत्ताउअसा एअ  
सठुं आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ पडिसुणित्ता जेणेव जाणसाला तेणेव उवागच्छइ तेणेवउवागच्छित्ता  
जाणाइं पच्चुवेक्खेइत्ता जाणाइं संपमज्जेइत्ता जाणाइं संवष्टेत्ता जाणाइं शीणेइ

जानगाडिलीवहिलिउपस्यापयसल्लकरी भाषीजभारापठ भाषीकरीने एहवीमाहरीषीपसंबंधिनीभाषाकांमकाजकरीनइजतावलीसठंपठ  
तियारपच्छीतेजाणसालित्रीजाणसालाटिकनश्रीप्रधिकारीनइ वलयागुकककनाप्रधितारीनउ एअर्थयुंप्रयोजन म्वासीनीपाज्ञायइ भिनयइंसहित  
वचनस्वामोचंसंभलइ संभक्तोचइ जिहंछइ यानगाडीवहिलिनीगालायांनक तिहांपावइपाउधारइ तिहांभावीपाउधारीनइं यानगक  
टादिकमपच्चुवेक्खेइंइटिंकरीजोयइ हटिंजोइंनइ यानगाडागकठवहिलिप्रमाजंइरजनिवारइभाटकीनइ यानगकटादिकभाण्डइतेसंवत्तइ  
एकइंठामइंकरइ एकइंठामइंकरोचइ यानगकटादिकनीणेइगालायाकीवाहिरकाठइ यानगकटादिकनीणेशागात्तायाकीवाहिरकाटोचइ

वाह्यादिति वलीवदादीन एषफालेदिति भास्कास्यति हस्तेनाताडयति हस्तेनयभीत्यर्थं दूसेपवो खेदिति मच्चिकामयकादिनिवारणार्थं नि-  
 युक्तानि वक्ष्याणि व्यपनयति जाणार्द्रजीएति वाधने धानानि योजयतीति सवोजयतीत्यर्थं पचयत्यद्विति प्रतोत्यद्विति प्राजनकदण्ड  
 जाणार्द्रणीयेता जाणार्द्रसेपवीयोर्द्रता जाणार्द्रंसमलकरेर्द्रता जाणार्द्रवरभंडुकमंडियार्द्रकरे तित्ता जेषेव  
 वाह्यासाला तेषेवउवागच्छेद् तेषेवउवागच्छिता वाह्यार्द्रपच, वेक्खेर्द्रता वाह्यार्द्रसंपमज्जर्द्रता वाह्यार्द्र  
 णीयेर्द्रता वाह्यार्द्रअफालेर्द्रता दूसेपवीयोर्द्रता वाह्यार्द्रंसमलकरे तित्ता वाह्यार्द्रवरभंडुकमंडियार्द्रकरेर्द्र

यानशकटादिकसमलकारे जावभादिर्दिनरजेषकका  
 यानशकटादिकदुसेपवीचेर्द्रतेहनापाळादनवज्जतारर्द्रवेगलाकाररुजतारीवेगसाकारिने लिङ्गोवाहनवपभा  
 रतेसंयंकरर फलकारकीने यानशकटादिकवरप्रधानभंडगपाभरणसाजीगोदोखनीवाडिपसुयर्द्रमंडितभृपितकररु० करीनर्द्र लिङ्गोवाहनवपभा  
 दिकनोगासाधानकण्डर तिर्हापावदपावपारर तिर्हा पावीनर्द्र वाहनवपभादिकद्विभ्रं करीकडीपरर्द्रजीयर्द्रतेवाहनकीर्दिनर्द्र वाहनवपभादिक  
 सम्यग्प्रकारर्द्रप्रमांर्द्रआठकरर प्रमांर्द्रिआठकीनर्द्र वाहनवपभादिकणीखेर्द्रसालार्द्रसात्थायीवाहिरिकाठर काठीनर्द्र वाहनवपभादिकभा  
 स्काखिद्येकीरोनर्द्रताठर्द्रसावपानकरर दूधपोजाडवखतेहनर्द्रपोसारर्द्रवेगलाकरर्द्रवज्जसारीनर्द्र वाहनवपभादिकनर्द्रसम्यग्प्रकारर  
 पर्वकारमणीपारणावीर्गविपदयोलिसुहर्द्राघंटासंयंकररुकीरोनर्द्र वाहनवपभादिकतेवरप्रधानभंडकककताभाभरणपोरुणीपारीसादिकरुसखित  
 सहाणकररुकीरोनर्द्र वाहनवपभादिकयेयानशकटवद्विनर्द्रविषर भीतीनर्द्र प्रतोदकद्विपिराणीयेहवानीसाकडीतेप्रतोदधरगावीन प्रेडनकारतेहनरुसम

पठयधरेयसि प्रतीत्रधरान् शकटखेटकान् समंति एककालं आउहृदसि आदधाति नियुङ्क्ते वटंभाहेइत्ति वर्कं ग्राहयति यानानि मागे

इत्ता वाहणाइंजाणाइंजोएइइत्ता पत्तोदलङ्किंपलत्रधरेअ समं आउहइ आउहित्ता वट्टमगंगगाहेइइत्ता जेणेव बल  
वाउए तेणेवउवागच्छइइत्ता बलवाउअस्स एअमायत्तिअंपच्चप्यिणाइ ततेणं से बलवाउए णगरगुत्तिए आमंतेइइत्ता  
एवं वयासौ खिप्पामेव भोदेवाणुप्पिशा चंपंणगरिं सविभंतरवाहिरियं असिय जाव कारवेत्ता एअमायत्तिअं पच्चप्पि  
णाहिं ततेणं से णगरगुत्तिए बलवाउअस्स एअमट्टं आणाएविणएणं पडिसुणेइइत्ता चंपंणगरिं सविभंतरवाहिरिअं

एककाले आइडति एकठाकरइवाटनुंमार्गं तिहांथापइ पकठाकरौनइ तेयकटवहिलजोत्रीनइमार्गंआणीनइगृहीरापइरापीनइ जिहांबलवाहुक  
कटकनउं अधिकारीछइ तिहांउतावलीआवइआवीनइं बलवाहुकसेनानं अधिकारीतेहना कामकाजसर्वकरीनइएइवीआजातेहनइसुंपी  
तिवारपच्छीतेबलवाहुककटकनुंअधिकारीतेणइ नगरगुत्तीयनगरनुंकोटवालतेहप्रतइ आमंजइतेडावइ तेडावीनइ एइवउंकहतउहवत्री  
च्चिप्रठतावलउएवनिथयसहितअहोदेवानुं प्रियसरलस्सभाव चंपानगरीप्रतिइं सविभंतरनगरीनइमांहिअनइंनगरीनइंवाहिरइं आसियसुगंध  
पांणीवाटओजावशब्दथकीत्रीजाईबोल करउपीतइकरायत्रीवीजासुमहाराभादेशकारोपाहइ एइवीमाहरीआजासर्वकामकाजकरीनइपाळींसुंपओ  
तिवारपच्छीतेनगरगुत्तीएनगरनुंकोटवाल बलवाहुककटनाअधिकारीनओ एइवोअर्थे आजाइंकरौ विनयसहितं सांभलइसांभलीनइ चंपा  
नगरीप्रतिं मांहिअनइवाहिरइ आसीयंसुगंधपांणीइंसौचल जावशब्दथकीवीजानोलआपणपइकरउकरावउं करीकरावीनइ जिहांबलवाहुकसेनानउ

आसिञ्च जाव कारवेत्ता जेषेव नखवाचए तेषेवउवागच्छइरेत्ता एषमाणसियंपच्चप्पिणइ ततेणसेवखवाचए  
 कोणिकस्स रणो भमसारपुत्तस्स आभिसेक्क हत्थिरयणं पडिकप्पिण्यं पासेइ इयगय जाव सखाहिच्चं पासत्ति सुभहा  
 पमुहाणदेवौणं पडिजाणार्इ उवडुविआर्इ पासत्ति चंपणगरि अन्निंतर जाव गंघवट्टिभूच्चं कयंपासतिपासित्ता इडु  
 तुट्टित्तिसाणंदिए पौअमणे जाव हिअए जेषेव कूणिएराया संभसारपुत्ते तेषेवउवागच्छेइरेत्ता करयल जाव  
 एवंवयासौ कप्पिएण देवाणुप्पियाणं आभिसिक्खे हत्थिरयणे इयगय जाव पवरजोहकलिआय चाउर गिणोसेणा सखा

पधिकारी तिशालतावखउपायइ तिहांपावीनइ एहवीपाअजेपथिबीदीधीडु तीतेपाखीसुपइ तिवारपखीतेवखवाडुकसेनानउपधिकारी अथिक  
 राजानवी भंभसारयेणकनु पुत्ततेइनउ जेइनइसत्तकिंअभियेककीवउखइएइवउ चाधीमाहिरउसमानपाउउखकी प्रतिकल्पउउ गखउ पासइ  
 देपइ घोडाहावीरथपायकथारप्रकारमोसेना जावयव्दथकीबीजाइवोस सदाहीउ गारी सखकीधा पासियदेपइ सुभद्राधादिदेइजेवीपटराणीना  
 प्रत्ये किंरजुणरयानगडीवच्चि सखकीरोनइआणोअभाकीधाअइ पासइदेये व पानगरीप्रति नगरीनइमंअिअनइवाहिरि जावयव्दथकीबीजा  
 बीस गंपनीवातीनेअइकरीउगधपणुं कीपु तेपासेदेपइ देवीनइ इयंविआयपामइउउउंतीपखइइ विसमाहिआणंउपामइ मीतिसतीपमनविपइपाणइ  
 जावयव्दथकीबीजावील हियामांअिइयंपामइ जिहां अथिकरावा भमसारयेणिकराजानउदेउपोपुत्त तिहांअतावसउपावइपावीनइ करतल  
 हायविजोडोनइ जावयव्दथकीबीजाइवीस एउवउंकरतलइवउ कल्पपीउ गारसहितसवइसखकरउउपहीदेवाउभियखामीउउहाउ पभियेक

हिन्ना सुभद्रापसुहाणं चदेवौणं बाहिरियाएथउवक्काणसालाए पाडिएक्कपाडिएक्काइ जत्ताभिमुच्चाइ जत्ताइजाणाई  
 उवट्टिं विताए चंपाणगरी सन्निभं तरबाहिरिया आसिअ जाव गंधवट्टिभूआकयातंनिज्जंतुणं देवाणुप्पिया सभणं भगवं  
 महावीरं अभिवंदिआ तएणसेकूणिएराया भंससारपुत्ते बलवाउअस्स अंतिए एयमठ्ठं सोच्चा णिसम्म हट्टुठ्ठ जाव  
 हिअए जेणेवअट्टणसाला तेणेवउवागच्छइत्ता अट्टणसालंअणुपविसइत्ता अणेगवायास जोगवगणवामट्टण

करिउच्छैतेपुण हाथीमांहिरत्तसमानहस्ती घोडाहाथौरथपालियार जावशब्दयकीबीजाबील प्रवरप्रधानजेयीधसभटपालिगारदिकतेणइकलितमनो  
 हर चिज्जंइअंगइंसहितएहत्तीसेनासन्नाहितशृंगारीसोभासहितकीधी सुभद्राआदिदेइंनइसर्वजे देवोपटाराणीतेहनी बाहिरलीसघलीसभामां  
 हिलहुडीवइंसिवानीसभाच्छइतिहां प्रत्ये २कैएकेकीराणीप्रतेएकेकीगडीएहवीसघलीइंराणीनी यात्तावांदिवाजाइवानइअभिसुखसासुहाकीधाच्छइ  
 जोत्रीसज्जकरीयानगडीवहिलइतेआणीनइजभाकीधाच्छइसात्रेनइविषइ वंपानगरो अन्निभंतरमांहिअनइवाहिरइ आसिअसुगंधपांणीइच्छांडीजा  
 वशब्दयकीबीजाइबीलअनइगंधनीवातीबतीइसहितकीधातेहकारणयकीनिज्जंतुपहुवन्नी अहोदेवानुप्रियसरलस्रभाव अमणतपनाकरणहारभगवंतमहि  
 मावंतमहावीरकर्मशतुनाजीपणहारप्रतइ वांदिवानइअर्थइ तिवारपच्छीते कूणिकराजा भंससारअणिकराजानउवेउउ बलवाहुक्कककनाअधिकारी  
 नइ अंतिसमोपइ एहनउअर्थजेस्वामीसर्वसजाइंकीधी एहवउसोच्चासंभलीनेत्तिसम्माहोयइधरीनइ हर्षविस्मयतुष्टसंतोपआणीनइ जावशब्दयकी  
 अनैराइबोल हियइहर्षधणउपामइ जिहांछइअट्टणसालाअमकरिवानीशालासभाच्छइ तिहांजतावलउआवइ तिहांआवीनइ अट्टणसालाअम

स्वापयतीत्यर्थः अदृष्टशक्तिसि व्यायामसाम्ना अयोगवायामजीमश्लयवामहणसहजुहकरणेति अनेकानि यानि व्यायामाय व्यायाम  
 निमित्तयोख्यादीनि तानि तथा ते तत्र योग्या गुणानिका यत्नान युक्तान व्यामर्दनं परस्परस्याहमोदन महयुक्त प्रतीत कारणाणि चाहमह  
 विवेका महामात्रप्रसिद्धाः सयपागसहस्रपागेति अतस्तत्त्वो यत्पुत्रक सपरापरोषधोरसेन सह मतेन वा कार्पापणानां यत्पुत्रक तच्छतपाकमेव  
 मितरदपि सुगन्धतेजसार्थेति अत्र अम्यङ्गेति योग आदिमन्दाद् अन्नकपूररपानीयादिपरिपह किभूतेरित्याह पीषणिल्ले इति रसरुधिरादि  
 धातुसमताकारिभि दप्यणिल्ले इति दप्यणोयेवंजकरे मयणिल्ले इति विहणिल्ले इति वृहणोये मीषोपचयकारिभि  
 सख्दिदियगायपदहायणिल्ले इति प्रतीत एतानि पदानि वाचनान्तरेणाधीयन्ते तेनचचसिन्ति तैसाभ्यस्तस्य यत्र स्थितस्य अवाधना क्रियते

मस्तुजुहकरणेहिं संते ततेपरस्मंते सयपाग सहस्रपागेहिं सुगंधतेस्तमाहएहिं पौषणिल्लेहिं दप्यणिल्लेहिं मयणिल्लेहिं सयणिल्लेहिं  
 ज्जेहिं विहणिल्लेहिं सख्दिदियगायपलहायणिल्लेहिं अग्निगिहिं अग्निगिहिं सभाणे तेस्तुचमसि पडिपुखपाणि

करिवानीसमातेहप्रति आवीमाहिपदसदपदवीने अनेकघण्टप्रकारद्वेद्व्यायामयमकरिवानदनिमित्तदयोग्यवलिगठु ऊरुववउ वामहणपरस्पर  
 ईर्षगनच अंगनच मोखिपठंमस्तजिठीसंबधीयुक्त्वठिवउ तेहमदृकरिवदकरीनद सामान्याकारियांतथासचो तनेविशेषकीयाकठप्रतिमयस्यठं यांतयाक  
 वडिउ अतयाससठपोपधीतयासपोटकेवेरेवारातेह सहस्रपाकसहस्रपोपधादनीपलइतयाससठकठंकारसेरेवेवादनंष्टएहवद सुगंधसुरसृजितेहमहागु  
 षकारोत्रेहआदिदेईनद प्रोषणकरदरसरुधिरादिकधातुनदसमतापणइरापइहवद दोषावदजठरान्निनदतथादप्यंवलनइवधारद मदनकंदप्यंनो

तत्सैलचर्मं तत्र संवाहिएत्सि योगः पच्छिष्युष्यपाणिपयसुकुमासकोमसतसेहिंति, प्रतिपूर्यानां पाणिपदानां सुकुमारकोमलानि प्रत्यस्तकोमलानि  
तलान्यधोभागा येषान्ते तथा तैः छेएहिंति छेकैरवसरैः द्विसप्ततिकलापश्छितैरिति, वृषाः ; दक्खेहिंति कार्याणां मयलखितकारिभिः, पत्तद्ध  
हिंतिः प्राप्तार्थं, लक्ष्मीपट्टेयैरित्यर्थः सुसलेहिंति, सम्बाधनाकर्मणि साधुभिः मेहावीहिंति, मेधाविभिरपूर्वविज्ञानग्रहणशक्तिकैः निवृणसिम्पीवगण  
हिंति निपुणानि सुल्लाणि यानि शिल्पानि अङ्गमर्दानदीनि ताव्यपगतानि, अधिगतानि, ये स्त्रे तथा तैः अन्निभंगपरिमद्गुण्वलणकरणगुण

पायसुकुमालकोमलतलेहिंः पुरिसेहिंः छेएहिं, दक्खेहिं पततद्धेहिं कुसलेहिं, मेहावीहिं निवृणसिम्पीवगणएहिं  
अन्निभंगणपरिमद्गुण्वलणकरणगुण्णिस्माएहिं अङ्गिसुहाए, संससुहाए, तथासुहाए, रोमसुहाए चउ, व्विहाए

वृद्धिनाकरणद्वारः वृंछणीयमांसनश्रीउपचयसृष्टितेहनाकरणद्वारः सर्वदृद्विपंचदभ्रनद्गात्रशरीरतेहनैप्रद्वहर्षनाज्जपजावणद्वार एह्वद्वप्रभिभंगवो  
पडणकरवद्वकरी अन्निभंगिएचीपडणकरावद्द समणिकहतांथकद्द, तेलनउचोपडणकरग्यापच्छीतेवर्मजपरिविसोमर्दनकरावद्दतेलवर्म प्रतिपूर्यपूरां  
किसीयद्दपीडनहीएहवापाणिहाथभ्रनद्दपगतेवलीसुकुमालसुंहालां अभ्यत्तरकोमलतलां अधोविभागच्छेजेहनाएहवापुस्यमर्दननाकरणद्वार तेणद्वच्छेक  
असरनालाणः कार्यविपद्दविलंबनानिवारणद्वार अर्थरुडालाधाकडाउपदेशमाजंण मर्दनकरिवानद्दविषद्दकुसलप्रतिहाहा मेधावीवृद्धिवंतपणद्दकरी, प्रपूर्वः  
विज्ञानसीथ्याच्छद्द, निपुणस्सुल्लजेशिल्पनिज्ञानभंगमर्दनादिकतेणद्दसद्धिः अन्निभंगनचीपडण परिमर्दनप्रतिशयस्युंमर्दनकरणकरीमलतेज तारिव  
श्रीतेहनाकरिवानद्दविषद्दजेगुण्णानाविशेषपण्यातेहनद्दप्रविषेनिर्मानच्छेवत्तु, यविकेकीच्छद्द, अस्थिहाडनद्दसुखनाकरणद्वारच्छद्द मांसनद्दसुयनाकरणद्वार त्वघानद्द

विष्णुपूजापि अथर्ववेदनां प्रतीकार्यानां कारणे ये गुणाद्विधेया स्तेषु निर्माता ये ते तथा ते षड्विंशहाएति प्रस्तां सुखहेतुत्वा  
दृष्टिसुखा तथा एयं त्रिपाण्डुपि सवाहणाएति समाधनया सुवाहनया वा विनामण्येत्यर्थं अथगयस्येयपरिच्छेदिति खेदो देव्य खिद्वैत्ये इतिवचनात्  
परित्यक्तं व्यायामप्रतिपत्तौ रात्र्यास्त्रयस्य समस्तजाताश्चाभिराक्षेति समस्त. सर्वा जात्रेन विच्छन्ति खिद्वोपेतत्पटहाजयवचिधेयास्तुलोव्याप्तोभिः  
मय रस्यो य स तथा पाठान्तरे ससक्तं सक्ताफलयुतेन जातेना ऽऽकुलो अभिरामय या स तथा विचिसमणिरयणकुटिमतेति कुट्टियतर्त्त

संवाहणाए सवाहिए समाणे अत्रगयखेदपरिस्त्रमे अट्टुणसालाउ पडिणिक्लमिरता जेसेव सज्जणुघरे  
तेणेवउवागच्छइ तेणेउवागच्छिरता सज्जणुघरं अणुपविसइरता समुतजालाललाभिराने विचिरतमणिरयण

वामहीनदुखनाकरणहार रोमरायदुखनाकरणहार चतुर्विंध्याप्रकारनीले सवाधनावियामणा तेणदसंवाहिएकीधइ समोण्येयकरुतइ भवेगतगय  
चइइ खेददयामप्रापणठं पट्टिमवाकनीप्रसतालेहनउ चहयासायमकरिवानोयासासभायकी पतिययसु नोधरे यमनीयामासभायकीनोचरीनइ  
जिह्वामज्जनघरानकरिवानोमदिरभावाचउठकी तिसांपतियसुपावइपाउधारइ तिसां पावोनइ मज्जनघरानकरिथानाघरमदिरमांदिपइउधे  
रमांदिंपरउोनइ समस्तजातीयांगपोपमालीप्राइरप्रमुपयवापुताफलनाजास्त्रियतेणइकरीपाकुसुथाप्यपोपभिराममनोइर विचिधनानामप्रकारनामणि  
भद्रनांतादिकएखेत्तनादिकतेणइकरोकुट्टिमतसपोठसोभूमिका, प्रडोकाठीइइ रमणीकमनोइरसु दर खानकरिवागधमउपचपोकइइ नामामकार  
मामविषइइतातरत्तसोतनादिकइइजडितजेभोतितेणइकरोविषत्रिषिअइइ खानकरिवानोपोठवापुवइधनइ प्राकारिइइतेहनइविपइ सुपइनियक



मणिभूमिका सुहोदएहिंति शमीयोदकैः सुहोदकैर्वा नालुणैरित्यर्थः गंधोदएहिंति श्रीषण्णादिरसमिश्रैः पुष्पादएहिंति पुष्परस-  
मिश्रैः सुहोदएहिंति स्वाभाविकैरित्यर्थः तत्प्रतीकसंग्रहसंग्रहंति तत्र स्नानावसरे यानि कौतुकानां रक्षादीनां अतानि तैः परहलसुकुमाल-  
गंधकासाइतद्विद्यंगे पद्मत्रा पद्मत्रतो अतएव सुकमाला गन्धप्रधाना काषायो कषायरक्तगाटिका तथा लूचितं विकृष्टित मङ्गं शरीरं यस्य स  
तथा अहयसमहघट्टसरयणसंबुए अहतं मलभूषिकादिभि रनुपद्रुषितं प्रत्यप्रमित्यर्थः समहघर्षं बहूमूल्यं यदुष्करं प्रधानवस्त्रं तेन संवृतः

कुट्टिमतले रमणिज्जे यहाणमंडवंसि याणामणिरयणभत्तिचिचंसि यहाणपौठंसि सुहणिसण्णे सुहोदएहिं गंधोदएहिं  
पुष्पोदएहिं सुहोदएहिं पुष्पोर कक्षाणपवरमज्जणविहीणे मधिए तत्थकोजअसएहिं बज्जविहेहिं कक्षाणपवरं  
मज्जणावसाणे परहलसु ममालगंधकासाइयलूहिअंगे सरससरहिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते अहयसमहघट्ट

इत्थो सुहचोपदपाणीयइंकरो सुकडिमिथितपाणीतेणइंकरो मूलनशोरसतेणइमिथितपाणीतेणेकरो सुभोदकतीर्थनदूपाणीयइंकरो पुष्पोरवारंवार  
कल्याणकारोयांप्रवरप्रधानमज्जनमज्जनकरिवानीजेविधितेणइंकरोसहित मधिएअज्ञानकौधठ मिहांकोतुकरचापोटनीनासइतेणइंकरोसहित बहुविध  
वणाप्रकारतेणैंकरोस० कल्याणकारीमंगलीजनउकरणहारप्रवरप्रधानजेमज्जनमज्जन तेहनाभवसानकेहडानइविपइ पद्मलजेहनांपज्जपुं भवाहिरिखइएहवी  
सुकुमालसंहालउगंधइकषायितसुकडिकेसरइभय्यउराहितउच्छइ तेणइंकरोलूछाउंअंगयरीरजेहनउं सरसतकालनाघस्यासुरभिसुगंधगोसीसचंदन  
वावनाचंदनतेणइंकरोलीपउच्छइगात्रयरीर जेहनउ अहतमलसुषकइअद्रुषितअकलंकितसमहघवहुमूल्यएहवउदुष्करप्रधानवस्त्रतेहसुं संवरतपहिखउ

परिगत तथा सप्तु संवृतं परिहितं येन स तथा सुदमासावखगविसेवयेवति यद्विनो पापत्रे माला स कुसुमदाम वखं कविलेपन स मण्डनकारिकुङ्कुमादिविसेपन यस्य स तथा स सप्तुचये यद्यपि वखं कगष्टेन नामकोपे बन्दनमभिधीयते तथापि गोक्षीसपन्द्याणविसगान्ते इत्यनेनेष विमोषणेन तस्योक्तत्वादिह वखं जयन्दनमिति न व्याख्यातं आविहमविसुवखेति आविहं परिहितं कप्पियद्वत्यादि प्राखत्त पियद्वनी-  
 वेल्जगपपुन्निज्जगलसियगयससियकयाभरणे पिनहानि नूपादिपु नैवेयकाङ्कुक्षीयकानि नूपाभरणाख्यज्ज्वाभरणानि येन स तथा कसि ताङ्के सक्तितररीरे सतानि विन्यस्तानि सतिताभरणानि तदस्यानि येन स तथा तत कर्मधारय अथवा पिनहानि नैवेयकाङ्कुक्षीयकानि सक्तिता इदेवकनितत्रवाभरणानि शेषाभरणानि पुष्यादीनि तेन स तथा वरकडगतुडियद्यभिद्यभुए वरकडकतुटिके प्रधानदम्भाभरण वाङ्गाभरण

वरयणसुसवुए सुदमानावखगविलेवणे आविहमयिसुवखेय कप्पियद्वारिद्वहारतिसरयपालंबपलंबमाणिकडिकुसु  
 मुक्तयसोभे पिणद्दगेविज्ज अगुलिज्जगलिनियंगयल्लियकयाभरणे वरकडगतुडियथंभिद्यभुए अहियखूवसखिरीए सुहि

एह सविपविमसापुसुनोलीतीनोवखं कनानाप्रकारनावानाकु कुमादिकनानाविसेपनकोधाख्खजेणद आविहपडिआख्खेमखिपण्हेसवखं नापाभरण  
 कल्लिपोपडिअपोणारएणठारएरीपड्वंहरनवसरतिसरयविणिसरनउहार पाकवभूमखउपखमानलावठनाभिलगोपडततकडिसूत्रकडिदोरपीतेष  
 रकरोमुखतभलोभोभाकीधीजेइनद पिणहपडिअडपीयोकोटिविपदपाभरणेणद पागुलीनद्विपदवेडिबोटीपाभरणकीभापडियाख्खदकनितमनोहर  
 गरीरनद्विपदसल्लियमनोहरकीधाख्खयायाहएपाभरणपनेउजेणद वरप्रधानकडकहायनासोनारूपानाकाकणपनदद्वुटितवडिदियातेषइभारद

विश्वैर्बहुलात्तेषां तैः स्तश्चिताविव स्तश्चितौ भुजो यस्य स तथा अहियरूवसस्त्रिरीए अधिकारूपेण सश्रीकः सश्रीभो यः स तथा सुद्रिका पिङ्गलाङ्गुलीक इति काचिदृश्यते कुण्डलोद्योतिताननो सुकुटदोषशिरस्कः इति प्रतीतं हारोत्ययसुकयरइयवच्छे हाराकस्तृतेन हारावच्छादनेन सुषु, छतरतिकं वच उरो यस्य स तथा पालंबपलंबमाणपडसुकयउत्तरिक्के पालम्बेन दीर्घेण पलम्बमानेन च भुस्त्रमानेन पटेन सुषु, छत मुत्तरीय सुत्तरा सङ्गो येन स तथा णाणामणिकणगरयणविमलमहरिहृण्डणोविगमिसिंसंनविरइयत्सिलिठ्विसिठ्वतद्वप्राविञ्चोरोवलेण नानामणिकनकारले विमले भंघाहैर्नैपुणेन शिल्पिना ओवियत्ति परिकर्मितैः मिसिसिसिंतयिं देदौप्पमानै विरचितानि निर्मितानि सुस्त्रिष्टानि सुसन्धीनि विगिष्टान्य-

आपिंगलंगुलिए कुं डलउज्जोवित्राणणे मउडदित्तसिरए हागेत्ययसुकयरइयवच्छे पालंबपलंबमाणपडसुकय उत्तरिज्जे णाणामणिकणगरयणविमलमहरिहृण्डणोविगमिसिसिंसंतविरइयत्सु सिलिठ्विसिठ्वलठ्ठआविड्वीरवलए

यंभितभारेयथाच्छद्भुजजेहना अधकजेहरूप शरीरनउआकारते एइकरीसश्रीकसोभायमांनदौसद्दृइ सुद्रिकावेठिवीटीनद्दुपद्विरवद्दुपिंगलपौलीषवीछद्द आंगुलीजेहनौ कुं डलकाननाप्राभरणतेणद्दकरीउद्योतवंतकीधुं छद्दप्रांननसुखजेहनउं सुकुटइं करीदोमदेदीप्पमांनच्छदिसिरमसूकजेहनउं हारइं करी अवच्छतटंकाणुसुक्षतमलउरचितरचनासहितवच्चहियउं जेहनउं पालंबदीर्घमोठउप्रलंबायमांनपटलूगडउं तेणद्दकरीसुक्षतमलउकीधउउत्तरीयउत्त रासंगजेणद्द नानापकारनामणिचंद्रकांतादिककनकसुवर्ण रत्नककतनादिकविमलनिर्मल महरिहमोटांनद्दुपद्विरवायोग्य निपुणविज्ञानीनउषडिभो मिसिसिमंतदेदीप्यमानविरचिरचियरूडउं रच्यउं नीपजाविश्री सुसिलिठ्वरुडीपरइंसंधिजी डीछद्दविगिष्टविशिषयकौलडमनोहरएहवउप्राविठिकसितांपहिरित

नल धननल विंश बरदर का आगम संशय मना १२

त्वेभ्यो विनिययन्ति जटानि मनोहराणि आविद्यानि परिश्रितानि वीरवलयानि वरवलयानि वा येन स तथा सुभटो हि यदि कश्चिदशयोऽप्यस्ति,  
 वीर सदा ऽसौ मां विचिन्त्या ऽमोचयन्नेतानि बलयानौति अर्द्धयन् यानि कटकानि परिदधाति वीरवलयानीत्युच्यन्ते कथं कथं एवैवसि  
 कल्पतश्च पूर अलकियविभूषितसि अलकानो सुकटादिभि विभूषितो वस्त्रादिभिरिति सकोरंटमस्तदासिचति सकोरण्डानि कीरण्डकामिधान-  
 कुशुमस्तवकथन्ति माल्यदामानि सुव्यस्तगो यत्र तस्यथा तेन (वाचनान्तरे पुनश्चत्वर्यं क एव दृश्यते अत्रमपत्तमिगलुक्कलेण अत्रमपत्तमिव  
 सिधत्तमिव हहश्चायाहेतुत्वात् अत्रमपत्तमिव पिप्लव च कपिय सुवर्णं कश्चिज्जानिचितत्वात् उख्यं निभंस यत्तस्यथा प्रथवा अत्र  
 मत्रम प्रथिगैकायपरिबासविशेषेण स्तत्पटकमिव पिप्लव च तस्यथा तेन अविजलवमसश्चिद्यचदमठकसम्पन्नेष अविजलवमसश्चिद्यचदमठकसम्पन्नेष  
 वधेन समं तुल्ययत्नाकायोनेन सद्दिवति सद्दमण्योत्रतयत्नाकायोगात् अद्दमण्यसमपन्न च यदोस्या तस्यथा तेन मंगलस्यमभित्तिवियवि-  
 चित्तिगतिविविधिमज्जासविरेवपदिगवपदिगतकण्ठटिपापयलिवकिष्किष्किष्कित्युत्तुसुमङ्करयदाखसोहिदिएण मङ्गलाभिमोङ्गल्याभि  
 यत्तभक्तिभिः यत्तस्यगिष्कित्तिभिः क्षेत्रेन निपुणेन यित्तिना विचित्रितं यत्तस्यथा किष्कियोभि सुदुवण्डिकाभि मण्डिहेमजानेन च रत्नकन-

किं बहुला कायस्य एतेव अलकियविभूषितेण वारवर्दे सकोरंटमस्तदामेणं छत्तेणं धरिज्जमार्णेणं चत्तवाभरचाल

वरवीरवलयप्रधानकण्ठजेणद्द किमपुषापणु किम्पु कश्चिदकल्यत्रमेहवत्तुइतेहिवपोदोषिवालागत पलं कटिउमुकुटादिकद्द विमुपितवशा  
 दिकरंकी नरमनुष्यभपतिस्त्रामो कोरंटवचर्नामाल्यकूलतेइनीवाममालातेण्पूकरीसङ्कितजे अत्रमेवअवरसुवर्णं रूपानातेपैतेधराविषीसद्दमस्तकनद्द

क्त्वन्तुनो विंशतिस्तान् ननु १२  
 क्त्वन्तुनो विंशतिस्तान् ननु १२

क्त्वन्तुनो विंशतिस्तान् ननु १२  
 क्त्वन्तुनो विंशतिस्तान् ननु १२  
 क्त्वन्तुनो विंशतिस्तान् ननु १२  
 क्त्वन्तुनो विंशतिस्तान् ननु १२

टो का

याव्यथापि तानि प्रतिष्ठतानि निरास्तानि पुनरपि प्रत्यापतन्ति च प्रतिवर्त्तमानानि यस्माच्चक्षुमरीविकववाप्ततथा अथवा सुरमण्डलाद्  
 विनिमिरकराणां निर्गतानामथै प्रतिष्ठत पुनरपि प्रत्यापतच्च तच्च तच्चक्षुमरीविकवचं च अपररश्मिपरिकरद्रुति समास' निपुणोपितमिधिमि  
 सायमानमणिराजानो यत्सुरमण्डलवितिमिरकरनिर्गतापप्रतिष्ठत पुनरपि, प्रत्यापतच्चक्षुमरीविकवचं यत्तत्तथा तद्विनिसुंश्रुता विद्वलता  
 सगच्छिदेषेण अतिभारिकतया एकदृष्टेन पुर्वद्वल्लावपतिदृष्टेन धरिज्जमापेषपायवरीचविरायते इति श्रुत्या अधिस्ततवाचनायां तु चतुथानरवास-  
 नीजताङ्गद्रुति व्यक्तं वाचनास्तरे तु चतुष्टयपवरगिरिकुडरविचरत्तुमुद्रयानकवश्यमरपश्चिमसरीरसलायगयाधिं वचद्वियत्ति चतस्रमिच्छादि-  
 यति क्षविसुच ताभिय तथाविधाभिर्वैश्व'कवधिं तस्वरूपाभि' वासराभिः क्षचित्तद्रुति योगः इह च वासरयव्यस्य नपुंसकलिङ्गल्लेऽपि  
 क्षौलिङ्गनिर्देशो सौक्यकृते खान्दसत्वादानुदृष्ट प्रवर यद्विरिकुडर पर्वतकुञ्जस्तत्र यद्विचरणं सच्चरणं तेन मुमुदिता प्रतिष्ठता निरुपपत्ता योपघातरहितता  
 ये वासरय आटव्यगोर्विद्येया स्त्रीयां यत्पयिमसरीरं देवस्य पविमो भाग स्रुत ये स्रुताता उत्पन्ना सङ्गतायानयद्या स्त्रा स्त्राया तामि अम-  
 लिचयिचयमस्रयिमखुल्लस्त्रियरयगिरिकुडरविमसससिक्विरणसरिसकलधोयनिम्बलादि अमन्वित ममन्वित यस्मिन्तकमल पुच्छरीक तथा  
 विमन्वं निरमल सञ्ज्चित्त सुदीप्त यद्भजतगिरिमिचर वेताठगिरिद्वीपं तथा विमला ये गमिक्विरणास्तकदृष्ट्यो या स्त्रा स्त्राया ताथ ता कथधोत-  
 निम्बेच्छाय रूप्यवदुल्लवा इति समाधोऽतस्तस्माभिः पवथाइयववस्रखिवतरगद्वल्लनस्रु तवीरुपसरियखीरोदगपवरसागरपूरुचवलादि पवनाश्रुता वायु  
 प्रेरितावपत्ता तरला अक्षिता मनोहरा स्तरङ्गदृष्टा, प्रतनुकस्रोतपाणयस्त्रे दृढ्यसिच दृढ्यन्य स तथा वीचयो महाकस्रोत्सास्त्रे प्रस्रुतय विस्कारसुपगत,  
 सचासो खीरोक्कय खीराकारजल सचासो प्रवरसागरचेति कर्मधारयस्तस्य य उत्पूर प्रकष्ट प्रवाहः स तथा तद्वचस्रला यास्तास्तथा तामि यावस

सरपरिसरपरिचियावासाविसयवेसाहिं दृष्टं हंसवधूभिरिव कलित इत्यनेन सम्बन्धः मनसाभिधानसरसः परिसरे प्रान्ते परिचितः पुनः पुनः कृत प्रावासी निवासी यकाभि स्ता स्तथा ताय ता विसद्वेषाय धवलाकारा इति कर्मधारयो ऽतस्त्राभिः कणगगिरिसिहरसंसियाहिं कनकगिरे मेरोरन्यस्य वा यच्छिखरं तल्लंछता यास्तास्तथा ताभिः उवद्रयत्पद्मद्वयतुरियसवलजद्रुणसिग्धवेगाहिं अथपतितोत्पतितयो निपतनोत्पतनयो स्वरितचपलोऽत्यन्तचपलः ज्विनः शीघ्रो वेगवतां मध्येऽतिशीघ्रो वेगो गतिविशेषो यासां तास्तथा ताभिः हंसवधूयाहिंवेवकल्पिए हंसिकाभिरिव युक्तः दृष्टं च हंसिकाभियामराणां धवलत्वेन दृष्टोपरिवर्तित्वेन च साधर्म्यमिति तथा णाणामणिकणगरयणविमलमहरिद्वतवण्जुजलविचिसदंढाहिं नानामणिकनकरत्नानां सम्बन्धिनी निर्मला महरिद्वत्ति मद्धारोऽपनीयोज्वलाः रक्तवर्णं सुवर्णदीप्ताः विचित्रा विविधचित्रा दृग्छा यासां तास्तथा विक्ति याहिं दीप्यमानाभिर्लीनाभिर्वा नरवद्रसिरिसमुदयपगासणकरीहिं व्यक्तं वरपट्टणुगयाहिं प्रधानपत्तनसमुद्रयाभिः वरपत्तने हि वराः शिल्पिनो भवन्तीति तत्परिकर्मिताः प्रधाना भवन्तीति वरपत्तनोद्गताभिरित्युक्तं मथवा वरपट्टनात् प्रधानाच्छादनकौशकादुद्गता निःकाशिता यास्ता स्त्राभिः समिद्धरायशुलसेधियाहिंति व्यक्तं कालागरुपवरकुंदुरकतुरुक्कवरस्रवासगंधुदुयाभिरामाहिं कालागरुः कृष्णागुरुः प्रवरकुन्दुरकं सश्रीडा तुरुकं सिद्धकं वरवर्णः प्रधानवन्दनं एतै र्यौ वासी वासनं तस्माद्यो गन्धः सौरभ्यं उद्भूत उद्भूतस्त्रेनाभिरामा रस्या या स्ता स्तथा ताभिः सल्लियाहिंति व्यक्तं उभयोपासंपिपति उभयोरपि पार्श्वयोरित्यर्थः उक्त्वप्यमाणाहिं चामराहिंति व्यक्तं कलित इति वर्सते सुहृसीयलवायवीयं गेति समुत्तचिष्यमाणचामराणाभिव यः शुभः शीतलय वातस्त्रेन वीजित मङ्गं यस्य स तथेति ) इतोऽधिकतवाचना संगलजयसहकयालोए मङ्गलाय जयगब्धः कृतो जनीनालीके दर्शने यस्य स तथा अथेगणनायेत्यादि पूर्ववत् पुष्कलसभिं गारति जलपरिपूर्खोषटभृगारावित्थकः

वीजियंगे मंगलजयसहकयालोप मञ्जणघराओ पठिनिकलमइ मञ्जणघरालपठिणिवल्लमिन्ता अणेगगणनायग  
 टंछनायकागईमरतलवरसाडंविद्य कोडंविद्य इवम सेठ्ठि सेणावइ सत्यवाह दूअ सधियाल सद्धिंसंपरिवुडे धवलजलहा  
 सेइणियाएइव गइगणदिप्पतरिकवल्लतारागणाणसज्जे सखिप्पिअटमणे णरवई जेणेववाहिरिआ सवड्ढाणसाला जेणेव  
 आभिवल्ले इत्थिरयणे तेणेव सवागच्छइ सुवागच्छिन्ता अंजणगिरिकूडसखिभं गयवई णरवई दूरुटे तएणं तस्य

वियइजेएइत्थारिधमरनइचाळइकरोनइवीओयइ छे अगमरौरेलेहनपोमगकीकलयइ मण्डकोधउळइपाओकराजामइदयंमवोळइरथकइमनुअ मळनघर  
 खानकरिवागउमुषनतेइयकीजताउषपोनीसरइखानकरिवागअकीनौसरीगइ एनेकवपागएनायकपत्रामांहिमइत्तरमीटा दडनायककटकनाखामी राजा  
 मंडकीकईअरयुकराजा तरवरमउळइइराजान माळंविद्यमंडपनाअधिपति कीकु विद्यकुटवनानायक इवमउषमीनाथबी ओठिपरदत्तसओसहित सेनाअतुरग  
 दसकटकनउनायक सांधंवाइताकासोवतियेनावरते दूततेलेराजायुंमोककणु आइयावइ अधिपानकटकनीसंधिसिअइ तेइसहितसस्यगुमकारिइपरिवक्यठ  
 धवसमहामिधउसापाभसांधिअकीनीकखपोअइजिअपोएइवइइहातइ अइपठगामीनागएसमूइदियेत्तदोपतपोत्तयनअलइ इतारागणसमूहकोडा  
 कोडितेमाइइमसोचंद्रमानीपरइ'मौतिवारीपोदयंमळरेलेहनपो नरमनुअयु पतिसामो जिहावाहिरिलोअइओ उपसांनवइमिवाोनोगासासभा जिहा  
 पभियेअसद्धितपइइस्योहायोगाहिरत्तसमोन तिहावीअपायइपाउघारइतिहाआवोनइ अजगगिरिकालइवणंइ पयंनअइतेहनोक्कुठगियरतेइइसरोपउमअ  
 पतिइकीनउनायकतेइप्रति नरपतिराजाअधिक दूरुटेवडीअपरइ तिवाारपणी तेक्कणिकराजानइ भंभसारये णिकनापुत्तनइ पभियेकसद्धित हाओमीअधि



दिव्वायच्छतपडागा दिव्येव दिव्या शोभना सा च क्षेत्रेण सह पताका छत्रपताका सचामरन्ति चामरयुक्ता दंसणरद्रयश्रालीयदरसण्णजजा दर्शने  
राश्री हृष्टिमार्गे रचिता विद्विता दर्शनरचिता दर्शने वा सति रतिदा सुखप्रदा दर्शनरतिदा श्रालोकं हृष्टिपथं यावद्दृश्यते श्रालुञ्जेस्त्वे न या सा  
श्रालोकदर्शनोया ततः कर्मधारयः वाउहूयविजयवेजयती वातिनोभूता उल्कम्बिता विजयसूचिका वैजयती पार्गती लघुपताकिकाहययुतः

कण्ठियसुरयो भंभसारपुत्तस्य आमिमिकं हत्यिरयणं दुरुठस्यु समाणस्यु तप्पठमयाए इस्से अट्टुमुंगलया पुरञ्ची  
अहाणुपुव्वोए संपड्डिआ तंजहा सेवत्यिय सिरिवत्य.णंदिआवत्त वडमाणकभद्दासण कनस मच्छ दप्पण तयाणंतरं  
चणं पुणकलस भिंगारं दिव्वाय छत्त पडागा सचामरा दंसणरद्रअश्रालोअदरसण्णज्जा वाउहूयविजयवेजयंतो

रत्नपाटनुहाथीतेहप्रतिं दुरुठजपरिचिच्छिप्रथकटं तिचांप्रयमपहिलवइज इमेएहवा आठमंगली कसुभनाकरणारत्तर पुरोभाग्नियकोवयानुपूर्वीइंपनुक्रमइ  
संपड्डिपासम्यकुप्रकारइचाल्या तेकहैच्छइ साथीयउ१ श्रीवच्छरउरामपुरपनइंइदयहुवइ नंदावत्तनइषठपूणंउवुवइ वत्तमानअयराजसंपुठपुवइ भद्रासनपुवइ  
सिवानुंआसणपुइ पुणकलसपुइइ मच्छयुगम० दर्पणश्रीसउ तदनंतरतियारपछो पूर्णकनसभरियश्री भिंगार पाणीनउजारश्री दिव्यप्रधानं छत्रमेघाडं  
बरादिक पताकानाग्होमोटीध्वजा चामरइकरीसहित दर्शनदीवइरतिसाताजपजायइ श्रालोकाहृष्टगोचरआइवयौजदेपियजोग्यराजाप्रादिदेईनइसक  
ललोकनइ वायरइ उहूतरहीपरहोहलावीतीविजयनइवैजयंतानामजेपताकाध्वजातेजसियाभाग्निजं वोकोधी गगततत्रशाकासमार्गागतिंपशुसहंतोज  
इनइंअडकीइइजिमतिम पुरतोआगलियकीप्रशुक्रमइं सम्यगप्रकारिंभलावी तदनंतरतियारपछोवैहूयंरत्नजडिया भिसंतदेदोष्यमानंविमलनिर्मलदंडदांडिय

पताकाविशेष एव जखियति उक्तता ऊर्ध्वता सपाठयाजोपसमाहसति स स्वस्त्रीयो राजसत्त्वा इत्यर्थो य पादुकायोग' पादुकायुक्तो न  
समायुक्त यत्तथा बहुकिकरकम्भकरपुरिसपायसपरिविखसं महवो ये किङ्कराः प्रतिजर्म प्रभो प्रख्यापूर्वकारिण कर्मकराय तदन्यविधा  
खे च ते पुत्रपायेति समास पादात् पदातिसमूहम्' परिचित यत्तथा कविदासोदासनिर्करकम्भकरपुरिसपायसपरिविखसमिति इत्यन्ते  
तत्र दाख्यचेटी दासाय चेटकाः सद्दिगाहति काविका कविदृश्यते अधिसद्दिगाहात्तत्र पथि खत्र स एव यद्विदेखोऽसियटि अथवा अथिय यटि  
येति चन्द्र कुलशामरायि प्रतीतानि पाया धृतोपकरणे उक्तया अथादिकथनानि वा धार्य धनु' पुस्तकानि धायपरिज्ञानहेतुखेखकस्यानानि

जखिया गणतलुमणुखितौ पुरश्चो ब्रह्माणुष्वीए संपद्धिआ तयाणतरंचणं वेरुखिअभिसतविमजदंछं पज  
वकोरटमज्ञदासोयभोभिअं रदमंछत्तथिभं समुसिअविमलं आयत्त पत्रंसौहासणं वरमणिरयणपादपीठं  
सपाठध्यायोअसमाउत्तं बहुकिंकरकम्भकरपुरिसपायसपरिविखसं पुरश्चो अहाणुष्वीए संपद्धियं तथायंतर बइवे

उच्छेदनेनचो प्रसंवत्ताचो कोरटठधनाभाषजूननीदासमाला तेषरकरो अतियखळं सोमतपो उंद्रनामामंडलानद् निभसारीपठ समुत्पज अउजभ  
उकोधचोविमलनिर्मलं पातपतउज्ञानद्निवारइतेपातएणत्त प्रवरप्रधानसीवाउणनामापासणवरप्रधान मणिसद्रकालादिअरदकालेत्तनादिअनउपाद  
पीठपगमू नि वागवपीठ पीठसीरूप पधिरवानो (असीरेजडीपावडीतेराजानीतेषरकरोसहितअम्यत्कपुत्र यदुपणाकिकरमोडिकापूखीनइजेइकामअरद  
कर्मकरइतेइयकीकड्डापुइय पायसपासीयातेषरकरोपरिचितपरिवखळ पुरभोअनखिअकी यथापुर्वीदंअशुकमद् सपद्धियंअलाविठ तदनंतरतिवार

पण्डितोपकरणानि वा फलकानि संगुटफलकानि खेटकानि वा घृनीपकरणानि वा पीठकान्यासनविशेषा वीणाः प्रतीताः कुतुपः पक्वं तैलादिभाजनं हृडयो द्रव्यादिभाजनं ताम्बूलार्थपूगफलादिभाजनं वा सिद्धिंङ्गिणोत्ति यिष्वाधारिणः पिच्छिणोत्ति मयुरादिपूच्छवाहिनः डमरकरत्ति त्रिचुरकारिणः दवकरत्ति परिहासकारिणः घाटुकारत्ति प्रियथादिनः कंदप्यिगत्ति कामप्रधानः कलिकारिणः कोकुद्दयत्ति भाषा

लाट्टिगाहा कुंतगाहा चावगाहा चासरगाहा पात्यगगाहा फलकगाहा पीठगाहा  
वीरगाहा कुंतगाहा हड़फगाहा पुरभो अहाणुपुर्वीए संपट्टिआ तथाणंतरं बहवे डंडणो सुंङ्गिणो सिद्धिं  
ङ्गिणो जडिणो पिच्छिणो हासकरा डमरकरा चाटुकरा वादकरा कंदप्यिकरा दवकरा किट्टिकरा वायंता

पक्षी बहवेषणा लट्टिलाकड़ोनायदणहार कुंतभालानायदणहार चापधनुषसीगणिनाप्रदणहार चासरजपेवानातेहनायदणहार पासाजूवटउरसिवानउ  
उपगरणतथापायघोटकवांघिजानातेहनाय० पुस्तकद्रव्यजपजिवउं व्ययपरचकरिवउतेहनुज्ञानतेहनायदणहार फलकसांकडांतथापाटिउं उठोगवाउं  
तथापेडातेहनायदणहार पीठवाजवटवदूसिवारमिवानिमित्तेहनाप्राहकयदणहार वीणावजाडियानउं उपगरणतेहनाप्रदणहार कुंतपडाबगाचूपा  
चापेलमीगरादिकयतपाकादिकवालिनतेहनायदणहार हडफभोद्रेअघालिवानउतथातंभोजघालिवानउतेहनायदणहार पुरभोप्रागलियकी यथाउपूर्वी  
यद प्रउकमै संपट्टिप्रावाल्यासिधाव्या तदनन्तरतिगारपकोवहवेषणा दंडनागुदणहार मस्तकमुंडावदतेहनाधणी गिष्वाचोटीनाधरणहार जटाना  
धरणहार पीकोमीरपीकोनावदणहार हास्यनाकरणहार डमरविचुरनाकरणहार घाटुकरप्रियवचननाकयक वादनाकरणद्वाराहृद कंदपिच्छकाम

भाण्डप्राया वा सासितायति पिचयत्त सवेतति इदवेद परलरारि वा भविष्यति इत्यभूत्तवर्षादि श्रावयन्तः शपन्तीवा रक्त्वंतस्ति  
 यन्नाय रचन्त क्विद्रायायति राययन्त शब्दान् कारयन्तो रामयन्तो वा शालीयति भवसोकरं राजादिः कुर्वन्त इह गमि कानिश्चिद्  
 पदानि न स्युष्टानि स्युष्टान् (संयद्गगायास्य गमस्य क्विश्चिद्गते तयथा भविकश्चिद्गु तथान् वामरपावेय फलगपोत्वेय वीषाश्रयणाहेनतो य  
 इत्थगगवेय १ दडो सु डो सिचिंठो पिंञ्चा जठिणोपद्वाड किडुप दम्बकारा कदम्पिय कोकुदय गाहा २ गार्थता वायता नचंता  
 तह इसंन हासिता सवेता रावेता शालीयं जय पठ र्जता ३ तरमन्निहायणार्थति तरो वेगीवत्त वा तथा मसमत्तधारथि ततथ तरो मन्तो

गायता इसंता शच्चंता भासंता सावेता रक्त्वंतो शालीश्चं चकरेमाणाजय २ सद्दं पलंजमाया पुरश्चो अहाणुपुष्वीप संप  
 द्वि श्रातयाणंतरं जच्चाणंतरं मस्त्रिहायथाणं हरिमेखामत्तसमस्त्रियथाणं चुंचुच्चि म्त्र खलिय पुस्त्रिय चलचवलर्चचजगर्हणं

चेष्टानाकरणशर दन्वकरत्तपहासनाकरणशर कोकुदयार्भठ तथा भठशरीया क्रीडारामतिकुतूहवादिक्कनाकरणशर यानिबलाइता गीतगान  
 गतायक्ता हास्यकरताकरायतायनेरापादि पोतइनाचतावीजाननशावता भाषाइरुडापडुयावशापता ममुकु २ प्रभातिपडुरयकरिप्रसइरतिसमसायता  
 यथायादिकरायता लोकनठ दयंतकरावताकरता जयवंतचडुवे एइवपोयदप्रयु जतावीकता पुरशोपागस्त्रिधकी यथाश्रुपूर्धिइंपसुत्तमइ धंमस्त्रितथासा  
 तदनंतरतिशारपकी जच्चाणंजात्यवंतइतरवेगताथावक्तेइनइ मन्निवरइ एइवर हायनसंबत्वरइनसंइएतत्तइयोवनयंतत्तइ हरिमेखवनसतीतिइनपो  
 मपोचडोठपो मन्त्रिकामात्ततीविकस्त्ररविकिचीतेचपोश्रपिक्करजेइगीधत्तइरचंइ रंयु कुटिसचत्तगमनठचितपगजपाडिवत्तंजं'रायपुं क्षत्रिययि

तरो धारकः वेगादिकारको हायनः सख्यसरो वर्तते येषां ते तरोमणिहायनाः यौवनवत्त इत्यर्थः अतस्तेषां वरतुरप्राणापिति योगः  
 वाचनान्तरे ल्वेवमधीयते वरमक्तिभासणार्ण प्रधानमाख्यवता मतएव दौसिमतां चेत्यर्थः हरिमेलामउलमक्षियच्छां हरिमेलायनस्यतिथिशेष  
 स्यात्सुखलुट्ठूलं मक्तिका च विचिकित्सहदचिणी येषां ते तथा तेषां शक्तास्या मित्यर्थः चंचुचियत्तनियपुलियचलचलचं चलगईणं चसु,  
 चियंति प्राञ्जतत्वेन चचुरितं कुटिलगमनं अथवा चचुः शुक्चच, स्तहपक्तनयेत्यर्थः उचितं उच्यताकरणं पादस्य उचितं वा उत्याटनं । पादस्यैवं  
 चचुश्चितं तच्च ललितस्य विलासवद्गतिः पुलितस्य गतिविशेषः प्रसिद्धएव एवंप्रका चलाना मस्थिराणां सतां चपलेभ्यः सकामाच्चञ्चला अतीव  
 चटुन्नेत्यर्थो गतिर्येषान्ते तथा तेषां लंघणवगणधावणधोरणतियद्गृहणसिखियगईणं लक्षणं गन्तारितिक्रमणं चलान सुवकुईनं धावनं शीघ्रमृजुगमनं  
 धोरणं गतिचातुर्यं त्रिपदी भूमौ पदस्यन्यासः जयिनी च गमनान्तरनयवती जयिनी वा वेगवती अिधिता अभ्यस्ता गति यस्ते तथा तेषां  
 ललंतलामगललायवरभूसणार्णं ललन्ति दोलायमानानि तामन्ति प्राकृतत्वाद्रम्याणि गलनातानि कखेनात्तानि वरभृपणानि येषान्ते तथा तेषां

ललंतलामगललायवरभूसणार्णं ललंतलामगललायवरभूसणार्णं सुहभंडण उच्च  
 लंघण वरगण धावण धोरण तिवई जइण शिखिलगईणं ललंतलामगललायवरभूसणार्णं सुहभंडण उच्च  
 विलासकारीगमन पुलितगतिविशेषप्रसिद्ध चलचालती अरहोपरक्षी एहवीचपलप्रस्थिरते त्रयकी अधिकचंचलगतगमनर्के जेइनी लंघणपाठनप्रति  
 क्रमण यगणकुदिउउ धावणजतावनु पाधउछीउवउ धोरणएगतिगठं चतुरपणउ भूमिविपइविहुंपगनीथापना सर्वगतिनाजीपणदार एहवी  
 सीपोगतिर्के जेइनी एहवी ललंतडोलतालामदामणउतेगल्लडुकंठविपइ लायलीधांधायांवरप्रधानभूपणआभरणजेचने सुखभांडकसुखनां प्राभरण

मुदभङ्गपोषुलगाघासमिसाणधमरीगठपरिमिडियकडीयां मुखभाडक सुखाभरुं यवपूजा प्रसवमानगुप्या स्यासकाचादयंकाकारा येयां ते तथा  
मिनालति पर्याणै रयवा यन्ताने रमसिने यमरीगण्डे यामरदण्डे परिमच्छिता कटि येयां ते तथा तत कायंधारयोऽतस्योपां तिकरवरतरुणपरिमिडि  
याणति व्यक्त यथाधिकतथाचनानुश्रियते यासगपडिकाणचामरदंडपरिमिडियकडीयां यासगपडिकाणानि दूठ मत्वर्थीयसोपात् स्यासकाडिसाणवता  
मित्ययं पडिलाण च मुखसयमन त्रीपं मान्वात् ईसिदंताणति ईपयानाद्वतानां ईविचरुं गविसालधवसदताणं वल्लव इव उल्लङ्ग वृठदेश ईपदुसङ्गे  
विम्रासि वे यीवनारभरुसिंत्वासे तथा ते च धवसदस्तायेति समासो ऽतस्योपां कषणकोसोपविद्वंताण काचनकोमी सुवर्णसोना वरपुरिसारोडग

लगथासगग्रहिलाणचामरदंडपरिमिडियकडीयां किकरवरतरुणपरिमिडियाणं अठसयंवरतरुणं पुरश्चो ग्रहाणं  
पुव्वोए संपडिय तयायंतरुचणं ईनीदंतायं ईमोमत्ताणं ईसोतंगाण ईमोउच्छंगविसालधवलदंताणं कंचण

तथा उयुखग संवतां फंदयो तथा यासस चारीसा छद जिहा एइवा अडिलाण क.इतां यवसाण तेहनइविपद जे दूठ सहित चामर तंथैकरी  
पतिरिक्त पधिक भडित कोभित कड छद जेहनो किकर पुरवप वर प्रवीन तस्य योवन भरि प्रवर्तना तेणइकरी पडियाळद एक्कसपो पनद पाठ  
वर प्रधान तरुग घोडा पुरतो पागलियको यमुकमे प्रस्थित चासिया इव इलो यथाणइलै तदनतर तिवारपकी इमो घाडा सादांत नीसखाळद  
ईसो योडपो सपोमत्तमदोक्कतछद ईसोयोडपोसपोवुंगल वपणइळद ईसोयोठायाउच्छगमुपपागलिविसाल विस्वोर्ण धवल उल्लवनादतछद जेहन  
च वपकोसोवनानीपोक्कियांतिहामविष्टपदुठाछदतजेहना कांचनसुवर्ण मण्यिर्षद्वकांतादिकरुजकयैतनादिकनेणइकरीभूयितगुगारकीधाळइजेहनद

ससंपत्साप्नति क्वचिद्व्यत्यते तद्यारोहकाः इतिपकाः सज्जयाणं सपङ्गागाणमित्यत्र खजोगरुडादियत्सुदितरातुपताका सनदिवीसाणंति नन्दी षादथ तूर्थानवीपः तद्यथा भना१ मउ'द२ मइल३ षड'४४ आरि५ हुडुकर कषाला७ काङ्कन तिमिजा८ वं१० संखी११ पण्यो१२ य यारसमी सखिखिणी जाल परिक्विन्नगण सह किंकिणीकाभिः जूद्रघण्टिकाभिः यज्जालं जालकं तदाभरणवियोगेपक्षेन परिचियाः परिकरिता ये ते तथा तेषां हेमवयचिचतंनिगस कणगण्णञ्जु चदारुयाणं हेमवतानि हिमवह्निसिभवाभि चिवाणि विविधानि तैर्नियानि तिनीयाभिधानतरुसख्यीनि कनकनियुक्तानि सुवर्णं खचितानि

कोसीपविद्वुदंतायं कंचणमणिरयणभूमियाणं वरपुरिसारोहगसंलुत्ताणं अद्रुसयंगयाणं पुरभोअहाणुपुव्वोए संपट्टियं तयागंतरं सखत्तायां सज्जयाणं संघंटाणं सपडागाणं सतोरणवरणं सर्णदिवोसाणं सखिखिणीजाल परिक्विन्नत्ताणं हेमवयचेत्ततिणि सकलकण्णञ्जु तदारुयाणं काजायसमुकयणेभिजंतकम्भाणं सुमिलिद्वुवत्त नंडुल

वरप्रधानपुरुषप्रारोहगपप्रोतारतेणइं करीसंयुक्ततेणइयथाछइं एकसउअनइं प्राठगजघस्ती पुरभोआगनिय ही यथानुपूर्वियइं प्रतुक्रमइं संप्रस्थितचाल्या त. नंतरतिवारपक्खी छवइं करीने सहित खजायइं करीनइं सहित घंटाइं करीसहित पताकासोटीअजातेणिं करीसहित ती रणवरप्रधानते इं करीनइं सहित नदोषोपतूर्यं नमोय्यद्वे गइं करीसहित त्तिं खेणील्लु जीवंटिकातेणइं करीतेजालकभाभरणणिगियेते गइं परिक्खित्तसहित कालायसकालओलीसुतेणइं कोषासकतभगानि मिवकधारापयइं डायंथ विचियएहवातिणिसकाष्ठरथनगणइं कनकसुवर्णं इनिजुत्तजडित्ठेदारुकाष्ठजेहना काजायसकालओलीसुतेणइं कोषासकतभगानि मिवकधारापयइं डायंथ कर्मजेहना सुमिलिद्वुसंख्यं अं सयाटुनामं उल्लपइं डानातेहनाधरणहार भाचीर्णं जातिवंतवरप्रधानतारगसोडु. ते गइं करीसंपयत्ततेणइं जोतस्याच्छइं

राव धरपत्त विंश बलपत्त की शानसत्तयण भना २२

दासकाणि काष्ठानि देपु ते तथा तेषां कात्यायसुखायनेमिजतक्यावति काकायमेव कोष्ठविशेषेण सुदु, क्तं नैमेषकण्डपाराया यत्र कर्म  
बन्धनक्रिया देपो ते तथा तेषां सुविनिद्वस्तमकवपुराणति सुदु, द्विष्टा हस्तमण्डला पत्यर्थ मण्डला धूर्थेयो ते तथा तेषां क्वचिद्भ्रमते सुसविष्ट  
कमडकधुराण पुमावहानि क्तसवेधानि वकाणि रवाद्भानि देपो मण्डला च हस्ता धूर्थेयो ते तथा तेषां पा, खरत्तरगसर्पसत्ताणं प्राकीर्णाः  
सात्या' कुमनरञ्चेयसारद्विसुर्मप्यद्वियाणं कुमनरा विष्टपुरया स्त्रेय ते छिदसारययय प्रायकारिप्रतिारदति समान तैः सुदु प्रगृहीता

धराणं आद्वस्वरत्तरगसंपत्ताणं कुसलनरञ्छेअसारद्विसुसंपग्नद्विध्याणं छत्तीनतोणपरिमंछिध्याणं सर्वकल  
वडसकाणं सचावसरपद्गरणावरणभरिअद्भुसल्लाणं अद्वसयरद्धानं पुरधोअद्धानुपुञ्जीए संपद्विय तथाणंतरंचणं  
असि सत्ति कोत तोमर सूत लत्तुड भिडिमाल यणुपाणिसज्जं पाथत्ताणौय पुरधो अद्धानुपुञ्जीए सपद्विअ ततेयं

कुसलचत्तरनरमनुयद्वेकयसरनपीत्राणसारयोरणनपीयेडवहार तेणरकरीचंपद्वितपद्माद्वद क्तीसतोणभञ्जकगजघास्त्रिवाताभाजनतेण  
इकरीपरिमडितसद्वित सककडकवसद्वितएहवापवतसकेशिपरत्तद्वजेइना वापधनुयसरयाणत्तीरमद्वरणत्तरीप्रमुखद्वयोथारथावरणयेडतिव  
इकरीनइयुडभयोसज्जसावधानद्वजेइना एकसपीथनद्वपाठरथमोटासयामकि पुरतोषागलियको यथानुपूर्विरपनुकमदं सपस्थितवाळा तदनं  
तरतिचारपक्की अस्तिवज्ज यत्तिजिमुन कुतभावा तोमरत्तीर मूस्एकपयीनपी लकुटबुधालाकडी भिडमासपायुधिविशेष धनुयपाणिध्याथविषेडद  
तेणद्वस्त्रीसज्जसावधान पाकोपारपावद्वेणद्वनदिन पुरवोषागनियको यथानुपूर्विरपनुकमद संवस्थितवाळा तिवारपक्की कृषिकराजा



ये ते तथा तेषां क्वचित् पठते हेमजालगवकखजालखिण्डिखिण्डाजालपरिखिताणं हेमजालं सौवर्णं आभरणविशेषः गजाचजालं जालकोपिता गवाचाः किंकिश्याः चुद्रवणिकाः घण्टास्तु हृहसण्डा स्तासा यज्जालं समूहं स्ततथा हेमजालादिभिः परिक्रिता ये ते तथा तेषां वत्तीसतोणपरि मंडियाणन्ति हात्रिंशता तीणैर्भस्त्रकैः परिमण्डिता ये ते तथा तेषां क्वचित् पठते वत्तीसतीरणमंडियाणंति हात्रिंशद्दिभागं यत्तीरणं तेन परिमण्डितानां सकंकडवडैसगाणं सह कडूटैः कवचै रवतंसकैश्च त्रिखरकैः गिरस्त्राणै र्वा ये ते तथा तेषां सचावसरपरहरणावरणभरियजुद्रसज्जाणं सह चापसरै र्धनुष्यणि र्यानि प्रहरणानि खड्गादन्यावरणानि च स्फुरन्तादीनि तेषां भरिता भूगा अनएत्र युद्धसज्जाः रणयज्ञा ये ते तथा तेषां प्रसिसत्तिर्जुनतोमरमूलउन्नभिंडि मालधनुषाणिसज्जं अस्यादीनि प्रसिद्धानि नवरं गक्तिस्त्रिगुलं गुलं त्वेकगुलं सज्जनोसि सज्जुटः भिण्डमालं रुडिगम्यं ततः अस्यादीनि पाणौ हस्ते यस्य तत्तथा तच्च तसंज्ञश्च प्रगुणं युष्ट्येति समाप्तः पायत्तानोयंति पादातानोकं पदानिकटकं [ गन्ध २०० ] वाचनात्तरं पुनः सत्रवृत्तयभिय कत्रयाणं तत्र वडं कगावस्यतात् वस्त्रिनं च वस्त्रिनं तनुवाणहेतोः गरोरे नियोजनत्वाच्च मज्जरक्ष्मी येस्ते तथा सत्रहाय ते सत्रहन्या बन्धनाहवस्त्रितकत्रचाद्येति समाप्त स्तेषां उष्योक्तियमरासगत्रद्वियाणं उत्प्लोडिता प्रारोपितपल्लवा गरासनपट्टिता धन्यैर्यद्वैर्यत्रया उत्प्लो डिता बाहौ बधा गरासनपट्टिका धनुर्दण्डाकर्षणे बाहुर्जाधं चक्षुपादौ येस्ते तथा तेषां पिनडोत्रेद्यमिमनवरवच्चिंनपद्मणं पिनडुं परिहितं त्रैविकं श्रौवाभरण येस्ते तथा विमनो वरो वडो गिरस्त्राणि गम्यं चिद्रूपदो योरतासूत्रता नेत्रादिप्रत्ययः पट्टां येस्ते तथा ततः कर्म- धारथो ऽतस्तेषां गह्वियाउहण्यहरणं कृद्गीतान्याप्रधानि अद्यादीनि प्रहरणाय येस्ते तथा तेषां अथवा प्रायधान्येव्याणि प्रहरणानि त चेव्याणौति विशेषः छः अथाविक्रतवानतानुश्रियते तएण्मेकृणिएरागारत्यादि महं पागारत्येतत्सं सुगमं व्याख्यातपायं च नवरं पट्टारैश्चगमणा- एत्ति सम्बन्धः नरसीने शूल्वाय नरवदं स्वाभित्वात् नरिंदे परमैर्ययोगात् नरामभे पद्मीकृतकार्यभरनिर्वाहकत्वात् मणुगरायवसकृष्णे मनुक-

राजानी वृत्तीनां स्वभा नायकायकवत्तिन इत्यर्थं तत्त्वस्यस्यस्वस्वभित्तत्त्वरताहंस्यापि साधने महत्तत्वात् एवविधय वेसमवेधेय यच्चराज  
पूष तथा नरवर्देसमरवर्देसि भाए इहोएपदिहयिक्तो नरपतिरसो क्षेत्रजमसरपतिमन्त्रिभया ऋगा पथितकोत्तिं विश्रुतयगा इति जेषेयपुण

से कूणिएराथा हारोत्ययसुकयट्टयवच्छे कुं हलउज्जोविश्राणणे मल्लडदित्तविएण णरसौहे णरवर्दे णरिंद णरवसहे  
मणु धरायवसमकप्ये अरुभहि धरायते अलच्छौए दिप्पमाणे इत्यिक्कुंधवरगए भकोरंटमल्लुदमेणं छत्तेयं धरिज्जमाणेणं  
से धवरचामराहिं उदुव्वमाथौहिं २ वेसमणोचेवणरवर्दे अमरवर्देसखिभाए इहोए पदिहयिक्तो इयगयरहपयर  
जोहकलियाए चाउरंगिणोए सेणाए ममणुगम्ममाणसग्गे जेषेव पुणभहेचेइए तेषेवपहारित्यगमणाए तएणं तस्सु

हारकंठाभरण तेषुज्जतभलउरचनासहित वचहृदयव्यम सोभतुहृद जेइनउ कुं डसज्जाननापाभरण ते । हकरोउज्जोनया कोपउ पाननमुख जेइनउ  
सुकुट्टइतदोधउ पदिह्यउ विरमस्तकमइत्तियइतेणइ मणुयमाहिंसीहसमान नरमणुयमुपतिस्वामो नरमणुयनपोइट्ट नरमणुयमाहिंइयमसमान  
मणुयनउरागानेइमाहिंइयमकलवकवत्तिंसमान पतिपधिकतेजसज्जीयइकरोमइ दौपतपोसीभतउ हाथोनवरप्रधानवाधजपरिषडिणी  
कोरंठहचर्नामाप्यहू नतेहनीदाममालातेपइकरोमइत छत्रमस्तकजपरि धरतइयकईहृतइ छेतवरप्रधानवामर जेतोतइटासोतइरयने वेयमण  
ईइनाभारीयचराजानीपरइं नरमणुयनपोपतिस्वामीराजा पमरपतिइइनासरीवो ऋविइकरोमइ प्रहियपचिइकोत्तिंइइज्जनी चयघोडागजइसो  
रयमोटासंणामिकप्रवरप्रधानयोधसुभइटकनितमनोइर अरिप्रकारिनीचिइ चगइपुरी सेमाकटकदत्त समणुगम्मार्कनइ विपइयाहिंइति

मध्वेति यस्यामेव दिदिमि पूर्णभद्रं चैत्यं तेषीवन्ति तस्यामेव दिदिषि पद्धारित्यति प्रधारितवान् विकल्पितवान् प्रवृत्तद्वत्यर्थः गमणाएत्ति गमनाय  
 गमनार्थमिति महं आसन्ति महाश्ला हृत्तरङ्गाः आसधरन्ति अखधारकपुरषाः आसवरन्ति पाठान्तरं तत्र किञ्चना अत्रा इत्याह अखवराः  
 अश्वानां मध्ये प्रधानाः गागन्ति हृत्तिनः णागधरन्ति हस्तिधारकपुरषाः पाठान्तरं तथैव रहसगीकृत्ति रथसमुदायः छः तएणसेकृणिएइत्यादि  
 सुगमं नवरं अस्य निर्गच्छतीत्यनेन सम्बन्धः तथा अशुभ्णभिं गरन्ति अम्युक्तः अभिसुख सुक्त उत्पाटितो मृङ्गारो यस्य स तथा पण्णहियतालियंटे प्रवृत्तीतं  
 तालहंतं यं प्रनि स तथा कच्छियसेयच्छत्ते उच्छृतः खेतच्छत्रः पवीइयवालवीयणीए प्रवौजिना वालव्यजनिका यस्य स तथा सव्विड्डीएत्ति समस्रया

उभतो प्रासिंणागाणाधरा पिड्डीओरहसंगेसि तएणं  
 उभतो प्रासधरा आसधरा

कणिएसु रणो भंभसारपुत्तस्स पुरओ महंआसा आसधरा उच्छियसेअच्छत्ते पवीइअवलवीयणी सव्विड्डीए  
 से कणिएराग भंभसारपुत्ते अमगयभिं गरिपगहियतालियंटे उच्छियसेअच्छत्ते पवीइअवलवीयणी सव्विड्डीए  
 थकीआवतइथकइ जिहंअइपुष्ं भद्रइसिदनामिं चत्यटेहरठं तिहंगमनकरिवाभणीचितनकौधउ तिवारपच्छीतेकृणिकराजानइं भभसारअणिकना  
 पुत्तइ पुरतीआगलियकीमहंआसामोटाअखघीडा आसधराअखघीडानागहृणहार उभओपासंबेइं पासाराजानइणागंमोटाहस्तीअनेहस्तीनागहृण  
 हार पिड्डीपाच्छलियकीरथसंगामिकारथसगील्लिरथनउसमुदाय तिवारपच्छीतेकृणिकराजा भंभसारअणिकनापुत्त आगलियकीकपाडिओच्छइभिंमार  
 पांणीनओम्मारओजेहनइप्रकर्विइग्गुहिउच्छइतालहंतवींजणओजेहनइ कसवियजं चओकीधउच्छइसेतधउलुंछतजेहनयइ रुड्डीपरिवीजीनाजवेवीता  
 ठालीताअइवालवीजणचमरजेहनइसर्वंआभरणादिककच्छिं करी सर्वद्युतिसंयोगिंपदार्थमित्थानी सर्वबलवतुरगदलसैत्यइ करी सर्वपरिवारनइसमुदा

२०६

समस्यादिक्रयवा सख्या युक्त इति गम्य एव मन्वान्यपि पदानि नवर कुतोएति परस्परतेचितपदार्थानां बन्धेति खेच्ये न समुदएयति  
 परिवारादिममुदायेन आदरेणति प्रवक्षेन विभूरेएति विष्येदेन विभूसाएति उचिततपेय्यादिकरणेन समीच्यति भक्तिगतोरसुखेन क्वचि  
 दिदं पदवत्कमधिकं ह्यग्नौ पगईति कुभकारादिशेषिभि नापरीरिति नगरकटकादिपदाने तात्पारेरिति तासादानेन प्रेसाकारिभि  
 दपपायितैर्गी मचाटावेदिता उर्वावराये समत्यात्त पुटे सव्यपुष्पगधमहाखकारेति पुष्याख्यगृथिगानि वाशा प्रतोता' माभ्यानि उ गृथितानि  
 एताके वा नडा, रो मशुटादिर्गं समासय समासराहस्युः क्विदृग्ये सव्यपुष्पगन्धमहाखकारविभूसाएति व्याक्त व सव्यपुष्पसहस्रखिषाएण  
 सव्यतूर्गाणां य गब्धो ध्वनिर्येव सङ्गती निनाह प्रतिशब्द ए तथा तेन पूर्वोक्ताना श्रुतादिपदार्थानां मन्वत्वे सत्यपि महत्त्व न स्याद  
 पोशातपाच महइहोएइत्यादि महत्तर्गं युक्त इति गम्य एवमन्वान्यपि पदानि महयावरतरितियजमगसमगपवाएएणति महता महता वरतूर्गाणां यमक

सव्यतूर्गाणां सव्यत्रलेण सव्यसमुदरणं सव्यादरेण सव्यविभूसाए सव्यसमसेणं सव्यपुष्पगधमहाखलंकारेण  
 सव्यतुडिषसहस्रखिषाएणं महयारहोए महयानुत्तोए महयावलेणं महयासमुदरेण महयावरतुडि प्रजमगसमगप्य

यइको गंयपादउयमैकोनइ सर्वविभूतिकम्पोजइकारको सर्वविभूयाठतमवागविसनइपरिचरकरो नइ सर्ववन्धममक्तिमाननइसेतुइकरो नइ  
 सर्वकुलगंधकपूरकस्तूरीमास्यफूननीमासापलकारमु प्रडीमुकुटादिकइकरो सव्यमुटितवाजितनायप्यतेइनापघांननिनादयप्यते एइकरो मोटोश्वद्विपुचिं  
 इकरोनकइकरो मोटोशुति आभरण्यादिकनीकोतिइकरो मोटउवसककनइसमुदायइकरो मोटउपरिवारनपीसमुदायतेयइकरी मोटावरपरधान

वर्तमान एव वर्तमाने वर्तमाने

समकं युगपत् यत् प्रवादितं ध्वनितं तस्यथा तेन संखणवपडहभेरिभक्तुरिखरमुह्विहुडुकसुरवमुद्रंगडुं दुभिण्णघोसणाइयरवेणिति ग्रहः प्रतीतः  
पणवस्तु भाण्डपडहो लसुपटह इत्यन्ये पटहस्वतेतदिपरीतः भेरी मद्याकाहला भक्तरी वलयकारा लभयती बद्धा खरसुद्धी काहला हुडुका प्रतीता  
सुरजो महामई लो रुदहो मदेनः दुन्दुभी महाठका एषां यो निर्घोपो नादितरूपो रक्त्रः स तथा तेन तत्र निर्घोपो मद्याध्वनिर्नादितुं तु गद्यानुसारी नाद  
इति अत्यत्यथा द्रव्यार्थिनः कामत्यथा मनोज्ञगद्यब्दरूपार्थिनः भोगत्यथा मनोज्ञगन्धरससर्गार्थिनः लाभत्यथा भोजनमात्रादिप्रार्थिनः किञ्चित्तिसिया

वाइएणं संखणवपडहभेरिभक्तुरिखरमुह्विहुडुकसुरवमुद्रंगडुं दुभिण्णघोसणाइयरवेणं चंपाएणयरोए मज्झं  
मज्झेणं णिगच्छइ तएणंकूणिअखुरणो चंपानगरिं मज्झं मज्झेणं णिगच्छमाणस्स बह्वेअथत्थिया काम  
रिथआ भोगत्थिया किञ्चित्तिया करोडिआ लाभत्थिया कारवाहिया संखिया चत्थिया गुंगलिया मुहमंगलिया

तूटितवाजिचजसगसमकालइसायइवाजइतेहनइप्रकर्प इवाजिअइकरोनइ यं अप्रसिद्ध पणयभांडनओपडहओ अनेराकइतइल्लुपडह पडहमोटओ  
डोल भेरितांवापौतलमयहुइ भालरिमोटीयाली खरसुहोकाहलो हुडकलोकपसिइ सुरजमोटउं मादल सुयगनाहउं मादल दुंदुभीमोटा  
ठका तेहनओनिर्वीपमोटउयय्यतेहनानादपडकदानइरअयय्यइंजरीनइ चंपानगरीनइ मध्यइमध्यविचालइ निगच्छनीसरि तिवारपक्कीते  
कूणिकराजानइ चंपानगरीप्रति मध्यइमध्यविचाले नीसरतांथकां बह्वेघणाअर्थद्रव्यनाअर्थीवांछणहार काममनोअगद्यब्दरूपनाअर्थीवांछणहार  
भोगंअसफरसनाअर्थीवांछणहार किञ्चित्तियापरनइआस्यनाकरणहारअंछारिक करोडिआकापालिअयोनेद्रकापडियादिक लाभत्यथा

किल्बिषिका परविदूषकत्वेन पापव्यवहारिणो भाष्ठादयः कारिणिका कापायिका तास्यूनखगिजावाहका वा कारवाहिया करपोहिता नृपाभाव्यवाहिनी वा सखिया साहिका चन्दनमभयहस्ता माङ्गलकारिणः सङ्घवादका वा सखिया चान्तिकायप्रचरणा कुम्भकार्तेलिकादयोवा नांगकिया गलावस्य म्बितसुवर्णादिमयसाहसाकारधारिणो भद्रविभीषा कर्पका वा सुहमागलिया सुखे मंगल येपामस्ति ते सुखमोगनिशायाटुकारिण बहुभाषास्वभ्यारोपित पुत्रया पूस्यमाणया पूयमानया मागधाः खडियगणान्धतसमुदाया तादृशितामिदिविचिताभिरित्ययं विवचित्तलमेवाह इहाहिक प्रयन्तेऽसौ प्रतीष्टा वाच्छितास्ताभि प्रयोजनवशादिष्टमपि किञ्चित्स्वरूपतः कास्त स्वादकान्तदेत्यत प्राह कंताहिक कमनीयशब्दाभि पिथाहिति प्रियार्थमि मणुष्याहिक मनसा प्रायन्ते सुन्दरतया यास्ता मनोज्ञा भावत सुन्दराहर्त्वयं स्ताभि मथामाहिक मनसा अम्यन्ते पुन पुनर्या सुन्दरत्वातिशयासा मनोमा मणभि रामाहिति तत्र मनो अभिविधना बहु कालयावत्तमयस्तीति मनोऽभिरामा प्रतन्द्राभि वाचनान्तराधीतमथ प्रायोवाग्विशेषकदम्बक तभारारिहिवदाराभिः शब्दतोऽर्थतय कक्षायाहिक कक्षायाभि शुभार्थप्राप्तिसुचिकाभि सिवाहिकं उपद्रवरहितमि शब्दाबंदूपपरहितमि शब्दाभिः धनश्रुतिकाभि

वद्वभाषा पूस्यमाणया खडियगणा ताहिकं इडाहिकं कंताहिकं पिथाहिकं मणुष्याहिकं मथामाहिकं मथामिभिरामाहिकं

भोजनमादनप्रायक कारवाहितकरपीछितलोक संखनावजाहृषहार संखनायुधनाथरणधार एगशि कठिवाच्यपोखीनानयोत्तरएहवाभट्ट सुखिरमोगसिकबीदे चाटुकारवचनेमुचमगलियापथवाकरसथी वर्धमानसाधर आरोयसुप्रपएहवानर पूस्यमानवर्धदोजन मांगधमांगणहार जेमांगद र्छंडितगणभषषार छावनाह द ताहिकेचवा इष्टवावहोवाथी कामनावांछाकारएहवीवाथी प्रीतिकारिणो मनोप्रसदरि मनमांदि

मंगलाहिं मङ्गले अनर्थपतिषाते साध्वीभिः सखिरौयाहिं स्योकाभिः शोभायुक्ताभिः हृदयगमणिज्वाहिं हृदयगमनीयाभिः सुबोधभिरित्यर्थः हियय  
 परहायिणिज्वाहिं हृदयप्ररहादनीयाभिः हृदयकीपयोकादिगुण्विलयनकरीभिरित्यर्थः मिहामहुरगंभीरगाहिगीहि मिताः परिमिताचराः मधुराः  
 कोमलशब्दाः गभीरा मद्वाध्वनयः दुरवधार्यमर्थ्यं श्रोतुन् ग्राहयन्ति याम्ना ग्राहिकास्ततः पदपतुष्टयस्य कर्मधारयोऽस्तस्याभिः षड्सद्ग्याहिं मर्थ्यगतानि  
 यास सन्ति ता मर्थ्यगतिकाऽभिः प्रयत्ना बहुफलत्वमर्थतः सद्ग्याश्रीषड्सद्ग्याश्रीताहिं अपुनरुक्ताभिरिति व्यक्तं वगूह्णिति वाग्भिर्गोभिः एकार्थिकानि वा  
 प्रायदृष्टादौनि वाविशेषणानीति जयविजयसंगलसएहिं जयविजयेत्यादिभिर्मङ्गलाभिधायकवचनगतेरित्यर्थः प्रणवरयं अभिनन्दन्ताया  
 अभिनन्दयन्तश्च राजानं समृद्धिमत्त माचक्षाणा अभियुगंताय अभिष्टुवन्तश्च राजानमेवेति जयजयणंदाजयत्रयेति सश्रुते हिर्ष्वचनं नन्दति समृद्धौ  
 भवतीति नन्दस्तस्यामन्त्रणमिदं मिह च दीर्घत्वं प्राकृतत्वात् अथवा जयत्वं जगन्नन्द भुवनसमृद्धिकारक जयजयमहा प्राग्वत् नवरं भद्रः

हिययगमणिज्वाहिं वगूहिं जयविजयमंगलसएहिं अणवरयं अभिगुंदाय अभियुगंताय एवंवयासी जयगुंदा जयभद्रा  
 भद्रं ते अजियं निणाहिं जिअंपालेहिं जिअमज्जे वसाहिं इंदोइवदेवाणं चसरोइवअसुराणं धरणीइवनागाणं चंदोइव

गमदभलठं एहवी घणाकालगीमनरलियाइतथायइएहवी हियामाहिंगमतोसमझातीरुचतीएहवी यगूकहितां वाणीइकरी जगकारोपिलयकारी  
 मंगलीकवचनतेसएकरीनइ अनवरंतवारंवार अभिनंदताहेराजनत्तुहेसमृद्धवंतइपोएहवठंकरता अभिस्तवनराजानभोस्तुतिकरता एह  
 वठं कहताइवा तूंजयवंतइश्रीविलववंतसुवठ जयवंतइतुं कल्याणवंतइश्री तभनइंकल्याणइश्री प्रजितनयोश्रीतातेजोपिज्जोवइरीवर्गादिक

कल्याणकारी वा अयजयनन्दा मद्रत्ने प्राग्देव नवरं मद्रत्ने भवत्स्विति श्रेय भगिन्यमित्यादीन्याशंसनानि व्यक्तानि इन्दोइव इत्यादि  
विहरादिति एतदन्त वाचनाद्वयेऽपि व्यक्त नवर षण्णइसमन्वोति अनवीनिर्देशेप समय समग्रपरिवार इदृशहेति अतीव तुष्ट परमाच पाश-  
यादिति तात्कालापेक्षया यदुत्कष्ट मायुस्त्वत् परमायु गामागरणगरखेककव्चमडवदोगमुष्टपट्ट्यासमसवाहसनिवेशाण गुप्तो जनपदाध्यासिन-  
'प्राकरो सवशाथुत्पत्तिभूमि' नगरं षवियमानकर खेट भूलोपकार कर्षट कुनगरं मडव षवियमानासकनिवेशान्तर द्रोणमुखं जलपथस्वल्-  
ताराणं सरसोद्वमणुभाणं बज्रइवासाइं बज्रइवाससइस्त्राइ बज्रइवाससइस्त्राइ अणइसमगो

हठठडो परसोउपालयाहिं इठ्ठणसंपरिवुडो चंपाणयरीए अणुं सिंचवह्णं गामागर णगर खेड कव्वड मडंन  
इद्रत्रिमदेवतामाहिमोठठतिम चमरेद्रजिमससकुमारमाहि

लौतपापणपोस्रजनमिषवयं पाक्षियो लौतभाषारपाकतास्रजनवर्गुं माइइवसण्यो इद्रत्रिमदेवतामाहिमोठठतिम चमरेद्रजिमससकुमारमाहि  
मोठठतिम धरणेद्रजिननागकुमारदेवतामाहिमोठठतिम चंद्रमाजिमतारांमाहिमोठठतिम भरतचक्रवर्त्ति जिममयुष्यसमस्रमाहिमोठठतिम  
बहुषथाइकवरससगो षणावरसनासइस्रकगो षणावसपरसनासइस्रकगो षणाइवासवरसनासतसइस्रसापलगी षनिवनिर्देशेपसहितसमस्रपरि  
वारं षयंविअयवंततुष्टसतोपपीमतपो परमइत्कष्ट षाअयुपावीशुं काअनइपनुसारं इष्टवस्रजनलोकाइपतिययसु परिवळउथकषी चंपा  
नगरीनउषधिपतिपणं अनैराई अनैराई षणुषणा ममवाडिर्वीटाउषागरखुषमसुधनोउत्पत्तिद्यानक नगरत्रिहाकरनधी विहाधुलिनीठिगखर कर्षट  
कुत्तितनगरगाम मडवत्रिहाडूकडु सनिवेशनथी द्रोणमुखजलपथसयइंसहित पाटणजलपथनइरळभूमि पायमतापसनाठीमरडिवाना निगम



मंजुमंजुणाघोषिण पडिपुच्छमाणि मञ्जुमञ्जुनाऽतिकीमलेन घोषिण खरेण प्रतिपुच्छन् प्रशयन् प्रणमतः स्वरूपादिवार्ता पडिबुज्जमाणेत्ति पाठान्तरे  
प्रतिबुद्धामानो अप्रचलायमान इत्यर्थः अप्रपडिबुज्जमाणेत्ति पाठान्तरं तत्रापलूङ्गामानः अनपद्वयमाणमानस इत्यर्थः समइज्जमाणेत्ति समतिगच्छव-  
त्तिकामन्त्रित्यर्थः वाचनान्तरे त्वेवं ततीतलतालतुडियगीययादुररविणं व्यक्तमेव किंविधेन रवेणेत्याह मधुरेण अतएव मणहरणं तथा जयसदुग्घोस  
विशंपणं मंजुमंजुणा घोसेणंति जवेति शब्दस्थाभिधानस्य उद्वेघोषणं विग्रहं यत्र स तथा तेन मञ्जुमञ्जुना कीमलेन घोषिण ध्वनिना  
अपडिबुज्जमाणेत्ति प्राग्वत् कंदरगिरिविबरकुहरगिरिवरपासादुद्वेघणभत्रणदेवकुक्षसिंघाडगतिगचउक्तचअरआरासुज्जाणकाणसभाप्ययापयेयदेसभागे

अंजलिमालासहस्राद् प्रडिच्छमांशे २ मंजुमंजुणाघोसेणं पडिबुज्जमाणे २ भवणपंतिसहस्राद् समइज्जमाणे २  
चंपाएणयरीए मज्जंमज्जे णं णिणलच्छइ २ ता जेणेव पुणभदेचेइए तेणेव उवागच्छइ २ ता समयस्सुभगवओमहावीरस्स

पुन्यात्पाएहनउकहतांथकां कांतिगरीरनीप्रभाअइसीभाग्यउत्तमजननइइएतापणंतिणी गुणइंकरीप्राथतिएहनीठजुराईयद्विवंतीउउदूमवांछातउ  
बदघणानरमनुयनारीक्रीजातिनासहस्रना दक्षिणजिमणइहायइंकरी अंजलिहायनठंजीडोवठंतेइनीमालायैणिनासहस्रथनेक प्रतीच्छतुवहुमांग  
देतओ मंजुमंजुअतिकीमलेजोषग्रदतेणइकरीनइं प्रतिबुभक्तश्रीलीकनइकुयलयासादिकपृच्छतओ भवनघरनीजेपंत्तिये णितेइनांसहस्र सम्यगुप्रका  
रिंप्रभिगच्छतअतिकमतश्रीर्थकओ चंपानगरीनइ मध्यइमध्यइंत्रिचात्तइ निर्गच्छतिनीसरइनीसरीनइ जिह्वांपूर्णभद्रनामचैत्यदेइरउं तिहांसमीप  
इंआवइतिहांसमीपइआनीनइ अमणतपनांकरणहार भगवंतज्ञानवंत महावीरकमगजुनाजीपणहार तेइनइप्रतिदूरनहीप्रतिदूकडानधींछवचामर

कन्दराणि द्रव्यं गिरीणां विपरकृष्टराणि युद्धा पर्वतान्तराणि च गिरिवरा प्रधानपर्वता प्रासादाश्चसमूमिकादयः सर्व्वपनभवनाणि उद्या  
 विरलगीहानि देवकुलानि प्रतीतानि युष्ठाटकानिकचतुष्कवल्गराणि प्राग्वत् चारामा पुष्पजातिप्रधाना वनपङ्का उद्यानानि पुष्पादिसङ्घसुलानि  
 ज्ञाननानि नगराद् दूरवर्तीनि सभा सास्त्रायिका भया ज्ञानदानस्थानं एतेषां प्रदेशदेशरूपा भागाश्चे तथा तान् तत्र प्रदेशा सप्तुतरा भागा देवास्तु  
 महत्तरा पङ्किसदृश्यसङ्घसङ्घसङ्घकर्त्तित प्राक्ततलेन सप्तुवचनार्थे एकावचन मत्र तत प्रतिगन्धसप्तसङ्घान् कुर्वन् भूषिकी निर्गच्छतीति सम्बन्ध  
 तथा वयदेसियस्यगुगुलादयस्त्रयस्त्रयसहस्रीसप्तं महत्वाकककसरवेणं अण्डस मङ्गरेण पूरयन्ते इत्यत्र नभ इत्यनेन सम्बन्ध. प्रदेशदेशभागान् वेत्य  
 नेन सुगंधपरकृष्टसमुच्चयस्त्रयशायरेणकविलं गभकर्त्ते सुगन्धोनां परकृष्टमानां वृष्ट्यानां च उच्चिह सर्व्वं गतो यो वासरेणुर्वासक रज तेन यत्कपिकं  
 तत्तथा नभति नभथाकाय कुर्वन् कात्यागुहकृदुदकतपकधुवनिकृष्णजीवलोगमिववासयंति ज्योत्स्नीषं वासयन्निव ग्रीषं प्राग्वत् समंततोक्तुभिः  
 वक्तवार्त्तं सर्व्वतं चुभितानि चक्रवर्त्तानि जनमण्डलानि यत्र निर्गमने तत्रत्या तथाया भवतीत्येव निर्गच्छतीत्येव सम्बन्ध तथापत्तरवणवाह-  
 मुहपसुदयत्तद्विगुपहवियविडनाठकबोखवहुवनमकरेते मपुरजनाय प्रयथा पौरजनाय बालकृष्णाय ये प्रमुक्षितास्वरितप्रधाविताय ग्रीषं गच्छन्त  
 स्तेषां व्याकुलाकुलाना मतिव्याकुलानां यो दोष स मङ्गलो यत्र तत्तथा तदेवमभूत् नभं कुर्व्विविति ) प्रयाधिकृतवाषनागुचीयते चद्ररसाभंते  
 यनिकटानये उचिते देशे इत्यर्थं तिथोरत्ति त्विरोकरोति प्रकचदृष्टिं अथइत्यपरित्यज्य रायककुशा इति तृपचिह्नानि चक्रे सति सुकुटं बालवीय  
 णियति चामर सचिन्तार्थद्वेषार्थविशोसरणयाएत्ति पुष्पादिसप्तैतनद्रव्यत्यागिन अक्षिन्ताण्यभिविशोसुरणयाएत्ति यस्मान्नायायेतनद्रव्याणा मन्वजननेन  
 यत्कृष्णभेत्ति भगवन्ति दृष्टियाते चत्विक्त्वं भविष्ठ मण्णयाएत्ति तावनात्तर तत्र दृष्टिक्त्वं यो य' स्तन्त्य' पुत्रसप्तसुयन्तस्य या विष्टुष्मना ज्ञापन' या तथा

अद्वारसामंते छत्ताईए तित्यथराइसेसे पासइ पासिता अभिसेकं हत्यिरयणं ठवेइठवित्ता आभिसेक्काओ हत्यिरयः  
 णांओ पच्चोरुइइ आभिसेक्काउरत्ता अवहट्टु पंचरायककुहाइं तंजहा खगं छत्तं उण्फेसं वाहणाओ वालवीअणं जेणेव  
 समणे भगवं महावीरे तेणेउउमागच्छइ उवागच्छित्ता समणंभगवंमहावीरं पंचविहणं अभिगमेणं अभिगच्छंत्ते  
 तंजहा सच्चित्ताणंदव्वाणं विउसग्गरणयाए अच्चित्ताणंदव्वाणं अविओसरणयाए एगसाडिअंततरासंगकरणं चक्खु  
 फ्फां अंजलिपग्गहेणं मणसोएगत्तभावकरणेणं समयं भगवंमहावीरे तिव्वुत्तो आयाहिणंकरेइ तिव्वुत्तो

अथोकहत्वादिक् तीर्थंकरभगवतमाअतिशय पासइदेपइ देयी इइ अभियेकसहित हस्तीमांहिरत्तसमानं तेयापइजभओरापइ थापीजमुरावीनइ अभि  
 धेकइंसहित हस्तीमांहिरत्तसमानंतेइयकी पच्चोरुइइहेठउत्तरइ आभियेकहस्तीरत्तेइयकोहेठ मोजतरोनइ भवहट्टु अलगामूंकर पांचराजा  
 ननांककुदचिक्कजेणइकरीराजापणुंजणावइ तेकहइइइ खड्डाउठं? छयमस्तकिंधरावइतेर उण्फेससुकुटनओशेपरओइ पगनीपावडो४ उपेविवा  
 नाघामरइ जिहंयमणतपनाकरणहारभगवंतज्ञानवंत महावीरकर्मशतुनाजीपणहार तिहांसमीपेआयइ तिहांसमीपिंआवीने अमणतपनाकरण  
 हार भगवंज्ञानवंत महावीरकर्मशतुनाजीपणहार पंचविधपांचप्रकारनओ अभिगमनसासुहाजाइवानीविधितेणइकरी अभिगच्छइसामुहओजाइ  
 तेकहइके सच्चित्तद्वयफलतंकीलदिकतेहनओ विउसग्गअलगामूंकरसच्चित्तपणाथकी अच्चित्तद्वयवस्तुआभरणादिक अचेतनभणीअविसर्जनकरइ  
 त्यजइनेहीअलगानमूकइ एकसाटिकवस्त्रजिणियिवालइखोलणथीतेइनुउत्तरासंगउत्तरदिंसिणइपभइडांविपासइकरइरापइ भवननइचवुगीवरइ

तथा तिकथु, नोत्ति चिक्कल वीत्वारानित्यर्थं प्रायादिष्वपवादिथति आदचिणात् दक्षिणपार्श्वीदारभ्य प्रदक्षिणो दक्षिणपार्श्ववर्ती यः ए आदचिण-  
 आयादिष्वपवादिथ करेत्सा वदंति एतसंति वंदित्ता यमंभित्ता तिविहाए पञ्जुनामइ तजंहा काडयाए  
 वाइथाए माणसिथाए कायाइए तासक्कुइ ग्रग इत्यपाए सुक्खु समाणे यमभमाणे अक्षिसुठे विणएणं पंजलिउडे  
 पञ्जुवासइ धाइथाए जंजंभगवंवाकरेइ एवमेअंभंते तइमेयंभंते अविताइमेयंभंते अमंदिठ्ठमेयंभंते इच्छिइमेयंभंते

इट्टिदोठएतसइ पंजलिहायविइजोडइउ मन्मउपलणउ निवारो एगत्तोभावएकइठामइरापइ यमणतपस्सो भगवतप्राप्तवत महावीरकर्मयसु, नाजो  
 पणहार तियखतोविणियवारदक्षिणदिग्गिनउं'वारंभीखट्टिमार्गेइप्रदक्षिणाकरइ क्षिणिवार प्रदक्षिणादेई भमोमइ वांदइस्तुतिकरइ स्तुतिनमस्कारप्रणाम  
 करइ वांदोस्तुतिकरोनइ नमस्कारप्रणामकरोनइ त्रिपिकारनो पयुंपासनाधिवानेणइं'करो पयुंपासइसेवइ तेकइइल्लै कावानीसेवायइकरी वचननो  
 सेवायइकरी मननोसेवायइकरी कायानोसेवातेडेइो तावपयमतथास कीच्याइइमवखाणइइहायपगगापणविभागजेणइ एयूपाधिसाकराउभगवंतनावचन  
 साभन्धियापाळतपो नमस्कारप्रणामकरतापभिसुखसामुहउ विमयइकरीनइ प्रालिखिहायविइजोडइ पयुंपासनाधिवइ वचनइकरीसेवातेडेइो जेओ  
 वचनविश्रमगवंतमहावीरवारइंउचइइ तिवारएएतुइहाउं'कइणतेइमजभंतेइमगवग एतुइहाउं'वचनतिमइजभतेइमगवग अवितायजुठउ नइो  
 एतुइहाउं'वचनभतेइमगवग पसदिइइइइरदितएतुइहाउं'वचनभंतेइमगवम इणउं'वाळउं'एतुइहाउं'वचनइमगवग विमोपइकरीइणउ वणइं'कुइं'ए

वचनान् एव मालिपान विवरा

प्रदक्षिण्यस्तं करोति दक्षिणपादं तस्मिन्नास्यतीत्यर्थः वंदंरुत्यादि प्राग्वत् सुभद्रापसुहासोक्ति सुभद्रापसुखाः धारिण्याः सुभद्रेति नामान्तरं  
 सभाव्यते तेनेत्यं निदेशः काचिद्वारिणीपसुहासो इत्येतदेव दृश्यते अंती अंतैः संसृष्टायाएत्ति अन्तर्गच्छे अन्तःपुरस्थैत्यर्थः वाचनान्तरं पुनः  
 सुगममेव नवरं वाहुयसुभयसौत्रस्थिवशमाणपुस्त्यमाणवजयविजयमंगलसएदिं अभियुव्वमाणीषी व्याहृतं सुभगं शेषां ते व्याहृतसुभगास्ते ष ते  
 सौषस्तिकाथ स्वस्तिवादका इति समासः ते च बहमानाः कृताभिमानाः पूयमानवाय मागधाइति इन्द्रस्तेषां यानि जयविजयेत्यादिकानि मङ्गल-  
 शतानि तानि तथा तैः कप्यायच्छेयारियरद्वयधिरसासो कल्याब्धिन शिरोजबन्धनकल्पघ्नेन केकेन निपुणेनाऽऽचार्येण प्रत्तःपुरोचितशिल्पिना रचितानि  
 शिरांसि उपचारान् शिरोजबन्धनानि यासां तादृशा महयागंधर्षणीं मयंतोषो महतीं गन्धर्षणीं सुचन्त्यः प्रथाधिकृतवाचना बुक्काहिति कुजिकाभिः

पडिच्छिन्नमेअभंते इच्छियपडिच्छियमेअभंते सेजहेयंतुभमेवदइ अपडिकूलमाणे पञ्जुवासंति माणसियाए सहया  
 संवेगजणइत्ता तेव्वधम्माणुगारत्ते पञ्जुवासइ ततंणंताउ सुभद्दाप्यसुहासो देवोसो अंतोअंतैः संसृष्टायाए जाव

उगृहात्वंचनभंते हे भगवन इच्छेत्तु इच्छेत्तु प्रतीच्छेत्तु विशेषप्रच्छेत्तु जाणीयाकुं एतुम्हात्वंचनभंते हे भगवन सेते जहाजिमएह वचनादिकतु इच्छेत्तु देवो लघो  
 तेह अप्रतिकूलतस्यो प्रणजथापतस्यो सत्यकरीजाणतस्यो पयुं पासइ मेवाकरइ मननीसेयातेहेही महयामीटस्यो संवेगवैराग्यजणमाणे जपजावतस्यो यकस्यो  
 तीव्रआकारमीटस्यो धर्मनउअनुरागभापतेणइ करीरातुरंगधरतउ पयुं पासइ स्पेवाकरइ तिवारपच्छेति सुभद्रापसुखादिदेइ नइजे देवीपटसंघी षंतः  
 पुरराजलोकनइ अंतोमांछिं सानकौधुं जावशदयकोपने राइवील पायच्छि तदुःखप्रतिप्रतिवारवाभणो कर्त्तव्यविशेष संबं पसंकारके सासंकारे वत्याकं

राजवजयनसिं वधारेण को सागम संजव भाग २२

वेद्यादिति वेदिकाभिः अनायं देवोत्पत्त्याभिर्वा युक्ताप्रति गम्य वामणौहिं अत्यन्तब्रह्मदेवाभिः प्रखोपतद्ब्रह्मदेवाभिर्वा वदभियादिति यदभि-  
काभिर्चक्राथ कायाभि ब्रह्मरौहिंति ब्रह्मरुपागाभिः अनायं देवोत्पत्त्याभिरेवमन्यान्वपि योऽयं पदानि पाथादेकोहिं नागलनपदजाताभिविदेयपरि-

प्रायच्छित्ताश्री सुव्वालंकारविभूषियाश्री बह्वृहिं खुज्जाहिं चेल्लाहिं वामणौहिं वदभौहिं ब्रह्मरौहिं पयास्रियाहिं जोषि  
आहिं पयहविआहिं इभिरिणियाहिं वासिरिणियाहिं लासियाहिं लस्रियाहिं सिंहरिणीहिं दमीश्रीहिं आरुवौहिं  
पुलंदौहिं पन्नयौहिं बह्वृश्रीहिं मुहृश्रीहिं सवरियाहिं पारसौहिं याणादेवौ विदेसपरिसंघियाहिं इंगिय धितिय

काररमन्नास्रार १ एणइ १ रीभृपितपदिरी इठीरुं गारो बह्वृषयोयइकरो ब्रह्मठषीयरो रजेहनपोखइतेकुवत्रा पिसातदेयनीचेटीवासीतेषीयइंस्रस्रित  
वामणयो १ इखइतयाज युनोपुइइयकोठपोखइतेषीरु ब्रह्मभवांकोखइनीबिसाकायापगलेहना ब्रह्मरनामपनार्यं देयनीजपनी पस्रसनामपनार्यं देय  
तेइनीजपनी जोषियनामपनार्यं देयनीजपनी पश्रवियनामपनार्यं देयतेइनीजपनी इस्रियपत्तामपनार्यं देयतेइनीजपनी वस्रिगिषीयनाम  
पनार्यं देयतेइनीजपनीतेषीयइश्रियास्रियनामपनार्यं देयतेइनीजपनी खस्रियपत्तामपनार्यं देयतेइनीजपनी सिंहरिनामपनार्यं देयतेइनीजपनी दमस्रनाम  
पनार्यं देयतेइनीजपनी आरवनामपनार्यं देयतेइनीजपनी पुखिदनामपनार्यं देयतेइनीजपनी पखपदेयपनार्यं देयतेइनीजपनी बह्वस्रनामपनार्यं देयते  
इनीजपनी मुहृश्रनामपनार्यं देयतेइनीजपनी खवरनामपनार्यं देयतेइनीजपनी पारसनामपनार्यं देयतेइनीजपनी नानाविधपप्रकारनामपनार्यं  
देयनीजपनी खइतेषीरुं तदेसयकोमनेरादेसतेतेषनइभिस्रिविदेयतेषइखरोपरिसंघतमंठनइखरोसदितपययाविदेयतेविपइभिस्रौखे इंगितचेष्टातिपिं

मखियाहिं विदेगः परिमखितो यकाभिस्तासथा विदेयपरिपिंडियाहिंति वाचनात्तरं तत विदेगे परिपिंडिता भिक्षिता याग्यास्या ताभिः  
 इंगियचितियपल्यिगियाणियाहिं इक्षितं चिच्छतेन चिच्छितं प्रार्थितं च यस्तु जानन्ति याग्यास्या पाठान्तरे इंगियचितियपल्यिवमगीगतधियाणियाहिं  
 इक्षितेन चिच्छित प्रार्थिते मनोगते मनपि वत्समाने वचनादिना इगुपदेशो धिगाननि वास्तान्नाया ताभिः सदेगणे यत्प्रगडियवेभाहिं सदेयनेपय  
 मिय गृहीतो वेषो यकाभितासथा ताभि तथा वेडियागताज्ञारिसधरंजुइजमहत्तरं इपरिभ्रिताप्रो यपेधराः यतिताः कचु क्षिन  
 स्तदिगरे च ने मरुत्तरा भक्तःपुररचणा स्त्रिगं गहृ त्दत्तेन परिधिता गथा तथागियगपरियालमदिं संपरिबुडाभोति निजकापरियरेण नुगततीवेध-

प्रथियत्र विजाणियाहिं सदेभेयत्रत्यग्राहिवेभाहिं चेडिया चक्रवाल वरिसधर कंचुइज्ज महत्तरगवंदपरिभ्रिताप्रो  
 अंतैउराप्रो णिगच्छंति अंतैउराउणियागच्छिता जेणेवपाडिएकजाणाइ तेणेवउयागच्छइ उतागच्छिता पाडि-इ  
 पाडिएक्काइं जताभिसुहाइं जुत्ताइनाणाइ दुक्कंति दुक्कंति गिअगपरिअलसद्धिसंपरिबुडप्रो चंपारणरीए

करीसर्वजाणे वित्तनभोधिंतिततेनर्थजाणइ प्रार्थितमनपियइवस्तुमिदिय यचनइजणाअउतेसर्वनइजाणइएइभीविगीयवतीरासी विदेयपोतानादेम  
 जिणदेसिजपनीतेदेयनानेपथकात्तांगरुते गइजकरीयडिषीएइ येवपडिरेसेजेगीइतेणोइं चेटिजानागप्रकारेदेयनीजपनी तेहनपोषकागलमूइ  
 यपेधरपुमरापुक्कपंशतःपुरनारपवाला कंचुइज्जनगरादिकनोवाचांगसुत्तियाए मरुत्तर प्रतिमोटप्रोजेजोपुक्कपगपीहंइमभूइतेणइकरीपरिव्रित  
 परिवरो अंतःपुरथकीराजलोक्ककीप्रतिययसुंनीसरइ अंतःपुरराजलोक्ककीनोमरीने जिहंपल्येकर प्रापपणागानगाडीवधिलिखइ तिहंतिसमीपि

राय धनपत विने वधुइर का योगसकयस भान २२

मङ्गं मन्त्रं यं शिगच्छति शिगच्छता ज्ञेयपुण्यमहे चैत्रे ए तेणेवस्रनागच्छंति स्रनागच्छिता समणस्य भगवधो  
सहानोरस्य अद्वैतानंते छत्तिंदिए तित्यरानिसेसे पासति पासिता पाडिएक्षपाडिएकार जाणइं ठवति  
ठवित्ता जाणेइतोपसोखते जाणेइतोपसोखत्ता बळ्ळइं खुळ्ळाइ जाव परिकित्तासो ज्ञेयेउसन्णे भगउंनहाओरे  
तेणेवस्रनागच्छंति तेणेउस्रनागच्छिता समण भगवंमहावोर पंचविडेण अभिगमेण अभिगच्छंति तंजहा सच्चिताणं

पायइ तममोपईपाओनइ प्रत्येकारपावापचार यात्राभगतनइवादियाजाइयानइअमिसुपसनसुत्र युक्तजोगरोपपभादिकइसहितएहवीयानगाडोवहित  
दुस्रत्तिपावोनइइइये वरसीनइ निजगयापापणसोअिएपरिवारप्रये करराणोसवधोभोतिणिसच्चि सहितसस्यगपरिवरोथको वंपानगरोनइ मध्यइंर  
विवाले पत्तिमवसुनोसइरइ अतिमवसुनोसरीनइ जणियानकरपूर्णभद्रपेत्तदेइरइ तिहासभोपिपावइ तिहासभोपिपावइ अमणतपनाकरणहार भग  
वतप्रानर्थनइमाथं त महाओरकर्मगठुनाओपणइरनइ अट्टुरनहीअतिसमोपिनही जसवमरयोकसुचादिक तीउकरसर्वधियापतीययेतेइनइ  
पासंतिदेये देयोगइ प्रत्येकारजुपाजुषा यानमकटादिक तेयापइसभारापइ तेयापीजभारावीनइ यानमकटादिकयकीहेठाजतरइ यानमकटादिक  
थकीहेठाजतरोनइ वडुधणीकुळादाओअेशु मरोरइइण्डू जावमळ्ळयकोपनेराइवोल भोटइस्त्रीपुसपनइपरिवारइपरिवरो जिदोअमणतपनाकरणहार  
भगवत प्रानवत महाओरकर्मगठुनाओपणइर तिहासभोपिपावइ तिहासभोपिपावइ अमणतपनाकरणहार भगवतशापत महावोरकर्म  
गठुनाओपक पंचपिथपंपकारनओ अभिगमनसासुहाजाइवानुविधितेणइइररो अभिगच्छइसासुइसोजाइ तेकइइछे पथित्तइव्यकूषफनतंबो



वचनदर्शनात् सार्द्धं सह संपरिहृता स्ते नैव परिवेष्टिताः तिथाववेष्टिताः कर्त्तव्यताएवेति तस्यैव महालिप्या तस्याय महालिप्याः

द्व्याणं विउसरण्याए अचिन्तायणं दव्याणं अविउसरण्याए विणश्रोण्याए गायलङ्कीए चक्वुपफासे अंजलिपगगहेणं  
मण्णोएगत्तकरणेणं समणं भगवं महावीरं तिक्वुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करे इ वंदंति णमंसंति वंदित्ता णमं  
सिन्ता कुणिएरायं पुरओकहुठिइयाओचेवसपरिवाराओ अमिमुहाओ विणएणं पंजलिउडाओ पज्जुवासंति  
ततेणं समणे भगवं महावीरे कूणि अस्स भंभसारपुत्तस्स सुभहाप्पमुहाणं देवीणं तीसेअमहति महालियाए परिसाए

जादिकअच्चित्त तेहनओविस्सर्जनकरइअलगामूकइ? अच्चित्तद्रव्यवस्तुप्रभरणादिकप्रचेतनतेहनं अविस्सर्जनअलगानमूकइ २ विनयप्रकरीनइन  
तनमाडीअइ गाययिणरीरेजेणइ ३ भगवंतनइचक्वुपासेइटिइंदोठइयकइअंजलिपइइविहायजीउइ४ मननओएकत्वभावएकायपणं करइटासिरे  
प्रवत्तंतओनिवारइ अमणतपस्सी भगवंतमच्चिसावंत महावीरकर्ममत्तुनाजीपक तेहप्रतित्तुत्तोचिणिवार आयाहिणादच्चिणदिसिउपासओ  
मारंभइपूरंओयइतेहप्रदच्चिणाकरइ वांदइस्तुणिकरइ नमस्कारप्रणामकरीनइ वादीस्तुतिकरीनइ नमस्कारप्रणामकरीनइ कूणिकराजाप्रतिं पुरओ  
आगलिकरीनइ ठित्तिजभीरहीयकीसपरिवाराओपरिवारपोतानउतेणइकरीसहितथेवपदपुरणी भगवंतनइअभिसुयसांमुद्धी विनयसहितकरीनइ  
मांजलिहाथ२जीडीनइ पणुंपासनाथेवाकरइ तिवारपक्की अमणतपस्सी भगवंतप्रानयंत महावीरकर्ममत्तुनाजीपणहार कूणिकराजानइ  
भंभसारयेणकराजाणुंपुत्तनइ सुभद्राप्रमयप्रादिदेइंनइ जेदेवोपटाराणीतेहनइ तेजेसभामोटीमांजलिओपतिमोटीसभातेहनइस्वामीधर्मकइ परि

गुरुकाणां मञ्जुतिगुरुश्यायास्त्यर्थं इतिपरिषाएति पश्यन्तीति कथयस्तएव परिषप परिवारः क्वविपरियसस्या अतिप्रयसाभिसाधूनामित्यर्थं  
 धर्मं कथयतीति योग सुखिपरिषाए मीनवक्त्राधूना वाचयससाधूनामित्यर्थः ज्ञापपरिषाएति यतन्ते चारिषं प्रति प्रयता भवन्तीति यतयस्तत्व-  
 रिपदय रषोवातसाधूना मित्यर्थं अथेगवयवदाएति अनेकानि प्रतप्रसाथानि इन्द्रानि यस्यां सा तथा सस्याः अथेगवयवदपरियासाए अनेकप्रत-  
 मानानि यानि इन्द्रानि तानि परिवारी यस्यां सा तथा सस्याः विंभुतो भगवानित्याह सोऽयवेति अथ्यवक्त्रवयवस' अथवेति, अतिप्रय-  
 वच मध्वलेति प्रयस्तवच अपरिमिवमववौरिवतेयमाहप्यकंतिजुप्ते अपरिमितायनानि यानि यवादीनि तैयुक्तो य' स तथा तत्र यव  
 शारोरेमाष' वीथ लोचप्रभवं नेत्रो द्योतिः नाशारस्यं मशानुभावता कान्ति काव्यता सारयनवत्यण्यमभूरगभीरकृ'चनिगवोसडु'डुभिस्त्ररे शारव

इसोपरिषाए सुखिपरिषाए ज्ञापपरिषाए देवपरिषाए अथेगसयवदाए अथेगसयवदपरिवाराए  
 ओहत्रले अहत्रले महव्यले अपरिमिचनलवौरियतेयमाहप्यकंतिजुप्ते सारयनवटथण्यिमज्जरगंभीरकोचण्यिगवोस  
 यदामन्यनार्ठदनं क्वपिनीपरपदाप्रागदकरीद्यैतेप्रागवतसाधुनइमुनिनीपरपदानोनवतसयमवंततोपपनाकएणहारसाधुनइ यतीनीपरिपदा जोवनी  
 यतनापरिनवंतसाधुनइ देवसुवनपतीर्ष्वतरघोतपोवैमानिकनेचनीपरइसदानइ अनेकवथाअनकोकनासयमिष्याहइतेहनइ अनेकवथाकोक नासवतार्ठद  
 समुपतेहनइ अनेकवथाकोकनासयनाठ दसमूषपरिवाचितेहनइ सोययखनेचगु वचचटहनशीतेचवखकरी अतिप्रय अतिप्रयवतवसइकरी महावच  
 छतमवसइकरीअपरिमितिपनतचवसयारीरनखजोरवीरंजीवनीयतिपजेवनोदीधिसाद्विप्यमधिमाकातिकसनीयपणठ तथाकातिमरीरतेचकरीसहित

शरत्कालेन यत्नव तनितं मेघध्वनितं तदिव मधुरगभीरय कौञ्चनिषेधवच दुन्दुभेरिव च खरो यस्य स तथा किंभूतया कया ध्वस्यं कायवती  
 त्याह चरेष्वित्थिडाए चरसि विन्तृतया चरसोविसीर्णत्वात् सरस्वत्येति योगः कठे ऽड्डिग्राए गलनिरस्य वर्तुलत्वात् सिरेममाइयाए सुर्पनि सप्तोर्णया  
 आथामस्य मूर्धा स्त्रजित्वात् अग्ररसीर्णत्ति शुभित्तायतया अग्रगणाएति अग्रपखजमानतया सुवत्तरसतिवाइयाएकख् सुव्यलो अक्षरसन्निपातो  
 वणसंयोगो यस्यां सा तथा तथा पुष्परात्ताएति पूर्णां च खरकजाभिः रत्ना च नीयरागा ऽगुरत्ता या सा तथा तथा क्वचिदिदं विगिष्यत्वं फुलांयस्य-  
 महुरगंभीरगाइयाए स्फुटविशदया प्रत्यन्तव्यक्ताचरा स्फुटविषया वा स्फुटार्थाः मधुरा कोमला गभीरा मडती याचिश्वा अक्षीयेनार्धवोधिका एतेषां  
 कर्णधारयो ऽतस्तथा सब्बखरसणिवाइयाए सर्वाचराणां सन्निपातो यस्यामस्ति सर्वं वाऽक्षरसन्निपाताः संयोगः सन्ति यस्यां सा  
 सर्वाचरसन्निपातिका तथा सत्सुइंए वाख्या ज्ञेयणयोच्चारिणा योजनान्तिकाभिणा स्त्रेण अहुमागहाएभामाएत्ति रसोर्णयोमागध्यामित्यादि यन्त्यागध-

डुं डुभिस्सुरे चरे विथिडाए कंठिवड्डिग्राए सिरेममाइयाए अग्ररलोए अग्रमश्रुणाए सब्बखरसखिवाइयाए  
 पुष्परात्ताए सब्बभानागुणाभिणीए सास्सुइए ज्ञेयणयोच्चारिणासरेणं अहुमागहाए भासा भासति अरिहा धम्मं

छद् अरदत्तुभासोजकातोनानवाधंणियकहतां गाजयानं शब्दतं गरीपउखरसादच्छद् जेहनपो एखामीनपीवर्णं गहियदं केवलवांणानउधं नकारदच्छद्  
 चरहिया नइविपइस्सोर्णं पणायको कंठिगलानइविपइवाटुलोकंठनाचतुरपणायको सिरेमत्तयानइविपइसमाइयाएकहितारंकोर्णं स्पट्जुआरअचरनइ  
 जचरि वइअग्ररलो अग्रमणायकात्तरालावचनरचितमनेरानइजांणतासत्तम सर्वमचरनउसंनिपातसंयोगजिउंछद् सरब्बंजनादिकविशेषइकरोसंपूणे



साधामतनिषेधार्थमिति अल्पिपुण्ये अल्पिपावेत्ति पापमेवापवौयमान सपचोयमानस सुखदुःखनिबन्धनं न पुण्यं कर्मान्ति पुण्यमेव चोपचोयमानं  
 अपचोयमानस सुखदुःखहेतुर्न पापमत्तौत्येवंविधवादनिरामार्थं मुक्तं जगदै चिवानिबन्धनकेवलसमाववादनिरामार्थं वा अल्पिआसवे अल्पिसंवे  
 कर्मान्बन्धहेतुराश्रयः आश्रयनिरोधः संवरः एतच्च बन्धमोक्षयोर्निष्कारणत्वप्रतिषेधार्थं वीर्यप्राधान्यख्यापनार्थं वा अल्पिवियणा अल्पिणिज्जरा वेदनां  
 कर्माणी शुभवन्नं पीडा वा निर्जारा देगतः कर्मबन्धः एतच्च 'नामुक्तं चोयते कर्मे'त्येतादृचित्त्वसत्ताभिधानं अहंदादित्त्वसत्ताभिधानं तु तद्बन्धनाति-  
 शायित्व मश्रद्धतां तच्छ्रद्धोत्पादनार्थं नरकनैरयिकाष्ठित्वप्रतिपादनाच्च प्रमाणागच्छत्वात् न सन्तीति मतनिषेधार्थं न्तिर्यगाद्यस्त्रित्वप्रतिपादनं  
 तु प्रत्यक्षप्रमाणस्य भ्रान्त्यात्वात् कुवासनाजयोऽयं तिर्यगादिप्रतिभासो न तत्प्रतिबन्धन इति ये मन्यन्ते तन्मतनिषेधार्थं मातापितृसत्ताभिधानं

पावे आसवे संवरे वेयणा णिज्जरा अरिहंता चक्रवर्द्धौ बलदेवा वासुदेवा नरका णेरइया तिरिक्खजोणि आ तिरिक्ख

भापायइंकरौ परिणमइंरत्तं तेकइइइ अहोभव्यजीषलोकपंचअस्त्रिकायमयइइ अलोकनिकेवलप्राकागमयइइ इमजीवचेतनालक्षणइइ अजी  
 वचेतनारहितइइ कर्मबंधविशुभेदेइइ मोघकर्मनाश्रभावरूपइइ शुभप्रचतिनाबंधरूपपुण्य पापशुभरूपबंधतेइइ शुभशुभकर्मनउपाविषतेआश्रय  
 शुभशुभादिकर्मप्रावतावारइतेसंवर शुभशुभकर्मशुभभवइवेइतेवेदनाइइ कर्मनउंनिर्जरपणुं पपायिवभोतिनिर्जरा कामादिचयनाकारकअरुहंत  
 इइ चक्रवर्त्तइंपुण्यभोगरूपचक्रवर्त्तिइइजे बलदेवउत्तमपुरुषपदवीनाधणीपुण्यइइजे वासुदेवविषंडभीताउत्तमपुरुषपुण्यइइजे नरक नरकजीवनइं  
 दुःखभोगविवानाठाम नारकीपापनाकरणहारनरकविषइइजे तिर्यंचयोनिनाश्रपनापुरुषवेदनाधणीतिर्यंचइइजलवरथलवरउरपरिभुजपरि तिथिं

राव धरपत सिंघ अशरणे वा अनामसखले मता २२

ए ये मन्वन्ते योऽय मातापितृव्यपदेम स जनकत्वज्ञतो जनकत्वाच्च युक्ताजमिगच्छोसकादीनप्यास्य स स्थात्रथैव तस्मात्तथास्य मातापितृव्यवधार  
 रति तन्मतनिरासार्थं निरायय जनकत्वे समानेऽप्युपकारित्वज्ञतस्तद्व्यपदेम इति तथा ये मन्वन्ते अतीन्द्रियार्थं द्रष्टारो ऽ सन्वन्ति रागादिमत्त्वा  
 त्पुत्राणा मन्त्रदादिवदिति तन्मतनिरासार्थं सृष्टिसत्ताभिधान तात्रिरासय च द्रोपरागादिप्रानाना मविसयाददृग्गंगादिति देवाद्यस्त्रिताभिधानस  
 ये मन्वन्ते न सन्ति देवादयो अमत्यधत्वात् तन्मतव्युदासय तत्र निष्ठिरोपरमात्मारा निष्ठितार्थता वा सिद्धास्तु तद्वत् परनिर्वाणं कर्मज्ञतसत्तापो-  
 पत्रास्या धुत्वात् परनिर्वृतास्तुतद्वत् तथा ये मन्वन्ते प्राणतिपातादयो न सन्त्यसौचश्रेतवो भवन्ति पत्यनीयस्य स जीवथा ऽभावात्प्राप्त-  
 निषेधार्थं च त्रिपाणात्तत्राए इत्यानुक्त विपन्न मत्र सूत्रे सत्यसौचश्रेतरिति वाच्यगीयो इत्यत्र इव च यावत्कारणादिदं इगर्भं वेज्जे दोवेकनष्टिष्वभनवडाशियेसुत्रे  
 परपरियाए परइरइसायामोसेति तत्र वेज्जेति प्रमाऽनभियत्तसाया लोभव्यक्तिक मभिव्यक्तमात्र दोसेति हेयः अत्रभव्यक्तप्रोधमाऽव्यक्तिकमप्रोतिमात्रं  
 कर्मज्ञो राठि पन्थास्थान मसहोयारोपथं येऽश्व्यं प्रच्छयं सरोपावि करणं परपरिवाहो विपकीर्णं परेयां गुणदोपवचन परइरइरति परति

जोगिणीषो माया पिया रिसद्यो देवा देवज्ञो घ्रा सिद्धौ विद्वा परिणिव्युया अत्यपाथा इवाए सुसावाए

अथोभिनीत्रपनीसो नातिरिच्यवणोत्रमपरोधनचरोविशरो उरपरिनीभुजपरीनी माताजगणेश्वरीछदजे पिताजनमनप्रोधागकछद शठ्यौगवरणकायनारायण  
 वार देवताष्वारिनित्रायनाष्टैत्रोय देवनीकेदेवतानपरुदियानायातकछद मिहोचिइनपरुदियानाठाय कर्मपयोमिदृतेमिदृच्छदजे कर्मनयोकीपयोमता  
 पतेइनीउयगतितेषइकरोसुपरणप्रोतेजिर्वाण कर्मनाकोधोसातानपरुउपगमिसमाधिवततेजेइतइविययछद एभंमारनइवियदृपाणातिपाति जीवनर



तपःपशुनीनि कर्मणि क्रिया सुविणकनति सुचरितं सुचरितहेतुकत्वात् पुण्यकर्मवन्वादि तद्विषय फल येषां तानि तथा शुभफलानोत्थयं न निःफलानि  
 नाप्यशुभफलानिनि हृदय एषं विषयंयथाय मपि ततय फलसुखपावे वध्नाति जीव शुभाशुभं कर्म सुचरितैतरक्रियाभि तत पत्तायति जीवा प्रत्या  
 जायते सत्ययत्ने "न पुनर्भक्तोभूत्स पुनरागमन कुत " इत्येतद्वेव नाद्विकथयन सत्यं ततयोत्पत्तौ सत्या सफलेकताणपावए सीमाग्यादीतरनि-  
 वन्धनतात् फलवन्तुभाशुभं कर्मेति प्रकारान्तरेण भगवतो धर्मप्रकृपायां दर्शयथाह धर्ममाहक्यह इत्यादि पठिकुवे इत्येतदन्त मिद च व्यक्त  
 नवर मिद शेष प्रत्यक्ष निगम्येवाशयणे नैपत्य प्रयचन त्रिनयामनं सचे सन्नो चित वणत्तरे नेत प्रधानतर मयदशोत्थयं केवले षड्वितीय

सुखण्णदियभावंगात्यन्तियति सुचिखाकम्मानुचिणफलाभवंति दुचिखाकम्मादुचिणफलाभवति फलसुखपावे पचायति  
 जीना सफलेकक्लाणपावए धम्ममाइवलइ इणमेव णिगगथेपावयणे सचे अणुत्तरे केवलए सुसुचे पडिपुखे शोच्चा

सवभावस्तुप्रमुचनत्विनाफिणइरुनयोइजसखतासमारविपरतेनयीइत्रवइकइइ नधीनीखनिही सुविण कर्ममत्तातपरसमादिकसमाचग्याकीधातेइना  
 मुधीर्यं फलपुण्यगत्तिवधेवखीकपासिवाकपफलइइ दुधीर्यं कर्मदिसादिकपाइपाकर्म पापकरिवपोतेइतादुधीर्यं फलपापप्रकृतबंधकरीगरकादिक  
 नियइजाइवपोतेकनपुयइ फुमइवापइइभइकरीपुण्यकर्मगुमइकरीपापकर्म पचायतिवखीजपजाइइइसंसारगाहि जीवकर्मनधीवापिभोयकषी  
 कत्वावपुएवइपापपगुभकरणीतफलवतइइ पुण्यनधीशुभ पापनधीपगुभफलइइ वखीप्रकारांतरइयोमहावीरधर्मकइइइइ एइनिवइसुचरितनि  
 पचनपोधीतरागनपो एमार्गत्रिनयामनप्रयचनसिद्धांतसंबधी सचेसाधपोसत्युशयमइचितकारी सर्वमाहिंठत्तमप्रधान केवलसंपुर्णकेवलप्रण्योतपगता



की वस्तुप्रयोग वा अनन्त वा अनन्तार्थविषयत्वात् पडिपुण्ये प्रतिपूर्य मलयत्यत्वादिभिः प्रवचनगुणैः संशुद्धे कपादिभिः शुभं सुवर्णमिव निदर्शयं गुणपूर्णत्वात् येथाउए नैशायिकं न्यायानुगतं प्रमाणाबाधितमित्यर्थः सन्नक्तपणे मोहादिशूलकर्त्तनं तन्नाशितानां हि भावयव्यानि व्यवच्छेदमायात्तीति सिद्धिमने निष्ठितार्थत्वोपायः सुत्तिमणे सुक्तेः सकलवार्थवियोगस्य हेतुरथवा सुक्तिर्निर्लोभता मार्गी यस्य प्राप्तः तन्सुक्तिमार्गं शिञ्जाणमणे निर्याणस्य नावृत्तिकगमनस्य मार्गी हेतुः शिञ्जाणमणे निर्व्याणस्य सकलसन्तापरहितत्वस्य पन्था अवितर्हं समूतार्थं अपिसंवि अथिरुडपूर्वार्परघटनं सव्वदुखखण्णोणमणे सकलदुःखगचयस्य पन्था अथवा सर्वाणि दूःखाणि पहीणानि यत्त सन्ति स तथा समार्गः शुद्धि यत्त तत्तथा अतएव इहद्विद्याजीवासिज्जंति यियेपतः सिदिगमनयोग्या भवन्ति अणिमादिमहासिद्धिप्राप्ता वा भवन्ति वुज्जन्ति केवलज्ञानप्राप्त्या

उए सल्लकत्तणे सिद्धिमणे सुत्तिमणे शिञ्जाणमणे शिञ्जाणमणे अवितर्हसविसंधि सव्वदुखखण्णो हीणमग्गे इहद्विद्या

नंतअर्थविषयच्छद्द संसुद्ध कषागररहितसुत्तर्ण नीपरदूनिर्दोप परिपूर्णा अल्पगंधपणादिप्रवचनगुणिं करीप्रतिपूरणन्यायानुगतिएजेटल्लरूपत्वचानुमानु आगमादिप्रामाण्यं करीवांध्यओनयोमायादिकद्वयसिद्धिप्रकारेण सल्लरुच्छेदककाटणहार सिद्धिप्रकारेण उमायं अहितार्थनसोमू क्तिवप्रोतेहनसोमायं निर्व्याणसकलकर्मनाचयथकीजपनओ आत्यंतिकसुपनुमायं संसारथकीओकल्लिनपोमोचतेहनुमायं शिञ्जाणनिशरजादरानुमायं छेदयरं आवि वानुमागतिहायकीनथी अथितथसद्दतुच्छतओसत्यअथिसधिविच्छेदरहितपूर्वीपरविकरउनरुद्ध सर्वदुःखतेहनओप्रचोणचगकरिवानओएमायं एतल्लइसोचनओएमायं इणिनियंथपवचनविषयइस्थितप्रश्नत्तताजोव अणिमादिप्रतिगयपामइसिद्धिमनयोग्युद्ध वृभइ केवलज्ञानपामइ

सुचति भवोपचादि कर्मसांगपमात् परिधिष्वानि कर्मसतसकलसत्तापरिहाए किमुक्त भवतीत्यतपाह सखदुक्खाणसतकरेति एगवा एकाका एका  
पर्णा मनुष्यतनुर्भाविनी वेपां ते तथा ते पुनरेके केपग भयतारोति भदता कल्याणिन भक्तारोवा नैगन्यप्रवचनस्य वेवयितार पूर्वकर्मपत्रेपिय  
पण्यरेपदेवलोएगति पन्यतरदेगानां मध्यरुत्यं मरुट्टिरुह इह यावत्करणादिद ह्यस मरुनुदएसमहावसेपुमहाणुभागीपुणि व्याख्या प प्राग्वा  
दूरगदएसति पणुतात्तदेवनीकगतिकेपिचयं चारविरादययच्छा इह यावत्करणादिद ह्यस मरुनुदएसमहावसेपुमहाणुभागीपुणि व्याख्या प प्राग्वा  
पारो गिविसहस्राभरणा दिव्येवं संवाएणं दिव्येवं सप्लाणिय दिव्याएदुहोए दिव्याएजुरेए दिव्याए प्यभाए दिव्याए अशीए दिव्येवं

जीवा सिज्भा ति बुज्कं ति मुच्चं ति परिणिव्वायति सच्चदुक्खाणसतंकरति एगच्चापुणएगेभयंतारो पुञ्जकस्मायसेसण अण  
यरेसु देवलोएसु देवदत्ताए उववत्तारोभवति सहस्रोए जाव महासुख्ये सु दूरगदएसु चिरद्विरेएसु तेणं तटथ देवा

पयातिगकसंघकीमुक्कायइ कयापनाउपयमयकोमोतसपुयइ गारोरिकमानसिकसवंदु एतेपनवोपतकटीपनतएपपामइसिहथायइ एगजा  
एकधाररीरनउलपिनपोणइ जेहनरतेएगवाकइएगघाइभयंतारोकहतांकाण्यएवतप्रयचननासेवनारा पुञ्जकस्मानसेसेणं पुर्विसाभमपुण्यप्रकति  
पयजेपथायताइजगरनइयइ पनेरपोकोइककोधर्मादिकदेवलोसनइविपइ देवतादेवभवपणइ जपजिवचोपुइ मोटीकट्टिविमानादिकनइविपे जाव  
गण्यकोबीजाइबोल मराभोटीसुपमननीसमाधिरूपनइविपइ दुरिवेगसोगतिपनुत्तरविमानादिकविपइ चिरकाकनीपितिघवासागरीपगनीपाउयति  
वनइविपइ तेपुण्यप्रकतिनाथीतिहादेवसोकविपइदेवतापुइ महाकट्टिविमाननाधवी जावग्रय्यकोबीजाइवोस चिरद्विति मोटीपाउयानीघिति

ते एषं दिव्या एषा एदसदिसा श्री उज्ज्वोविमाणां प्रति व्यख्या चासुरवर्णं तत्र प्रत्या कप्योवगति कल्योपग देवलोकाः आगमेसिभद्विति प्रागमिथदना-  
गतकालभावो भद्रं कल्याणं निर्वाणलक्षणं येषां ते तथा इह यावत्तरणदिदं वृष्यं पासाईयादरिसिद्ध्या अभिरुवति पडिरुवति व्याख्या प्राग्वदेवेति  
निर्गन्धप्रवचनफलप्रख्यातां गमयन्नाह तमाश्चरुत्तिति तत्प्रवचनफलमिति प्रथमकारान्तरेण धर्ममाह एवं खल्वित्यादि वालतत्रोक्तमेव तिल्ये तदन्तं  
व्यक्तमेव नगरं एव मिति वक्ष्यमाणेन प्रकारेण खलु वीक्ष्यालक्षणरे कृष्णिमाहाररेणंति कृष्णिगं मासं उक्तं वणयाए वं वणयाएति एत्कात्रनता मुखवत्प्रन-

भवन्ति महष्टुए जाव चिरद्विद्वा हारविराद्यवच्छा जात्र पभासमाणा कप्योवगा गतिकल्याणा आगमेसेभद्वा जाव  
पडिरुवा तमाश्चरुत्तिति शेरद्वत्ताएकम्पं पकरंति शेरद्वत्ताएकम्पं पकरंता शेरद्व  
सुखवज्जंति तंजहा महारंभयाए महापरिष्णहयाए पंचिंदियवहेणं कृष्णिमाहाररेणं एवं एणं अभिलावणं तिरिकख

पामद् मोतीप्रसुखनद्रहारंशकरीविराजमानं सोभतावचहृदयच्छद् जावशब्दशक्रीवो जादुकोल शरोरदि कप्रभांशं करोणकागकरता कल्पदेवलोका  
बारमाहिंजपजद् जेहनोगतिनाइवडं कल्याणतारोभलउं छे प्रागामियद् कालिकल्याणमोक्षरूपपानिस्यद् जावगन्द्यशौत्रो जादुकोल प्रतिरूप सुरूपपणुं ल  
हद् तेप्रवचनरूपमागंन प्रोफजकहेछे उवल्लोप्रकारद्तरदूधमं कद्दुद्द एवंप्रणदप्रकारिं खलुनिशयपणद् यारियानकनद्दधिप्रदप्रजर्त्तं यद्द तरीनद्द एतंसा  
रीकजौवनारजोपणिंनरकिं जादुवाशौच्यकर्मप्रतिशयसुं कारद् जपराजद्द नारकोपणद्द नरकयोग्य तर्मशानारणोगादिक शतियपसुं करोनद्द मरकनद्द  
विषद्द जर्त्तं नद्रजपजद्द तेकद्दुद्दर महामोटाप्रारंभचेवयाडोकरसणसरसोपादिभद्द करो महामोटप्रोपरिजारधनधान्यादिजनैममरातेणद्द करी

प्रसक्तस्य समीपवर्तिर्विदग्धचित्तस्यार्थं चण्डमव्यापारतयावस्मानं वक्ष्यता प्रतारण पगद्भदयाएचि प्रकृतिभद्रकता स्वभापत एवाऽपरीपलापिता  
साणुजोसथाएणि सायुक्तीयता सदयता तमाद्भ्रष्टदृष्टिं तन्वर्गमाख्यातीति धर्मकथाविगमन एष षष्ठात्पयंदेशनाभेन सौवित्रीयां दर्शयन्नाह जह  
णरगगन्तुतीयादि मायापक्षयं व्यक्त नवर यथा नरका गम्यन्ते तथा परिकषयतीति सर्वत्र त्रियायोग नरगघेत्यादि गागा उक्तसप्रादिकेति

कोणिएसु मारुतयाए शिञ्जिह्वयाए अलिप्रवयणेणं उल्लंघययाए वचनयाए मयुस्त्रुसु पगतिभदयाए पगति  
त्रिणतताएमाणुक्कोमयाए अमरथरियताए देवेसु सरागसजमेणं संजमासंजमेया अक्रामणिञ्जराए बालतवोकन्नेणं तमा

यधिद्रियजोवद्भवद्भारिवद्भकरो कुणिसर्माननद् भाहारकरवैपावैकरो एमएणद् अगिजापद् नाचिंछिंठु ठाने पवत्तंतपोजीवतियंचनचं प्राउप बोधद्  
वाथो ऽद् तिवंचनोयोनिनद्रुविपद् जपजद् नकेहा मायापरवषनानद्भकारिवद्भकरो निपडोमायाकरोनद्भोचचवडाकद्भतेणद्भकरो अलोकवचनजूठचं बोधि  
यउतेणद्भकरो दुग्धनोकवविवा निमित्तद्भ्रगतं नापासद्भ्रठाना विसरापित्राभणो चणमात्र एकायघेटादिकश्च धोसरलपथाभाख्यानीपरिरिद्विउएप्रता  
रणकचो विद्वथानजिमुथ्यनुं भायुवाधीमनुव्यविपद् जपजद्भतेणद्भकरो प्रकृतिंस्वभायद् जभद्भ्रकपणभोजुटिलभानररिद्विततेणद्भकरो प्रकृतिस्वभायद्भंजयि  
नोतयिनयवतपणद्भकरो अनुक्तोसदधानभोपरिणामभाजनैणद्भ्रसहितपणैकरो अमच्छरपणुं अगिजानीच्छहिपमुउदेशीनद्भ्रप्रदेपार्दपणु नाणद्भकरो  
विदु थावक्षेत्रेवलोकदेवतानद्भ्रविपद् रागमहितसयमनद्भ्रपरिवद्भकरो सयमासंयमनेश्वरितिआवक्षानीपाभिवद्भकरो अकामभावनिनाताकितापभूप

टोका

२३३

सुत्र

यासा

योप

इत्थं जह यरगागमती जेणे रगाजातवेयणा यारए सारी रसाणसाई दुक्खाइंतिरिक्खजोणीए साणुसं च अणिच्चं  
 वाहिजराभरणवेयणापउरं देवेअदेवलोए देविद्धिं देवसोक्खाइं नरगंतिरिक्खजोणिं साणुसमावं च देवलोअं च  
 सिद्धेअसिद्धवसिद्धिं छज्जीवणियायंपरिकहेइ जहजीवाज्जअंति मुच्चंति जहयपरिक्खिस्संति जहदुक्खाणं अंतंकरंति  
 तथादिक्खसहीकर्मनिर्जरवइकारो बालतपअन्नानपणइतपकएरुपअमं कर्त्तव्यपणइररी वल्लोभगयंतप्रकारांतरइधर्मणइइइ यथाजिमसंसारो जीवनगर  
 नइविषइपापकरीनइजाइइअन्नइजनरकावासा सदाइजातवेदनासोतठणादिकवेदनासहित वत्तइइइतेपुणकइइ नरकसीतनइविषइ एजीव  
 संसारीअशरीरसंबंधीअनइमानसिकमनसंबंधो दुःखप्रसंताकरुपतिथं च योनिनइविषइभीगवइ तेपुणकइइइइ मागुयमनुष्यनभोभवपुणमनित्यइइइइ  
 पणुंनयो व्याधियोडाकालसंबंधी जरायउपण मरणपाणनभोत्वजिवयो वेदनाचिरकालसंबंधीणचुरघणोइइ जिग्गिमगुणभवइ तेपुणकइइ देवता  
 भवनइविषइ देइलोकेदेवतानावासायानकनइविषइ देवस्वरूपी त्वह्मि विमानादिअनइदेवतांनासुपपांचइइद्रियसंबंधीभोगवइइ तेपुणकइइभगवंत  
 नरगगतिपतिंजाइइइजीवतेपुणकइइ तथातिथं च योनिपतिं जायइजीवतेपुणकइइ मगुयभावमगुयपणं लइइतेपुण तथादेवलोकप्रतिं जाइइवउंते  
 पुणविवरउभगवंतकइइ सिद्धिसुत्तियानकसिद्धरुचिवानीयसतिआश्रयमतिपहुचइतेपुणयिनरभोसंभलावइ छल्लीपणियांछयइकायनभोविवरउ  
 एइइइइवियइइइही सर्वथाप्रतिं ज्ञातयो सुखवादरादिकभेदभोलषाधियइ जिमजीवसंसारमाहिं बंधनलइइ जिगाकारणंते तथाजिमकर्मवक्कीसूकाइ  
 छइजिणिभोपायइंकारीतथाजिमप्रतिययसत्तो गदुखपामइइसंसारविपइतेकइइ यथाजिमदुःखसकनभोअंतविनासघयसर्वपूरइइ केइकजीवपरंसंघ

राव राजपत विव वल्लिर का अणामखयव अण र

तथा अष्टादशविंशतिरिति वास्तौ गरीरती दु खिता धात्तितचित्ता योकादिपौडिता धास्तौहा ध्यागविशेषा दात्तितचित्ताइति अष्टादशविंशतिरिति  
पाठान्तरं तत्र धात्तौ न नितरासर्हितं मनुगतं चित्तं येषां ते तथा अष्टद्विंशतिरिति धात्तौ न दु खान्तितं चित्तं येषां ते तथा धाचनान्तरे गाथा  
केदुश्रपडिवद्वा अष्टद्विंशतिरिति जहनीवादुक्त्वसागरमुवंति जहवेरगमयगया कम्मसुमुग्गंविहाडंति जहारागेण  
कडाण कम्म्याणंपावगोफ्रलविवागो जहयपरिहोयकम्मा सिद्धासिद्धान्त्यमुवति तमेवधम्म दुविहं धारक्खइ तंजहा  
अगारधम्मं अगगारधम्मच अगगारधम्मो ताव इइ खलु सब्बोसब्बयाए सुंखेभवित्ता अगारातोअणगारियं

धात्तौपोडागरीरतीदु खदुइवियधात्तितशोकादिकपोडाइसहितचित्तधर्मं कारण  
साइनहोतेवनोप्रतिबंधपरहितयकीमोइत्रालनिवारोमद्वैतपुणकहे धात्तौजिमससारमाद्विवैराग्यधर्मनचोप्रतिबोधउपगतपायायका धानावरणोयादिक  
यथाजिमजीवतिविकरीनेदु खरुपियासागरससुदप्रतिपुइचेतेपुणकहे यथाजिमससारमाद्विवैराग्यधर्मनचोप्रतिबोधउपगतपायायका धानावरणोयादिक  
संरुपडाइडचोविहाडइठानवइतेपुणकहे यथाजिमरागे खेहेकरीनेकीषांसमाचख्खजे कम्मंयानावरणीयादिकतेइशुं पापकफकनचोविपाकभोग  
विषयोपुइतेपुणकहे यथाजिमप्रचोणकम्मसकलकम्मंज्ञानावरणोयादिकअयकरीने सिद्धकम्मंपावोनेवीधीविहाडयमोचप्रतिउवतिपुइचेतेपुणकहे तेधर्म  
दुर्गतिचोनिवारणइते दुविधविडु प्रकारे धारक्खइअम्यथागमिभगवतकहे तेकहेइ धगारीगइइक्खतेइनचोसम्यक्कमूजधारभेदव्रतरूपधर्मं अणगार  
साधूतेइनउपपमहाप्रतादिकपावनरूपधर्मं अणगारसाधुनचोमहाप्रतरूपधर्मं तावप्रधमनचो इइजिमशासनइविपैउखुनियइ सर्वात्ताइजोधादिक  
धात्तानपरिणामधानी सुउदगप्रकारेवईनइ अगारगइक्खपणाधिकचोपणगारसाधुपणै प्रमजितव्रतनचोपडिवचोकरे सर्वधूमनवचनकायाकरणकरा

टीका

२१५

स

यावा

बोध

आगारैणाधोयन्ते तदन्ते च एङ्गुलुजीतानिस्त्रीलेत्याद्यधीयते तत्र शीलं भद्राद्यतरूपं समाधानशाल वा णिव्ययति तताद्यनजानि णिगुणति  
 गणागणनानि निगोरत्त निर्यादा मर्यादा च गस्यागस्यादिव्यनस्था णिपचत्त्याणपोसहोववासा तत मत्याख्यानं पोरुणादि पौषधी ऽष्टम्यादि-  
 पर्वदिनं ततोपवासनं पौषधीपवासः श्रक्तोहृत्ति क्रीधोदयाभावात् णिक्रोडा उदयप्राशश्रीधस्य विफलताकरणत् प्रतएव च्छीणक्रोडा द्ययितक्रोधाः  
 एवं मानाश्रित्वापकी अपि शणुपुत्र्येणं अणभिच्छमोससममित्यादिना क्रमेण क्व अथाधिजतयचना इह खलु इहैव मर्त्यलोके सज्जमीसव्यताएत्ति  
 सव्यतो द्रव्यतो भावतयेत्यर्थः सर्वात्मना सर्वान् क्रीधादीनालपरिणामानाश्रित्येत्यर्थः एते च सुखेभूलेत्यस्य विशेषणे अनगारिता प्रव्रजितस्येत्य-  
 त्तस्य वा अत्रमाउल्लोति अयमायुषान् अणगारसामप्रएत्ति अनगाराणां समये समाचारे सिदात्ते वा भयो अनगारसामयिको अनगारसाम-

पवइत्यु सव्वा श्रोपाणाइवाया श्रोत्रेगणं मयावाय अदिन्वादाण मेडुण परिणह राईओ त्रणाउलेरुअणं अथनाउणो  
 अणगारसामाइए धर्मोपयत्ते एअस्सधम्म सुसिख्खाए उवड्डिए निम्नंथेवा निम्नंथोवा विहरजानो धायाए आराहए

उण अत्रमीदनगायीजीगनउं प्रतिपातहणिवश्रो तेहनश्रोत्रेसणपरिहार तिमद्रजसर्वइसृपावादाइठुण्डाणउपरिहार अदत्तादानअणदीधलेनश्रोतेउनश्रोसर्वइ  
 परिहारकारियश्रो मैथुनधियसेयानुपरिहार परिगइमूर्च्छाधरीनैसंगच्छथानुपरिहार राणिभीजनयाहारकरिवश्रीतेहनश्रोत्रेसणसर्वइपरिहार आयं  
 एहधर्मपक्षोप्राउपावंतयिष्य अणगारसाधुचारिनयानश्रीसामायकव्रत उच्चारसमतापरिणामरूपधर्मपन्नसैकच्चिबु' एत्रीतरागनोभापितधर्मनौशिक्षागभ्यास  
 रूपसीषनेविवै जठिश्रीसावधानइश्री निगंथपरिगहरहितसाधु तथानिगंथोपरिगहरहितसाध्वी विवरतश्रीप्रावर्त्ततउ आत्राभगवंतनीउपदेशनपी

तल वनपत विंश वर्षापर श्री आनसखल भाग २२

भवति अगारघम दुवागमविह आरक्खइ तत्रहा पंगपुवयाए तिण्णिगुणवयाइ चत्तारिक्खिआअयाइ पंचअणु  
 व्वयाइ तंजहा थूलाओपाणाइयाओवेरअणं थूलाओमसायाओवेरअणं थूलाओग्रदिन्नादाणाओवेरअण  
 सदारसतोसे इच्छापारिमाणे तिण्णिगुणव्वयाइ तंजहा अणत्थइवेरअण दिमिअय अयभोगपरिमाण  
 चत्तारिक्खिआअयाइ तं समाइअं देसावगासिय पोसहोयवासे अतिअविभागे अपच्छिमानारणति

अथप्रागन्थनचारिनादिकनचोपाराधणसारसुवै अवारठसुखनचोधमे दुगानयविधवारपकारेयोभगवत पाइअखेमभामादिबैठाअथै तेकइछे  
 यन्मप्रा गतिपातवेरमणादिकपाचअणुअतमहाअतनीअपेआइअणुनागहा त्रिण्णिगुणप्रतअणुअतनादिकनैगुणकारीपुइतेअनाविण्णिकार आरिगियाअतअभं  
 भोगोपकरूपजायिवा पाचअणुअतपूर्वअप्रतेकिहा तेकइछे थूलाओटिकाप्राणीवेअियादिकतेअनचोअतिपातअणियअतेअनचोवेरअणपरिहारदुविधत्रिवि  
 धइ थूला ओटिकाअणुअतठअनिअठअक्यानीअभूसालोकगवाळीअयाविण्णिमोअधूओवापितेअनओवेरअणपरिहार धूलाओटिकाअ अरशादानअजिअकीअे  
 भोगोनओकअअपामियअतअणदीपुसिअठवेरअणपरिहार अदारापोतानीअोअु अतोअदिरतिगरअीअनचोपरिहार इच्छाओअापनादिकनचोपरिमाण  
 अरइ अिण्णगुणअततेअेअा तेकअइअइअ अर्थअवोअनअिअादअकमंअगइतेअनअंअखारमारीअुअ गयाअुअंओथानचोपरिहार अओभीओतिअरओदिअिसअं  
 परिमाणरूपअत अवभोगअेअाअंभोगअिअसोअभारणादिक परिभोगअेअुअनअंअदिअतेअनचोपरिमाणअंअनकरअाअरुअपअत अारअ  
 अियाअत अतनअरअणहारनइतीअरुअअइ तेअइअइअ सामाअकअमताअणीअकअिअाअविअइ देसावगासिक दिनअभीअनअरअययाओगइअपेअपअ



धिकं वा सिक्खाए शिवाया मयासे आणाएत्ति आत्राया विहरन् आराधकी भवति ज्ञानादीनां अथवा आत्राया जिनोपदेगस्याराधकी भवतीति अपच्छिमामारणत्तियासंज्ञेहणाजूसणाराहणा अपच्छिमत्ति अकारस्यामङ्गलपरिहारार्थत्वात्पयिसमा पयात्कालभाविनो अतएव मारणात्तिकौ मरणरूपे अत्ते अवसाने भवा मारणात्तिकी संज्ञेखना कायस्य तपसा कर्णिकरणं तस्याः जूपणा सेवा संज्ञेखना जूपणा आराधना ज्ञानादिगुणानां विशेषतः पालना महइमहालियामहच्चपरिसत्ति महातिमच्छती अतिगरीयसी महत्पयत्तं महत्वीपेतसभा महतां समूह इत्यर्थः मणूसू-

आसंज्ञेहणा जूसणा राहणा अथमाउसो अगारसामाइए धम्मेषयत्ते एअस्स धम्मस्सु सिक्खाए उवट्ठिए समणोवासए समणोवासिआवा विहरमाणे आणाइ आराइएभवति तएणं सामहति महालिआ

पोसहधर्मनौपुटिआहारादिकचारप्रकारतेपुणउपवाससहित अतिथिसाधुनइसंविभागविहरावीजिमइनइइतओदिसअजलोईआननाभावइ आकार मंगलौकभणोपच्छिमच्छेहलाकालसंबंधिनीमरणकालनइअंतइच्छेहइकरीतेहसंज्ञेपनातपइकरीकायापातलोपाडिबी तेहनीजूसणासेविवउ आराधनाआनादिकगुणौविशेषयकोपालनी अथंएहधर्मपूर्विकह्ठिते अहोआउपावंतचिरजोवीभव्य अगारीपरनीसमतानाधरणआरगृहस्थतेइनुएसामायकसमतापरिणामरूपधर्मपूर्च्छिकच्छूच्छितेहवुंपन्नत्तेकहितांमइं कइओएवीरवचन एहगृहस्थनओसम्यल्लमनवारत्तरूपधर्मनौगियासोपपानिधाभणीजठओसावधानहओ अमणसाधुनओउपासकसेवकएतलइयावक तयाअमणोपासिकामाधुनोचरणनीसेगहारौयाविका इगिसागिनिहरमाणचिचरतओ पात्राभगवंतनाउप देसनओआराधिवओतयाज्ञानादिकगुणनओआराधियओइइ तएणंतिचारपच्छेसेतेमहतीमोटीमहानियामोउउआलयमोटीमांछिमोटीइइरिदेसलगीजे

मणुषपरिभा समणस्युभगवभो महावीरस्य अतिथि धर्मसोच्चा शिसस्य हठठठा जाव हिथया लडाए लडुंति लडाए  
 लडुंतिता समणं भगवं महावीरं तिकहुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइरत्ता वंदंति थमंसंति वंदित्ता थमंसित्ता  
 अत्येगइथा मुंठेभविता अणाराओ अणगारियं पवइए अत्येगइथा पंचायुल्लइयं मत्तसिक्खामइयं दुग्गालसपिपिहिं  
 गिहिधम्मं पच्छिक्खया अथसेभाणं परिसा समण भगवं महावीर वंदंति थमंसंति वंदित्ता थमंसित्ता एवंवयाभीसुभक्खलाए

त्रिस्तरीयदृष्टीतेह मीटीपरिभापरिवदाजनलोकसुसूहते अमण्यतपसुकरणहार भगवंतप्रानवंत महावीरकर्मगयुगमीकौयणहार अंतिसमीपनइविपइ  
 धर्मपूर्विक्रमभोतेकर्णं त्रिपरवासनीने निगम्यचिकरुधरोने चर्पदिवइरसाम्बर्षमाभ्यातुष्टसतोपपाभ्या कावगयष्टयकोबोजाइकोक श्रियानेवियैठर्पमार्थिनहो  
 लडाएकावानैलभथा इयैगरोरइउडे तिलठभोत्वमभोधयठ कायागरोरइलठोलभठवईवे अमण भगवंतप्रानवंत महावीर तिकहुत्तनिथिवार दचिणदिपि  
 नउ पासउ पारभोमैप्रदविणायइभमेप्रदचिवाकरे करोने वंदे सुत्तिगरइ वंदो सुत्तिकरोनइ नमरत्तारोपं बांगपवप्रकारेपण  
 मीने पत्तिगैयाइकेकटहल्ल सभासंभंधिया मु कइद्रियरोधादिकदयप्रकारेवईने अणगारइहल्लावायकोनोसरी अणगारसाधुयणच अंगीकारजरोप्रप्रण्या  
 प्रतअंगीकण्वाअनोइकेकटहल्लातभासंभंधिया धुअप्रणयातिपातवेरमथादिकयांअप्रणुप्रत क्रियिगुण्यप्रतादिकथागिक्खासातैगिथाप्रतनोयरुप दुवाकस  
 थिचिचारेप्रकारे गडीठइहल्लनउधर्मपूर्वोत्पठिविचरिणीकारिकरिओ अथगेपएइयकोपनेराठइहल्लादिकभीपरियदासुइयनउसमूइ अमण भगवत  
 महावीर वंदे सुत्तिकरे नमस्कारार्पबांगप्रणामकरे वंदो सुत्तिकरीने नमस्कारार्पबांगप्रणामकरीने एइवठंअइतथोइवथो सुइभकसभाह्लातसामाय



मूर्ध्नि प्रदय नखिपति न प्रमथति न गलो भवति पादखलित्तिरिति पाख्यात किर्मगपुष्यति प्र गेल्यामन्त्रणे किपुनरिति विशेष्योतनार्थः  
प्रतएत प्रधानतरं सामेवदिसंपाठभया यस्या दिव्य सकायाग प्रकटोभृता प्रागनेत्ययं समवसरणार्णकं छं तेषकालेणनिययादि व्यक्त

तिप किमगपुगद्दत्तोत्तरं एवंवदित्ता जामेवदिसंपाठभूआ तामेवदिसंपडिगया तएणंकूणिएराया भंभ  
सारपुत्ते समणसु भगवो महाबौरसु अतिपधन्मं बोधा णिसमं दृढठे जाव हियए उट्टाए उट्टाए उट्टाए  
उट्टिता समणं भगवं महाबोरं तिकखुत्तो आयाहोणं पयाहोणंकरति वंदंति यमंरुंति वंदित्ता यमंमिंत्ता एवं

विषेप्रपृषणसम  
कोईभयभीरयस्तिरत यमपतपनाकरणपार प्राक्षयजोवचिसामकरपोएहवानभोकथक एहवपोपूर्वोक्तधर्मसंसारसुदद विषेप्रपृषणसम  
पादश्रितारकरदियभणो अंगयदकोमसपामंतणइचनभणो किपुणयद्वैतविशेषयजगाविशामपोएहयको उतएतरप्रधानमंइदं प्रधान इम  
एहवउवदो कचोने अदिगियकीप्रगटइपापाव्याय ता तेजद्विमिप्रतिप्रतिगतानगरोकप्रतिपाखावया तिवारपळी श्रुणिकराजा भंससारयेणिक  
नपोपुय यमपतपनाकरणपार भगवतमदिमापत महाबोरकर्मयदुनाओपणहारने अतिएसभोपिधमंशामनेवियेसामखोने निसगहीयामादिं  
धरोने एवंरुंतोपपामे जावयद्वयकोपनेराइवोत दिवैरुपंपुणमयैवो लठवानैगरोरेकरीने लठवैवुंयाथे लठानैगरोरेकरीने वंठवयईने  
यमपतपनुंकरणपार भगवतमदिमार्पत महाबोरकर्मयदुनाओपणहारप्रति तिवखुत्तोत्रिखिवार दचियद्विदिनपोपासपोप्रारंभीनइप्रद्विषणाकरे  
पापतोममिठकरे वदिदुतितकरे नमस्कारप्रणामयरे वदिदुत्तितकरीने नमस्कारपंचांगप्रणामकरीने एहवउंकरतपोहवयो सुदुमसपोपाख्यात

ॐ

टीका

२४१

एव

बाबा

भोप

वयाची सुअक्खाएतेभंते णिग्गंथेपावयणे जाव किमंगपुणएत्तो उत्तरतरं एवंवदिता नामेवदिसंगालुअभूए तामेव  
 दिसंपडिगए तएणंताउसुअहापमुहाउदेवीओ समणस्सु भगवओ महावीरस्सु अंतिएधमंसोआ णिसम्म हठुठुआ  
 जाव हिअयाओ लुआए लुडिए लुआए लुडिआ समणंभगवंसहावीरं तिअलुत्तो आयाहिणपयाहीणं करेइ वंदंति  
 णमंसंति वंदिता णमंसिता एवंवयासी सुअक्खाएतेभंतेणिग्गंथेपावयणे जाव किमंगपुण इत्तोउत्तरंतरं एवंवदिता

सामान्यकारिकहिवेकरीहेभंतेहेभगवन् निगुंथभगवंतनओभाथओप्रवचनयौनिगधमंसिदातादिक जावशय्ययीजीजाइवील किंपुणशय्यविशेषता  
 जणाविवाभणी अंगएकीमलपचनेकीलिवठ'एत्तो एहयकीप्रधानमांसिप्रधानएवौशुकीनयो एवंइमपूर्वात्तावदीकहीने जइदिअियकीप्रगटसुउपाउधा  
 रिओहुंतओ तेइजदिसिपतिपडिगएपाळओवस्यओएतलैंगरीविचिवस्यओ तिवारपळ्ळीतेसुअद्राप्रसुजेदेवीपटराणीळ्ळीते अमणतपनाकरणहार  
 भगवंतसहिमावंत महावीरकर्मगनुनाजीपणंहारने भंतेसमीपे धर्मवीतरागभावितसामकीने निसअचित्तैधरीने हर्षविसयपास्याउहसंतोपपास्या  
 जावशय्यकीबीजाइ दीयामांसिहर्षपामतीहवी कायाइंशरीरइंकीरनइ जठइजभीशइंनइ कायाइकीरनइ जठोनइ अमण भगवंत महावीरगति  
 तिअलुत्तोअिणिवार दचिणदिसिनओपासओगारंभीनइभमइप्रदचिणाकरइ वांदइसुतिअइ नमस्कारपंचंगप्रणामकरइ वांदइ नमस्कारपंचंग  
 प्रणामकरइ एहवठंकळतीहवी सुअुअलओआख्यातसामान्यप्रकारिकअवइकरितेतुइभंतेहेभगवन्तियंथभगवंतनउभायुप्रवचनधरमसिदांत जावशय्य  
 यकीबीजाइवील किंपुणएविशेषताभणीअंगकीमलपचनइइत्तोएहयकोउत्तरतरप्रधानएहवउवीजओकीइनहीणइ एवंइमपुर्वोत्त उदीकहीनइ जेदिअि

नवरं वसुधैव कुटुम्बकम् विविदधस्त्वयः स्वामसिद्ध कण्ठगुणनिगद्यसपञ्चगोरे कनकस्य सुखको ह्यस्य यो निष्कप कपपट्टि रेखा  
 लक्ष्मणस्य यमदन्ति पद्मगंभस्तद्वदोरो यः स तथा सहस्राख्या तु कनकस्य न सोऽदिर्घं सुखक सारीवर्षान्तिमयस्तरामधानो यो निष्कपो रेखा तथा

जाम्बेवदिसिपात्रभूषाओ तामेवदिसिपडिगया समोसरणसम्पत्सं तेषां कालेषां तेषां समस्यस्यभगवधो महा  
 वीरस्य जेठे श्रंतेवासौ इंदुभईनामेषणगारे गीयसगोत्सेण सत्तुखो हे समचलरं संसंठाणसंठिए वदुरोसहनारायसंघ  
 यणे कण्ठगुणकनिगद्यसपञ्चगोरे सुगतवेदेचतवेतसतवे महातवे घोरतवे घोरतवे घोरतवे

यकीप्रगट्टईपात्रघारीद्वतो तेद्वलदियिमतिपडिगयापाद्यावकीएतखट्टंनगरीकप्रतिपक्षी एतखट्टसुखीसरणभोपर्वपूरणहवव तेवदकाकट्ट तेवदव  
 मयईं यमण भगवत महावीरनठ ज्येष्ठवहको संतेवासीवमीपनठवासीयिष्य इद्रमूतिएहवदनामईंयणगार गीतमएहवठ गोवण्डूजेहनठ सातहाय  
 मरीरज यणे समधतरस्यसिद्धुदियिबिद्धं यासाकट्टइसंखानईं करीसखितकट्टजेहनठ मरीर वज्रपेळीयपभलपरीयाटपोभाराधयिषुं पायासकंठबंधएव  
 वठसधयण्डइजेहयरीरनयो कनकसुखसंभयोसुखयलवकुटबडकीनिगद्यसकसठटीजयरीसठिईं दुं तइसतेनहुइ पद्मकमसनीकेसरानीपरईं गीरठं मरीर  
 कइजेहनठं यनेरइब्बिबकी चींतिविमसकियइएहवचीतपण्डइजेहनठोदिसदीपचीतपण्डइजेहनठोदिसदीपचीतपण्डइजेहनठोदिसदीपचीतपण्डइजेहनठो  
 मयैएहवपीतपमाकादीपइकरीरचितइब्बिकारयइ मरीरइइ द्विधादिकविययविषाविनावोरनिदंयतपजेहनठो • उदारमथान घोरकर्मवारिदाभयो  
 सनवै घोरपनेराइपादरीनसकइएहवागुण्डइजेहनठ घोरभाकरेतपेकरीतपजोहइ घोरदाशयधनेरइपणसलइधापरतांदोदिस एहवामस्यवर्धनइ

यत्कञ्चनबहुसत्त्वं तद्वद्व्यो गौरः स तथा उगतवे उगुमग्रप्रथं तपोऽस्त्ये गृत्पाः दिक्षतवे दीप्तहुताशन इव कर्मवन्दनदाहकत्वेन ज्वलन्तेजः तपो यस्य स तथा तत्तवे तप्तं तापितं तपो येन स तप्ततपाः एवं तेन तप्तपस्तप्तं येन कर्माणि सन्ताप्य तेन तपसा स्वात्मापि तपोरूपः सन्तापितो यतोऽन्यस्या स्पृशन्मिव जातमिति महातेवे महातपाः प्रथस्ततपाः ब्रह्मतपा वा श्रीरालेत्ति भीमः कथं अतिकष्टं तपः कुर्वन् पार्श्ववर्त्तिना मलयसत्त्वानां भयानको भवति अपरस्वाह श्रीरालेत्ति उदारः प्रधानः घोरत्ति घोरो निर्घृणः परीषदेन्द्रियकषायख्यानं रिपुणां विनाशे कर्त्तव्ये अन्ये त्वाभनिरपेक्षं घोरमाहुः घोरगुणो घोरा अन्यैर्दुरनुचरा गुणाः मूलगुणादयो यस्य स तथा घोरतवस्को घोरैरुपोभिस्तपस्वी घोरवन्भवेरवाप्सो घोरं दाशण मलयसत्त्वैर्दुरनुचरत्वाद्यद्वाचर्च्यं तत्र वस्तुं शीलं यस्य स तथा उच्छूढसरोरे उच्छूढं उज्जितमिवोज्जितं शरीरं येन तत्संस्कारत्यागात् स तथा संखित्तविपुलतेयलेस्ते सङ्घिता शरीरातर्लोना विपुलाच विस्तीर्णा अनेकयोजनप्रमाणचेत्वा ऽऽश्रितवस्तुदहनसमर्थत्वात् तेजोलिष्या विशिष्टतपो-जल्यलब्धिविशेषप्रभवात् तेजो ज्वाला यस्य स तथा ऊर्जुजाण शुद्धप्रथिव्यासनवर्जानात् श्रीपगहिकनिषद्याया अभावाच्च उक्तृकासनः संजुपदिश्यते

घोरवन्भवेरवाप्सो उच्छूढसरोरे संखित्तविपुलतेयलेस्वे समणस्तु भगवओ महावीरस्तु अदूरसामंतैर्लडुंजाणू अहो

विषद्वसवानुशीलच्छइजेहनउ उच्छूढसुय पायइंकरोरहितछइजेहनश्रीशरीर संखित्तसंघेपीच्छइविपुलमोटोअनेकयोजनलगीचालिवासमर्थशरीरमाहिं रहीयकीमीटइतपइंजपनीते जोलिष्यालब्धिविशेषजेहनौ अमण भगवंत महावीरकर्मश्चुनाजीपदतेहनइ अतिदूरवेगलानहोअतिदूकडानहो जहै

जातुनी यस्य स ज्ञंज्ञानु. पक्षेचिरे पक्षीमुखी नोहृ न्तिर्यग्वा निश्चितदृष्टिरिति भाव आणकोद्भवगए ध्यानमेव कोडो ध्यानकोष्ठस्य सुपगतो जहं जातुनी यस्य स ज्ञंज्ञानु. पक्षेचिरे पक्षीमुखी नोहृ न्तिर्यग्वा निश्चितदृष्टिरिति भाव आणकोद्भवगए ध्यानमेव कोडो ध्यानकोष्ठस्य सुपगतो य स तथा यथाहि कोष्ठके धान्य प्रक्षिप्त मविप्रकीर्णं भवत्येवं स भगवान् धर्मध्यानकोष्ठक मनुप्रविश्येन्द्रियमनाव्यधिक्य सप्ततात्मा भवतीति भावः जायसहे जाता प्रसृता यद्वा दृक्षाःस्थिति जातयद्वा क्क वक्ष्यमाणानां पदार्थानां तत्त्वपरिज्ञाने जायसंसए जात समयोऽस्थिति जातसमय'

सिरे ज्ञानकोद्भवगए संजमेखेतवसा यप्यार्थभावेसाणविहरति तएखसेभगवर्भगोचमे जायसंटे जायसंसए जायको जहंहे उपायसहे उपायसंसए उपायकोहले सजायससए सजायकोजहंहे समुप्यससहे समुप्यसंसंसए समुप्य

ज वधो जानुं ठीषषविच्छरजेहना पधोनीचपीसिरसस्तकच्छद्वं सुतिरक्षु नहीजेहनु कोठाद्वदयमाहिध्यानदृढपगतसहितप्रवर्तदृष्टद्व जेममाटानद्व माजनद्व धानवासितं नविणवितिमद्वुपर्यधिणसद्वनीतेषद्वकरी समयसतरप्रकारतेषद्वकरीतपवारप्रकारतेषद्वकरीनद्वषपाणं प्रापथसोषात्माभावन उद्यमध्यानविषयप्रवसावतपोविचरदृष्टद्वप्रवर्तदृष्टद्वसाधु तिवारपच्छीतेभगवर्तप्रावतगौतमनामतपोदद्वभृतिगौतमतेगोत्रमाटद्व जातप्रयत्तायद्वातत्व जाणिवानीवाच्छातेह जेप्रानवतभिरधारनकखपोद्वुतेसंगय केहवठद्वकजपजियभोगवर्तवोत्तिसद्वएहद्वयोद्वकसंभतियानु कीतूद्वल जपनोयियेययो प्रवर्तौयहातलजाणियानोवाच्छा जपनपोविशेषयकोसंगयप्राननिरधारनकरिचोद्वुतेच जपाचोविशेषयकोकीतूद्वलबेधुधर भगवर्तवोत्तिसद्वतेसा भखियाउ सजातपतिद्विजपनु संगयप्राननिरधारसर्वधो संजातपतिद्विद्वप्रवर्तौयद्वारच्छा सजातपतिद्विद्वकोतूद्वलस्रपोजेभगवतकेहयपोद्वककद्विस्र दृतेसामलियातउ समुल्यवविशेषयकोजपनपोसंगयप्राननिरधारनकरिचोतेसंबंधी समुल्यवविशेषयकोजपनमोसंगयप्राननिरधारनकरिचोतेसंबंधी ससु



संशयस्त्वनिर्द्धारितार्थं ज्ञानं सुभयवस्त्वं श्रावणस्वितया प्रहृत्तं सत्येव तस्य भगवतो जातः यथा श्रीमन्महावीरवर्षमानस्नामिना प्रथमाङ्गप्रथमश्रुत-  
 स्तन्व-प्रथमाध्ययने प्रथमोद्देशके श्रावण उपपात उक्तः स किमसत एवात्मनः एत सतः परिणामान्तरापत्तिरूपः जायकोउहस्ते जातं कुतूहलं  
 कौतुकं यस्य स तथा कौह्यं उपपातं भगवान्त्वच्छतीत्येवं रूपं जातत्रयौक्त्य इत्यर्थः उपपन्नसङ्घे प्रागभूता उत्पन्ना अद्वा यस्य स उत्पन्नसङ्घः अथोत्पन्न-  
 त्रयत्वस्य जातत्रयत्वस्य च कोऽर्थभेदो न कश्चिदयं किमर्थं तत्प्रयोग उच्यते हेतुत्वप्रदर्शनार्थं स्थास्युत्पन्नसङ्घत्वा ज्ञातत्रयः प्रहृत्तसङ्घ इत्यर्थः संजायसङ्घे  
 इत्यादौ च संशयः प्रकर्षादिवचनः अपरस्त्वाह जाता अद्वा प्रष्टुं यस्य स जातत्रयः कथं जातत्रयो यस्मा ज्ञातसंशयः कथं संशयः अजनि यस्मात् प्राकुतूहलं  
 किंविधी नामाय सुपपातो भविष्यतीत्येवं रूपं मित्येव तावदत्रयः एवमुत्पन्नसञ्जातसमुत्पन्नसद्वादेन ईहाऽपायधारणाभेदेन वाच्या इति उपोद्घातयन्ती  
 व्याख्यातः ॥ छ. ॥ अथाभिधिक्षितोपपातस्य कर्मवन्धपूर्वकत्वात् कर्मवन्धप्रकरणमाह जीवेणमित्यादि असंजयअविरयअपडिहयपञ्चक्यायपावकम्

स्वकोजहस्ते उक्ताए उक्तर उक्ताए उद्धिता छः जेणेवसमणेभगवं महावीरं तेणेवउवागच्छति तेणेवउवागच्छिता  
 समणंभगवं महावीरं तिव्बुत्तो आयाहियणपयाहिणंकरेत्ता वंदंति यामंसंति

त्यत्र विशेष्यकीजपनश्रीकुतूहलजपजिवश्री भगवंतकेहवउकहस्यइतेहसंभलिवानु कायायइं करीने जठाउजभउथयश्री कायाशरीरइकरीजठीजभा  
 यईनइ ॥ छ ॥ जिहांछइ अमणभगवंत महावीर तिहांसमोपइआवइ तिहां आवीनइ अमणभगवंतमहावीरमति तिव्बुत्तोविणिवार दच्चिणदिसिमर्यादा  
 देईनइपदच्चियाकरे तिव्बुत्तोच्चिणिवार दच्चिणदिसिमर्यादा देईनइपदच्चियाकरीनइ वांदइ नमस्कारकरे वांदोने नमस्कारकरीने प्रतिपासव

राय वनपत विंश बवरेर आ शतवत्सयण भान २२

अस्यतो अथमथान् अविदितस्तपसि न विज्ञेयेषु रत अथवा ज्ञाना दसंयती यस्माद्विदतो विदितियंजितः तथा न प्रतिदत्तानि सम्यक्ज्ञपाद्या  
 कृत्स्नीकृतानि प्रत्याख्यातानि च सर्व्वविदितप्रतिपत्तित प्रतिवेधितानि पापकर्माणि ज्ञानावरणादीनि येन स तथा अथवा प्रतिदत्तानि अतीतकाल  
 कृतानि निन्दार्थेषु प्रत्याख्यातानि अनागतकालभावोनि निवृत्तित. पापकर्माणि प्राणतिपातादि पापक्रिया येन स तथा तद्विधेयिनां  
 प्रतिदत्तप्रत्याख्यातपापकर्मां ततः पूर्वपदाभ्यां सह कार्यकारण अतएव सक्रियः कायिक्वादिश्रियायुक्त असदुद्दे असद्वृत्त अनिश्चेद्रियः  
 एगंतदृष्टे एकान्तनैव सर्व्वयैव दृष्टयत्यात्मान परं वा पापप्रवृत्तितो यः स एकान्तदृष्टः एगंतवाचे सर्व्वथामिथ्यादृष्टि अतएव एगंतसुप्ते सर्व्वथा  
 मिथ्यात्वनिद्रया प्रसुप्तः पापं कार्यं ज्ञानावरणाद्यथम कार्यं अथवाह आसीति भायवति यत्रातीत्यर्थः. एतन्ति कोमलामन्त्रये प्रत्यवधारणाधीना अथवा

वंदित्ता कामंश्चित्ता यच्चसखी षातिद्वरे सुसुसमाणे कामंसमाणे अभिमुद्दे विद्याएवं पञ्जलउड्डे पञ्जुवावमाणे एवंवयासी  
 जीवेणंभंते अथंजए अविदति अप्यच्छिद्वयपच्चखायपावकमे सकरिए असंयुडे एगंतदंडे एगंतबाले एगंतसुप्ते

दृक्कषीनयो अतिदूरवेगसमीपगच्छे सुयुधैवानोपजावतयो नमस्कारपुण्यामकरतयो अभिसुखसोमश्चोदैठयो विनयसहितकृतत पूंजसिपुटशाय  
 विजोडीने पर्युपासनानिष्पिकारनीवेवाकरतयोगक्षयो एइयठ कइतधोइवयो जीवचित्तमासहितणअंकारमणोदेभंतेहेभगवन अस जए  
 असंयमर्षत तपनइदिविद्विदितिनयीअयवावितिरदित सम्यक्ज्ञप्राप्तिकरोनेनथीइखातयाअनागतकालसंबंधधियानथीअथथाएअथवापापकर्मजेणे  
 कायिक्वादिकाक्रियातेकेकरोसवित अथंयुडेजेथैईद्विय ५ रु ध्यानयो एकांतइधामानइपापव्यापाएइकरोदंडे एकांतकालसर्व्वयामैमिथ्यादृष्टी एगंतसुत्त

इति आसीत्थिव बभ्रात्थिवेत्युत्तरं न ह्यसंयतादित्रिशेषणो जीवः कस्यां चिदवस्थायां कर्म न वध्नातीति २ छः तृतीयसूत्रे शब्दत्रयचरिममोहण्डिज्जं कर्म बंधद्रूपोमोहण्डिज्जंति नत्यस्ति नवरं केवलमित्यर्थः चरममोहनीयं सूक्ष्मसंपरायणुणस्थानत्रि लोभमोहनीयसूक्ष्मकिटिकांरूपं वेदयन् वेदनीयं वध्नाति अयोगिन एव वेदनीयस्याबन्धत्वात् न पुनर्मोहनीयं वध्नाति सूक्ष्मसम्परायस्य मोहनीयायुक्त्वर्ज्यानां यथासैव प्रकृतीनां बन्धकत्वात्

पापकर्मं अग्रहाति इंता अग्रहाति? जीवाणंभंते असंजते अविरते अप्यडिहयपञ्चक्वायपावकर्म सकिरिए असं वुडे एंगंतदंडे एंगंतबाले एंगंतसुत्ते मोहण्डिज्जंपावकर्म अग्रहाति इंता अग्रहाति २ जीवेशंभंतेमोहण्डिज्जकर्म वेदे माणे किंमोहण्डिज्जं कर्म बंधद्रु वे अण्डिज्जं कर्म बंधंते गोअमा मोहण्डिज्जं पिकर्म वेदण्डिज्जं पिकर्म

सर्वथा मिथ्यात्वनिद्राद्रं सुतठं आनात्रणीयादिकपापकर्म अग्रहाति बांधद्रु इंता कहेतां हागीतत अग्रहाति पापकर्म बांधद्रु जीवचेतनासहितपंचननाश्रुत् कारभणौ हे भगवन प्रसंज ए प्रसंयमवंत तपनद्रु विषद्रु विशेषद्रु रतिनथी अथवा विरतिरहित सम्यक्प्राप्तिकरी नद्रु नथी ह्यातथा अनागतकाल संबंधियानथी छ ख्यापचखा एहवापापकर्म जेणद्रु कायाव्यादि श्रितियाते एद्रु करो सहित जेणद्रु इंद्रियसंख्या रूंध्यानथी एकांत एकांत वास सर्वथापणद्रु मिथादृष्टी एंगंतसुत्ते सर्वथा मिथ्यात्वनिद्रागद्रु चं तथी मोहनीय अद्रु वावो सगकारते ह्यरूपपापकर्म अग्रहाति बांधद्रु इंता कहेतां हागीतत अग्रहाति कहतां बांधद्रु पापकर्म २ जीवचेतनालक्षणं वचननाश्रुत्कारभणौ भंते हे भगवन मोहनीय अद्रु वावो सगकारपापकर्म वेदतथी अनुभवतथी स्वत् मोहनीय कर्म प्रडा वीसप्रकारपापकर्म बांधद्रु कद्रु वेदनीयसाता असाता रूपपापकर्म बांधद्रु अनाद्रु वेदनीय सातारूपपाप

यदाह सप्तविंशत्यगा षोडशो पाण्डुरो आठवलिगार्थं ७ तदुत्सुसर्पराया ह्यखिचर्वाविषिदिहा मोहात्तयवज्वाथं पयडोष तेउवधगा भविष्या १ अ पथाभिधिलितीपवातनिरुपयायाह जीवेषमित्यादि व्यास नवर उख्यति वादुल्लत कालमावे कालकियति सरणावसरि बंधति एखत्यचरिमसोदृणिज्जं कामं वेदणिज्जं कामं बंधति षोसोदृणिज्जं कामं बंधति ३ जीवेशंभंते अथंजण ए अथिर ए अथ्यडिइयपञ्चक्खायपावकस्मो सकिरिए अथं वुडे एगतदंडे एगतबाले एगतसुत्ते उषणतसपाण अथंजण ए अथिर ए कालकिचा थिरइएसु अथोवज्जति इंता उववज्जति ४ जीवेशंभंते अथजण अथिर ए अथडिइय धातौ कालमावे कालकिचा थिरइएसु अथोवज्जति इंतपो भोगयतपो वेदनीयकर्मसाता

कर्मसाधद नखलएतससोधिपेयरिमसोहनोसूखसंपरायगुणठापइकोभमोचनीयनासूअकोटिकारुपपापकर्मवेदतपो भोगयतपो वेदनीयकर्मसाता कर्मसाधद नखलएतससोधिपेयरिमसोहनोसूखसंपरायगुणठापइकोभमोचनीयनासूअकोटिकारुपपापकर्मवेदतपो भोगयतपो वेदनीयकर्मसाता यसातारुपपापकर्मसाधद परंनोहनोयकर्मपहावोसप्रकाररुपपापकर्मसाधद जीवेशेत्तनाउषणवचनार्थकारभयोभंतेचेभगवन पयजइअस यमवंत सम्यक्प्रवासिचरोनइनयोइच्छातयापनागतकासर्धबंधियानथीपसख्याएषयापापकर्मजेणे कायिकाधिक्रियतेइरकरोसहित जेणइइद्रिय सखाकंपानथी एकातिपालानइपापव्यापारइकरोइठइ एकांतवाससंबंधापइभिव्याहरो एकांतसुसंबंध्यामिव्यालनिद्रायइ सुतपो उषंमसांइ इवाहुण्यपखइअसगाथवेदियादिकर्षवेदियपर्यंतनपोषातविनामकरइअइर कावेसावेमएनापवसरनइधियइ कालमएणकिचाकरोनइ नेरइ एउनरकनइविषइअजइअयतरइ हा तिम एहवपोमाणीनरकनइविषइअजएअइ ४ जीवेशेत्तनाउषणवचनार्थवचननाप्रलंकारभयोभंतेचेभगवन अथं जण एअम यमवंत तपनइधियइविषेअइरतिनरोअयगाविरतिरहित सम्यक्प्रवासिचरोनइनयोइच्छापयवापनागतकासर्धबंधियानथीपसख्याएषवा

२४८ २४८ २४८ २४८

सरणं विधायेत्यर्थः ४ छः इभोश्च ए पेषति इतः स्थानान्त्येत्नोक्तालक्षणाच्युतौ भ्रष्टः प्रेत्न जन्मात्तरे देवः स्यात् सेकेण्डेणंति अथ केन कारणेनेत्यर्थः  
 जेइमेजीवति यइसे पूत्यचासत्वाः जीवाः पञ्चेन्द्रियतिष्ठन्मनुष्यलक्षणा ग्रामागरादयः प्राग्वत् प्रकामतपहाएत्ति अकामानां निर्ज्वराद्यनभिलाषिणां  
 सता तद्व्या लट् प्रकामतृणा तथा एव मन्यत्पदद्वयं अकामप्रवहाणसीयायवदंसमसगसेयजज्ञमज्ञापंनपरिभविणं दूष खेदः पूखेदो याति च सगति

पञ्चवखाणेपावकामे इभोश्च ए पेषादेवेसिआ गोअमा अत्ये गइयादेवेसिया अत्ये गइआयोदेवेसेया सेकेण्डेणं  
 भंते एवंवृत्ति अत्ये गइआयोदेवेसिया गोअमा जेइमेजीवा गामागर णगर निगअ  
 रायहाणि खेड कव्वड मडंब दोणमु ह पट्टणा सन सबाह सणिवेसे सु अकामतएहाए अकामसकुहाए अकामअंभ

पापकर्मजेषइ इत्तोषुएइहांमनुथलोकथकोचव्यम्रीमरणपास्यमो प्रेत्यपरमभिज्जांतरनइधिपइइताथाइ हासत्तोहेगोतमसिथ एजीवचेतनालक्षण  
 तेइकेकदेवताथाइ देवतापणैपामे इकेकसंसारोकजीवदेवतानथायइदेवतापणुंनपामइ सेअसतांअथएतलानंतर केषइअर्थइरेणइकारणइभंते  
 हेभगवन एवंइमकहीजइइइ इकेकजीउत्तंसारोकदेवताथाइ इकेकसंसारोजोवदेवतानथाइ अनेगोतम जेइइप्रत्यचदेवोताजीवतिपंच  
 मनुथरूप गामवाडिंकरोयोटाउ आगरसुवर्ण लवणना नगरजिहंमहादिक्कनुकरनइ निगमंजिहंमहाजननवास राजधानो राजानिवासनगरी  
 खेडधूलिनुप्राकारजिहं कव्वडकण्ठितनगर मडंबजिहंटाकडठंअंनिवेगनघी द्रोणमुखजअंपंधइयलयथइतरोसहित पाटणजअंपंधपनइरअभूमि आअम  
 तापसनिवासठंम संवाधपर्वतअपरिगामतथापासइंगाम सचिचेयजिहंभरुगडिथोरीगोवान्तप्रत्यादिकवसइते निर्ज्वरामीकामनाअभिसाध

राव वनपत्त विंश वल्लभ कीर्तनसंभव भाव २५

वेति ज्वोरजोमात्र मक्षः कठिनोभूत पक्षीमक्षएवं खेदेनाद्रीभूत अस्मानादयस्तु प्रतीता अस्मानादिभिर्यं परिताप स तथा तेन अण्त्तरोवा  
 भुज्जतरो वा कांति प्रकृतत्वेन विभक्तिपरिणामादस्यतर वा भूयस्तर वा कास यावत् अण्त्तरे सुप्ति वक्षणा मध्ये एकत्तरेषु वाणमत्तरे सुप्ति

चेरवासेणं अकामअण्त्तरोवा सौया यवदस मसग सेध्र जल्लमस्तु पक्ष परिभावेण अण्त्तरोवा भुज्जतरोवाकां  
 अण्त्तरोवा परिक्लेशति अण्त्तरोवा वा भुज्जतरोवाकां अण्त्तरोवा परिक्लेशति कां अण्त्तरोवा वाण  
 मन्तरे सु देवलोएसु देवत्ताए लुक्वत्तरोवा भवन्ति तद्धिते सिंगतो तद्धिते सिठितौ तद्धिते सिंठववाएण्त्तरे तेषेणं

विनातृपायां योनीवाङ्माभवे निष्कं रानाकामनापभिलापयिनापुधाभूयसद्विषो निष्कं रानाचभिलापमायविनाम्रह्मण्ये विपदवसिषयो विपयसेवाभि  
 वारिवो निष्कं रानो कामनापभिलापयिनापानअगोहृत्विनकरिवठ भावविनासोतताठिष्ठद्विठ भावविनपातपत्तपोभावाविनाडास भावविनाम  
 सामपोसद्विषयो भावविनाखेदपरिवेषो भावविनारजमादपरठता भावविनाकठनमल भावविनाभीगु मलपरिवेषठ पूर्वोक्तप्रकारिकरीपरिताप  
 के मनुभोगविवनेष्टद एवपरयोडाकात्तलगो तथाभुज्जतरघयाडासलगो अप्याणपापपोपाडापतियस्यु क्करीमद्ले मपमाडदससाताभोगवद  
 पण्त्तरोवाकात्तलगो तथाभुज्जतरघयाकात्तलगो अप्याणपापपोपात्तायरीरप्रतिगयस्यु क्क्रे मपमाडोकीनद कासमावेमरणनापवसरनदविपद  
 कासमरएककारेणै यथाभेदकरेणैमांशिनैराजोदएक व्यन्तरवाणमन्तरनादेवलोक्कदेवतानावधिवानाठांमनदविपद देवतापण्त्तरे अपत्रिषपोत्तपपातयि  
 ल्यादएवतरिवयोदपर तिहातिवाणव्यतरनादेवलोक्कविपदनेअसयमयनद्वयतिगमनशुद तिहातिहजीवपूर्वोक्त तिहातिहजीवपूर्वोक्त तिहातिहपूर्वोक्त

अस्मिन् देवलोकेषु देवजनेषु मध्ये तद्विदितेतिगच्छति तस्मिन् यानमन्तरदेवलोके तेषा मसंयतादिविशेषणजीवानां गतिर्गमनं ठिइति प्रवस्थानं  
 स्ववाचीति देवतया भवन् इष्टीइवति ऋद्धिः परिवारादिसम्पत्तुर्जुईइवति युतिः यरीराभरणादिदेभिः इयद्धो निपातो वाक्यालङ्कारार्थः इति  
 शब्दो वायं छातसन्धिप्रयोगः उपपदार्थनार्थः जसेवइति यशः ख्यातिः वा शब्दो विकल्पाथः क्वचित्पठते च्छाणेइवाकम् इवति तन्नोल्लानं मूर्धो-  
 भवनं कर्म च उपपत्तेपणादिका क्रिया बलेइवति बलं शरीरः माणः वीरिएइवा बोधं जीवमभवः माणएव पुरिसकारपरिक्रमेइवति पुरयाकारः  
 पुरयाभिमानः सएथ निष्पादितः फलः पराक्रमः हतेति एवमेवेत्यर्थः तेषा देवा परलोगस्य शाराहगति ते  
 भंतेदेवाणं कीवतिञ्चकालटितीपय्यता गो असा दसवाससहस्राइ टितीपय्यता तत्यणंभंते तेसिंदेवाणं इष्टीवा जुईवा  
 जसेतिवा बलेतेवा वीरिएइवा पुरिसकारपरिक्रमेइवा हंता अत्यिरेणंभंतेदेवा परलोगस्याराहगा षोतिण्डे समङ्के पूछे

जीवनइउपपातदेवतापणइकपजिवउपपत्तिप्रकर्षइइइ. तेहदेवतानओहेभगवन केतलओकालथितिआउपइरहिवानोकहोतीथेकरइगणधरइ भगवत  
 कइइहेगीतम दससहस्रवरसनीयितिआठपानी पणताकहोतीथेकरगणधरइ प्रत्यिकहतांछइभंतेहे भगवनतेहदेवतापूर्वइवयाखातेइनइ ऋद्धिपरि  
 वारनीसंपदा युतिशरीरआभरणीसंपदा यश्लोकमाडिंथ्यातिनओशब्द बलशरीरसंबंधीमाप कीर्जकीषयकीछपगुजेमाण पुरयाकारपुरषसंबंधी  
 अभिमानतेहथीअभिमानतेहथीजपनओतैपराक्रमबल श्रायुक्तहेगीतम प्रत्यिकहतांछइभंतेहेभगवनतेदेवता अकामनिर्जराइदेवताथयातेहपरलोकजका  
 तरनइविषइमोचपामिवाकूपआराधकपणुइइ षोतिण्डे समङ्के एहअर्थमोचसाधननीपजाविवउतेनसमर्थवटइनही पू छः तेहजेएमत्यचदेयोतासंसारो

राय वनपत्तुं चो वत्सरा श्री यत्तमस्यव भग २२

पकामनिष्करा सुबधदेवभवा व्यन्तरा परलोकस्य जन्मान्तरस्य निर्वाणसाधनाऽनुकूलस्य पारार्थका निष्पादका इति मन्त्र नोदणष्टेति नायमर्थ  
 समष्टेति समर्थः सगत इत्युत्तर अयमभिप्रायो ये हि सत्यन्द्यैः नानापूर्वकानुष्ठानतो देवाः सुखरूपशक्ततया आनन्दैरेण पारम्पर्येण वा निर्वा-  
 णानुष्ठान भगन्तरमारर्चयन्ति तदर्थे तु भाष्याः ५ ख सेजेदथादि सूत्रं व्यक्तं नवरं सेज्यन्तो अथमय्दावं अथमय्दये इ वाक्योपचेपार्थो यामादय  
 प्राग्वत् पशुवहगति पशुभिः पशूनां निवसन्निवसिष्या निवसन्निवसिष्या निवसन्निवसिष्या निवसन्निवसिष्या निवसन्निवसिष्या निवसन्निवसिष्या निवसन्निवसिष्या  
 र्थमर्थानि हडिबहगति इच्छित्कोटक चारंगवहगति चारकोगति सुखच्छिन्नगति मन्त्रच्छिन्नगति मन्त्रच्छिन्नगति मन्त्रच्छिन्नगति मन्त्रच्छिन्नगति

रुजेइमे गामागर शगर निगम रायइयाणि खेस कव्वड मडवं दोणमुह पट्टणा सम सवाह सखिवेसेसु मणुषा  
 सर्वंति तंजहा अंशुवहका शिषलनहका इडिवहका चारंगवहका इत्यच्छन्नका पायच्छिन्नका कखच्छिन्नका

कलौपामवाडिवीटपोपागरसुवर्षसवपना नगरलिहागवादिक्कगु करनयो निगमवाणियानावासठाम राजधानीराजाननीनिवासनगरो  
 येहधूवि मचोगठकइभिडां कर्पटकुक्षितनगर मठवजिहाटूक्कू सनिवेमयो द्रोणसुखजसपइयस्यर्षइसचित पाटणजसपइयस्यरत्नमूमि एहवामनुष्य  
 पात्रमतापस निवास ठाम सवाधपर्वतजपरियामतवापासइपाम सनिवेमभरुपाडिघोषीगोवखीमसुयनाठीमवासनइविपर एहवामनुष्य  
 इरतेरेहगाइपर तेहइइपर पटुकाठमयहासपगनांर्षधन निपसवहकाखीसमपगनांर्षधनवे छोपसुख इडिकाठमयपोडपोपगसर्बंधीति जेइनाकानच्छेया  
 सनांर्षधनतिणइवांया चारगर्बदीयाना तेहनइविपरवांया जेइनाहायछेवाकाप्याअइ जेइनापपछेवाकाप्याअइ जेइनाकानच्छेया



नियगति उत्तरासप्तन्यायेन विदारिताः धियवप्पीडियगति उत्प्राटितहृदया आकृष्टकावैज्यकसांसादृत्यर्थः वसयुष्पाडियगति उत्प्राटितहृदया  
पाकशाला इत्यर्थः तण्डुलच्छिन्नगति तंडुलप्रमाणखुरेः खण्डिताः कागणिसंस्वाद्भूयति काकयोमांसानि तद्देहोद्भूतश्चात्मसांख्यखण्डानि तानि

णकच्छिन्नका लठुच्छिन्नका जिबभच्छिन्नका सोसच्छिन्नका मुखच्छिन्नका मज्जच्छिन्नका वेकच्छिच्छिन्नका ह्रिय  
उपाडियगा ययणुपाडियगा दसणुपाडियगा वसणुपाडियगा गेवच्छिन्नका तंडुलच्छिन्नका कागणिसंस्ववाद्भूयया  
सर्लंबिशा लंबियशा वंसिन्नया घोलिन्नया फ्राडिन्नया खलाद्भूयया खलभिन्नया क्वारवसिया वञ्ज

काप्याह नाकजेहनाच्चे वाकाप्याहः षोठजेहनाच्चे वाकाप्याहः जोभजेहनीछेदोकापीछइ सीर्षमस्तकजेहनाच्चेद्या काप्या  
ह सुखगलानीवाटिजेहनीच्चे दोकापीछइ मध्यउदरगुदेशजेहनेउकाप्यउच्चे वइकजउत्तरासंगनइत्याइविदायमीछइजेहनेइ  
शरीरद्वियउकृपाडिउं कालजानभीमांसकाटाश्रोत्रइजेहनेश्री नयनेलजपाडांकाटांछइजेहना दशगदांतप्रतिशयसुंजपाडांछइजेहना  
वसणुवाडियगा हृषणश्रंभमाकरिसीनइजपाडांकाटांछइजेहना श्रीवाकोटिछेदोकापीछइजेहनी चोषारप्रमाणइखंडक्रीधीछइजेहना तेहजना  
देहनाप्रतिसूक्ष्मपंडमांसनाषवराव्या सर्लंबिशा रासडोबांधोनइषाडमाह्विजताया लंबिया हृचनीयाखाइयांइगहानइबांध्या वसियगाकठोरपाह्वण  
इचंदननीपरप्रषस्या घोलियया दहीनाघडानीपरइविलोडगा फ्राडियगुठारादिकइकरीफाडा पोबियया खेलेडीनोपरइपोल्या सूलीइयगा  
सूलीयइं वडावीमोयाडुयइ सूलीमस्तकजपरिनीकलीडुइ पारइंसींचा भारलवण्यादिकमाह्विषेपव्या वञ्जप्रतिमानोबइषाधइषांधया जेहनेइद्रिलिंगादिक

खादिता उल्लसियगति अशक्तमितकाः रत्ना वरा गतादाशवतारिता उल्लसितपर्यायास्तु नेते भवन्ति उल्लसितानां वेदायसिकमन्त्रेनवपु  
 नाणत्वादिति खंविगगति खन्वितकाः तदगाखायां वाही यथा वसियगति घर्षितकायन्दननिव हृपदि खंविगगति घोषितका दधिघट इव  
 पटइव वा फासिययति स्फादितका कुठारेण दाशखण्डकवदा पुस्तकान्तरे पोषियगति पीडतका यन्त्रेरिदुवदिति सूत्राश्रयगति शुखाधितका  
 गूलकापीता सुवभियगति मस्तकोपरि निर्गतगूनका खारपत्तियति चारेण वा तोयकतइमन्नादिनिर्मिनसहाघारे वर्तितता  
 वृत्तिं कादिता तत्र चिता द्रव्यं चारपात्र वा कृता चारपात्रिता त भीजितास्य वाऽऽधारता नीता इत्यर्थं वक्त्रवसियति वर्षेण  
 सव वृत्तिं कारिता वृषपात्रिता वा तेन वरा इत्यर्थं उत्पाटितयथावा सोहपुष्पिययति इव पुष्पगन्धेन मीहन विवचित सुपचारात् तत  
 सोहपुष्पं जनं सजात वा येषां ते सिहपुष्पिता स्तएव सिहपुष्पिताका सिहस्य हि मैयुनाविषतस्यात्वाकर्षणात् कदाचिन्नेहर्ननु टाति एव ये कश्चिद  
 इपराधि रात्रपुहये खोदितमेहना क्रियन्ते ते सिहपुष्पिताका व्यपदिशन्तइति अथवा छकाटियात पुतप्रदिय यावयोपां पं चकस्यं सिहपुष्पाकार  
 क्रियते ते तयोष्यन्ते इति दशमिदशुर्गति दशानि दीवानल स्ते न ये दग्धा स्तेतयोना पकोसवगति पट्टे ये अथवा संघया निमज्जा स्ते पद्मावसया  
 पट्टेसुत्तर्गति पट्टेमनाकुमना केवल तत उत्तरोत्त मयता वन्यमयगति वनन्त मयमाद भयन्त मयया दशुषादिना वेकतो ये सुतापो वलमन्तका

गित्याणमयका  
 वसियका यल्लसयका वसहसयका  
 दवाग्गद्विगापंकोपखना पकोखत्तका यल्लसयका वसहसयका  
 दवागवडिगुभंजपडोषीहपूखनोपरर ल वाकौधाडइ दावानवनाशानि करोदाधोखेनेहपककादमनेत्रियेसर्वथा बुद्धापूताकथा पक  
 कादमननेविपइरीडू सुपूता वल्लयमतकाभूपरकरोनइमरे अथवासयममापंयोषधोनेमरे इद्वियनइवधि करोमइनिमयवधैइरिष

नैवपतंगादिघ्राणदशसरसनाइंमस्तफरसिं द्वियदृहस्तौ बालतपनाकरणहारनियाणानाकारकपापरुपश्वअंतहिश्रामाहिराषीनदसरद भावरूप  
 द्रव्यस्यादि गिरिपर्वतथकीपडोनैसरणकरै तरुहचथकीपडोनैसरणकरै मारुवाडिनौधरतौजसपांणीरहिततथायलक्षकीपडोनैसरै पर्वतनउडिगत  
 उपपाषाणतेयदृहौडौलीआंपणचउंचंपावोनैसरै तरुहचनीढान्तिथदृहौडौलीआंपणपुंपडोसरै मरुनिर्जसप्रदेयिंभापणपुं हौडोनैसरै पांणीमांङ्गिपे  
 सीबूडीसरै जलशअन्तिहमांङ्गिपेसीनेवलीसरै विपवच्छनागप्रफौणपाइंनैसरै यस्तपालीकटारौप्रमुपैयरोरविदारीनैसरै हचनीढालप्रसुपै  
 कं'वचदोरडभोवांधीगलपासीलेइंनैसरै इस्त्री'गाकलेवरमांङ्गिपेसीगुधपंपोयपिपवरारवि कंतारअटवोमांङ्गिपेडोभूपटवाभोगगोरडवडीनेसरै दुभिंष

अंतोसस्तमयका गिरिपडिअका लरुपडिअका मरुपडिअका गिरिपक्खंदोलिआ तरुपक्खंदोलिया मरुपक्खंदोलिया  
 जलपवेसिका जलणपवेसिका विसभक्खितकासत्योवाडितका वेहाणसिआ गिद्वपिठुका कंतारमंतका दुभिवल

वसदमयगति वशेन विपयपरतन्त्रेण ऋताः पीडिता वयात्ताः वयं वा विपयपरतन्त्रतां ऋता गता वयात्तां स्ते सन्तो ये ऋता स्ते वयात्तमृता वय  
 त्स्मृतावा शब्दादिरक्तहरिणादिवदिति णियाणमयगति निदानं कला बालतपयरणादिमन्तो ये ऋतास्ते तन्ना अंतोसस्तमयगति अमुदृत्तभावयत्या मध्य-  
 वर्त्तिभत्यादिशल्या वा सन्तो ये ऋताः गिरिपडियगति गिरेः पर्वतात्पतिताः गिरिर्वा महापाषाणः पतितो येया सुपरि ते तथा एजं तरुपतितका  
 मरुपडियगति मरो निर्जलदेशे पतिता ये ते तथा मरोर्वा निर्जलदेशावयथिगीपाण स्वलादित्यर्थः पतिता ये ते तथा भरपडियगति कश्चित्तत्र  
 भरात् लणकर्णासादिभरात्पतिता भरो वा पतितो येपासुपरि ते तथा गिरिपक्खंदोलिया गिरिपचे पवंतपान्ने छिद्रटंकगिरा वाऽऽत्मानमन्दोक्तयन्ति

ये ते तथा तेषां च तद्द्वीनन मन्वोक्तकायातेनात्मनो मरणार्थं एव तरुपचास्योक्तकादयो ऽप्येति सख्योत्राडिगमन्ति शश्वोत्राडिगमन्ति मयपाटयन्ति  
विदारयन्ति मरणार्थं ये ते तथा ये ह्यथसिगमन्ति विद्यार्थं च आकाशे तद्व्याप्यादाया ऽऽत्मन चक्ष्म्यनेन यस्मिन् भवति तत्रैहायसं तदन्ति तेषां  
ते प्राक्तनयैकौव्यागं वैशाथसिया गडुपडुगन्ति ये मरणार्थं पुनपत्रिकरभरागभादिश्लेखरमख्ये निपतिता मन्तो गृध्रैः सृष्टा स्युः सुतुष्ये

मतका असकलिष्टपरिणामा तत्कालमासे कालं किञ्चा अणुतरैः सुवायमं तरेषु देवलोएसु देवदत्ताए एववत्तारो  
भवति तद्विद्वेषिं ठितौ तद्विद्वेषिं सुववाएपण्यत्ते तेसिण्यं तदेवाणं केवलिञ्चं कालद्वितोपयुक्ता गोथमा वारसवासससृष्ट्या  
इं ठितौपण्यत्ताथत्येणभतेतेभिदेवाणं इष्टौवा जुष्टौवा जसेतिवा वल्लेतिवा वीरिएतिवा पुरिसक्कारपरिक्खमेति वा

दुःकालनेषैकोत्पन्नादिवक्त्रैः सभवे मरे सतस्मिष्टपाटुषोपात्तं ध्यानरोदुष्यामन इव यैश्वरोपथ्यवसायजीवनचपरिणामखंलेषुनपो तेपूर्वोक्तजीव काल  
मासेमरणपथसर्जने विषेकालगरणकरीने सपाठामहैतेहमाश्चिष्यतरकोदृएक वाण्यमतत्त्वतरनीनिकायना देवलोकादेवतायाः कल्पनिवायानातेह  
जने विषे देवतापणे जपलेउपपातसमाईजपज्ञियच पुन्यद्वलद्वि तिषियानकिनेदेवतामीथितिपात्रपरिद्विषयो तिषियानकिनेदेवतानभोचपपातजपनिवच  
पथतेकस्यु तीर्थं करणधरे' तेहदेवतानभोभतेइभगवन केतलाकालवितिपात्रयैरद्वियानोमगर्थते पत्ततीषाही श्रीभगवतकद्विदेगोतम वारसएस्तवरुगो  
थितिपात्रयद्वरद्विवानोभगवंतद्वजशै मल्लिकद्वताद्वद्वभतेइभगवनतेहपूर्वोक्तदेवतागद्व यद्विपरिवारोसपवा द्युतिगरीरपाभरणच तेषु यगसोका  
माद्विमसिमा वक्रगरीरनचोप्राण धीर्यं लोष्यकोजपनचोधिप्राण पुरुपाकारपुरसससधीपतिमानतेहषीजपनचोधिप्राणम चागोतम मल्लिकद्वताद्वद्व

विदारिता क्षियन्ते ते गृहसूत्रज्ञाः अमंकिनिद्रपरिणामसि संक्षिप्तपरिणामा हि महात्तरोद्धानाविनीन देवत्वं न लभन्त प्रति भावः ६ छः  
पगइभइगति प्रकथा स्वभायत एा न परानुसृत्यादिना भद्रताः परोपकारतरणगीलाः प्रकृतिभद्रताः पगपूउयसंता इत्यन उपगान्ता क्रीधी-  
दयाभावात् पगइतणुकोच्चमाणमायलोभसि सत्य ऽपि कथागोदेने ततनुजोप्रादिभावाः मिठसहसंपनत्ति गृहु यन्मार्दव सत्यर्गं मसंकृतिजयं

हंता अत्यि तेणंभंते देवा परलोगस्वाराहगा णोतिगृहे समुठे ६ सेजे इमे गासागर गागर गिगम रायहाणि खेड  
कब्बड मडंब दोणमुह पट्टणा सम संवाह संनिवेसेसु मणु माभवंति तंजहा पगतिभट्टका पगतिउयसंता  
पगतिपतणुकोहमाणमायालोहा मिठसहसंपणा अक्षौणा विणौआ अम्मापिउसु सुसका अम्मापिइणं अण

तेहपूर्वंकच्छाजिडेवतातेपरलोकजन्मांतरनइमीचपामिगारूपजादुदर्थंनचरित्तनाआराधकपणइणुप्र प्रोतिगृहे समुठे एहप्रथंमोचसाधननीपजावि  
बडंतेनसमर्थघटदूनही ६ तेजेएहसंसारोजीग मामवाडिंवींटाभी आगरगुनयोदिकता नगरजिहंगवादिक्तनुकरनचर निगममहाजनवसिवानाठाम  
राजधानीराजाननीनगरी पेडधूलिनभीपाकारजिहं कब्बउकमितनगर जिहंउक्कुनुसत्रिवसनधी द्रोणगुपजत्तपंइइवलपंइइकरीसहित पाउणजल  
भूमिनइरलभूमि आश्रमतापसनाठाम संवाधपर्वतजपरिगामतथापासदुगाम संनिगेमभरुवांडिगीगालीचीसीनाथानजनइपिपइ एहवासणुप्रामनु  
अकैहवाहुइ तेतइइकै प्रकृतिंत्वभावइंभद्रकपरोपकारीकटिलपरिणामरहित प्रकृतिस्वभायइंजक्तीधादिकउपगमायागइइ प्रकृतिस्वभावरजप्रतनुपा  
तत्ताकीधरोसमांनअभिमांनमायापरवंचगालीभमूर्त्तार्णरूपइइहनइ अदुसतमालमार्दवमहंकारनं जोपिवउंतीणइकरीनहित प्रालोनगुरुनाचरणपात्री

ये सम्यक् प्राप्ता स्ते तथा आलोचयन्ति आकीर्णा पुत्रमाश्रिता भद्रगन्ति कश्चित् तत्र मद्रका अयुपतापका वेद्यगिष्ठागुणान् तत एव विनोता.  
 एतदेवाह यन्मापिज्जणससु, सगा अन्वापिषी युयूष्का नैषका अतएव संमापिज्जण अण्डकमणिज्जवयणा इहेय सम्यग्ध यन्मापिषी.  
 सत्त्व मनतिक्रमणीय वचन शेषां ते तथा तथा अप्यिच्छा समचेच्छा अप्यारंभा अप्यपरिगहति इहारश्च पुथिव्यादित्रीवोपमई कथ्यादिरूप  
 परिगहन्तु धनधान्यादिस्त्रीकार एतदेव वाक्कात्तरेणाह अप्येण आरभ्येणमित्यादि इहारश्चो लोवानी विनाश समारश्च स्त्रीपाशेव परिताप-  
 करण आरभ्यसमारश्च स्वेतद् इय विस्तििति इति कौटिको कप्येमाणन्ति कल्पयन्त कुर्वाणा १०। ६। सेनापोद्गमापेत्ति अथ वा एता अती

तिक्रमणिज्जवयणा अप्यिच्छा अप्यारमा अप्यपरिगहा अप्येण आरंभेण अप्येणसमारंभेण अप्याणं आरंभे  
 समारंभेणं वित्तिकप्येमाणा वद्धइंवासादं आलुअपालन्ति पालित्ता कालमासे कालकिष्ठा अणतरे सुवागमंतरे सु

रसाहृद विनोतविनयगुणिकरीसहित मातापितानापुत्रसुखेवामगतिनाकरणहार माताभग्नइपितानभो वचनजेकाइतेहकथनप्रतिक्रमइंसहाय  
 इगही यस्यइच्छामिटीयांकाजेइहनइदधी यस्यथोचषीषारमपुथिवीकायादिकनाउपद्रवकरसणादिकछइजेइहनइ अस्यथोडुपरिपुपुधनधान्यनभ्रीभंगीकार  
 मूर्च्छांछइइहनइ यस्यथोडषोषारंभ जीवन्शीविणासछइजेइहनइतेणइकरी अस्यथोडषोसमारभजीवन्इंपरितापनषोजपजाविवशीजेइहनइतेणइ  
 करी यस्यथोडषोषारभजीवन्शीविनागपनैसमारभजीवन्इपरितापछइजेइहनइ तेणइकरी। ६। इत्तिआत्रीविकाकणतश्रीकरतश्रीथकषो बहइधथाइक  
 धरसलगी आजपु कीदित्थपाशइप्रतिपानइ एइवउ पाजपु पाक्षीनइ कालमरणनाभवसरनइवियइकालमरणकरीनइ घणाठामछइतेइमहिइ

देवलोएसु देवताएउववत्तारोभवन्ति तहिंतेसिंठितौ तहिंतेसिंठितौ तहिंतेसिंठितौ तहिंतेसिंठितौ देवराणं केइअं  
 कालंठितौपणत्ता गोयमाचउहसवाससहस्रा ७ सेनाउइआउ णामागर णगर शिगअ रायहाणि खेड कञ्जड मडुव  
 दोणमुह पट्टणा सम संवाह संनिवेसेसु इत्यिआओभवन्ति तंजरा अंतोअंतोउरिआओ गयपतिआओ मयपति  
 आओ बालविहवाओ छट्टितस्सिताउमाइरक्खिआओ पिअरक्खिआओ कुनघररक्खिआओ असुर

अनैराकीइकवाणसंतरब्धंतरना उवलोककरिहवानाथानकानइविषइ देवतापणइउपपातसमायइउपपातसमायइउपपातसमायइउपपातसमायइउपपातसमायइ  
 हइइ तिगिथानकिंनेहदेवतानीधितिआउपइरहिउ' तिगिथानकिंतेदेवतानीउपपातजपजिनओ पन्नत्ते कछानादीअरइ तेइतेपतानठंअंतेहेभग  
 वन् केतलओकालथितआऊपरहवानीभगवंतइपन्नत्तीकहौ ओभगवंतकइइ हेगौतम चउदसदस्रवरसलगौइइ ७ जेहणप्रयत्तसंगारीकजीव यामनाडि  
 बीटाओआगरसवरण्णीउत्तित्ठामं नगरजिहंगवादिकरनहौ निगमवाणियानाठाम राजधानीराजानीनगरी धेइधूलिनओगठ कर्जटजुषितनगर  
 मडुवजिहंगडुसंनिवेशनथी द्रोणसुखजलयथइयलयथसहित पाटणजसपंथअनइरत्तभूनि आयमतापसनाठाम संवाधपर्वतजपरितथापासइयाग संनि  
 वेअरआडघोसीगीवलीप्रसुपनावासठामं एकेकओजातिइहवोइइ तेकइइके संतःपुरराजगुननइअंतसंधइसदालजासन्तिरइइइइ जेहनापति  
 मत्तारपरदेगविपुगतगयाइइ जेहनापतिभर्तारमृतमूआप्राणथकीकूटावीइ जेहस्तीवालपणइजविधवारंडापणपामोइइ जेहनइपतिभर्तारइइखंडी  
 परिहरीकइजेहनइमातारपालुंअकार्यपरिहारकारइइ पितजेहनओरपथालुंरपीअकार्यकीकरइइ जेहनइभाइंगरपनालओरपीअकार्य

तालवनपतं विदुमथानं विदुमथानं विदुमथानं विदुमथानं विदुमथानं २२

अतोपुत्रियाभोति पत्तन्ध्वे पत्तःपुरस्तेति गय्य कुलधररविष्ठयापोति कुलधरपु पितृगृहं च मित्तनाइतियसमन्विराषिषयाप्रोति क्विषिपु तत्र  
 मिवापि पितृपत्यादोना तासा निव वा सुहृद एव प्रातवो मातुधादिलजना निजया गोत्रिया सम्पन्नियो देवरादिरुपा पकठण्यवेसकफखरो  
 मापोति प्रकृता इति सुपगता त्रिपिटसंस्काराभावात्तादयो वार्त्ता ता स्याथा पाठास्त्रे पकठनहकेषुभंगुरोमापोति इह अयूनि अर्चरीमाणि  
 तानि च यद्यपि स्त्रोणां न भवन्ति तथापि कासांचिदस्यानि भवन्ति अप्येति तद्गृहण अपहाण्यसेयत्रमलपकपरितागधो अपाननेन हेतुना  
 खेदादिभि परितापो यासां तास्यथा तत्र स्वेद प्रस्येदः लघो रजोमात्र मल कठिनोभूत तदेव वधगच्छोरदृष्टिणवर्षीयमप्यितेकगुलक्षीण  
 मधुमज्जमंसपरिचत्तत्रयाहारापोति अपगतानि चीरादौनि यत स्याथा परित्यक्तानि मज्जादौनि इ तेन च एयविषुः क्तोऽभ्यवद्यत पाचारी

कुलरक्त्व आ धो पकृढमण इमसकेसकक्त्रोमाधो यवगयपुष्पगंधमञ्जालंकाराधो अयहाण्येसेअजल्लमल्लपकपरितावि  
 आधो ववगयखीरदृष्टिणवर्षी असप्यितेगुलक्षीणमज्जमंसंपरिचत्तकयाहाराधो अप्यिच्छिओ अप्यारंभाधो

यकोरापपदद कुलधरपितानपोधतेहयकोरुडइयथाहुयाइद सधरकुलधरपरपधयकीरपगलठ अकार्यंपरिहारदृक्तेरापददद प्रकठमोटाप  
 धालादइदनपचाययगना मयुदाठीमारीमयव्यपिच्छीनइदाठीनइइतउपयिकोइच्छीनइइत्यइइतंउभयोकेमसकनाकापयाइनारीमराइतेसमरावनीनधी  
 यवगयव्याकादइमूलेभेयताजाइंजुइंमोगरादिक गधपूपाजवादिमाष्यफूलनीमावापलकारपापरलक्षीयोयइ सानअगोइलिनयोपरिहारतथाकोदपरसेव  
 योजअरजमाल मलकठिनभाकरपोषिष्ठु टइते तथापकपरसेवइमीजाइंनोवठयाइएतलइकरोपरिताप्यपोक्ते प्रपमाडाठंछइगरीरजेणीयइ यवगयव्याडा





दग्गोयति बोधनद्रव्यापिचया दग्ग मुदकं द्वितीय भोजने येथा ते दकवित्तिया दगतइयति बोधनादिद्रव्यव्यापेषथा दग्ग सुदक यतोय येथान्ते दकवर्गो ग दग्गसप्तमसि बोधनादोनि यद द्रव्याणि दकस्य सप्तम भोजने येथां ते दकसप्तमा एवं दग्गएकारसमा एतदपोति गोतमगोपइयतिअथश्रमन्तितकपविहविवहवुपावगवभियपोति गोतमो क्वचो वनोइईस्तेन गृह्योतपादयतगदिविचित्रशिवेण जलविभा- सेपद्वयेण भिषागतति वे ते गोतमा गोव्यइयति गोगत येथामक्ति ते लोवतिका योपि गोपु यामाविगंखत्तीपु निर्गंखत्ति चरत्तोपु धरत्तो निवत्तोपु विशति पागतोप्यागन्ति यगनासु च गेरते इति उक्तं च गावी हि सम निगमपवेस ययणा सया इय करेति भुंजेति जहागाभीति रिशुपानं विद्यायिता गिदिश्रव्याणो गृह्यथयंएन अं यानित्यभिसन्धे देवातिथिदानादिकुपगृह्यथयंभानुगतं धर्मैषित्तया धर्मैगाजपाठनां

दोगमुच पट्या सम संवाह सन्निवेशेसु सगुनाभवंति तंजहा दग्गवित्तिया दगतइथा दग्गसत्तमा दग्गएकारसमा गोश्रमा गोव्यइथा गिदिश्रव्या यन्मन्त्रितिका अविबद्ध विबद्ध वुष्टु सायक य्यमितिया तेषिसगुआयांणोक्कप्यइ इसाथो

सहनजिहाकडपोभंनिवियनयो श्लेषसुहसपवदयसपैवेकरोमक्षित पाटणजलपदपनइरयभूमि पायगतापसनाथाम सनियेगभरपाडिपादिवापग मइयिपद सन्यपुसपादिक्कडुइविपद तेअइद एकथानाउद्व्यवोअपोयोओअनेरपोनाइल्यइतहो विद्रव्यवोअपोयोअइ लय्यवोअप्यइ भागमुपाणोअइ दग्गद्रव्यवोनाअइइयारसुपाणोअइ गोयसतथेपादपतनादिकिमिनयजेअइवीयवु जेगोठामवोनीकत्तिइनीकसइपरतोइइवैपीते पोद गिदिश्रव्यापदपोतेजेगइइयएण धर्मैषित्तकर्मगाजनापाठक अविबद्धदेयादिकसुविनयकरिवित्तयथादो विबद्धभक्तियाथादोमवंदगंभीयिक्क सुहते

सभासदा इत्यर्थः अविबुद्धाः वैनयिकाः उक्तां च अविबुद्धी विणयकरी देवाशं पराए भतीए जहं चिसियायणसुओ एयं अन्ने वि नावव्वा विबुद्धा अन्निया-  
वादिनः केचिदात्मादानभ्युपगमेन बाह्यन्तरविबुद्धत्वात् बुद्धान्नापसा बुद्धकाल एव दीचाभ्युपगमात् आदिदेवकालीत्यत्रत्वे च सकललिङ्गिना  
सादात्वात् आवका धर्मशास्त्रावगात् भाक्षणाः अर्थत्रा बुद्धशानका ब्राह्मणा एते प्रभृतिरादिदेषां ते तथा यत्रनीयंति स्रजणं सप्यंति एतं प्राणियंति  
गुडं णण्यएकाए सरिसव वीईएत्ति नइति आहारनिषेओ अन्यत्र तां वर्ज्जथिलेत्यर्थः एकस्याः सर्वपतै नपि ज्जतेरित्यर्थः ८ ॥ छ ॥ गंगाकूल

नवरसविगईओ आहारित्तए तंजहा खौरं दहिं णवनीयं सप्यं तेषंं अज्जं असं णण्यए एक्काए  
सरसवविगइए तेणंमणुआ अप्पिच्छा तंचेव सव्वं खवरं चओराओइवाससहसुआइं ठित्ठीपसुत्ता ८ सेजेइमे  
गंगाकूलगा वाणपच्छा तावसामवंति तंजहा होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जणइ सइइइ धालइं ऊंपच्छा दत्तुं

तापसवडपणदीचासातर आत्रकतेजेधर्मगाखत्तंभलि प्पिइयाएहप्रभृतिआदिदेइनइ तेजेपूर्वइकह्यातेमनुचनइनकल्यै एहप्रागलिकहीसइतेनवैरस  
रूपविगय शरीरमांइंनिकतिविचारनीकरणहारीआहारिवीभयणकारिवी तेकइइकै खौर दूधइ दधिर नवनीत मांपणइ सप्यं घोइ तेलइ फाणित  
गुलइ मधु० मद्य चंद्रहासादिकद मांसए जलचरपचरअवर वीचुकाइनकल्यै एकसरसवनोविगैसरसवनओतिलरूपिणीविगैल्यै तेएहवागमुच्य अल्प  
इच्छाअधिकमीठीवांछानही तिमइज सर्व नवरंएतलओविशेषजे चओराओसहस्रवरसंवल्लरलगेथिति आजपुं कइउं तोथंकरे ८ तेजेएहसंसारीक  
जीव गंगानदीनाकूलजिमणालावाकांठानैविपै वनमांहिंपकापंइथानककरीनैरह्याकै एहवातापसतपकष्टनाकारणहारकै तेकतैइइ अग्निहीवनाकरण

नस्ति गङ्गाश्रुत्वाश्रिता' वानप्यत्यसि बने पटथा प्रप्या प्रस्थानं गमनमवस्थान वा वनप्रस्था सा पश्चि वेर्पा तस्यां वा मया वानप्रस्था मत्प्रवारी गृहस्थस्य वानप्रस्थो यतिस्तुचेत्येवंभूतद्वीपाययमवर्तिन कोसियसि यन्मिहाश्रिता' पीसियसि यस्त्रधारिण कोसियसि भूमिमयिन अतुद्रन्ति यत्र- वाजिन मरुहसि यासा' दानमर्हसि गृहोतभाष्या' इ इडडसि कुडिकाश्रमया दतुक्खनियसि फनभोजिन उभ्यज्जकसि उभ्यज्जनमाश्रये ये खान्ति समञ्जगति उभ्यज्जनस्यैवामकालरुशिन ये खान्ति निमञ्जकसि खानार्थनिमया एव ये चर्ण निद्रन्ति मपक्खानन्ति च्चत्तिकादिष्यंण- पुवंक यइ' चाश्रयन्ति दक्खिणञ्जममसि येगंङ्गाया दक्षिणञ्जएव वस्तस्य उत्तरञ्जमगति उत्तरविपरोता' संखधमगसि यखं भमात्वा ये जेमंति यदन्य कोऽपि ना ऽऽगच्छतीति कुमधमगसि ये कुन्ते स्थित्वा मय्द क्खत्वा भुञ्जते मिययुहयत्तिप्रतोता एव इत्थितावससि ये च्चत्तिन मारयित्वा तेनैव बहुकालं भोजनतो यापयति उडु डगति जड्ढोक्ततदण्ठा ये सचरन्ति दिवापीक्खणीन्ति उदकेन दिव मीष्य ये फलपुप्यादि समुचित्वन्ति

कत्वलिया सम्मज्जका सम्मज्जका निमज्जका संपक्खला दक्खिणकूलका उत्तरकूलका संखधमका कूलधम्मका

भार पीतियावचनाधरपरहार कोत्तिया कुट्टवोनरविधययननाकरणहार यत्तनाकरणहार यत्तवातयासनासाभस्यपर भार भजनउपगरणकरहर यधोप्रवर्तं इपठ्ठा एककर्मउत्तरायइ फलनामघपरहार एकधारपीणोमहिपरवीतत्काकनीकसर वाररपीमोहिपरवीनइखानकरर खाननइ यर्धिवपरपाषोडवकीमारीरइइ सपक्खलासा माटोसु घवीनइदानकरर दक्षिणञ्जमजिगगातइदक्षिणकूलइंवरर उत्तरकूलगा गगानदीनइउत्तर नइकुत्तर वसर सपधमकाजैर्यंपूरीनइभोजनकरर कूलधमकालेकूलइभारहीराममण्डकरोजिसइ मिगलुत्तका घुगमासनपोभीजनकरर इत्थिता

दाकवासिणोत्ति वल्काजवाससः चेलवासिणोत्ति व्यक्तं पाठान्तरे वेलवासिणोत्ति समुद्रवेलासत्रिधासिना जलवासिणोत्ति ये जलनिम्ना एवासते श्रेयाः प्रतीता नवरं जलाभिषेयकठिणगायाइति ये अस्रात्वा न मुञ्चन्ते स्तानाद्या पाण्डुरीभूतगात्रा इति वृद्धाः पाठान्तरे जलाभिषेककठिनं गात्रं भूताः प्राप्ता ये ते तथा इंगालसोन्नियंति अङ्गारैरिव पक्वं कंडुसोन्नियंति कान्दुपक्वमिवेति पलिश्रोत्रमंवाससयसहस्रमज्जहियंति मकारस्य

मिगलुद्धका हृत्थितावसा उदंडका दिसापोक्विखणो वाकवासिणो अंबुवासिणो बिलवासिणो जलवासिणो वेलिवासिणो  
 कूक्खमूलिआ अंबुभक्खिणो वाउभक्खिणो सेवालभक्खिणो मलाहारा कंदाहारा तथाहारा पत्ताहारा पुष्पाहारा  
 बीयाहारा परिसडियकंदमूलतयपत्तपुफफलाहारा जलाभिसेअकठिणगायभया आयावणाहिं पंचवग्गितावेहिं

वसा एकहस्तीमारप्रवणादिनभोजनकरे जं व उदंडकरीईंडे दिसिउदकसंछांटीफूलादिकल्पे वाकलनावस्तपहरे अंबुपीताहजवासथानकळे  
 जेहनइ जिलरूपवासित्रिव प्रोच्छेजेइने जलपाणीमांदिजवसइपइसीरइइच्छइ समुद्रनीवेलिइवासकरीरइइ वचमूलइंनसदारइइच्छे अंबुपाणी  
 पीरहे वायरओषाईरहे सेवालपाईरहे मूलपाईरहे कंदनउआहारकरे ल्वाउचनीआहारकरे पानछानउआहार फूलनओआहारफलनुआहार  
 बीजनुआहार अतिथयसंसडगकंदतथामूलत्वचातथापानडांफूलफलतेहनाआहारकरेछे जलपाणीमांदिंअभिकसानकरीकठिनपांडुरीभूतगात्रशरीर  
 कीधांछेजेणे उन्धालासंबंधीआतापनालेवैकरीने चिडुंदिसिअग्निमांथै सूर्यतापनाकरे पांचमीपंचाग्नितापिकरीने इंगालजांणेकीहालैकरीशरीर

प्राकृतप्रभवत्वाद्द्वैतस्यैवैक्यमित्यर्थः पश्यथा पश्योपमं वप्ययतसहस्र मस्यधिकं च पश्योपमादित्येव गमनिका च १० पश्यइत्या समपत्ति  
निर्पन्थाइत्यर्थं कदप्यियति कद्विंकाः नानाविधपद्मकारिणः कुकुइयति कुकुचेन कुळितापस्यन्देन चरन्तीति कोकुषिका ये हि  
भ्रुमयनवद्भक्तदरणादिभिर्भीष्णान्द्र तथा सेटन्ते घया व्ययमहमत्त एव परान् घासयन्तीति मोहदित्यति मुखरा नानाविधा पसस्यग्राभिधाधि  
मृएव मोषादिका गोवरदपियति गीतेन या रती रमण क्रीडा सा प्रिया येपां गीतरतयो वा लोका प्रिया येयान्ते तथा साम प्रपरियागति आमन्य

दंगलमोक्षिय कंदुसोक्षियं कंठसोक्षियंपिव अप्याणंकरेमाया बह्दइंवाभाइ परियायंपाछणंति बह्दइंवासाइ  
परियायंपाछणित्ता कालमासे २ लक्षोसेणलोइसिएसु देवेषु देवत्ताए सवत्तारोभवति पलिषोवमंवामसयसहस्र  
मज्झिच्चठितौ आराइगा योतिण्हुसमहे समयोभवति तंजहा कंदप्यिआ कुकुइया मोहरिया गीयरइप्यिया

पणुइ एइधपोरुपकोधु हंजेणै कंठमज्जनविशेषतेहवपोनेइनीपरिएणु, गरीरसीलीरुपकोधु काइपधसिउंएइधपोसीसीरुपकोधु पालामरोर  
करतायका वपावरसखने पर्यायतापसीदीघातपकट घणाईवरसलगइ पर्यायतापसीदीघातपकटपाठणित्तापाळोने कात्तसरणनाभवसर्ने विपे  
कात्तकरीनइ चणुछपोण्योतिसंबधी देवतामइवियइ देवतायणे चपपातसमानइयथाइजपजवचोपुइ तिहांपण्योपमएकजपरिवपुस वत्तार  
लयएवचधिकपोएइविधितिपाठपानी शेषवीकाइवोनतिमज्जपूर्विलोपरैजाणवा परलोकापापाराधकनही अमणतपनाकरणधारुये निकडेण्ये  
कदप्यिक्थानानाविधहाय्यनाकरणधार कुचेष्टानाकरणधार सुपरीनानाविधपस बहभाया गीतेकरीरतिरमवुंकोळाकरवीतेहजप्रियखेजेइने नश्य

नञ्चणसौला तेणएणं विहारेणं विहरमाणा बहूइवासाइ सामण परिथायं पाउणंति बहूइवासाइ सामणपरि  
 थायं पाउणिता तसुठाणसु अणानोइअ अण्णडिक्कंता कालंसासेकालंकिचा उक्कोसेणंसोहम्मकण्णे कंदप्पिएसु  
 देवेषु देवत्ताए उववत्तारोभवन्ति तह्मित्तिंगतौ तह्मित्तिंगतौ सेसंतंचेव णवरं पलिञ्चीवमं वाससहसुमज्झहिअं  
 ठित्तौ छ ११ सन्निवेसेसु परिव्वायगाभवन्ति तंजहा संखा जोई कविला भिउच्चा हंसा परमहंसा बडुडुदया कुडिव्वया

जेहनश्रीभाषारनाचिवाडुछं तेअणपूविकक्यातेइएणं विहारविचरिवुंतेणं करीने विचारतायका घणावरसलगी सामान्यचारितनुपथायपणउ  
 पाण्डुपूरश्रीकौधश्री घण्णांवरसलगी सामान्यचारितनुपर्यायसाधुपणपालीनइ तेहथानकजेहपूर्विकंदप्पिआदिककरणी करीदीचानइदोतलगाडाछइ  
 तेआलोइवुं गुणआगलिसिद्धिनीसाधिसंभलाविउंनही पळिकमिश्री मिच्छामदुकडउनदीधउ कालमरणनाअवसरनइविपइमरणधर्मकारीनइ उतुअउ  
 उत्रिशेषयभीआथउजाइतश्रीसोधर्मएहवइनामिपधिलश्रीकल्पदेवलोकेतेहनइविपइ कंदपींआच्चासवीजाकौतूहलनाकइक देवताछइतेहनइविपइदेवता  
 पणइ उपपातसमाइअथानइविषइकपर्जवठंहुइतिणिथानकितेदेयतानीगतियाइउडुइ तिणियानकितेदेवतानीथितिआउयइरइइ सेषवीलतंचेवति  
 मइजपूर्विलीपरइ एतनुविशेष पल्योपमअनइयली वरससहस्रअधिक थितिआजवाविपइरइइ छ ११ संनिवेशिजिहंभरयाडिआदिवासनइविपइ  
 परित्राजकदंडधरसन्यासोनीजातिहुअइ तेअइइछइ सांख्यबुद्धिअहंकारादिकतत्त्व योगीअध्याययासुअजपरिअनुष्ठानकरइ कपिलदेवताजेहनइमानितेका  
 पिलथाषायतीजसांहिछइ अगुक्कपिलीकसांहिंपसिद्धतेहनश्रिय छंसतेजेअरण्यपर्वतादिविपइ परमहंसतेजेजिहंनदीनुवाहआवइतिहंरहइसर्ववस्तुकीपी

पर्यायं बाधुत्वमित्यर्थं पाठश्चतिष्ठि प्रापयन्ति पूर्यन्तोत्यर्थं ११ परिव्यायगति मस्करिष्य. संछक्ति शाङ्गाः मुद्गरादकारादिकायंयामवादिन  
 प्रतनोत्तरयो जगत्कारणस्य मभ्युपगता. लोईति योनिनः पञ्चात्ममासाद्युद्ययिन कश्चित्ति कपिको देवता येवान्ते कापिका साङ्गा एव  
 निरौत्तरात्पर्यं. भिच्छक्ति भृगुर्लोकाप्रविहस्तपित्रीय त्वात्येते शिव्यादिति भागंवा ईशा परमहसा बह्वहदगा कुञ्जिष्यया इत्येते वत्वारोऽपि परि  
 मात्रकमते यतिविग्रया तत्र हसा ये पर्यंतकुरपरथायमदेवकुत्कारामवाभिनो भिच्छार्थं च धामं प्रविगन्ति परमहसाकु ये नदीप्रलिनसमागमप्रदेशीय  
 वसन्ति चीरकोपीनकुर्याय त्वात्ता प्राप्यान् परित्यजन्ति बह्वहदकानु प्राप्ति एकरात्रिका नगरे पञ्चरात्रिका नामभीर्गाय ये मन्त्रत इति कुटीप्रता  
 कुटीचरान्ते च यद्दे वर्तमाना व्यवगतलोधमांभमोहा पञ्चद्वार वर्ज्यन्तीति छण्णपरिप्राजका परिवायन्ति छण्णपरिप्राजकविशेषा एव नारायणभक्तिका

कण्ठपरिव्यायगा ततय म्बु इमे षड्माहण परिव्यायगाभवंति तंजहा कण्ठेष कर्कंटय षंबह्वय परामरे कण्ठे  
 दीवायणेचैव देवगुत्तिषणारये ततय सलु इमे अहुक्त्वत्तिषपरिव्याययाभवंति तं सीलई ससिद्धारे णगई भगई  
 तिष विदेहे रायागमे वलेतिच तेणंपरिव्यायगा रिउल्वेद जजुञ्जेद सामवेय अह्वणवेद इतिहासपंचमेणं णिग्घंटु

अह्वद्वगामिंएकरात्रिनगरेपञ्चरात्रिरहद कुटीचरेषद्वजपंततालोधलोममोहकाडद छण्णपरिप्राजकतेजगारायणनाभक्तपरिप्राजकविशेष तत्त्वते  
 माहिंणकुनिषद करीदभएषपाठिमात्रणनीत्रातिबंधियापरिप्राजकदंढधारीसत्यानीतीजतिषुयद तेकहद्वहद छण्णः करकटकर षंबहद  
 परामरध छण्णः दीपायनः देवगुप्तः नारदः तेहमाहिंणकुनिषद इमेएष पाठचत्रियजातिबंधीपरिप्राजकदंढधरसत्यासीदुद तेकहद्वहद सोनई



इति केचित् कण्ठाटयः षोडश परित्राजका लोकोत्तरी षडस्यैव जलुब्धेदसामवियत्रहव्वेदन्ति इह पठोवहुवचनलोपदर्शनात् ऋग्वेदयजुर्वेदे सामवेदाथर्ववेदानामिति ह्यं इतिहासपर्यवसर्णन्ति इतिहासपर्यवसर्णन्ति इतिहासः पुराण सृष्टे निगधटुच्छाणंति निर्घण्टो नामकोयः संगोवंगानंति अङ्गानि शिखादीनि उपाङ्गानि तदुक्तप्रपञ्चनपराः प्रवक्ष्या सरहस्याणंति देदम्यर्थयुक्ताना मित्यर्थः चउणह्वेयाणंति व्यक्तं मारयति प्रथापनद्वारेण प्रवर्तकाः सारका वा अन्येषा विस्मृतस्य स्मरणाय पारयन्ति पर्यन्तगामिनः धारयन्ति धारयितुङ्गमाः सङ्गवीनि पङ्कजिदः शिखादिविचारकाः सहितन्तविसारयन्ति कापिलीयन्तपण्डिताः संवाणेति सङ्गाने गणितस्तन्त्रे सपरिनिष्ठिताइति योगः अथ पङ्गानि दशमब्राह्मणं सिक्खाकपेति

छट्टाणं संगोवंगानं सरहस्याणं चउणह्वेदाणं सारका पारगा धारका वारगा सङ्गवीमङ्कितं तविसारदा संखारो सिक्खाकपे वागरणे कंदे शिखरे जोतिसामयणे अणे सुवंगयणमश्रुसत्येसु सुपरिशिद्धताविद्धथा तेषुपरिक्वायगा समहृद नयईर भयईर विदेह्य राजाई राम० बलद तेषुपरिवाजकसत्यासौ ऋग्वेदेर यजुर्वेदेर सामवेदेर अथर्वणवेदेऽ इतिहासपुराणद तेषां च न निर्गंधटनाममालाशास्त्रच्छूः अंगयिखादिकषपांगते इनाप्रयंचप्रबंधते ऋग्वेदेर यजुर्वेदेर सामवेदेर रहस्यभावभेदेतैरइकरीमहित ऋग्वेदादिकच्यारइजेदेतेहना सारकाजिबीसरतुसंभारइ पारकावेदादिकनापारगाभी धारकाहियानीधारणाइकरीधरणहार अशुभभणानंवारइ एअंगनाजाणहइ साठितं वका पिलीयशास्त्रतेहनाविसारदपंडित गणितशास्त्रनाजाण शिखाप्रचरस्वरूपयास्र कल्पशाचारयास्र व्याकरणशब्दलक्षणयास्र कंदपथगययास्र यब्द नौनिरुक्तिपदभंजनयास्र जोनियीशास्त्रदक्षिणाश्रयनउत्तराश्रयनजोतिपमान अनिराप्रवहुवगानास्रगमंत्रधियागास्तनइतिपद सुपरिणिष्ठितापिडुत्या

शिक्षा अक्षररूपनिरूपक शास्त्र कल्पय तथाविधसमाधारनिरूपकं शास्त्र शिवेति शिक्षाकल्पयत्त यत्प्रसक्तप्रमाणे क्व देति पद्यवचनसप्तषण-  
 माक्षे निरुदति मन्दिनरुतिप्रतिपादके नीरसामयकेति ज्योतिषामयने ज्योतिषाक्षे अन्येषु च यद्यप्यंभरणस्यति माझणकेषु च वेद-  
 व्याख्यानरूपेषु शास्त्रेष्वामेयथा वाचनान्तरे परिव्याएसुनएसुत्तिपरिप्राजकसम्बन्धिषु च नयेषु न्यायेषु सुपरिनिब्विया याधि होत्यन्ति सुनिष्ठाता  
 वाप्यभूतिनि वाषवेमापन्ति आख्यान्त कथयन्त पखवेमापन्ति कौषयन्त, परुवेमापन्ति उपपत्तिभि स्यापयन्त चोक्त्वा चोक्त्वायारन्ति चोचाविमलदेह  
 नेपथ्या चोचाचारा निरावज्जव्यरुहारा किमुक्त भवतीत्याह सुईसईसमायारन्ति पभिसेयजलपूयपापेन्ति पभियेकतो जज्ञेन पूयन्ति पविक्षित आत्मा ये

दाणा धर्मंच सोद्यधर्मंच तिरथाभिसेचंच आचवेमाणा पखवेमाणा परुवेमाणा विहरन्ति जखं अम्हकिंचि अंसुई  
 भयति तथं सुदणय मष्टिग्राएअ पवखालिअ सुईभवति एवंखलुअम्ह चोक्त्वा चोक्त्वायारा सुइ सुइसमायाराभवेत्ता  
 अभिसेअजलपूआप्याणो अविग्वेणसग्गामिस्सामो तेसिणं परिव्वायागाणं णोकप्पर अगडंवा तलायंवा णईवा वाविंवा

विख्यातमत्तप्रपानियकरो तेपरिप्राजकसन्धासो दानरूपधर्मजेदानदीजइ शोधरूपधर्मजेषुषिपवितरुधिगइ तोर्धगंगादिविपइपभियेकज्ञान  
 करोजइ आख्यातकइताथका दूभ्रवताथका पूंवावोसथापतायका विहरइविहरंकेग्गामानुग्गामे इमकारतानिचपम्मारैकारं घोठवणओभसुषि  
 पापइवइ तेइसवंसद्वर्णोतेइइकरीनइ सतिकामाटीयइकरीनइ पखालोसधीइयओयकभोसुषिपवितरइइपापजायइ एवंइणइप्रकारइपुणुनिय  
 इकरीनइइपइ चोपानिमंसदेइलेइना चोपओनिमंसलेइनओपाधार सुषिपवित सुषिपवितसस्यगुकारियाचारवंतइंनइ ज्ञानजलइकरीनइ

स्ते तथा अविगच्छेणं विघ्नाभावेन अवच्छं गति अवच्छं क्लृपं वा विंचति वापो चतुरस्रजलाश्रयिशेषः पुष्करिणीवत्ति पुष्करिणी वर्तुलः स एव पुष्करयुक्तो वा दौहिदयवत्ति दौर्घिका सारणी गुंजालियंवत्ति गुष्मालिका वक्रसारणी सरसिवत्ति क्वचिद्व्यथते तत्र महत्तरः सरसीत्युच्यते नयत्य अडाणगमणे णंति न इति यो निषेधः सोऽन्यत्राध्वगमनादित्यर्थः सगडं वेत्यत्र यावत्करण, दिदं दृश्यं रदं वा जाणंवा जुगवा गिक्लिंवा यिक्लिंवा सीयंवेति एतानि च

पुष्करिणींवा दौहिदयंवा गुंजालिञ्चंवा सरंवा सागंवा उगाहित्तए णयत्य अद्याणगमणे षोकप्पइ सगडंवा जाव संदमाणिञ्चंवा दूरुहित्ताणं गच्छित्तए तेभिणं परिव्वायंणं षोकप्पइ आसंवा हृत्थिंवा उडुंवा गोण्णिंवा महिसंवा खरंवा दूरुहित्ताणं गमित्तए तेभिणंपरिव्वायंणं षोकप्पइ नडुपेच्छाइवा जात्र सागह पेच्छाइवा

पवित्तचोषभोआत्माकरीनइ विघ्नपणारहितस्वर्गदेवलोकप्रतिगमिस्वामीजाइस्यापहुचिस्थां तेहपरिआजकडधरसन्वासीनइ नवटइनकल्लै भ्रगड कुआतेइप्रतं तलावप्रतिं नदीप्रतिं वाधिप्रतिं पुष्करिणीवाटुलैआकारिकमलसहित दीर्घलांबीपाणीनीक गुंजालिकावांकीपाणीनासारणि सर मोटओसरोवर सागरसमुद्र अवगाहिवभ्रोमांसिपइसिवभ्रो एतलउविशेष भद्रामार्गइंगमनकरतांपाणीप्रसुपप्राभावइतेहनओभ्रागार वलीनकल्लै सकटगाडूं जावयश्चयीबीजाइबील स्वंदमाणीसुपासणविशेष तेहजपरिदुरुहित्ता चठीनै गच्छित्तएजाइयभ्रो तेहपरिआजकसन्वासीन भकल्पइ असषोडओ तेहप्रतिं हस्तिप्रतिं णंठप्रतिं बलदप्रतिं मच्चिपपाडा तेहप्रतिं गादहप्रतिं तेहजपरिदुरुहित्ताचठीनइ गमित्तजाइवठं यलोपरिआजक सन्वासीनै नकल्ले नाटकनउंजोइवभ्रो जावयश्चयीबीजाइबील मागधपेच्छामगधदेगनभ्रो तथासागधवठुंप्रादिकनभ्रीगांसंभल्लिवभ्रो

प्रागिव व्याख्येयानीति हरियाणनेसणयावन्ति सद्योपगता घटणयावन्ति सद्यन भभणयावन्ति स्तभनमूर्शोरुण खूसणयावन्ति काचित्तत्र खूपनं  
 च्छदादिना पनकादे समाख्यं न लप्याडणयावाउभूजन अयपायाणिवेत्वादिस्त्रे यावत्करणात् प्रयुक्त सीसक रजत जातरूप काच वेडतिय  
 वसखीच कमखीच चारपुटक रौतिका मणि गङ्ग दत्त चर्म चैन सेन गच्छिषीपानि पात्राणि दृग्यानि अखरटाणिवा तदप्यगाराणि मडडण

मिच्छिस्तए तेषिपरिक्वायाण णोकप्यइ हरिआणनेसणतावा घटणतावा लसणतावा लप्याडणतावा  
 करिस्तए तेषिपरिक्वायाणं णोकप्यइ इत्यिकहाइवा भक्तकहाइवा रायकहाइवा चोरकहाइवा  
 जणवयकहाइवा अणत्यादंडंकरिस्तए तेषिणंपरिक्वायाणं णोकप्यइ अयपायाणिवा तल्लभपायाणिवा तंभपायाणिवा  
 जसदपायाणिवा सौसगपायाणिवा रुप्यपायाणिवा सुवस्यपायाणिवा अथयरणिवा वज्जमुक्खाणिवा धारिस्तए णणत्थ

जोइवउ तदपरिमाजकसन्धासीनइदडधरनइ नकल्पइ हरियाण वनखतीआयनइ सेसणतावाकहतापसिबल वदणतावासवर्गटवउ थभणतावा  
 ल अयोकारवधो खूसणयाचस्तादिकेकरीनीलिफूलुगु समारिखउ लप्याडणताउअखिवधोकरिवधो वलीतेपरिमाजकदडधरसग्यासीनइ नकल्पइ  
 खोनीजातिक्खरुणनेपथ्यगारादिकनीकथा भातपाणीवृहसालणादिकनीकथा देसनाभोजनविवाइअगतखावादिक्खरुणकूपनीकथा रात्रसबंधी  
 अतरवदकभठारकोठारनीकथा चोरनीकथा जनपदकेतनाएकदेगतिइसवधिनीकथा एयनयंदंडचयप्रयोजननिनाआळानइंदंडिबउते हरियउ अमापरि  
 वउ तैदपरिमाजकदडधरमन्यासीनइ नकल्पइ अयलोठानापात्रलोठियायाटकादिक तदुपानापात्रकलहीदोधीएइया त्रावानु पात्रभाषुंघाटका

भोगाहं इति च इत्थं तत्रागो लोहं रजतं रूपं जातकं सुरणं कावः पापापत्रिकारः वेडतेत्यति रुडिगस्यं हस्तलोहं निकुटीति यदुच्यते कांश्य-  
 लोहं कांश्यमेव द्वारपुटं सुक्ताशक्तिपुटं रीतिना पोतना अथराणि वा एषां मध्ये एततराणि एतद्व्यतिरिक्तानि वा तथा प्रकाराणि भोजनादि-  
 कार्यकरणसमर्थानि महत्प्रभूतं धनं द्रव्यं मूल्यं गतीं शेषां तानि तत्रा अजावुपाएणंति अलावुपानात् तुखकभाजनादित्यर्थः तथा अथनव्य-  
 यानि चेत्यत्र यावत्करणात् लग्नकन्यनादीनि शैलनव्यनाक्तानि इत्यानि अणगराहं तदप्यगराहं महत्सगसुगाहं इत्येतच्च इत्यमिति प्रस्तावन्तरे

लाडपाएणवा दारुपाएणवा सद्विद्यापाएणा तद्विषयपरिस्वयाणं शोक्प्यइ अथबंध्याणिवा तउअबंध्याणिवा  
 तं बंध्याणि जात्र बहुमुस्त्राणिधारित्तए तद्विषयपरिस्वयाणं शोक्प्यइ श्याविहव्यरागरत्ताइं वत्याइ धारित्तए

जसदनापात्रभाजनवाटकाकलसी आदिक सोसानंपानभाजनविशेषमगधदेशप्रसिद्ध रूपानंरात्रभाजनथालीयाटिकादि सुवर्णनापात्रभाजनभारीवाटका  
 कलसी आदिग अथ राणिथाअनेराइवली देयविशेषइ बहुद्रव्यघणश्रीद्रव्यवइसइइहवा धरिवानियाइंरापिवा अवरवीजश्रीकोइनहीएहकल्पइ लाउ  
 तूं बंधानश्रीपानानाहउमोटश्री दारुलाकडागुंपाल सद्विद्यामाटीनापात्रघडाडिक तदपरिवाजकदंडधरसव्यासीनइ नकलाइ अयलोडानाबंधनतार  
 विशेषतेगइकरीवांधिवुं तत्रानाबंधनतारपाटीविशेषतेणइकरीवांधिवउं लांबानाबंधनतारपाटीविशेषगीलातेणइकरीवांधिवउं जावशब्दपकी  
 बीजाईबील बहुमूल्यसवर्णरूपादिकधरियश्रीनियाइंरापिषभो तच्चपरिवाजकदंडधरसव्यासीनइनकल्पइ नानापकारघणपकारना वर्यं राग  
 चीलमजौठपाललापपतंगकुसंभादिकैकरेरंस्या एहवांवल्लुगुंरापिवानायाइंपोनइ अवरवीजश्रीकोइनहो एकधाउरत्त गीरूधानीप्रंकरोरंयाराता

राय धनपत विं वरादेर वा यानसखयं वान २२

समप मिद सप्तद्वय मस्यैविति णण्य एगाएधाउत्ताएत्ति इह युगलिकवेत्ति श्रेयो ह्यस्य हारादीनि प्राग्वत् नवरं दत्तमुदियाण्यतयति रुठगब्दत्वा  
 दस्य ह्यसाङ्गुलीमुद्रिकादगकमिद्वयं पवित्रण्यति पवित्रकमङ्गुलीपक गथिमवेद्विमूर्त्तिमस्यैविति पत्त्रिमं पत्त्रननिर्बृत्तं मास्यारूपं वेष्टिम  
 मास्यवेष्टननिर्बृत्तं पुष्पक पुसकादि पूरिमं पूरणनिर्बृत्तं वगगनाकाजासकपुरणमयमिति सदातिम सदातननिर्बृत्तं इतरैतरस्य नालप्रविशनेन

एकावलिंवा मुत्तात्रलिंवा कणगावलिंवा  
 तेषिणपरिषायाणं शोक्रप्यइ हारंवा अस्रहारंवा एकावलिंवा मुत्तात्रलिंवा कणगावलिंवा  
 रयणावलिंवा सुरविंवा कंठेमुर्विंवा पालेवंवा तिसरयंवा कडिमुत्तंवा दसमुद्रियाणंतकया कडयाणिता वृडिया  
 णिवा अंगयाणिवा केकराणिवा कंठलागिया सशोडवा चूलासणिंवा पिण्डित्तए णण्यत्य एकेशंतविण्यं पवित्रण्यं

तेह तेहपरिभाजकदडधर सन्यासीनइनकण्डइ हारण्डारसरिणो षड्वारनयसरिनषोनीपनषो एनायकोएकसरिणोषारविशेष मोतीनाहार  
 विशेष सुर्यंनाहार रत्नायलीरत्नयहारविशेष सुरविषाभरणविशेष कंठनद्विपददुरविषाभरणविशेष पालयभूमण्डं त्रिणिसरिनषोषारविशेष  
 कडिमउकण्ठोरषो दसमुद्रिकापांगुलीनाषाभरणचनकषाभरणविशेष कटकसीनारूपानांवल्य त्रुटितवद्विरपा भगटवांङगाषाभरणविशेष केयूरवाजू  
 वधषाभरणविशेष शुभनकाननाषाभरणविशेष सुकटमस्तकद्वं पद्विरवानषो वूनामणिषाभरणविशेष पद्विरवषोशरीरनद्विपद्वनद्वीषनेरषोकोद एकना  
 वानीनीपनी पवित्रीषांगुलीनषोषाभरण वलीतेपरिभाजकदडधरसन्यासीनइ नकण्डइ गांधीफूलनीमालादिक वेठिमफूलनोमालानौपायषोनाइषा  
 दिकपूरीनीपाविषउ गरीसलाका जालीनीपरिभरिषउ ससुदायनीपनचषनेरीरमालानैप्रवेसदकरीसंषउ एदण्यारइपकारनी माल्यमालादिकउ धरियउ

मक्तेति माल्यानि मालायां साधूनि तस्यै हितानि वेति पुष्याणोत्यर्थः काश्रूरयेणति कर्षप्रकः पुष्यमयः कर्णाभरणविशेषः मागहएपत्यएत्तिदोशसइ  
 श्रीपसइदोहिंपसइहिसेइयाहोइचसेइयोश्रीउकुलश्रीचउकुलश्रीपत्यश्रीहोइचउपत्यमाढयंतचत्तारियमाढयाभवेदोशोइत्यादि मानलक्षणलचितो  
 मागधप्रस्थः सेवियवहमाणएत्ति तदपि च जलं वहनान नद्यादिश्रीतोवर्त्तिव्याप्रियमाणं वा थिमिश्रीदएत्ति स्त्रिमितोदकं यस्याऽधः कईमी नास्ति

तेसिणंपरिव्वायाणं शोकप्यइ गंथिमत्रेडिम पूरिम संघातिस चउव्विहे मल्लेधारित्तए गणत्थय एक्केणंक्खपूरेणं तेसिणं  
 परिव्वायाणं शोकप्यइ अगलूणवा चंदणेणवा कुंकुमेणवा गाथंअणुलिंपित्तए गणत्थय एक्काएगंगामड्डिआए तेसिणं  
 परिव्वायाणंक्खप्यइ मागहएप्रथए जलस्सपडिगाहित्तए सेवियवहमाणे शोचेवणंअवहमाणे सेवियथिमिश्रीदए शोचे

पहिरवळं नक्षीअनेरओकोई एककर्षप्रूरफूलनश्रीकाननश्रीआभरणविशेष तेहपरिव्राजकदंडधरसत्यासीनइ नकल्यै नचटइ अगरूपूर्वदेशादिक  
 संबंधीतिणइकरी चंदनसूकडप्रसुखतेणइकरी कुंकुमकेसरप्रसुखतेणइकरी गालयरोरअणुलिपवउविलेपनकरिवओ नक्षीअनेरउकोइएक गंगानदी  
 नीमाटी गीपीचंदनादिक वलीतिपरिव्राजकदंडधरसत्यासीनइकल्पइ मगधदेशसंबंधीपाथउएकमानविशेष पांणीनुंपडिगाहिवउंअतिशयस्युंअहिवउं  
 तेपुणचहितउनदीयादिकप्रवाचनुंवावरीतउ पुणतेनहीजिअणवउततलाव कूआवाविसंबंधी वलीतेपण्णियमतउदकजपांणीनइनीचइकादमनथी  
 पुणतेहनलेवळंजिकादिसहितपांणीडइलउइइ तेपुणवलीकल्पइबहुप्रसन्नपतिआच्छंउंनिर्मलपुणतेहनलेवुं जेअवहुप्रसणअतिमइलउडहुल्यश्री तेपुण  
 परिपूरितवस्त्रइकरीनगलइ पुणतेनलेवओजिअपूरितवस्त्रइकरीनगलउनइइ तेपुणवलीदिनेमनुष्यादिकइदत्तदीधउंआप्यउं पुणतेनलेवउंजेअदिने

बहुपमचेति बहुपमश्च मतिवृत्त परिपूरति परिपूरण वल्लेण गच्छितं पितृसपत्ति पातं च बहुपमसत्ति चतुः स्थानीविशेषमसौ दब्धिक्षिति १२७  
 वण कर्हमोए सेविअबहुपसखेणोवेवणं अत्रवहुपसखे सेविअपरिपूतेयोचेवण अपरिपूते सेविअणदिण योचेवणं  
 अदिखे सेविअपिबित्तए योचेवण इतरपायचरुचमसंपक्खालाणङ्काए सिणाइत्तएवा तेसिणंपरिव्वायाणकप्पइ मागहए  
 अद्दाटए जलस्सुपडिगाहित्तए सेवियवहमाणे योचेवण अत्रहमाणे जावणोचेवण अदिण्ये सेवियहयपायचरुचंसा  
 स पक्खालाणङ्कयाइए योचेवणंपिबइवा तेणंपरिव्वाया एयारूवेणं विहरमाणं बहूइवासाइंपरियाइंपाउ

पदसमनुष्यादिकककन यषदोषठ तेपुणनियइपीइवानिमजइ परनइोनियइकरोनइइयाथपगचकथानीइइकोचमंदीर्घ काचाट्ठीएतलायानाअतिमय  
 सुपयाविवाधीइवाभणो खानअगोइक्षिभणीपुण यथांतेइपरिमाजकदंउधरसन्वासीनइकलइ मगधेइमसव धीअइंआठपोमानविशेष जलपाणि  
 नउपडिगाहिवसीपतिगयप गृहिवसो तेपुणवसोवइतउनदोयादिकसव धोवावरोतठ पुणतेइनखेवपोजेसइतसीवाविभूयातलावसरसव धी जाय  
 मण्यकीअनीरावाज पुणतेइभनवउलअदिअपणदोषठ मनुष्यादिके तेपुणनियइइयाथपगचकथानीइइकोचमंआट्ठीमसुपउपगरणइअतिमयउ पयावि  
 नाधाइभाभणो परनियइकरोनहीपीवानमित्तइतथा तेपरिमाजकदंउधरसन्वासीनइ तेइपूर्वइव्यरूपअइवउजेतेणइ विहारकारइकरणोअर्त्तंअइतररे  
 विवरताप्रवर्त्ताता बहुअणाइकवरसंवल्लरसगोपर्यायअतगृह्णातेपानइप्रतिपामइ बहुअणाइकयरससगोपर्यायअतगृह्णसव धीपानीनइ कालमरणतेइना  
 अममनइविपइमरणकरीनइ अल्लउषअ आइतपीअल्लोअपावमकअदेवकोत्तनइविपइ देवतापणइ देवसभानइविपइययाजपरिलेयउइइलइइ

अतिमय उ पयावि



टीका

२७८

सत्र

बाला  
कीर्ति

प्रथमे चरकपरिवाजका नल्लोको गतामृदुपदर्थनिनाऽधिष्ठातार्थं समर्थयन्नाह तेषमित्यादि व्यक्तं नवरं जेष्ठासूत्रमाससिद्धिं ज्येष्ठासूत्रं वा नचत्  
 पोष्यमासां यत् स्यात् त ज्येष्ठासूत्रो मासः ज्येष्ठद्वत्यर्थः अगामियाएति अविद्यमानयामायाः छिन्नायाएति छिन्ना व्यवच्छिन्नाः आपाताः सार्ध-  
 गोष्ठ्यादिसम्पाताः यस्यां ता तथा तस्याः ही इमबाएति दीर्घाह्नः दीर्घमार्गाया इत्यर्थः सहाविति गन्धयन्ति सभापले मन्त्रागविसगति मार्गं  
 र्णति बहून् इवासाइपरियाइपाउणि ता कालमासे कालं किञ्चा उक्तौ से गर्भवन्तो एकमे देवताए उववन्तौ भवन्ति  
 तेहिं तो सिं गई दससागरो वमाइठिईपण ता से मंतं वेवर छ तेगं नालेणं तेणं स मएणं अस्स उस्स परिआयगत्स सत्त  
 अंतेवासिसयाइ गिरुहकालसमयंसि जेष्ठासूत्रमासं चि गंगाए मङ्गानई एओ उभउकले कं पिस्सुपुरा तोयगराओ पुरि  
 मतालंगगरं संपत्तिआविहाराए तएणं तेसिं परिव्यागणं तीसे अगानियाए छियोनायाए दोहलङ्काए अउवोए  
 तिहाते देवतानो गतजाइवउं हुइ दशसागरोपमनीयि तिआजपउं पन्नत्ताकल्लउं तोर्धं करगधरादि कइइदगणोडा तोउिपयोपनइएकसागरोपनइइ जेप  
 धाकतावीषपूर्विली परिजाणिया तिणिजालि तिणिसमइ अत्ताउपरिवाजकं उधरसत्तासीनइ सातमइ अंतियतोपिनासणहारिण्य ग्रीयत्तान  
 टनीविपइ कापिमपुरनाम नगरजिहां करनहोति ह्यनी पुरिसतालानं मनगरपतिं संपट्टियासत्सत्तपत्ताइगाल्यादिफारुमसिद्धिचरिउं जमउक्तेण विहुं गुणत  
 तिवारपक्कीते परिवाजकं उधरसत्तासीनइ तेहागामिकजिहांगं मोइविचानइइइइही विअक्के हाणं कइ पापानमानयागो कनवुं जिहां दीर्घ

किंचिदेव तदस्युपत्ताय से प्रवृत्तगृह्येण उदए अणुपुञ्जेषु परिभुंजसाणे ऋत्वीणे तएणंतेपरिव्याया ऋत्वीणोदकासमागा  
तएहाए पारभवसायापार२ उदगदातारसपस्ससाणा अणुसणं सहावेति अणुसणं सहावित्ता एवंवयासौ एव  
खलु देवाणुप्पिया अरुहइमीसे अगामियाए जाव अडवौएग विदेसंतरनणुपत्ताय से उदए जाव ऋत्वीणे तसेयं  
खलु, देवाणुप्पिया अरुहइमीसे अगामियाए जाव अडवौए उदगदातारसु सव्वओसंता सगणयगत्रेसयकरित्ता

मोटवखेपहामांगंजिहा एहवीपटवोनइपियइ काइअदेगयोखोरकसोधरतीइते इवतापाम्याएतअइ ते पूर्वइगृहिसव्वीधओसु तपोनेउदकपाणीते पयुअमइ  
अतिगयणु भोगयतापाणीयावटिता ऋत्वीसंवयापपओ तिवारपळीतप रेप्राजकदडधरसव्यासी म्मीशोदकापटाइपप्यइपाणीइं धयाइ उपायइ करी  
परामव्यापोळा उदकपाणीते चनप्रीदातारदेणहारतेहनइ पवय्यमाणाअणुदेयता धयोपव्यइसांढोनाधिसहावेइतितेउराएकठामेसइ धन्योपव्यइसांढो  
साधिएकठामेओमइ एहवउ नइताइवा एवएणोपरइ नियइअहोदेवाउप्पिया मरनव्यभानवंत अम्हिएहअणाभिकजिणुंगांसायासनइ विपइ जावधोवीजाइ  
वोन एहवीपटवीनइविपइ काइकदेसधरतीनुंयोउउसओविभागअणुपत्तापामाळे ते पूर्वइनीधउ इनु जे उदकपाणीजावधोवीपनेरावोन ऋत्वीणितेपाणी  
पूटओ तेइकारणभणोत्रेयकल्याणखलु नियइअहोदेवानुपियहरनखभाय अम्हनइएहअमियाजेअनइ विपइगंमनपामियइ जावगअ्यकोअनेराइंयोक  
एहवीपटवीउगाळनइविपइ उदकपाणीनउदातारतेहनउ सर्वओसंतासवंदिसिविदिमिनइविपइ मार्गंणजोइवउगधेपणुगवंपचं करइ एहपु करीनइ  
धन्योपव्यसांढोमाधिसह्नइधंतातमीपइएहवउअर्धं जेगधेपणाकरइअतिगयसु सांभअइ अतिगयसुंसांभलीनइ तेचअगामियाजिअंगांमनजधियपू जाव

वान्वयधर्मैरन्येषां च व्यतिरेकधर्मैस्त्वेषां भवेत्ति मार्गणं गवेषणं सादृञ्चतएत्ति स्वादयितुं भोक्तुमित्यर्थः त्वत्तु, अदित्रंमाप्रञ्जित्तएत्ति पाठा  
 खलु संजित्तएत्ति भोक्तुं साएल्लित्तएत्ति भोजयितुं भुञ्जानं वा ऽनुभोदयितुं व्याख्येयं तदिदंउएत्ति नयाणां दण्डमाना समाहारा स्त्रिदण्डकानि

कट्टु अणमणस्यस्यत्रैति ए एत्रमठ्टं पडिसु गंतंति अंरंता तीसे अगामियाए जाव अडवौए उदगदातारस्य सव्वओससंता  
 मगणगवेषणंकरे इकरित्ता उदगदातारमलभमाणा दोसंपि अणमणं महावेइसहावेत्ता एवंवयासो इहणं  
 देवाणुप्यया उदगदातारोणत्थितंणोखलुकपइ अरुहअदिणं गिरुहेतए अदिणंसतिजित्तए तंसाणं अरुहेइइदाणिं  
 आवइ कालंपिअदिणं गिरुहामो अदिणंसादिज्जामो साणंअरुहंतवलोपेधविस्सुइ तंसेयंखलु अरुहेदेवाणुप्यया

शब्दयकौबीजाईबील एहवीप्रठीनइधियइ उदगपांणोनादातारहेणहारनौ सवंपोससंतानु सर्दिगिनइधियइ सार्यंजोइउंगजेपणगवेपउउं करइ  
 गवेषणाकरोनइ उदगपांणीनादातारहेणहारनइरणनइता बीजोपारपुण पत्थोप्रत्थमांजोसाधिंमर्व तेडापइजीनापइ तेडा तीमोला तीमइ एदइउं  
 कइताइया इहणं एअठवीजजाडिनइपिपइअरुहेयागुप्यिसरलस्वभापवचन उदगपाणीनादातारहेणहारनयोदोसतासर्वेयापुण तेहकारणभणो न  
 कल्पइनषटइखलुत्तिय इमहित अरुहइअदत्तपणदोधोभागादिउउं भागादिउउं भागादिउउं अदत्तपणदोधोभागादिउउं तेइत्तारणभणोपइइनइसपुयोत्तिया  
 आपदाकालकष्टभावाव्यश्रयअइअदत्तपणदोधं गदिउउं लेउउं अदिणपणदोधउं आत्तादिउउं भागादिउउं अदत्तपणदोधोभागादिउउं भागादिउउं भागादिउउं  
 तेसामधुज्योमथाइस्यभा तांताणकारणिं जेयक्याणागलुनिचे मत्तितपहोदेवानुप्ययासरलस्वभागापचन विगिदं, प्रसिठु, उउत्तिमाकमंडल, जंभिन

राव प्रवपन विदु अदित्रं मा प्रञ्जित्त एत्ति पाठा २८

कुडियाशोयति कमण्डलु कचणियाशोयति काञ्चनिका रुद्राक्षमयसाविका करोडियाशोयति करोटिकाः नृपमयभाजनविशेषा भिवियाशोयति वृषिका  
 उपवेगमपट्टिका लखात्रय पत्रात्रकानि त्रिकाठिका भंकुसएयति यदुगका देशार्थं वृषपत्रवाक्यार्थं अदुगका केसरियाशोयति  
 केसरिका प्रमाळं नार्थानि शीतरुण्डानि पथितएयति पठिकाणि ताम्रमयान्यदु, लोयजानि गणित्तिवाशोयति गणित्तिकाः चक्राभरणविशेष

टीका

२८१

तिदडय कुंडियाशोय कचणियाशोय करोडियाशोय मिसियाशोय कृणालएय अ कुसएय केसरीयाशोय पवित्रएय  
 गणित्तियाशोय कृतएय वीरुणाशोय पात्राशोय घातरत्ताशोय एगंतेपडित्ता गंगामहाण्डं लगाडित्तावालु ग्रसंधा  
 रएसंधरित्ता सलेहखान्कशोसियाणं भक्तपाणयाद्रुपचक्रिचक्षणं पाद्रुशोवगयाणं कालं अणवकंक्खमाणाणं निहरित्तए

एव

कारुद्राक्षनोमान् ३ करोडियामाटीशु भाजनविशेष ४ गूदवदखिवानीपाटली ५ कृत्रात्रयदिकाठका ६ यकुगसुचनाफलपूजपांनलेवानेप्रबंधं ७ केसरी  
 याशोवरानाखडप्रमालिंबानद्रुपबंधं ८ पवित्रीकाबानीपांगुलीनउभाभरण ९ गणित्तिकाहाथनेवियेकलाधिकानउ भाभरण १० कृत्रमस्तकधरिवानउ ११  
 वाहशीपगनी १२ पाठशीपद्विरवानी १३ धातरत्तागीरुवानीयद्रुपडगालूगुडार १४ एकांतदेशनद्रुवियेपठितानापीनद्रु गंगापामगडामोटीनदीप्रति  
 अगगाशोमाहिष्ठेठाकतरीनईवालुकामिबूतेहनउसंधारेवाधरशो संधारीयाधरीनद्रुं यक्षीपयागरीरपातलउपडिबुंभूसुणातिर्वापाकायापियशो भात  
 ययादिकपांशीएसेठु तेहनउअतिशयसंपविषियिशोपरिहरियशो पादियोपगमिंहचनीपरिप्रतिकठिनताकासमरण यणवकंक्खमाणाण भणवार्थित्तशो  
 अभिनायशरतशो विहरन विहरउ इतिएउपुठ करीनद्रु अन्वोअन्वमाडीमाधिघसुनद्रु अंतिसमीपद्रु एउअर्थनेपापणसयारउकरैतेवातअतिशयसु गाम

यावा

वोच

एतन्नाथु पानहय प्रतीताः धातरत्ता प्रीथन्ति धातरत्ता गौरिकोपरञ्जिताः श्राटिका इति गम्यं पडिसुणेत्ति प्रतिशुखन्त्यथु पगच्छन्ति सम्मालियं  
 कानिसन्नन्ति सम्मर्यङ्गुः पश्चासनं प्राणातिपातादिद्याख्या पूर्ववत् गरोरविशेषणयाख्या त्वेवं दृष्टन्ति जलभं कंतन्ति कान्तं काम्यत्वात् पियन्ति प्रियं  
 चिकटु न्त्रणमण्यस्स अंति ए एषमड्डं पडिसुणंति अणमण्यस्स अंति ए पडिसुणिता तिट्ठएय जाव एगंतेपडेइ २ गंगामहा  
 णईउगाहेइगात्ता वेलू अांधारएसंधरंति वालयासंधारं दुषहंतित्रात्ता पुरत्यासिमुहा संपलियं कानिसन्ना  
 करययजाव कट्टु, एवंवयासौ यामोत्युणं अरहंताणं जाव संपत्ताणं नमोत्युणं सजगत्सुमगवओ महावीरस्स जाव  
 संपाविउकामस्स नमोत्युणं अम्मड्डस्सपरिवायगस्स अरुहंधस्सायिरियस्स धम्मोवदेसगस्स पुव्वेणं अम्हे अम्मड्डस्स

लद्वकाननइविपइ अन्वी प्रत्यमांडोमांदिस्सहनइअंतिसमीपइ प्रतिगप्पसुंसांभलीकाननइविपइ त्रिणिदडपसिष जावथीवीजाईवील एकांतप्रदेग  
 नइविपइपडइनापइ गंगामहानदोमहामीटीनदीपतइप्रवगाइमाहिजतरत्तइतरीनइ वेलू प्राविल्लूनासंधारीयाधरीनइ तेवालुकाविलनासंधारा  
 जपरि दुरुहंतिवइसइजपरीबधूसीनइ पुरिस्सापूर्वदिसनइप्रभिसुखसांसुधा संपलियं क० पालठीवालीनइवइठा करतलहाथवेजीडीनइ जावगब्दइ  
 बीजाईवील एहवउं कहीनइ एहवउं कइताइया यामोत्युणं नमस्कारहुयो अरिउंतकर्मवइरीचय्यातिभयो जानगन्दथजोवीजा० संप्राप्तमोचप्रतिसम्यक्  
 प्रतारैनमस्कारहुज्यो यमण भगयंत महावीरने जावगब्दथकीणमोत्युणासंधं जेइभगवंतनइकर्मचयकरीमोच्चनाकामनाउच्छइइहनइ वलीनमीत्युणं  
 नमस्कारहुज्यो अम्मड्डनांसपरिवाजकदंडधरधन्यासीतेचनइ अगहारउधर्माचार्यधर्ममंनं धीमन्तार्यअन्तरात्ताम धर्ममन्तरपदेगकभ्रिणकारिणिधर्मियरासहित

परिव्यायगस्तु अंति ए थूलगपाणाद्वा ए पञ्चक्ला ए जावज्जीवा ए मसावा ए अद्रिणादाणंपञ्चक्ला ए जावज्जीवा ए सञ्जे  
 मेङ्गणेपञ्चक्ला ए जावज्जीवा ए थूल ए परिगहे पञ्चक्ला ए जावज्जीवा ए इदाणि अन्हे स मणसु भगवधो महावीरसु  
 अंतियं सखं पाणाद्वा यं पञ्चक्लामो जावज्जीवा ए एव जावसय परिगह पञ्चक्लामो जावज्जीवा ए सखं कोहं माणं  
 मायं लोह पेज्जं दोसं कलध अन्भवक्लाण पेसुखं परपरिवायं अरइरइ मायासोमं सिच्छादंसणसंभ्रं अकरणिज्जं

देपाडाठ पूर्वइ पुणप्रतथादिरवानइ पयसरइ पुणयग्हे पणउनामापरिभाजकमन्यासोनइ अतिसमोपइ धूसमोटकायें द्रियादिकप्राणजोवनसो भतिपाति  
 चणपठपचत्त्यरनिवर्त्साव्यरहे जाजीविइतालगइ धूसमोटिकापांचगयावादादभूठबोलियातेपचया धूसपदत्तजिणखोधइषोरीलागइतेपणदीधठ  
 खेवठं तिइपचयु निवर्त्साविठहे जाजीविइतालगइ सर्वमैयुनविषयसेवाषोदारिकवैक्रियभेददकरीनइतेपचयु इइनिधत्ताव्यठइ जाजीविइतालगइ  
 धूसमोटिकठपरिपचमुत्सांधरोराविबठतेपविषयसोनिवर्त्साव्यठइ जाजीयोइतालगइ द्विवळापुणनियइसहितभन्हे यमण भगवत महावीरनइ प ति  
 समोपइ सर्वमनवचनकायाइं करोकरणकरायणसुमोदमभेदइप्राणातिपातिजोवगोहिसापचख्याणैतेइसाधि नियर्त्साव्यइजाजीविइतालगइ एवएणो  
 प्रकाटिजायगदइकोपरियइपचख्यपोखइ जाजीविइतालगइं सखंक्रोधरीस सर्वमानपभिमान मायाधवना सोभवाळारूप मेमछेइरूप हेपपमोति  
 खचण कलइवचनसु विवाद अशभपटनइ पाखसु देवउं पैश्यांपारकीपाठीकरवी परपरिवादापारकोपवादावोवियसो संयमनइविपे सरतिपसता  
 पसयमनेविपे रतिमायाकरोनेमयाभूठउ बोक्रियसो मियाजूठउं दर्गंनदेपवठ तेइरूपयस्यहे कुगुडुदेवकुधमंउ सर्दिचिउठ तेसर्वपूर्वोक्तयोक्तनो

सदा प्रेमावषयत्वात् मणुष्यंति मनोत्रं सुन्दरमित्यर्थः मणामिति मनसा अश्रयते प्राप्यते पुनः पुनः संस्कारणतो यत्तत्पनीमा पेज्जंति सर्वपदार्थानां मध्ये अतिशयेन प्रियत्वात् प्रेयः प्रकर्षेण वा इज्या पूजाऽऽस्थिति प्रेज्यं प्रेथं वा कालान्तरनयनात् थेज्जंति कापित्तल स्वेथं अस्थिरेऽपि मूढैः स्वेथं समारोपणात् वेसासियंति विश्वासः प्रयोजमस्थेति वैश्वासिकं परशरीर मेव हि प्रायेणाविश्वासहेतुभवेतीति सस्यतं तरुतकार्योणां समस्तत्वात् बहुमर्थति बहुशो बहूनां मध्ये मतमिष्टं यत्तद्बहुमतं अणुमर्थति वैगुण्यदर्शनस्यापि पद्यान्मतं भंडकरंडगसमायुति आभरणकरणकतुल्य सुपादेयमित्यर्थः तथा माणंसियमित्यादि व्यक्तं नवरं माशब्दो निषेधार्थः षड्द्वारो वाक्यालपारार्थः इह च एणुश्रुत्विति यथागोशं योजनीयं अथवा

जोगपद्मकखामो जावज्जीवाए सब्बअसणंपाणं खाइमंसाइअं चओव्विहंपिआहारं पच्चक्खामो जावज्जीवाए जंपि यइमंसरीर इड्डं कंतंपियं मणुष्यं मणामं थेज्जं वेसासियं समंतं वड्डमतं अणुमतं अंडकरंडकससाणं साणंसौयं साणलुणहं साणंखुहा साणंपिवासा साणंवाला साणंदंसा साणंससागा साणंवातिय पित्तियं संनिवाइय

पच्चक्खाणकरिवओ जांजौविइतांलगइ सर्वसगलउ असनभातिघीवाभिप्रसुतु पांणोकम्हउगमुत्तु आदिमत्रंघडुफलादिक स्वादिमएलचीलवंगंतं बीलादिक पूर्वोक्त्यादिप्रकारनओआहार असन१पांन२खादिम३सादिम४ पचपुंउंपरिहरउंछउं जांजोविगइतीलगइ जेपुणतिपरमहितएहवा शरीरमाहरउछइपुण इष्टवत्तभ कंतकमनोय प्रियप्रेम मनोजसुंदर मनइकरीयारवारअरियइ अथिरउंपणिसूठविरकरीजाणइ विगासजपजि वातुंहेतुछइ समंततेहेते कार्यकरियाशकी बहुमतघणालोकिनइइछइ इ विगणजाणोपछइमतकीधउए उतमज अमूलजनमुपरतीइना तरंडिया

मारुति मा एतच्छरीरमिति व्याख्येय मारुणं वासुति व्याजां स्वापद्मुजगा रोगा कालमहाव्याधय पातङ्गाष्टएष सदोपातिन' परीसद्योवसगति परी  
 पडा' शुनादयो दार्विगति उपपत्तौदिव्याधय पुमठ स्यन्तु इतिकहुति इति क्त्वा इत्येवमभिसन्धाय यत्प्राक्तितमिति शेष' एयपिणत्ति एतदपि  
 शरीर वोमिरामिति कट्टु इयव तिकहुत्ति इति क्त्वा इति व्यवसर्जन विधाय विहरतीति योग सखेइनाम्भूसियत्ति सन्धेयना शरीरस्य तपसा  
 लगीकरणं तां तथा या भूमियति जुष्टा वेविता ये ते तथा सखेइया लोपणा भूमियति क्वचित् तत्र सखेइनायां कपायशरीरलगीकरणे या  
 लोपणा प्रीति मेधा वा शुपीनोतिवेवनीयो रितिषचनाक्त्वा तथा तथा तां या ये जुष्टा सेविताक्ते तथा संखेइना लोपणायावाभूमूसियत्ति भूमिता'  
 लोपणा ये ते तथा भसपाणपडिशाइन्वियत्ति प्रत्याख्यातभक्षणाना पाओवगया पादपीपगता सुचवन्निखन्दतयावस्थिता इत्यर्थं काल अणवकण्ड

विविहारोगतकापरौसहोवसगगाफुसंतुत्तिकट्टु एतंपिणंवरमेहिं क्त्वासखीसासेहिं वोसिरामित्तिकट्टु संखेइया

समानयसभइइ सीतताठिरयेमुक्तनइपरामभवइ इथाभूपरयेमुक्तनइपरामभवइ पिपासाटयारयेमुक्तनइपरामभवइ व्याल सर्परयेसु  
 अतइपरामभवइ शोरयेमुक्तनइपरामभवइ लोसवविगेपरयेमुक्तनइपरामभवइ मसगामसानीजातिपयेकविगेपरयेमुक्तनइपरामभवइ वायुप्रकीपरयेमुक्तनइपरा  
 भारकरइ पिताप्रकीपरयेमुक्तनइपरामभवकरइ से अप्रकीपरयेमुक्तनइपरामभवइ एपूर्वोक्तविधिनानाप्रकारनारोगफल्यतासंबधोपातक ततकातनाघात  
 करणशरगूनादिकपुधादिकवावीमपरीसइउपसर्गदेवादिक्त्वा प्रप्रकारनामफरिसखीसाहाराशरीरवियइएहयउ करीनइशरीरनीममताधरियु तेइएप्रत्य  
 यशरीरपूर्विव्याख्यउतेइवरिमवेइनइ लजाएव वउलीजेतेइनिस्त्रासनीचउमू किइते वोसरिवघो एहवुं करीनइ तपइतरीशरीरद्रूपसु करियउतेसखी



माणति मरणमनवकाङ्क्षन्तः आकाङ्क्षन्ति हि मरणमतिकष्टगताः केचनेति तन्निषेध उक्तः अणसणाएच्छेद्विति अनशनेन व्यवच्छिन्दन्ति परिहरन्तीत्यर्थः एते च यथापि देशविरतिमन्त स्तथापि परिव्राजकक्रियया ब्रह्मलोकं गता इत्यवसेय मन्व्यैतद्गणं ह्यथैवस्याद्देशविरतिफलं त्वेषां परलोकाराधकत्वात् त्वेति न च ब्रह्मलोकगमनं परिव्राजकक्रियाफलं भेषा भेवीच्यते अन्वेषामपि मिथाह्वयां कपिलप्रभृतीनां तस्योक्तत्वादिति १३ कः

ज्भूसूया ज्भूसूया भक्तपायापडियद्द्विखया पात्रो गया कालं अणवकंखसाणाविहरंति तएणंतेपरिव्वाया वज्जइंसत्ता इअणसणाएच्छे तितिच्छेवित्ता अलोइयपडिङ्गंतो सभाहिपत्ता कालभासेकालं किञ्चा बंभलोएक्ष्णो देवत्ताएउव वणा तेहिंतेसिंगई दससागरोवभाइं ठिईपन्नत्ता परलोगत्सआराहगा सेसंतंचेव १३ वज्जजणेणंभंते अणसस्यसू

पया भूसूयातेहगुंभेविवउं तेभेवताहया भातअन्नादिकापांणीजग्हउं फासुतीह प्रतिशयसंपचथापरिहया पादपोपगमनहचनौजालिकापीपडानीउप माइंसूता कालमरणअलवाकताथकाविहरइद्विचरइहइद तिवारपछीतेपरिव्राजकदंडधरसन्वासी वपुइचणाइकभातयत्नादिजनशीलेवउते अणसणइअन्नपरिहरवइकरीनइ छेइइपरिहरइ तेछेदोपरिहरोनइ आलीयांपापलागतेसिद्वादिकआगलिप्रकाश्यापडिकस्यामिच्छादुकाडादिकइसमाधिगरीरइंसमाधितयाज्ञानदर्शनचारित्रनीनिविघ्नगतंपामरुक्के कालभासेमरणनाश्रवसरनइद्विपइकालमरणकरीने ब्रह्मलोकनांभापांवमुकल्पदेवलोकतेहनेविये देवतापणइजपनाउपपातसभानैवियै तिण्णियानकनइयियेतेहजीउनीगतिजइनेजपजिवउ दगकोडाकोडिपल्योपमेएकसागरोपम एहयादससागरोपमनीथितिआजपइरुहत्तइपन्नताकछातीथिंकारइरणधरै परलोग परभवियीजिनधर्मनोप्राप्तिनाश्राधकपामणहार शेषपूर्वोक्तबोद्धथाकतातिमजजाणिवार १३ कः

एवमाद्रक्त्वंति एवंभासद् एवंपुरुवेद् एवंखलु अथछेपरिख्याए कपिल्लपुरेण्यरे घरासते आहारमाहरेति घरासतेव  
 सहिच तेतिसेकहमेयंभते एवंगोयमा जख सेवङ्गजयो अणमखसुएवमाद्रक्त्वा जव एवपुरुवेति एवखलु अ  
 मडेपरिख्याए कपिल्लपुरे जाव घरासते वसहि चवेइसक्खेणंसमडे अहपिणगोयमा एवमाद्रक्त्वा नि जाव एवपुरुवेमि एव  
 खलु अस्मडेपरिख्यायाए जाव सहि उववेसेकेण्डेणंभते एवंवुच्चद् अग्गडेपरिख्यायाए जाव वसहिं लवेइ गोयमा अस्मड

वहुजनघणाइकजनलोकगामागरनगरादिकसबधीभतेहेभगवन अन्वो प्रत्येपरस्सरें माघीमासिसप्तद् एवंथाइकडद् एइवसोपतिमयसुंकरेछे  
 एइवु भापेवधनेसोलेछे एइवसोचपदेशुविमप्रपियेजथावे एवइयेमकारइअनुनिचइअन्नाइएइवइनामइपरिभालकदेउधरसन्वामी कपिलपुरेएइवइ  
 नामइनगरजिषोकरनइतेइनइविपइ एकसचचरगुहस्यनातिइा आहारचयनपानखादिमपाहारकरेइइ एकसउधरठइस्यनातेइनेविपे  
 यसतिवसिषो धारइनु पोठवठकरइइइ तेएइवत्ताभतेहेभगवन कइस्यु करीमानठं भगवंतकइइइ इमजहेगीतम केइतेवहुजनघणासोकापामा-  
 गरनगरादिकसवधो अन्वोअन्यपरस्सरमाघीमासिदिएइवु पतिमयसु आइकडइइ जावयोयीजवोक इमएकपइ परपदामासिवइठादेपाहु छठं  
 एवंएणीप्रकारइखलुनियसुंभंयडनामापरिभालकडधरसन्वामी कपिलपुरेनगराइविपइ जायम्यथीवीजाईनीच एकसोषरतेएगइविपइवस  
 तिषिसिषठंरइवठ करइइइ सत्वसासु जएइअर्थएन्तेतोकोककइइइइ पू पिषनियसहित एइवठयोवीरकहेहेगीतमठशमथिथएइषठं समंतागुक  
 उठ छठ जायम्यथोवीजावीज परुपइपरपदामासिइइइपाहु लु एइवु कडियइइइ अथाउपरिभालकडधरसन्वामीसो नइ जायम्यथकोवीजाईवील

इहैवज्ञातात्तरमाह बहुजणेषमित्यादि व्यक्तं नवरं पगइभइयाए इत्यत्र यावत्करणादिदं दृश्यं पगइउउउसंतयाएपगइतएकीहमाणमोहलोहयाएसिउ  
मइवसंपखयाएअक्कीययाएभइयाएसि व्याख्या प्राग्वत् अनिक्खित्तेणंति अविद्यान्ते न पगिक्खियत्ति प्रगृह्य विधावेत्यर्थः परिणामेणंति जीवपरिचय्या  
अक्कावसाणेहिंति मनोविशेषैः लेसाहंति तेजोलिखादिकाभिः तदावरणिज्जाणत दीर्घान्तराग वेक्किगलअप्पामिनिमित्तानधिजानावरणाना

स्सणंपरिव्वायगस्स पगइभइयाए जाव विणीयाए छट्ठं छट्ठेणं अतिक्खित्तेणं तवोकम्भेणंउहुं वाहाओ पगिक्खियत्तस्सुराभि  
सुहस्स आतावणभूमौए आतावेसाणस्स रुभेणंपरिणासेणं पसत्थेहिं लेसाहिं विसुवभमाणीहिं अन्नयाकयाइ तदा  
वरणिज्जाणं कम्मणंज्जाणंकम्मणंखओवसमेणं ईहाथहामगागवेसणकरेसाणस्स वौरियलद्धौए वेउच्चियत्तद्धौए

वसतगृहस्थनेघरेवासओकरइ सेतेकेणइभर्थ इपयोजनइभंतेहेभगवन एहवुंकाहीयइएक्कइ पसडनामपरिव्राजकसन्धासौ जागयन्द्योवोजाईबोल वसत  
गृहस्थनेघरेनासउकरइ भगवंतकहैगौतम असाडनाम परिव्राजकसन्धासौने' गल्लतिस्सभावेभेजभद्रपरिणामैकरो जावगन्द्य भीवीजावील धिनयपणेकरीने  
एक्कइविउपवास करवे विचालैतपमू'क्खिवउनही एहवौतपतेइरूपकर्मकर्त्तव्ये बाहुवेज'जं'धीकरी'रापोरनइ सर्वनेसामुत्तेइट्टिसाडीने आतापनानी  
सूमिनीदीमाहई'टयाहाभूनादिकनीधरतीनेविपइ आतापनायकीगरीरनइ'पैक्के'सपमाडताथकानमंसंतापतायका सुभमनीहर जीवसंबंधीपरि  
णामभावविशेषैकरो पगस्तसर्वोत्तमभलइ अथवसायमनाभावार्थविशेषइकरी लेश्यानेजलेश्यादिकइ विशुद्धविशेषइनिर्मलतेणइकरो अन्नदाको  
ईकपप्पानइविपइ जेज्ञानजपणहारक्कइतेहनाआयरणविप्लकरणहारजे कर्मज्ञानावरणीयादिकपापनुं परिहरिवुं कांईचयगगा १ उपगमकांईउपयांत

मित्यर्थं ईशान्युद्धमगणवेशमपति इह ईशा किमिदं मित्य सुतान्यथेत्येवं सहर्षांशोचनमिच्छा मति चेष्टाव्यूह इदमित्यभिव रूपो नियय मार्गण मन्वयधर्मांशोचन यथा स्थाणो नियेत्ये ६४ वल्लुत्तपंचादय स्थाणधर्मा घटन्तइति गवेषण व्यतिरेकधर्मांशोचनं यथा स्थाणवेषय नियेत्ये ६८ मन्वयधर्मांशोचन यथा स्थाणो नियेत्ये ६९ वल्लुत्तपंचादय स्थाणधर्मा घटन्तइति गवेषण व्यतिरेकधर्मांशोचनं यथा स्थाणवेषय नियेत्ये ६८ मन्वयधर्मांशोचन यथा स्थाणो नियेत्ये ६९ वल्लुत्तपंचादय स्थाणधर्मा घटन्तइति गवेषण व्यतिरेकधर्मांशोचनं यथा स्थाणवेषय नियेत्ये ६८

टोका

२८८

यत्र

यासा

बोध

ओहिश्याणलक्ष्मी सप्तपञ्चा तएण ७७ अस्महेपरिस्वायएताएवौरियलक्ष्मी ए वेत्तव्वियलक्ष्मी ए सप्तपञ्चाए  
 जणविन्हावणहेत्तं कं पिस्सुपुरे चरमते जाव वसहिंत्तवेत्तं एवंत्तुच्चैर् अस्महेपरिस्वायए

पान्यातेचैकरोप्यच पायमूकच अथवापनरु इहा पापसुखं कएइहुं नययकारियुं मन्वयविरु पू टानैयिपरवेत्तलीहात्तइत्तै व्विमतिमकोइविचारगवेषयाए  
 पुष्यजमायघोषणइत्तै ओत्तवत्तै इत्यादिकनियवरुपपूर्वात्तघोसनाकरणहारवीर्यंशोचनोयत्तिवियेततैइविकारिवाफेरवारुपसत्त्विविशेषिते वैकियगतिकरुप  
 जाणशारिवाकरुपतेहनौकव्विगुणविशेष अथधिमर्यादासहितजापियास्सरुपज्ञानगतिकरुपशौकव्वि तेपुणसम्यक्प्रकारइत्तपनीउदइपावी तिवारपत्तोते  
 पत्तठनामासन्धावीनइ तेइपूर्वात्तवीर्यंलव्विजेजपनीतेत्तएकरो वैकियरुपकारिवासवधोसत्तधतेत्तइत्तरो तथापथधिमर्यादासहितज्ञानते अथधि  
 ज्ञानरुपसत्त्वितेत्तएकरोसम्यक्प्रकारइंरुत्तपनइत्तकइ जल्लोकनइत्तियइत्तविग्गहावणविच्छयत्तपजावियानइत्तै कं पिस्सुपुरनगरनइत्तियै एत्तसत्त घर  
 वत्तइत्तमतिता जावग्रध्ववीपनैरावोल अयनपानघादिमस्सादिमके तेतेणै अर्थं प्रयोचनं लक्ष्मीकेत्तइं इमोतमत्तममित्य इमत्तहीयइत्तइ

परिव्यायीति दृश्यते तदयुक्तं अग्रते इत्येतस्य स्थानाद्वादिपुच्छकेषु दर्शनात् अहिगवजीवाजीवि इत्यत्र यावत्कारणादिदं हृद्यं उच्यते इत्युपपत्ति  
आसवसंवरनिष्कारिकिरियादिहरणबंधमीकखकसले आश्रवाः प्राणातिपातादयः संवराः प्राणातिपातविरमणादयः निर्जाराः कर्मणो देयतः क्षपणं  
क्रियाः कायिक्यादिकाः अधिकरणाणि खड्गादिनिर्व्वर्त्तनसंधोजनानि वन्धनीयो कर्मानुपयो एतेन चायं ज्ञानसम्पन्नतोष्ठा असहेज्जन्ति अविद्य-  
मानसाहाय्यः सुतीर्थैकप्रेरितः सन् समाह्लाविवल्लनं प्रति न परसाहाय्य गपेस्यत इति भावः प्रतएवाह देयासुरनागसुगजखड्गरज्जसमिजियर  
किंपुरिसगरुलगंधव्वमहोरगाहृदिं निगन्त्याश्रो पावयणाश्रो अण्ड्रकमण्डिइति देया वेसानिकाः असुरनागति असुरजसारा नागजसारापेति  
भवनपतिविशेषाः सुवशति सहर्यां ज्योतिष्का इत्यर्थः कश्चिद्वरुडेति नाधीयतेततः सुगति सुपर्णं कुमारा भवनपतिविशेषाः चचराचसकिज्जर-  
किम्पुष्याः व्यन्तरभेदाः गरुडति गरुडचिह्नाः सुवर्णकुमाराः गन्धर्व्वमहोरगाय व्यन्तरा इणमोविगन्ते पाययतीति चक्ष्मिनिर्दन्ते प्रत्ययने नि-  
सृष्टियति निःसन्देहः निष्कंखियति मत्तदर्शनात्तरपत्रपातः निश्चिइगिच्छेति निर्विधिक्रमः फलं प्रति निःशुः लखेति लब्धार्थोऽर्थ अश्रयतः  
गच्छिगृहेति गृहीतार्थोऽवधारणतः पुच्छिगृहेति पुच्छिगृहेति अगितार्थो ऽनिगतार्थो वा अर्थोऽन्योथात् विणिच्छिगृहेति विनि  
धितार्थः ऐदम्पयोपलभ्यात् यतएव अह्निमिंजपेमाणुरागरत्ते अस्थीनि च कोकपाणि भिन्ना तन्वार्थोऽप्रातृविगिगः प्रतिनिज्ञान्ताः प्रेमानुरागेण वा-  
व्वं प्रप्रवचनप्रौतिलक्षणाकुसुगादिरागेण रक्ता इय रक्ता यस्य स तथा केनीर्षे सुनत्वान् पयनाउचो गिगति पाययती गृहे अयं परमडे तेसे प्रगृहेति  
अयमिति प्राहृतत्वादिदं आयुश्वोति आयुष्पादिति पुवादेरामन्तर्णं कश्चित् रणतोनिगन्ते इति दृश्यते सेवेति अर्थे पनधान्यपतकत्रयनिहराज्यकुप्र-  
चनादिक मिति कसियफनिहेति उच्यते सुन्नतं स्फटिकमिव स्फटिकं पितं यथा स तथा मीनीन्द्रपवचना यास्यापरिपुष्टमनाइत्यर्थः इतिउच्यत्याख्या

एतत्तन्मन्त्रं चतुर्धा वा शान्तवैश्वानरं २२

पत्येत्वापु चञ्चुतो पंगंसास्थानाश्च'पनीयोर्द्वेजिनो न निरयोग कापाटपथाग्रायादपतीत इत्ययं चञ्चुतो वा भगवत परिपोजंदा गृहवारे  
 यस्या सो चञ्चुत परिच चञ्चुतपरिचोवा षोडशोतिग्रथा दत्तिययदानदायित्वेन भिक्षुप्रवेशार्थं मनर्गलितव्यरुहार मूल्यं इद किना  
 इत्युच्य न स भवति स्वयंभूत तदा भिक्षुकात्वादनपय पुत्रे त्रिभुक्त यथा जातियफलितैस्त्वादि पत्रिययवय गोच्यते पयगयवारेति

कांपिस्तपुरे नगरेष्वरसए जा।वमहिं।उत्रेते'पभूणमंते धम्मउपरिस्वाथए देवाण्णप्पियाण अंति एमंउेमविता।आगा  
 राओ अणगा।रियप्व्वइत्तए णोतिणइ मसङ्के गोयथा अस्सुडेणपरिस्वाथए समणोवासए अभिगयजीवाजोवे जाय  
 यप्पणभावेमाणेविहरति शत्रं जमियफलिचे अयं गुदुवारे चियसंतेपुरघरदारपवेसो यवंणवुच्चति अयमउखस्यं

अप्यडनामापरिप्राजकसन्धासो गच्छं कांपिपु।पुरनगर एकमउषरउखना आशयशयकोपनेराईभोलवसतियासेरविषपोकरेके प्रभूसमबंधंतणे  
 भतेइभगवन अन्वउपरिप्राजकसन्धासोने देवाण्णप्पियाथंस्वामीतुग्घारावरणकमलने अक्षिसभीपनेविपे दसप्रकारनपोगंडयतीपणउ'बंधीकारकरोने  
 अगारउहस्वावासछोने अणगारसाधुपया पादरोनेपमन्निसवठंमतयउथकरस्से एइपर्यंकरणो'नरवासमर्शनइ'एउपातघटेनसी उगीतम अन्वउपरि  
 प्राजकसन्धासो अमणोपानकथमणसाधुन'उ'परमयेवक अभिगतलाखाइपोसथाखेजीवचनेमजोयविहुपदार्थजेणे जावशय्यथीपनीराइयोव  
 एइयावकोविरिसिबंध'धीसपुणं'पान्नाशइकरोभे'आपणउआआजीवभासउरमाउगउयउवविचरेके एतखविशेष फटिकनीपरिनिमंखडिउ के अथवा  
 वारनेवियेपंगंशारश्चित अयं गुपदुवारेपोदायं'पसाथ'भो'कधाडावीरणाके अतेउरनेविपेपारवाचरनेविपेप्रीतिउ'कारणइंगयैवकै अथयाएइवेथा'ने  
 गमनसंबंधा महातने'अजिउउ'दारएतमाकीन'इमउने'नउठइअियेकारणिपररनी'सासयोति'इनेनयो अमउनामापरिप्राजकउधरयन्धाचीअवपारै'तिचे

अथवा अथवा अथवा

परिव्यायगस्तु थूलपपाशातिवातेपञ्चक्रवाते जात्रज्जीवाए जात्रपरिगच्छे शवरंस्वलेमेङ्गणेपञ्चवखाते जात्रज्जीवाए अस्म  
 लस्त्रांगं गोकृष्णं शुकुवसेतप्यमाणासैत्तंपिजलंसयराहं उत्तराहं उत्तरिस्तए शख्यत्थ बद्वागागसशेणं अस्मडस्त्रायं योकृष्णइ  
 सगडं एतं चैवभाणियव्वं कात्र शख्यत्थ एगाएगंगसद्वियाए अस्मडस्त्रायं परिव्वायगस्तु खोकृष्णइ आहाकस्मिएवा लहेसि  
 एवा सौसजाएतिवा अग्भो अरएइवा पूइकस्मेवा कौयगडेतिवा पामिसेइवा णिअखिथिसेइवा अमिहडेइवाठरत्तए

आधकच्छेतेणं प्रयुडे' थूलमोटिकाजेंद्रयादिकपाणजोषतेहनश्री प्रतिपातहणियडते पञ्चगित्तैत्यज्यश्रीपरिहणश्रीछै जात्रोत्रैतालंगं जात्रशब्दधीअने  
 राइशील थूलसुषवादादिथूलपरिअहपंतं तजाणियषश्री एहएतज्जश्रीविशेष सर्वसमस्यमैशुनविषयसेवाश्रीदारिकवैक्किशसंनंधीपञ्चविश्रीपरिहणश्री  
 जात्रोत्रैतालंगे' अस्मडनामापरिवाजअसुव्यासीनैककल्पे अत्रएईडानीधुरीभीजैएतलैप्रमाणपांणी नश्रीश्रीतावाहत्तडहुइएतलडजलपांणी नयराचता  
 अकसाशावैजतरिवडं अनिरश्रीनकल्पे अध्वामागे जातांश्रावैतं जतरिवशो अग्गडहं नकल्पे अग्गडहं नकल्पे इमत्तिमइजपूर्विकीपरइं  
 जांणिवडं जात्रशब्दधी अनिराइबोल अनिराश्रीनचीगंगानीमाटीएकतेहनश्रीआगार अग्गडपरिवाजकडंडधरसन्यासीनइं नकल्पइ आधाकमंल्लकायनउत्तरं  
 भतेहनैवषैकरीथेतेपाधाकमं दर्यनीप्रसुषनैउइशी नैकरैतंमांदिथोदिइतेउइएथिक कांइतेपरिवाजकनिमित्तकांइआपणनिमित्तिभिश्रजाति सूत्रगा  
 आद्रणमांहिं'प्रधिकश्रीरीयतीनिमित्तइनैवहिरावैतेप्रक्कभीयरदोप शुबआहारमांहिअशुडुनउसीशमात्रभिलेरोपूतिकर्म कौयगडेतिजेचातषोलेइइइ  
 पामित्तदोषतेजेजधारश्रीआणीयं अनिच्छतेजेवणानेसाधारणवस्तुतेहनैआश्राविनाएवा गांसनगरघरादिकथीसांसुचश्रीसाथोवहिराथे साधुनिमित्ते





मकामात् हे लयेत्यर्थः आह्वयकामिएइत्यादि व्यक्तं नवरं रइएइचत्ति रचितमौपदेशिकभेदो यन्नोदकपूर्णादि पुनर्भौदकतया शूरदध्यादिकं वा यक्खरक्खादितया गिरचितं तद्रचित मिलुच्यते इह चेतियब्द उपप्रदर्शने वाशब्दो विकल्पे कान्तरभत्तेइवत्ति कान्तर सरखं तत्र भिच्चुकाणां निर्वाह्यायं यत्तंक्वियते तत्कान्तरभक्तमिति दुब्भिव्खभत्तेइवत्ति यच्चिचुकार्थं दुर्भित्ते संस्क्रियते श्रीहे शिकादिभेदाद्यै ते वहलियाभत्ते इवत्ति यहलिका दुर्हितं गिलाणभत्ते इवत्ति ज्ञानः सत्तारोप्याय यहदाति तदख्यानभक्तं पाहुणगभत्तेइवत्ति पाघूणं कः कोपि क्वचित्ततो यत्प्रतिसिद्धये संखल्य दटाति पाघूणिका ःया साध्वाहय इहाऽऽयाता इति यहापयति तत्प्राद्युणं कभक्तं मूलभोयणीइत्ति मूलानि पञ्चाखिनार्ठिकादीनां यावत्कर-

वा रइत्तएवाकंतारभत्तेइवा दुब्भिव्खभत्तेइवा पाहुणकभत्तेइवा गिलाणभत्तेइवा भोत्तएवा प्राइत्तए  
वा अम्महख्खाणंपरिक्वायगस्सणोकप्पइ मूलभोयणेवा जात्र वीयभोयणे वा भोत्तएवा पाइत्तएवा अम्महख्खाणंपरिक्वायगस्स

थापीमु की नइयइ सेवाइइअनइषाडवालीलाखूवालीशूरमाहिदहीमू की गरबुरचिते रचितकं तार प्रठवोमाहिंभातपाणीनोपइयइ दुर्भित्तदुक्कालपडि इयक इदानशालानश्चोभात साधुपरिहुणाभाव्याजाणोअत्रादिक्कभात्तपाणो नोप जावीयइ गिलाणरोगोअनंइत्तिभित्तनीपशुं भातदिइ वादल षणइयइ दुष्टदिवसिभातपाणीं नोप जावीदिइतेनादलभक्त अत्रादिकभोगाविचओ पीइवओआधाकमादिकपाणी अंसडनामापरित्राजकसन्वासी नइंनकल्पइ मूलडानुओभोजनभक्षणकरिवओ जावयब्दधीवीजाइवोल वीजशालिप्रसुखधाननओभोजनभक्षणकरिवओ अत्राकिकभोगविवओ पीइ वओआधाकमादिकपाणी अंसडापरित्राजकसन्वासीनइ चारप्रकारनओ अर्थप्रयोजनविनादंडकर्मलागव पच्चियिखओपरिइरिवओ जांजीवइतां नगइ

षादिस पदत्रय इत्यं कल्पभोयषेइवसि कन्वा चरणकन्दाय फलानि आमादीनां हरियभोयषेइवसि इरितानि मधुरलण-  
कटुभाण्डादीनि बीषभोयषेइवसि बीजानि शालितिलादीनि भोत्तएवसि भोक्षुं वा पात्रएवसि पातुं वाथाकर्मजादि पानकादीनोति अक्लमाषाय  
रिएति अपथ्यानेनार्तादिना आचरित आसेवितो य अपथ्यानस्य वा यदाचरित मासेवन सो इत्यर्थदृष्टति प्रमादायरिएति प्रमादेन घृतगुडादिद्रव्याप  
स्यगनाविकारणे भावस्यसचयेन आचरितो यः नस्य वा यदाचरितं सो इत्यर्थदृष्ट प्रमादाचरित प्रमादाचरित सेति ह्यस्युप्ययाषेति  
हिंस्रस्य खन्नादे प्रदान मन्यस्यायं नि प्रयोगन सेवेति हिंस्रप्रदान पापकर्मोपदेयः अथाद्युपदेयः प्रयोगन विनेति साबल्येति  
कहृत्ति यदिद जलस्य परिमाणकरणं तत्त्वत् सावयमपि कथमित्याह लोवसि कहृत्ति लोना यस्मायिका एतदिति जला अयम

चतुर्निहे अथार्थाहे प्रश्नस्त्राए जावज्जीवाए तंजहा अवज्जायायरिए प्रमादायरिए हिंस्रपयाणे पावकर्मोवदेने  
अन्महस्युक्कप्यद् मागहएअश्राटए जलस्युपल्लिगाहितए सेवियत्रहमाणए नोवेवणं अत्रहमाणए जावसेविपूए

तेहइवद्वै पपथ्यानभार्त्तरोद्रादिकथ्यानइकरीषाचरिषोसेवषो प्रमादादिकरीघृततेलनाठोमठासायाडामूख्यातेहनइप्राचरित्रइवेवियद् हिंसाअपजद्  
एइवषोखद्यादिकथेरानइप्रदानमोक्षुं देवषो पापकर्मकरथादिजनषोउपदेसदेवषो अश्लपल्लिमाजसन्वाषीनेनकल्पद् गगघदेयसबंधोप्रयंषाठमो  
मानविमीप जलपाणीनषोपल्लिकाहितषोपत्तिययसंपहितषो तेषुणवहितपोनदीयादिकप्रवाहसंबधीवावरीतषो पुण्यतेहनसेवउ जेअवहितषोवायि  
अप्रातथावसरसंबधी जावयोयनेराजोसतेपूतवअरंगलठं पणितेहनसेवउ जेपपरिपूतअणगल तेसुणनिसइकरीसावथयापसहित एइवउ करीनइ

कस्मात्परिपूरतं गृह्णातीत्यत आह सावद्यमितिकृत्वा एतदेव कुत प्रत्याह जीवा इति कृत्वा पूनरकादिजीवा इह सन्तीति कृत्वेति भावः अणउत्थिएवति  
 नोचेवणं प्रपरिपूए सेवियसावज्जेत्तिकाजं योचेवणं प्रसुवज्जे सेवियजौवाइकड्ड योचेवणं अजोवा सेवियटिण्णे  
 योचेवणं अदिण्णे सेवियदंतहत्थपाथचरुवमसक्खालणड्डताए पवित्तएवा योचेवाणं भिण्णाइत्तए अंमडुकप्पइ साग  
 हएय आठए जलसपडिग्गाहित्तए सेवियवयमाणे दिन्ने नोचेवणं अदिण्णे सेवियसिण्णाइत्तए योचेवणं हट्ठपादच  
 रुवमसपक्खालणड्डयाए पिवित्तं एवा अंमडुणो कप्पइ अन्नउत्थियावा अणउत्थितपरि

पुणतेहनजाणिवओअनवद्यपापरहितचेवपदएरणी तंपुणमलोजीमसचेतनरूपएइउं करीगइ पुणतेहनजाणियामजोवेतनारहित तेउपदिशेदोधउं  
 लेवउं पुणतेहनलेवउं जेअदिशेअणदीधउं . तेपुणनियइइहायगचरुथालीसंमाउनीचर्म चाटुओममुत्तउपगरणनइं प्रतिगयसुं पयाडिवाधोइवाभणी  
 अनइपीइवानिमित्तइंपुण परंनहीनियइं करीवानअंगीहनिक्करिवानइं निमित्तइं अंमउतामापरिप्राजननइं नच्ये मगधइं मसंघो एकथा  
 ठओमानविशेष जलपांणीनओषडिगाहिवओअतियसुं अस्सिउ तंपुणवचित्तओनदीपादिकाथासंघंधी तंपुणदोभपीगृहत्वादिजजसो पुणतेहन  
 लेगउं जेअदिशअणदोधुं मनुयादिके तेपुणनियकरीस्रानगंगीहनिक्करियाभणो परंनहोनिगइं करीनइं हाय पग चरु वागो उंउनी उंउनी एत  
 लाजानाअतियसुं पय. न्निधाधोइवानिमित्तइंपुण अंमउतामसन्ध्यामीनइं नच्ये जेननाअमज्जापुथ जेनाएगातादिजअच्य  
 दगंती आक्खादिकअच्यतोर्धीनाडिवताहरिअरिचिदिचिपमप अच्यतोर्धीगात्थादिक्कइंपरिप्रापणातरोनइयाप्याचेमयाअरिइं नाने उवोतरागपतिमा

चन्ययुक्ता चङ्गतमङ्गापिचया चन्ये ग्राफ्यादयः चेद्ग्यादृक्त्ति चर्हषेत्स्यानि भ्रिमप्रतिमादृत्त्यं गण्यत्पररुहतेष्विधत्सि न कल्पते इह सोऽर्थं नेति  
 प्रतिपेध सोऽन्यत्राङ्गा चर्हषो चर्हषेत्त्येत्थं स हि क्रिय परिभ्राजत्रवेधधारको चतोऽन्ययुधिकदेवताप्रन्दनादिनिषेधे चर्हषतामपि चन्दनादि  
 निषेधो माभूदिति खला गण्येत्यायधोतं चचाचएङिति उच्यते उक्तानुरक्तैः आचयत्तरंति प्रायुक्तंमणो दलिकनिर्गंरथिन भवचत्तरणति

ग्राहियागिषा चेद्ग्याद्वंटित्तएवा गामंभित्तएवा गण्य थ अचिहंतेवा अचिहंतचेद्ग्यागिषया  
 चर्ममूढेगंभतेपरिव्वागए कालमानेकालंश्चकहिगच्छङ्किति गीतामा अमूढेगंपरिषायए लघाव  
 एहि नीलव्ययगुणवेरमण्यपञ्चवत्ताणपोसहोवत्रासेहि अर्ष्याणंभावेमाणे बहूद्दनामाइं उल्लोवाप्तयपरियायपाउशिस्तए

वादिवाचायकीडीनदृक्त्तिकरिवी ममस्त्वार्यंवांगप्रणामकरीयको जावशब्दथकीसत्कारादिकनाबोक्षयुंयामनामनदचनकायाइ नेधानठ कारिवचं  
 पनेच नकल्पेतस्य, कल्पे अचिहंतसाचागवीतरागचनतत्राभोते अचिहंतनाचैत्यच्चिमप्रतिमाननीयापनातेशदिवानत्कारादिकारवाक्यर अश्वठ  
 नामद्वैश्चभतेहेभगवन्परिप्राञ्चकसत्यासीते कावसाधेसरथनइपचसरिकावमरणकरीने किदांशादस्यइजुणधानकविप्रदममनकरिस्तइ भिक्षोकृपधानकि  
 जपत्स्यइयितिरिहवठ कगिस्तइ गीतमदद्रभूा अग्यङ्गामिंपरिप्राञ्चकने उचउत्कटठप्रचारइं अचवसामान्यप्रकारइ गीश्चप्रत पांचप्रणप्रतगुण  
 प्रतत्रिणि वेरमन्तरगादिकथकीनिवर्तिदषो पद्यपाण्यनकारपोसोप्रमुपपोसइवयजु प्रमुष्ठानभाशारादिकथारमकारधर्मनोपुष्टिनाकरणशारनेउप  
 वासाइंसहितरेपइकरो पापणपोपात्मायरीरभावतथाएषीकरणीइं प्रवर्त्ताइतयो वयाइत्तत्ररसनयो यमचसाधुनपीउपावकसेवकएइयथोयाय

देवमवनिवन्धनभूतकर्माणां गत्यादीनां निर्ज्वरणेनेत्यर्थः ष्टिद्वक्खण्यति आयुष्कर्मणस्तदन्वेषां च केषां चित् स्थितेर्बिंदुलनेनेति अयंतरं च इति

रस्ता सासियाएसंलेहणाए अघ्याणंअसिस्ता सडिंभत्ताइं अणसणाइ छेदिता आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते काल  
मासेकालंकिच्चा बंभलोएकप्येदेवत्ताए उववज्जंहिंति तत्थणं अप्पेगइयाणंटेवाणं दससागरोवमाइठितीपखत्ता  
तत्थणं अस्सडस्सविदेवस्स दससागरोवमाइ ठिती सेणंभंते अम्मडेदेवताओदेवलोगओओ आउक्खएणं भवक्खएणं  
विइक्खएणं अयंतरं च इ च इत्ता कहिगच्छं हिंति गोयमा महाविदेहेवासेजाइक्खलाइभवन्ति

कनश्रीपर्यायथावकीविरतिपालिस्यइअनुभवस्यै यावकपर्यायपालीने मासएकनीसंलेषनातपेकरीनेशरीरपातलसोपाखिओ तिहांआपणउआत्माभूसीया  
पीने साठिभातसाठिसंथाभोजनते अणसणैकरीनइछेदेनिवारै पछेदीषादिकलागते गुणसमीपे प्रालोइकइइपडिक्कसैमिच्छामिदुक्कादिकदिइशरीरनी  
समाधितथाभावथीज्ञानचारिननीसमाधि कालमरणइअवसरैकालमरणकरीने ब्रह्मलोकनांसापांचमप्रोक्खयेवंलोकतिहांदेवतापणेकपजिस्ये  
तिहाते पांचसैदेवलोकै एकेकपूर्वेजेजपनादेवतातेहनउं दयसागरोपमनीथितिआकपूत्रत्ताकहिउंछंतीर्थं कारदेवे तिहांतियिथानकं अन्नउनाभिं  
जेदेवतातेहनओ दयसागरोपमनीथितिआउप्रमाण सेतेणंअलंकारभणीभंते हेभगवन अयउगासाजेदेवता तेब्रह्मनामापांचमादेवलोकथी आउषाकर्म  
नादलनिदेलेकरीने भवदेवभवनउहेतु कर्मगत्यादिकनिर्जयेकरीनइ थितिदेवतानीथितिपूरीइईनइ अयंतरं अंतरारदितवैथशरीरछाउइअथवा चइत्ता  
सवीकरीनइ किहांजाइस्यइकण्ठानकविपइगमनकरिस्यइ किहांकिण्ठानभिंजपजिस्यइथिगिरिइवउं करिस्ये हेगोतम महाविदेइजंअद्वीपसंबंधिओ

राय वनपत विंश बलापरा का यानसंयस यान २२

देवभक्त्यन्विता येन शरीरं लब्ध्वा विसृज्य प्रथवा सर्वदहसति अथवा 'विलासनेत्यर्थं' पट्टादस्ति परिपूर्णाणि दिनादस्ति इत्यादि सर्पवन्ति  
 विस्तारति विस्तारति व्याख्यातानि शेषपदानि कृत्रिमकार्यकवद्व्याख्येयानि तद्व्यगारे सकृच्छेसति इह कश्चित् कृत्ते इत्यर्थं शेषो इत्यु प्रमत्तारसि  
 प्रखनन प्रथपानेत्वर्थं पचायादिति प्रत्याजनिष्यति सत्परम्यत इत्यर्थः ठिद्वच्छियकादिति स्थितिपतितं कुलकमान्तभूतं पुत्रप्रक्रीरितं मनु-

अद्भुतं दिताद विताद विच्छिख्यविचलभनयणासणत्राणवाहणाद् यद्दधणजायकुरवरयताद् याधोगपत्रो  
 गसंपत्तारं विच्छिखियपसरमत्तपाणारं बहुदासीदासगोनदिसगवेगप्यभूयाद् बहुजयसुअपरिभूयाद्  
 तद्व्यगारेसुकुजेसुपुमसा पत्वायादिति तएयतस्सदारगसुगमत्यसु चैवसमाणसु अम्मपितौषंधस्मेददृष्टपतियो

नेत्रकपवामपेत्रनेत्रनद्विपैत्रककुलत्राजिपद्मदित्रदपूरासपूषणं चद वाक्यप्रनादिकदूपपरिपूषणं क्षीपतापसिष्ठपथवादर्धवत विसविख्यातदानादिकमुण्यद  
 पूरपविक्रीषं पिपुलापिपुस्रण्याभवनघरयनश्याप्रासननकडासनादियाननकटादिकवाहन सख्येप्ररादिकदपूरां दप्रसवसोधनगणियमादिकजातिरुप  
 सुषणंरजतकसु तेष्यदकरीपूषणं पायोगदपोठमिमयादिकप्रयोगकक्षांतरव्याजद्विचकारवोतेष्यदुस्रिदत्त विशेषद्विदंतनंपादृतपोभरेपार्श्वे सुरवपुंभातपथा  
 दिक्कपद्मपाणीभिषावरादिकनद्वेषरादच्छद बहुषवीदासीद्रासोवनददासदासीनाच्छीदूगीशयभमद्विपमद्विजाति गवाद्दएकगडरन्मप्रभूतजिह्वां  
 चद यणासोकसमस्तनर्द अपरिभूतपपरामनठयानक तथाप्रकारेतेहवाजायोताधनपरिवाएयतसुकुलनद्विपदुस्रवपेदेपय्यद यव्याधिश्रितिपति  
 शयसुंक्षपत्रस्यद् निवारपक्षीनेदारगवाककगर्भनाशिरच्छद यत्रद मातापितानद्वजगथाघापभंनद्विपददृढमतिप्रापतिभकी वाक्साविस्त्रामपुण्यद

वचनान्तरं वा श्लेषात्तन्वत्

टीका

३०० सूत्र

वाजा बोध

दानं करिष्यतः चंद्रसूरदंशयिष्यति चन्द्रसूरदशयैः निकाभिधानं सतजन्मोत्सवविशेषं जागरियंति रात्रिजागरिकां सतजन्मोत्सवविशेषं सेव गिज्वन्ति  
 भविष्यद् संशतयिष्यन्तं मासाणं बह्वपडिपुस्याणं अद्वष्टलाणरात्रिदियाणं भौतिकं ताणं सुकुमालपाणिपाए जात्र  
 ससिसोमाकारे कंतं प्रियदंशणे सुखवेदारपयाहंति तएणंतस्स दारगस्स अस्मापियरो पठमेदिनसेद्धि तपड्डियं  
 काहंति तइयदिवसे चंद्रमूरं दंशयिष्यं काहंति छड्ढे दिवसे जागरियं काहंति एक्कारसमेदिनसे वीरिक्कं तिगिज्वन्ते  
 असुइ जात्र इकम्मं करणं संपत्तेवारसमे दिवसे अस्मापियरो इअं एयाखुवं शुणं गुणयिप्यन्तं शाभधे ज्जकाहंति जउहाणं

संते प्रसाडनम्री जीवते हगर्भमां हिनवमसवाडा घणउं प्रतिपूषपूरा जपरि अइरात्रिमाठमादिनतौ एतलइ भौतियतियययुं यतिक्रमइयकइ सुकुमालस  
 हालाहायपाणिपायपगच्छजेहनाएहवुं जावशब्दयं कीवोजाइबोल ससिचंद्रमातं हीनीपरं सोम्यमनोहरआकारे जेहनम्री कांतकमं नोयवाच्छिवायोग्य  
 प्रियवत्तं भच्छदृश्यं जेहनउ रूडउं रूपपाषडं द्रौणिर्मजां छइ जेहनाएहवभादारग वेठओ प्रसविस्सइ जणस्यइ तिवापरपछीते हदारगवालकंगा साता  
 अनइपिता पहिलादिवसनइ विषइथि विडिय कुलकमागतपुलजस्यनइ उचिनयोग्य प्रतुष्ठानकर्त्तं अकरइ वीजादिवसनइ रिपइ चंद्रमूरदंशयिष्यं काहंति  
 चंद्रमासूर्यं दर्शनकरावइ एतलइ अारीसामां डी देषाडइ छड्ढादिवसनइ जागरिकापुत्रजन्मिउत्सवविशेषकरइ एतलइ कंकारो ललेषणमीठाइ मूकाइ छे  
 जिविधात्वा निलाडइ अचरल विस्सइ इग्यारमइ दिवसव्यतिकमइ अतिक्रमिनिवर्त्तं इहंतइ असुचिमलमत्रजालजंवालजन्मकमं इकरो एतलइ कांइ धीइ लीपण  
 इलौप्यइयकइ संप्राप्तभाव्यो बारमदिवसतेहनइ विषइ तेकुमारीमाताअनइ पिता एहवउं जेहनउं स्वरूपकइ गोणगुणै करी नइ अत्र्यम्री गणइं करी

प्रहृत्प्रजायकप्रकारेण निवृत्ते विक्रान्ते प्रशुभोना मयोषवता जातकर्मिणा प्रसव्यापाराणां यत्कारणं विधानं तन्मया तप वारसङ्घे दिवसेति हाट्याख्ये  
 दिवसे इत्यर्थं. अथवा हाट्याना मङ्गा समाहारो हाट्याचं तस्य दिवसो येनासौ पूर्वो भवतीति हाट्याद्यदिदिसकलव्यवस्थापितरो  
 द्रुमंति इदं वस्त्रमार्णं अयमिति कावचकृते तस्य प्राज्ञतमोऽस्मिन् एवाकृति प्रतनेवरूप स्वभावो यस्य नात्यथा रूपमित्ये तद्रूप गोख ति गोष निमुक्तं  
 भवती याच गुणनिष्पन्न नि गोषयद्यो प्रप्रधानेति वचं त इत्यतस्तं गुणनिष्पन्नमिति नागधेयमिति प्रगल्भं नामैव नामधेयं इह खानि पुस्तकान्तरे पच  
 धाद् परिगणित इत्यादि वन्यो दृश्यते स च प्राग्बद् व्याख्येय किञ्चिच्च तस्य व्याख्यागते इत्यादर्थ्यं सहस्रिज्जमाधिति इच्छादन्नातरं सञ्चिगमाचो नोय  
 मान अङ्गादहं परिभुष्यमान उल्लङ्घ्य अङ्गसकलसमुभाष्यमान. उच्यते चिज्जमाधिति उपनर्तमानो नसंन कार्यमाण इत्यर्थं उपगोयमान म्मथाविध  
 यानोचितगोमत्रियेयोयमानो गायमानो वा उच्यते चिज्जमाधिति उपलान्मान लौकादिनालनया उपगूढिज्जमाधिति उपगूढमान चान्तिश्रु-

अरुहं द्रुमं निद्वारगनिगभटयमिचेवसमाणसि धस्मिददृपतिना तं होज्य अरुहं दारए दृढपरखे खामेण ततेचं तस्सुदारगस्य  
 अन्मापियरोषामधेज्ज करे षिति दृढपरखे सति तं दृढपरखे दारग अन्मापियरोषातिरे गङ्गनाचजातगंजाणिता

भोयमयो पश्यत नामधेयनामधोषठ नामधोषठं जिह्वारुदृष्टहारएदद्वारगकालकगर्भमादि चित्रियद्वप्राथम्यशब्द औपीतराग उपमनद्विपद इह  
 धिरप्रतिज्ञाचावो तदकारण्यभयोऽयो अन्मारुद्वारककालकनको हठप्रतिज्ञाएहवचं नाम तिवारपक्षीते इद्वारगशासकना मातापिता नामधेयं नामचर  
 ख्यद हठप्रतिज्ञरति तिवारपक्षीहठप्रतिज्ञद्वारककालकप्रति मातापिता सातएव भाक्तेरिपाठपरय जायाजग्यपात्याश्रया एहयथोजापीनद सोभतउभनी



मानः प्रत्याखिलाणेति अपत्यास्यमाणः अपगततासः क्रियमाणः अपयास्यमानो वा उल्काखातिरेकादिर्थाखिलनेनावीडासानः अपयास्यमानो वा समीहितपुरणेन प्रयास मकार्यमाणः परियंदिज्जमाणेति परिक्रम्यमानः सुयमानः परिशुभ्यमानः इति अत्तं परंभिल्लमाणेति प्ररंभ्यमाणः चंक्रम्यमाणः एतेषा च सक्रियमाणादिपदानां द्विष्वचन माभीष्णविवचयेति निव्यायायंति निर्वातं निव्याधातं च यन्निरिकन्दरं तदालीन इति कः तथाधिल्लतवाचना साइरेगुहुरिसंभाधगति सातिरेकाव्यष्टौ वर्षाणि जातस्य स तथा तं यत्यउत्ति अर्षतो व्याख्यानतः करणभोयन्ति कारणतः प्रयोगतः इत्यर्थः कः ॥

सोभशंसितिहिकारणद्विवसाकल तमुक्तसि कलायरियस्त्रुडवस्येहिति तएयंसेकलायरिए तंदृढपइस्यदारगले हातिवाओ गणियप्य हायाओ राश्व मज्जवसायाओ बावत्तरिकलाओ सुत्तत्तोय अत्थत्तोय करणतोय सेहावि हिति सेपाविहिति तंजहा लेहं गणितं हवं गण्डं गीयं वाइयं मरगतं पुक्करगतं समतालंजयं जणवाहं पासकं अट्टावयं

मनोहरतिथि १५ मां हिलौ तथाकरण १ तथादिवसतथान चंकरदतथागुहूर्त रूडइओईनइ कलाचार्यकलानओमोपयणकारतेहनै लपनेति स्य वैभयाविवा मणो विवारपळीते कलाचार्यभयाधणहार तेइट्टमतिअनामबालकपते लि विवडं अठारहथिपिमादिडेईने गणितगण्ये रओप्रधानएतले अंक्रमलाएकंदइ संयसहसंलस्य अक्कनपंनिवापलशब्द तेइपर्यवसानकेहइके जिहाएंइवो बहुत्तिसंख्यागणतौइ गियाणां कला अभयासथिष्य सुत्रपाठतेहसंबंधीते ह्यपकौ सुविभ पियइ अर्थग्रहणतेहन ओयइतेह्यकौभीमइ करणवायाइयमकरीतेहप्रभ्यासइतेह्यवकी सेहायइत्तिणिप्रकारसहिततेहनइनीपजाविसइर तीपवस्यइम भ्यासकारावइ तेकइ लिखवुं गणितअंक्रमार रूपपरावर्तकला ४ नाटककला ४ गीतगानकरवुं ५ वाइयंजालिवुं ६ स्वरकंठसंबंधीनुं औलपवुं ७ वाजि

मनोहरतिथि १५ मां हिलौ तथाकरण १ तथादिवसतथान चंकरदतथागुहूर्त रूडइओईनइ कलाचार्यकलानओमोपयणकारतेहनै लपनेति स्य वैभयाविवा मणो विवारपळीते कलाचार्यभयाधणहार तेइट्टमतिअनामबालकपते लि विवडं अठारहथिपिमादिडेईने गणितगण्ये रओप्रधानएतले अंक्रमलाएकंदइ संयसहसंलस्य अक्कनपंनिवापलशब्द तेइपर्यवसानकेहइके जिहाएंइवो बहुत्तिसंख्यागणतौइ गियाणां कला अभयासथिष्य सुत्रपाठतेहसंबंधीते ह्यपकौ सुविभ पियइ अर्थग्रहणतेहन ओयइतेह्यकौभीमइ करणवायाइयमकरीतेहप्रभ्यासइतेह्यवकी सेहायइत्तिणिप्रकारसहिततेहनइनीपजाविसइर तीपवस्यइम भ्यासकारावइ तेकइ लिखवुं गणितअंक्रमार रूपपरावर्तकला ४ नाटककला ४ गीतगानकरवुं ५ वाइयंजालिवुं ६ स्वरकंठसंबंधीनुं औलपवुं ७ वाजि

मनोहरतिथि १५ मां हिलौ तथाकरण १ तथादिवसतथान चंकरदतथागुहूर्त रूडइओईनइ कलाचार्यकलानओमोपयणकारतेहनै लपनेति स्य वैभयाविवा मणो विवारपळीते कलाचार्यभयाधणहार तेइट्टमतिअनामबालकपते लि विवडं अठारहथिपिमादिडेईने गणितगण्ये रओप्रधानएतले अंक्रमलाएकंदइ संयसहसंलस्य अक्कनपंनिवापलशब्द तेइपर्यवसानकेहइके जिहाएंइवो बहुत्तिसंख्यागणतौइ गियाणां कला अभयासथिष्य सुत्रपाठतेहसंबंधीते ह्यपकौ सुविभ पियइ अर्थग्रहणतेहन ओयइतेह्यकौभीमइ करणवायाइयमकरीतेहप्रभ्यासइतेह्यवकी सेहायइत्तिणिप्रकारसहिततेहनइनीपजाविसइर तीपवस्यइम भ्यासकारावइ तेकइ लिखवुं गणितअंक्रमार रूपपरावर्तकला ४ नाटककला ४ गीतगानकरवुं ५ वाइयंजालिवुं ६ स्वरकंठसंबंधीनुं औलपवुं ७ वाजि

मनोहरतिथि १५ मां हिलौ तथाकरण १ तथादिवसतथान चंकरदतथागुहूर्त रूडइओईनइ कलाचार्यकलानओमोपयणकारतेहनै लपनेति स्य वैभयाविवा मणो विवारपळीते कलाचार्यभयाधणहार तेइट्टमतिअनामबालकपते लि विवडं अठारहथिपिमादिडेईने गणितगण्ये रओप्रधानएतले अंक्रमलाएकंदइ संयसहसंलस्य अक्कनपंनिवापलशब्द तेइपर्यवसानकेहइके जिहाएंइवो बहुत्तिसंख्यागणतौइ गियाणां कला अभयासथिष्य सुत्रपाठतेहसंबंधीते ह्यपकौ सुविभ पियइ अर्थग्रहणतेहन ओयइतेह्यकौभीमइ करणवायाइयमकरीतेहप्रभ्यासइतेह्यवकी सेहायइत्तिणिप्रकारसहिततेहनइनीपजाविसइर तीपवस्यइम भ्यासकारावइ तेकइ लिखवुं गणितअंक्रमार रूपपरावर्तकला ४ नाटककला ४ गीतगानकरवुं ५ वाइयंजालिवुं ६ स्वरकंठसंबंधीनुं औलपवुं ७ वाजि

मनोहरतिथि १५ मां हिलौ तथाकरण १ तथादिवसतथान चंकरदतथागुहूर्त रूडइओईनइ कलाचार्यकलानओमोपयणकारतेहनै लपनेति स्य वैभयाविवा मणो विवारपळीते कलाचार्यभयाधणहार तेइट्टमतिअनामबालकपते लि विवडं अठारहथिपिमादिडेईने गणितगण्ये रओप्रधानएतले अंक्रमलाएकंदइ संयसहसंलस्य अक्कनपंनिवापलशब्द तेइपर्यवसानकेहइके जिहाएंइवो बहुत्तिसंख्यागणतौइ गियाणां कला अभयासथिष्य सुत्रपाठतेहसंबंधीते ह्यपकौ सुविभ पियइ अर्थग्रहणतेहन ओयइतेह्यकौभीमइ करणवायाइयमकरीतेहप्रभ्यासइतेह्यवकी सेहायइत्तिणिप्रकारसहिततेहनइनीपजाविसइर तीपवस्यइम भ्यासकारावइ तेकइ लिखवुं गणितअंक्रमार रूपपरावर्तकला ४ नाटककला ४ गीतगानकरवुं ५ वाइयंजालिवुं ६ स्वरकंठसंबंधीनुं औलपवुं ७ वाजि

ध्व

वाला

बोध

II

राज्यवर्णनं विना नानुपूर्यते नानुपूर्यते नानुपूर्यते नानुपूर्यते नानुपूर्यते

भेरे तच्च दगमद्विग्रं अथविहं पाणविहं वलयविहं सयणविहं अज्जं पहेलियं भागवियं गाहं  
 गौदयं सनेयं फिरखजुत्तो सुवणजुत्तो गंधजुत्तो वुखजुत्तो आभरणवेहं तरणीपडिकमं इत्थिलक्खण पुरिस  
 लक्खणं इयलक्खणं गयलक्खणं याणलक्खणं कुक्कुटतक्खणं च्चलक्खणं च्चमलक्खणं दंडलक्खणं

ब्रह्मिनीकलागुं जाणियथं दं समानसवातिं इत्तालक्खणताएट लुट्टारमिवागोक्का१० जनचोकसंवाद्वासापसंपका११ पासाठाशयानोक्का१२  
 अटापदसारपासेरमिवागोक्का१३ पुरनाकसंय्यनगररसादिकनीक्का१४ दगमद्वीपाणीपनरगाटोएकसकाधइअमुकुसंयोगपुइ१५ पयनीपजावि  
 वु सोधिपु र्साधिपु तेइ१६ पाणीगुं काठविवु संस्तरिपुं वेइनीधिक्का१७ वल्लसीववाधोइवापाइरवागुधिध विस्सेपमरीरनइवियइकरिवु तेइपुविधि  
 कला गयानरुमियइइइइवागुविधिककाठाइपाणं पायंसल्लतगुबंधतेइनीकला प्रहेतका पडेसीववाधोक्का मागविकामगधदेगसमयोगाया  
 वाधो गयाधासतवाधानीकला गीतनावाधिवानीडिगं सोकवचीसपचरनु तेइतुओछियठ च्चिरखरुपंतइभीपजाविवाभीयुस्सियु जाणपणठ सुवखं  
 सोमानोपजाविवागोयुस्सियु जाणपणठ गंधद्वयभूयोतेखपोसहीठाधुष्ठादिकनीकला धूणं गुनामपवीरनीयुस्सिनोगजाविवागोक्का पाभरणचधि  
 पाजठिवापडित्वाभीधिधतेइनीकला तरणीओजातिनचोपमतकर्मतेइनीकला ओजागिनांअचणसागुद्विवाचबंधी पुइपनालक्खणसागुदकसबंधी  
 प्रसिइ इयवीठानानचणयासप्रभिर गजडायोसचणयाओकतेइनीकला गोणपमनालक्खणयासप्रकार कुल्लानांअचणयासप्रकारिंतेइनाजाण  
 च्चमनानचण अथभीघाडंवर।दिकविइतेइनालक्खण च्चमनालक्खणयास प्रमनालक्खणयास मणिचंद्रकांताधिधितामणियुक्तेइना

अशिलकखणं मणिलकखणं काकणिलकखणं वत्युं विज्जुं खंधारमाणं नगरमाणं वरधुनिवेसयं पडिवूहं चारं चकवूहं  
 गरलडूहं सगडवूहं जुडं निजुडं जुडातिजुडं मुठ्ठिजुडं बाडजुडं लयाजुडं इसत्थं च्छरुप्पमाहं धणुञ्जेदं हिरण्यपाणं  
 सुवण्यपाणं वट्टुखेडं खुत्ताखेडुं णालियाखेडुं पत्तच्छेज्जं सज्जीवं निज्जीवं सउण्यत्तं नितिवाधतरिकला छः

लवण काकभोरलवक्रवर्त्तिसंबंधीतेहनउगास्त्रीकप्रकारइलक्षण वस्तुधियाघरहारप्रमुषमाडवानीकला खंधारकटककजतारिवागमानपमाणतेइनीकजा  
 नगरवसाविवायु मानप्रमाणतेहनीकला प्रतिय्यूहकटकथापवानश्रीमानतेहनीकला कटकप्रधारजतारिवामानतेहनीकला  
 चक्राकारिव्यूहकटकमानतेहनीकला गरुड(कारइकटकमानतेहनीकजा सगडगाडानदूपाकारइंयूउगटककजतारिवानीकला युधुगामान्यावारइ  
 नियुधप्रतिगयसंयुष युद्धनइप्रतिक्रमीनइअतियुद्धं करिवुतेहनीकला मूठंरयुद्धं करिवुंतेहनीकला बाहिंरयुद्धमाहोमाहिकरइतेहनीकला  
 जेठीनीपरइ लताइचनौकांबतेणइकरीयुद्धकरिवलवेहनीकला इषदर्थथोडानुघणुघणानुवोडुदेषाडिवश्री छरुपडगनीमुठ्ठिसुचीदभेदप्रथवासुरप्रवाण  
 उषादविचार धनुर्वदधनुषधांणनांविवाजाविषउ हिरण्यरुपुंतेहनश्रीपाकनीपजाविवश्री सुवर्णंरुपाकनीपजाविवश्री मथगागालिवश्री विध्यश्री  
 वेडउबेभउमाडीनइभूककरिवउ मूठनुंवेडूवेभूंमाडोसूत्रनश्रीछेद नालिका कमलनीगालितेहनुंवेडूवेभूंमाडीवीधिवउंतेहना पत्रगानडा  
 तुंछेदिवउंवेभूउमांडोनइतेमूआनरनियंचनइमंलइकरी जोवतानइनसचांपी निर्जीवजीवरहितनुइ शकुनदेवीकागपरखानचीरुहेतेहनारुतशब्द  
 शकुनविचार बहुचरिकलां छ सत्रथकीअर्थथकीनीपजावी शीषवीनइप्रथ्यासकरांवर मातापितानइ स्युंपसइभलावस्यइ तिवारपखोतेहउप्रतिजां

वाला  
 बोध

राव वनय सिनी मलीना का शीतलधरा मना २०४

सेवकविरक्ति सेवयिष्यति निष्पादयिष्यति सिक्खविरक्ति सिक्खवियत्त्वम्यास कारयिष्यति विसयपरिणयमेवेति क्वचित्तत्र विप्रणय विप्रक स वाधो  
 परिणतमात्रप बुद्ध्यादिपरिणागवानेव विप्रकपरिमात्र इव मात्रागब्धो वदयादिपरिणामस्याभिगवत्वस्यापनपर ७धंगसुत्तपडिभोहिपत्ति नवाड्यानि  
 सेवकवेति भिक्खवावेत्ता अस्मापितोयाउवयोहिंति तएणतस्स दटपपरस्सु दारगस अस्मापियरो तक्कला  
 यरिय विपुलेण असण पाणवत्त्वइमेणं साइनेण यत्थगंधनह्हालंकारेणय सक्कारेहिंति सग्माणे  
 हिंति सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता विपुलंहीविचारिहं पौइदाणं दलइस्सुति विपुलं रसा पडिअिस्सज्जेहिंति  
 तएणसेदटपइयेदारए वावत्तरिकलापडिइए नवंगसुत्तपडिभोहिइए अट्टारसदेसौभासाविचारए

नाम वासग मातापिता तेकसाचार्यकसानामज्ञानमथाषणहारमति विपुलविस्तीर्णंघणठ पचनपत्रादिक पोषोठण्यादिक खादिसफलादिक स्वादि  
 मपानसोपारोप्रसुख वस्त्रचोमपटकुलसणियाप्रसुगधपोषाजबादि माल्गूंध्यामोकलांफूडफलंकारनवपडावस्तसाकसांस्तु उलसु इडोप्रनुपतेणइकरो  
 सत्कारपडिराययोकरइ सन्धानवडुमानसु देधु जेतुनेमहापडितइत्यादिन वक्कादिकइसत्कारकरोनइ वडुमाननइदेवइकरोनइ विपुलविस्तीर्णं  
 घणपोइक्कजीवितार्हेत्राधीवदूतांसगइसुपीयाइमीमइ एतंवरप्रोतिइर्थनपोदान देखाइकसाचार्यनइविपुलपापसइ विपुलविस्तीर्णंजीवितार्हेपुर्वसो  
 परिजकसाचार्यनइचायोमई मतिवसर्जइघरमयीजाइशनीभाइादेइवलावइ तिवारपक्खीतेइठगतिअदारगवालय वसुत्तरियसातिणइकरोपंडितसुपोते  
 कसानु लांणतस्वार्थसुपो विकानविनेअविघ्नाणनासाण्यं६ जिह्वा०त्वथा०मन०एनवअगसुताइततिइप्रति बोधितजागताह्रयाज्ञाणइपो षाठारइनेगसंघवी



भोगाशुभवसमर्थं योसञ्जिह्वितिसि न सप्तं सम्यक् कटियति योरञ्जिह्वितिसि न रागं प्रेमभोगसम्यक्वेतु कटियति भोगिभिभङ्गितिसि नाप्राप्तभोगीव्या-  
पाप्तौ कटियतीति योपञ्जीववञ्जिह्वितिसि नाशुपयस्वते नाल्पक तन्निपापमना भविष्यतीति सेजहायामएत्तिसेइति अथगण्डय याथीपदेपायं नाभिसि  
सम्भावनायां एवंगन्दी वाय्याकडारायं उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा

तएणसेदटपद्वेदारए तेइविउलेइं अण भोगेहिं जाव सययभोगेहिं योसञ्जिह्विति योरञ्जि  
ह्विति योनिगिनिह्विति योपञ्जो यवञ्जिह्विति सेजहायामए उयन्नेतिवा कमुनेइवा नभियेइवा  
सुभनेतिवा सुगंधेतिवा पोडरीएतिवा महापोडरीएतिवा सतपत्तेइव सहस्रपत्तेइवा सतसहस्रपत्तेइवा

इकरोनइ पतिगयसुं निर्मलप्रपाथं नाकटिस्वइ जेइहभोगवच तिवाएपकी तेइठपतिप्रथानक तेवइविपुनविन्तीर्यंपुर्वोत्तपथिषणी चयभातपकवाना  
दिकनइभीभिकरी जावगण्ड्योपनेरामोख सवनसथ्यादिकनइभोगइभीगविवइकरी सगसबंधनहीकरइ रागप्रेमनपीसबंधनहीकरइ वाय्याकाम  
भोगनोनांछानहीकरइ पाय्यापदार्थेनइविपइमृच्छानिपीकरइ पाय्याकामभोगनइविपइपथवसायएकापपणइरनपीकरइ सेकइतांयथाजिमननामएउ  
वच संभाविवइइइ उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा उयन्नेतिवा  
विशेषलोकाडिजायिवा सुगंधकमलजाति पुडरीकथवसाकमलनीजाति महापुडरीकपतिधरशुं प्रतिमोटुं सउपपयापडोकरजेइरनइविपइ एकसउ  
सपत्रपायडोकरजेइरनइविपइ सउसहस्रगुणाकरोइएतसइहायप्रपपीडोकरजेइरनइविपइ पककादमेविषीजातिजपनपी जसपाणीनेविपइ सहस्रु







कारयति प्रवृत्ता अनादरः अत्रर्षोषा वर्णनाया अकरणं प्रकृतिकारयति दानयता एकादिगाभिनी वा प्रसिद्धिः कीर्तिं दानिपेधादकीर्तिः  
प्रसन्नभावुभाजणादिति प्रसन्नानाया मयिद्यमानार्थाना अज्ञापना उत्पेचणानि असन्ना गीतापना स्ताभिः मित्रताभिनिवेशिद्विगति मिथ्यात्वे वस्तु-  
विपर्ययसि मिथ्यात्वाद्वा मिथ्यादर्शनाख्य भर्मणः सकासाद् ऽभिनिवेशाशिक्षाप्रदया मिथ्यात्वाभिनिवेशा स्तैः युगाद्देशागति व्युत्प्रायसायाः लुचते

आयचित्तवज्जक्रयाणं अयसकारगा अवयकारगा अकित्तिकारगा वल्लुहं असवभानुत्रात्रगाहिं शिच्छत्ताभिस्थिविसेहिं  
य अप्राणं वपरंच तदुभयंच वुगाहेभाणे वुप्याएभाणात्रिहरित्ता बल्लुइवासाद्रसामखपरियागंपाउगंति बल्लु  
तस्मृटाणसु अणालोइय अप्पडिकंता कालमासेकालंकिच्चा लक्कोसेणं जंतएकप्ये देवकिच्चिसिएसु देवकिच्चिसिय

प्रत्यनीकउपराठागतिकूनवर्त्ती कुलचंद्रादिकंते इनाप्रत्यनीकउपराठाप्रतिज्ञूनवर्त्ती गणकांडिकादिते इनाप्रत्यनीकउपराठप्रतिज्ञूनवर्त्ती  
माचार्यपंचाचारनाप्रतिपालकउपाध्यायहादगांगीनाभणणहारतेइना यशसर्वदिगिव्यापीपंपाक्रमयो जपनुते उनरनिते धनरभ्रयगनागरण्यार अवस्ये  
अनादरनाकरणहार अवस्येपश्लोकनाकरणहारमार्थादिक दानमुख्यकीउपनीकीर्तिरुज्जेगव्यापोकीर्तिरुज्जानोपणहार समज्ञाप्रविशमान  
अच्छतापदार्थनीउज्ञावनाउत्पणे चादिकंतेणद्रकरी मिथ्यात्वजूठापदार्थकृताद्धर ते प्रकृताकरिवा अखानिद्वततेइगरनिवेशनरवापिाद् करी  
आपणुआलानद्रपरंअनेरानद्र तदुभयंचिहुंनद्रंण व्युद्गाहृतोऽकृतिता प्राथरनद्रविवद्रजोडती व्युत्पादतात्रमज्ञावतासमर्थताकरतावका एचपीजरणी  
नद्रविचरीगद्र बहुरघणाद्रकवरसल्लगोसामान्यचारितनम्रोपर्यायचारियगम्रीकाल प्रतिपालतायका वणतेधेनाचार्यादिजात्यनीकप्रणारूपियायानका

टीका

३१२

सब

नाला

नोध

योऽप्यल पुष्पापमाण्डति व्युत्पाद्यमाना समस्तोक्तानामु समर्थी कुर्वन्त इत्यर्थः अथाकोटय अपठिक तति गुरुणा समीपे अकृताकोचना  
स्यातो दोषान्निवृत्तायेत्यर्थं एतेषां च विविधयामख्यत्रय्य देवत्य प्रत्यनीकताजस्य च किञ्चिद्विस्तृत्य ते हि अख्यलमाया एव देवमख्ये

साए लववत्तारोभवति तेषु तिसृङ्गितौ तेरसमागरोवमाद्दृढितौ अथाराइका सेषं तंश्चेत् १५ सेक्को इमे सखिर्षिं  
दियतिरिक्त्वञ्जोविषयापक्वत्तयाभवति तंजहा जल्यरा खड्यरा तेषिणं अत्येगइयाणं सुभेगुंपरियासेण  
पसत्येहि अज्जवसाणेहिं लेसाहिं विसुञ्जसाणाहिं तहावरणिज्जाणं कन्माणं खचोवसमइएणं इहातइससागवे

अपो गुरुभद्रमसौपदुपालोवपनदुपणनिषद अणवडिजमद तंइदोवयकोपणनिषर्यं इयतद कातमानेकासमरणपयसरमस्तावनरविपदुजालमरणस  
रीनद अरुडटपोतपोनतकानामाख्युसोकण्येपलीकेपनदुविपददेवतासाहि किञ्चिद्विषयागडटेठप्राग्भेयता देवतासाहिं किञ्चिद्विषयादेयतापणद देवश  
यादंअपजिषभोअपअणइारदुइरुवत्यत्तिपयमद तिहातेइञ्जोवनीगतिणियावनकरुजाइरपो तेरसागरोपमनोतइनीतहायित्तइद दशकोडिपल्पोपमद  
यकसागरोपमइदुएइयातेरसागरोपमनोवित यनाराथक भगवतनीसाधानावारापजनइद मेप तीसु धाकनू तवे । तिमइनदुवर्धिनोपरद १५ तेअइमिएए  
प्रत्यलोकापनदुविपदुपयर्तइद अत्रियागभंअपचेदियर्षाचइदुद्वियगापारक तियचवीनिजाकपनावर्यासासधनोपर्यातिपूरामभवतिअगद तेतइदइद  
जलचरमाहिवाकाखियाममुप अचरएञ्जीकागकारुजमसुसु२ अलचरइशयोवोडामसुप१ तेषुञ्जीवनदुपत्येगइया अं देविकजनचरयलचरपरारादिक  
नदुभमनोचरञ्जीवसर्षधीपरियागभावविदीवदकरोमइ प्रसफुसर्वोत्तमभकर अणवसायईमननभावायर्षिभियइकरो निग्यातेओनिग्यादिकद विशव

टोका

११२

१४

माना

बोप

भगतीति छः १५ सखीपुल्वजाईसरणीति संश्रितां सती या पूव्वजातिः प्राक्तानो भव स्यात्सा यत्स्वरणं तत्तथा छः १६ आजीगिका गोशालकसतासु-

सर्वाकारमाणां सखीपुव्वेजाईसरणेसमुप्यजति तएणतेसमुप्यखजाइसरणसमाणां सयसेवपंचाणुव्वथाइंपडिव  
 ऊति पडिवज्जित्ता बह्व्हिंसैलव्वयगुणवेरमण पच्चक्खाण पोसहोववासाइं सप्याणंभवेमाणो बह्व्हइवासाइ  
 आउयं पालेत्ति पालित्ता भत्तंपच्चक्खंति बह्व्हइंभत्ताइंअणसयाए छेयंति इत्ता आलोइयपडिकंता ससाहिं

निर्मलपतिनिर्मलते एइकरोनइ तेहज्जानउपजणहारछइतेहनाआवरणविघ्ननाकरणहारजेकर्मज्ञानावरणीयादिपापनओ खओकांइंउत्तगयाउपशमकांइं  
 उपशम्याउपयांतपास्यातेणइकरी इहांस्यउंअथवाअनेरउपूहप्राजसूकुजएहवओनिययमयणस्युं पुं टानइविपइवेल्डीउालइजिमतिम  
 गवेसणएपुरुषजसांथुं पणइक्खैइतिनिचइ करेमाणाणं इत्यादिंपूर्वोक्ताजोलनाकरणहारने संघियामनसहितगर्भजनइपूव्विं लीजा तेनन्मममरइसंसारइएह  
 वुंजातिस्मरणमतिज्ञानतेसस्यगुप्रकारइउपजइ तिवारपच्छीतेसस्यगुप्रकारिंजपनइजातिस्मरणपच्छिलओजल्यसंभाखओ समांणायकपूइतर ल्यं  
 पोतइजएवनिचयसुं थूजपाणातिपातादिकंपांचअणुव्वतपडिजइअंगौकरइ पडिवजींनइअंगीकारकरीनइ घणाइक सीलव्वनअणुव्वतपांचइगुण  
 व्रतवेरमणरागादिकथक्रीनिवर्त्तिअउ पच्चखांणवकारसीपोरसोपमुख पोसहपर्वदिनओअनुष्ठानप्राहारादिकचारिभेदिधर्मनीपुच्छिनाकरणहारतेउप  
 वासइ सहिततेणइकरी आपणउआत्तागरीरभावतओ इणीकरणीइंप्रवर्त्तावतउ घणाइकवरिसनओ प्राउषुंजौवितव्य पालइअनुभवइ धाजपुं पा  
 लीनइं भातअन्नादिकसर्वंआहारपचखइपरिहरइ घणाइकभातभोजनादिक अणसणइउपवासादिकइकरीनइ छेइइनिवारै छेइनिवारीने दीव

राजपुत्रादिकसर्वंआहारपचखइपरिहरइ घणाइकभातभोजनादिक अणसणइउपवासादिकइकरीनइ छेइइनिवारै छेइनिवारीने दीव

वर्तिन दुष्परतरिषति एकत्र यच्छे भिष्वा यद्वीत्वा वेऽभिपद्यविशेषाद् यद्वद्वयमतिश्रमा पुनर्भिष्वा यच्छन्ति न निरन्तर तिकात्तर वा ते द्विष्टहात्तरिका  
 चे यच्छे यत्तर भिष्वायद्वेणे वेपा मच्छि ते द्विष्टहात्तरिका इति निर्णयन एवं द्विष्टहात्तरिकाः समष्टहात्तरिकाः सप्तष्टहात्तरिकाः सप्तष्टहात्तरिकाः सप्तष्टहात्तरिकाः सप्तष्टहात्तरिकाः

यत्ता कालमाने कालं किञ्चा सुकोसेषं स हस्सारे कप्ये देवत्ता एतवत्तारो मवंति तेद्विष्टहात्तरिकाः अद्वारससागरोवमाद्  
 ठितौपस्यत्ता परलोगस्य गाराहगा सेसंतंचेत् १६ सेज्जिद्वेने गामागर जाव संनिवेसेसु अजीवकभवति तंजहादुषरंत  
 रिया तिवरंतरिया सत्तघरंतरिया स्यत्तवेद्विया घरसमुदागिया विज्जु, षंतरिया सप्तया तेषं एयाळु

समाधिष्ठानदर्मनकारित्वसंबन्धिनीपडोनेद् कालमायेमरणानाघवगरनद्विपे काल  
 खागादुदतेतु वननीप रूपात्रीसभला १६ पडिज्जमीपापयकीनिपत्तीने समाधिष्ठानदर्मनकारित्वसंबन्धिनीपडोनेद् कालमायेमरणानाघवगरनद्विपे काल  
 मरुत्करीपामोने चरुत्तपोषणु जादतपोसहस्वारनामाथाठमस्योक्खयेवलीकतेइनद्विपे देवतापणद्विष्टादेवांगनानथी देवतानीशयानद्विपेदुजप  
 अत्रयत्तुत्तरत्तपामद्विष्टातिष्ठान्ति गीवनीगतिसमसुये यठारसागरोपमनी यितिभाज्जुपुं प्रगतकच्चिन्न तीर्थकरे परलोग सामजाभवन्नद्विष्टादेवांगनानथी देवतानीशयानद्विपेदुजप  
 यतनवधर्मपारापथ्ये धर्मनद्वय्यद्विष्टातिष्ठान्ति गीवनीगतिसमसुये यठारसागरोपमनी यितिभाज्जुपुं प्रगतकच्चिन्न तीर्थकरे परलोग सामजाभवन्नद्विष्टादेवांगनानथी देवतानीशयानद्विपेदुजप  
 यकीयनेरागद्विसनियेगभववाडोगीवनिषागावासनद्विपे अश्रीवकीसोसाखानामतनाकेच्चिन्न तीर्थकरे परलोग सामजाभवन्नद्विष्टादेवांगनानथी देवतानीशयानद्विपेदुजप  
 यंतरेवलीभिष्वाच्चिद्विष्टातिष्ठान्ति गीवनीगतिसमसुये यठारसागरोपमनी यितिभाज्जुपुं प्रगतकच्चिन्न तीर्थकरे परलोग सामजाभवन्नद्विष्टादेवांगनानथी देवतानीशयानद्विपेदुजप  
 यादिकममनपोवीटमपणकरे एडवानियमविशेषेपनाधरत्तार घरसमुदागियाजिवपावनीयोडीरभिष्वात्तरपुणएकघरनीभिष्वापाहारनद्विष्णु

सप्तष्टहात्तरिकाः सप्तष्टहात्तरिकाः सप्तष्टहात्तरिकाः सप्तष्टहात्तरिकाः

नियमविशेषात् गृह्यतया भैक्षलेन येषां सन्ति ते उत्पद्यन्तिकाः घेरसमुदायिण्यति गृहसमुदायं प्रतिगृहं भिक्षाया येषां ग्राह्यतमाऽस्ति ते गृहसमु-  
दानिकाः विष्णुयन्तरियति विद्युति सत्यां अन्तरं भिक्षाग्रहणस्य येषां मन्त्रि ते विद्युदन्तरिका विद्युत्सम्पत्ते भिक्षां नाटन्तीति भावार्थः उद्विद्यासम्यत्ति  
उद्विक्ता महाश्रमयो भाजनविशेष खल्व प्रविष्टा ये आमन्त्रि तपस्यन्तीत्युद्भिकायमणाः एषाच्च पदाना सुप्रचया व्याख्याकृतंति छः १७ अनुक्तासियत्ति

वेणुविहारेणं विहरमाणे बह्वद्वासाइपरियायंपाउणित्ता कालमसि उक्कोसेणं अशुएकप्पे देवत्ताए उव  
वत्तारोभवन्ति तेहिंतेसिंगतौ बावीसंसागरोवसाइंठितौ अणाराहकासेसंतंचेच १७ सेजेइसे गासागर जावसखिवेसेसु  
पव्वइया समाणाभवन्ति तं अनुक्कोसिया परपरिवाइया भूइकम्मिया भुज्जोइकोजयकारका तेणंएताख्वेणं विहारिणं

अंतरिया वीजलीषवतीकृतैभिचालेवानजाइवीजलोनहुइतिवारैभिचाल्यै मोटीमाटोनाभडमांछिपैसीनेतपकरै एहवायमणतपस्वौकष्टनाकरणहार  
तेआजीवणएहपूर्वइस्वरूपकद्युजेइतेणइ विहारकरणीविशियइकरो विवरताप्रवर्त्तता घणाइकवरसलगीपर्यायप्रतयह्याकैतेहपालइ कालमसिकाल  
मरणनाअवसरनइविषैकालमरणकरोन उक्कष्टश्रीघणश्रीजंजुंजाइतश्री अच्युतनामावारमश्रीकल्पदेवलोकेहनै विषै देवतापणइ उपपातयथ्यानैविषै  
जपजिवउंहुइउत्पत्तिलहै तेहथानकनै विषैनेहआजीवकनीगतिगमनजाइवश्री बावीससागरोपमनीयितिआजपुंतिहांइइ परभविआगलिभवनैविषै  
जिनधर्मनाआराधकप्रापकहोइ शेषथाकतउं पूर्वइंकहिश्रोतेतिमइज १७ तेजेएइप्रत्यन्नसंसारोकजीम ग्रामनाडिंवींठिउआगरस्वर्णनौउत्पत्तिठाम जाव  
थीसंनिविसभकआडिआहीरगोअलीनावासनैविपै प्रमज्याप्रतयइणनाकरणहार कं'तेकहैकै असुकोसियाआपणपैउत्कर्षसहित

राजधनपतिसिद्धिं चोपयन्त आशुसखयव सुता २५

पालोत्कर्षोक्तिं येषाम्ने पालोत्कर्षिकाः परपरिवाहयति येषां परिवाहोऽस्ति येषाम्ने परपरिवाहिकाः परपरिवाहिकाः सुप्रद्वर-  
 चार्थमस्त येषाम्ने भूतिक्रियाया भुक्तोभुक्तोकोठयकारगति भूयो भूय पुन पुन कोठकं सीमाव्याधिनिमित्त परेषां छपयनादि तत्त्वकारि कोठक-  
 कारका साभिद्योगिएवति सभिद्योगी सादेगकारिण इत्यर्थ एतेषां च द्वेषं सादिवादाभियोगिकत्व चालो-

विहरमाणा वल्लङ्गवानाद् सामख्यपरियाग पाठयति पाठयिषा तस्मिन्नायस्युग्रालोदय अपडिक्कंता कालमासै  
 कालकिष्वा लक्ष्मणेणं अच्युएकप्ये सभिद्योगिएसुदेवेषु, देवताए लववत्तारोभवति तेहितेभिर्गर्द्वे नावोसंसा  
 गरोधमादृठिती परलोगस्युग्रणाराहगा सेसंतंवेव १८ सेक्कीदमे गामागर जाव सखियेसेषु, शियदृक्काभवति

इदगवंचगपीचेरे परवनेरालोकनपोपरवाहनिदाकरे ज्वरादिकउपमोतिभिहितइभूतिहनकाइदृखीदिहस्रापरगद भुञ्जोरकोज वसोरसोभा  
 म्यादिकनइपथंइकीतु कखानादिककरवे तेत्रमणइहपुयंइकछठ सरुपलेइतेइकरती विहारइ करणीविगीपइधिधरिवेकरो विहरमाणाविहरमायका  
 यथाइकवःसकगी यामख्यवागिनपोपयोगप्रतपछाख्येतेइयामइ पासीअनुभवीने दोवापालतातेइप्रमादादिकयतीनइपयोग्येजेव्याप्यैपभादिक  
 पइतेपुननेमसोपेपालोयेअष्टेनची पडिकमइतेपापयकोनिपथंइहनची कासमावेकालसरणनाचवमरने विपैकालगरणकरीसाधोने उतलठघयुंण  
 यउपइपैतउपण्युतनामाधारम् कल्पदेउलोकतिहां सभिद्योगानतागएदेवताएदेवकारोकारिशयकोदेवपनु गर्वंधभीवतागएपउठ सछठ तिष्टादेवता  
 पनु पुनइदेहे उपपगतसभ/देवतासवधोयव्याइउपजिउठ इइ तिष्टादेवकोवेतेइयमण्यनीगतिममनइइ वावोउसागरोपमनीधितिचाजपु पवताक म्

ल्कारिरेति छः १८ बहुपु समयेषु रता आसक्ताः बहुभिरेव समयैः कार्यं निःपद्यते नैकासमयेनेत्येवंविधवादिनो बहुरताः जमास्त्रिमता-  
 गुपातिनः जीवपएसित्ति जीवः प्रश्न एवैषो येषां मन्त्रेण ते जीवप्रदेशाः एकेनापि प्रदेशेन न्यूनो जीवो न भवत्यतो येनैकेन प्रदेशेन  
 पूर्णः स जीवो भवति स एवैकः प्रदेशो जीवो भवतीत्येवंविधवादिन सिष्यगुप्ताचार्यमता ऽधिसंवादिनः अत्रन्तियत्ति अव्यक्तं समस्त भिदं जगत्  
 साध्वादिधियज्ञे अमणो यं देवो वागमित्यादि विधित्तप्रतिभासोदया अभावात्ततश्च व्यक्तं वस्त्विति मत मस्त्रि येषान्ते अव्यक्तिकाः अविद्यमाना वा  
 साध्वादिष्यत्ति रेषा मित्यव्यक्तिकाः आषाढाचार्ययिथमतान्तःपातिनः सासुत्यद्दयत्ति नारकादिभावानां प्रतिज्जणं समुच्छेदं चयं वदन्तीति  
 सामुच्छेदिकाः अस्त्रभितमतानुसारिणः दीकारियच्चि हे क्रिये शीतवेदनीण्यवेदनादिस्वरूपे एकात्र समये जीवोऽनुभवतीत्येवं वदन्ति ये ते द्वैक्षिया  
 गणाचार्यमतानुवृत्तिनः तेरासियत्ति वीन् राशीन् जीवाजीवनो जीवरूपान् वदन्ति ये ते वैरायिकाः रोडगुप्तमतानुसारिणः अव्यष्टियत्ति

तं बहुरया १ जीवपदेशिया २ पव्वत्तिया ३ सामुच्छिया ४ दीकारिया ५ तेरासीया ६ अव्यष्टिया ७ इव्वेतिसत्त

तीर्थंकरादिकैदसक्कोडाकोडिपल्योपमेसागरोपमएकएहवावावीर परलोकपरभगवंतनी भ्रात्रानाजिनधर्मनाआराधकप्रतिपालकनहे श्रेयथाकतउ अनेर  
 उपूर्वलोपरइजजाणिनुं १८ तेहजेएप्रत्यचसंसारोकजीव ग्रामवाछिवीटाउआगरसुवर्णनीउत्यत्तिठांस सन्निविगभनवाडिआहीरनावामनैदिये निम्हवधि  
 छांतनापदप्रथनाउलवणहारभवतिच्छे तेकहे बहुजेइमकहे धणेसम्एकार्यनीपजेएकेसमेननीपजैमालिमतानुसारी जीवपदेशिया जेहनै मतिं एकपुण  
 प्रदेशजीवकहिइमकइहतामगुप्तमतानुसारी २ पव्वत्तियासाधुनश्रीसंदेहकोणजाणैसाधनैलेवैचोरादिकहुस्यइतुपाठाचार्यमतानुसारी ३ नारगादिक





धर्मियसि धर्म्येण श्रुतचारिरूपेण चरन्ति ये ते धार्मिकाः कृतएतदेव मित्यतथाह धर्मिष्ठति धर्मश्रुतरूपवेष्टो वल्लभः पूजितो वा सेपाले धर्म्येष्टाः धर्मिण्यां वेष्टाः धर्म्येष्टाः अथवा धर्म्येष्टिः शेषान्ते धर्मिणः तएवान्येभ्यो ऽतिशयवन्तो धर्मिष्ठः अतएव धर्म्येष्टा इति धर्म्येष्टा माख्यान्ति भव्यानां प्रतिपादयन्तीति धर्म्याख्यायिनः धर्म्याद्या ख्यातिः प्रसिद्धियेवन्ते धर्म्यख्यातयः धर्म्यपत्नीपुत्र्यसि धर्म्यं प्रप्तोकयन्ति उपादेयतया प्रेचन्ते पापच्छिद्यु धर्म्येण गवेषयन्तीति धर्म्यपत्नीकिनः धर्म्यगवेषणान्तरं वा धर्म्यपत्नीक्यात्ति धर्म्ये प्रेरज्यन्ते आसज्यन्ते ये ते धर्म्यप्रेरज्यनाः ततश्च धर्म्यसमुदाचारति धर्म्ये वा गवेषयन्तीति धर्म्यपत्नीक्यात्ति धर्म्ये प्रेरज्यन्ते आसज्यन्ते ये ते धर्म्यप्रेरज्यनाः ततश्च धर्म्यसमुदाचारति धर्म्ये

परलोगस्य अणाराहगा सोरंतंचेव १६ सेजेइमे गामगर जाव सखिवेसेसु मणुयभवंति तंजहा अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्मणुया धम्मिष्ठा धम्मक्खाइ धम्मपलज्जगा धम्मसमुदायारा धम्मेषे

उत्कृष्टश्रीवणश्रीजाइतश्रीजपरिलउगुंवेयकनवमउ उवरिमउवरिमनामतेइविमाननैविद्ये देवतापणेपुरुषवेदे उपपातसभानैविद्येगयाइंजपजिवउंइइ तेह यानकनैविद्येति निइइवनीगतिगमनइइ दसकोडाकोडिपन्योपमैएकसागरोपमएइवाएकश्रीससागरोपमनीयितिसाजपुंपन्नताकहिउंतीर्यंकरादिकइं पर लोक परअनेरामयनैविद्येभगवंतनीआआजिनधर्मनीआराधकरेइ श्रेययाकतश्रीतिमहीजपूर्विलोपर १६ तेजेएइपयचसंसारोकजोन गामवाइंइवीटिउं आगरसुवर्णउत्पत्तिठाम सनिवेशभइआडिगोवलीघोसीनायानकनैविद्ये मनुयपुरुषपत्नीपादिभवंतिछे तेकइइछे अल्पयाउप्रोजप्रारंभयापारादि कसंबंधोछे अल्पयांउजपरिगइगूर्णसंगइछेजेइने धर्मश्रुतचारिराकरणाकार धर्मश्रुतचारिरुपरनेकेउवर्तंछे धर्मश्रुतचारिरुपरवाइउछे अथवा धर्मश्रुतचारितरूपनैभलावैतेधर्माख्यायी धर्मश्रुतचारिरुपरनेगृहियायोग्याणियारिइतिषांइटिप्रत्तावे धर्मश्रुतचारितनेधियेप्रकपेसावधानहेअथवा

राय धनपत विं विं पवारे १२ आ शानसखेव भान १२

रूपधारिणात्मकं सद्युदाधारः सदाचारं सप्रसोदो वाऽऽचारे येषान्ते धर्मसमुदाचाराः सतएव धर्मोपवेशिवित्तिं कल्पे माण्यति धर्मोपेव चारिया  
 विरोधिन श्रुताविरोधेन वा दृष्टिं जीविकां कल्पयन्तं सुर्व्याणो विहरन्तीति योगं सुव्ययति सद्गता मोभनश्चित्तवृत्तिवितरणं वा सुव्ययियाणदा  
 साहचर्येण सुदुप्रधानं विज्ञासादो येषान्ते सुप्रधानन्दा साधुपु विषयभूतीषु भयमा साहचर्यं उभयवाक्ये सम्बन्धेन ततए साधुभ्य सक्वा  
 मागं साव्यत्तिके इत्यर्थः एगच्चापोपाणादथायाओत्ति एकस्मात् न सर्वस्मात् पाठान्तरे एगद्वयापोत्ति तत्र एककएव एककिकः तन्मादेकजिक्तात्

चेवधित्तिं कल्पेमाणां मुसौला सुव्वया सुप्यधियाणदा साहचर्यंति एकच्चाओपाणादृवाताओपधिविरया चावज्जौवाए  
 एकच्चाओअपडिविरया एवंनावपरिगहातोः एकच्चाओकोहाओ सायाओ पेज्जाओ कलहाओ

धर्मनेचारिणरूपेणैवियेपप्रमादसहितं साचारजेहनओ धर्मनेचारित्तनेपसपपल्लवेत्युतनेपाराधवे जदृष्टिमातीविकाकळं  
 सद्युभक्तपोषीसपाचारं जेहनठं सद्युभक्तप्रतद्व्यय्यरूपजेहना सुपठियाणदा चावहादक्षर्यं सहितवित्तं साधुनेविपेजेहना साधुनास  
 जीपयर्त्ती एकेकाप्रो जीवत्तसंवेदियादिकनपोपतिपातद्वियवसते सद्यकीप्रतिग्रयसु विरम्याविरक्तुपा जाजीवीइ ताजगी एकेअपरपरसचयैगही  
 प्राणी जीवद्विपोपादिकपाधरतेहयकोपतिग्रयसु विरतापोसत्तागयो एकेकोइएककोधरोसयकोनियर्त्त्यांइ इकेकोधरोसयकोनियर्त्त्यांनयो इकेका  
 मानथीनियर्त्त्यांइकेकनियर्त्त्यांनयो इकेकनायाथीनियर्त्त्यांइ इकेकोमथकोनियर्त्त्यांइ एकेकमे मरामथीनियर्त्त्यांइ एकेककतसथीनियर्त्त्यांइ  
 एकेकपभ्यास्यानचासतेहथीनियर्त्त्यांइ एकेकनियर्त्त्यांनयो एकेकैयैय्यचाहोयकीनियर्त्त्यांइ एकेकनियर्त्त्यांनयो एकेकपरपरिवादपारकापपवादथीनियर्त्त्यां

टोका

१२१

सू

यावा

मोध

इत इदं सूत्रं प्रायः प्राग्वार्थं नवरं मिच्छादंसणसणाश्रीति इह मिथ्यादर्शनं तज्जान्यान्वययुक्तवन्दनादिका क्रिया ततो भावतो विरताः राजाभियोगा-  
 अर्भवखाणाश्री पेसुखाश्री परपरिवादाश्री अरतिरतीश्री सायानोसाश्री मिच्छादंसणसखाश्री पडिविरदा  
 जावज्जीवाए एकच्चाश्रीअपडिविरया एकच्चाश्रीअवंभसमारंभाश्रीपडिविरआ जावज्जीवाए एकच्चाश्री अपडि  
 विरआ एकच्चाश्रीकरणकारावणाश्रीपडिविरया जावज्जीवाए एकच्चाश्रीपथणपवावणाश्रीपडिविरयाजावज्जीवाए

है एकैकअपवादथोनथीनियर्था एकैकअरतिरतिससातायकीनियर्थाएकैकनथीनियर्था एकैकमायासृपाथकीनियर्थानथीएकैकनिवर्त्याहै एकैका  
 मिथ्यात्वदर्शनसख्यथकी अतिशयथकीविरतानिवर्त्याहै जांजीवियइतानगी एकैकमिथ्यात्वख्यथकी अतिशयसुंनथीविरतानिवर्थानथी एकैकआरंभ  
 जीवनश्रीउपद्रवसमारंभतेउपद्रगादिककार्यनेवियेप्रवर्त्तेश्रीतेइथकोअतियसुंविरतानिवर्थाजांजीवियेतांलगै एकैकथतीपरंसर्वथकीनही अतियसुंवि  
 रतानिवर्थानथी इकेकथकीपरंसवलाइनथी करिवउंअनेरापाहिंकराविवउंतेइथकी अतियसुंविरतानिवर्त्याहैइ जांजीविदूतांलगै एकैकथकी  
 सर्वथकीनही पविउठंपोतइपचाविवउंअनेरापाहिंअन्त्यादिकइतेइथको अतियसुंविरतानिवर्त्याहैइ जांजीविदूतांलगइ एकैकथकीपरं  
 सवलाथकीनही पोतइपचिवुंअनेरापाहिंपचाविवुंअन्त्यादिकइकरीतेइथकी अतियसुंविरतानिवर्थानथी एकैकसवलानतो कुट्टणवैरादिक  
 वचनश्रीहैइथश्री पिट्टणवस्तादिकमोगरइकरीनइकुट्टिया आंगुलीकरीनइजोइसुकंऊउ ताउवउंकीसटिंठरीमारिवउं बधनारिवउं बंधरा  
 सडोइंबाविवउंपरिकेअतेहनदूबाधानुंपजाविवुंतेइथको अतियसुंविरतानियर्थाहैइ जांजीविदूतांलगइ एकैकसवलानदिं कुट्टणपिट्टणादिकप्रति

यास  
बीध

दिभ्रुवाकारे विरता इति कुट्टपिष्टणतल्लयत्वात्तत्रयपदिकल्लेसाधीति कुट्टनं खडिरादेरिव छेद्विगीयकारण पिष्टनं यज्जादेरिव सुद्वरादिना इतनेन तजनेन पर प्रतिज्ञासाक्षरेत्वात्तेत्यादिभरणं तादृगन्वपिटादिचननं तासुन वा यद्वहारादेद्याल्लेन खगनं यधी मारणं यन्धी रज्यादिना यन्त्यण पदिकेयो वाधोत्पादन सायज्जजोगोत्रद्वियन्ति सावज्जयोगा योपयिका मायाप्रयोजना कपायप्रययादत्यर्थं. उपजरणप्रयोजना वा ये ते तथा कर्णं तन्ति व्यापारांशो वाचनान्तरे सावज्जा प्रयोधियाकण्यतति यत्र प्रयोधिका प्रविद्यमाना वा अधिकेति एव सामान्ये नोक्तानां मनुष्याणां परिक्लिषायो पश्चियि

एकच्चाओपयणपयायणाओ यपश्चिविरया एकच्चाओ कोट्टण पिष्टण तल्लय वद्वंघ परिक्लिषायो पश्चियि रया जावज्जीवाए एकच्चाओ यपश्चिविरया एकच्चाओ यद्वहारादेद्याल्लेन खगनं यधी मारणं यन्धी रज्यादिना यन्त्यण काराओपश्चिविरया जावज्जीवाए एकच्चाओ यपश्चिविरया जेयावयेतद्वह्यगारासावज्जजोणवद्विया यकमंता पर

मयसं विरतनिवसर्गानधी एकपरसयत्तानधी खानकर्त्तवायकी चत्वारं नजगण्ठ षोपस्य यन्नगवानानु पूरपुं करवच विधेयन प्रगदमलवाग रादिकनु यद्ववाजियादिकता परिससकुमाकादिकरससृतादिकता रूपविद्यमानादिखनागंधोपादिकनामाख्यमूलफलकारणामरणादिकतीक्ष्णकीपति मयसु विरतानिवसर्गांश्चर जाओविद्विताकगद इकेकस्मानादिकपदार्थयकीपतिययसुं परिवरतानिवसर्गानधी जिओइपचीपनीराइतेत्याप्रकारतेइ यापूर्वोक्तसावयस्यवाययोगमनवचनकायानवविद्ययामायाप्रयोजनापयोजनकपायप्रत्यय एहवाकर्त्तनात्थापार परपनीराप्रण्यजीवनेइपरितापनाकरण चारकीजदनीपजायद तेइयकरनिघंठ इकेकमचलाइतहीपतिययसु विरतानिवसर्गांश्चि एकैकपापसु निवसर्गानधी तेकइइयमणमापुनाउपामक



रत्ता अयमात्रो विगंधे पावयथा अङ्गे अयंपरमङ्गे से से अण्डे अखियफलिहा अयं गुयदुवारा धिचंतै उरपर  
 घटदारण्यवेसा चउहसङ्गुद्विदुपुणमासिथौ सुपडिपुणं पोसहंसमं अणुपाके ता समण विगंधे फ्रासु एसिज्जे रं  
 असणपाणखारमसाइनेणं वत्थपडिगगहं कं वलपायपुं छेणेणं ओसहमेसज्जे रं पडिहारएणयपीठफलहृगसेज्जासंधारएणं

यादयारमाभिसिवायको गृहणवुदिं गुञ्जाळइपंधंधरिवायको पूछिगळै पंधंधयखपनइवारुवरूळिवायको अतिशयस्यु पास्यापंधंपूछ्यापळीनि  
 लुंयकरोधादिवायको पित्रोपइनिययको धाळइपंधं अणइतत्वयको निययअसाळइ पखिहाउपनइभिजजाडमांदितीसी अधातुवित्रेयतेभगवतना  
 विहातरूप त्रेणऊन कुसुभादिकरागइकरीनइरंगायाळइलेइना अर्थएइजे आगतिकडोस्यु इयाखिनधमंतेपुपाउपाधतपुत्रप्रतिपितानउकयन  
 निपंधं योभगवतनपोभाळउ कामंनु थिभेइक प्रवचनत्रीविहातअिनधमंभागं तेपंधं सारळै एइपरमउरळइपोसारसिवांतमागुं ऊइ येपपुय  
 कसदादिकसधारी रूपसारळइ फटिकनीपरिनिमंकिइयाळइपयवावारनइविपइपगं साभोगस रविग पर्वगुपदुवारा उदारपपायकोपोषा  
 उपायउपळैजेइना अतेउरनइविपइपारकावरंनइविपइवियतपीतिनउकारण्यळइ गयइपकइपयवाएइवइर आनकरगमनसंध्यामहातयजंइळइर  
 अउइसोप्रतिइपायोतघावाठमिपइकडीपुणपूनम प्रमावसिनकसो उद्विहकव्यायकतिथितथापुनिमत्रिषिचपोमासा सवंधीनो तेइगइविपइप्रतिपुणं  
 याठपइरीप्रमगु वीपधपर्वदिनसोअसंयधमंनोपुठिकुपसस्यगप्रकारिपतोषाररचितकडउपाकीनइनिर्दोवपयइ अगण तपखीमिगुंधवाअप्रम्यतर  
 परिगुपइरित प्राणकवचिषणएणयोपउप्रमादिकदोपरहितएइवउ अयनभातयीपोदनसाकषांइधइअसिप्रमुळ पाणीनीजाति यादिसमूपउउफनजाति

विशेषनिर्णयार्थं माह तजहति एतेत्यर्थः

पड़िलाभेसाया विहरंति विहरिता भक्तं पंचकवंति तजहं भक्ताइ

सागरोवसाइ द्विती आराहया से संतहेव २० से जेइमे गामागर जावसखिये से सु मयुआ भवंति तंजहा अगारं भा

खादिमतं को लपांन सोपारी सुठप्रमुपतंणइकरी वल्लतयापडिगुत्तपाया कांवलकांवलसोनीजातिपायगुं कणरजोपरयतेणइकरी ओपधसुं ठिसंवल्लवगादिका

भेषजवूकी काथवसारओतेणइकरी पाडिहारुमांगीलेईयायइपकप्रधणीनइसूपै पीठमाजवटफलगपाटिजं अक्कं भणीयथा उपाययसंधारओडाभजा

वलादिकतेणइकरी प्रतिलाभताविहरावताथका मवर्त्तइविचरइ विहरीविचरीमवर्त्तीनइ भातअगनादिकपयखइपरिहरइ बहुइघगाइकभक्तभी

जन अणसणखेइलइअवसरइतपविशेप तेखेइइनिवारैकेरीनीवारो नइ प्रती चारलागातेगुरुआगलिआलोईकरीने तेदीपपडिक्कमीतेइथीनियसीनपु

शरीरविषैसमाधिपाय्याजानादिकसमाधिपामाथसा कालमरणानअवसरनइविजैकालभरणकरीनइ उक्कटओषणुआइरनउ अश्रुतवारमओकल्पइउलोका

तेइगइविषै देअतापणइ उपातासभाइंसय्यानेविषेजपणइप्रवतरिवओभवति इइउपत्तिलनइ तेइयानकनैविपेजेजीयनीगतिगमनइयपुतेहनउं वापीससा

गरोपमनीखिताउपुं कडियउं आगन्तिभवने निपेभगंधतनी प्राज्ञानाआराधका शेषणाकमुनर्धपवोक्कतिमनिजजाणिवइ२० तेजेएणत्थवसंयारी तजीउं गुम

वाडिंधींठिओआगरसुवर्णनीउत्पत्तिठांअ जावगन्धयोअनेराइवोलेसंनिवेगभसगाडिगीयालोपीसीनायासनं विषे मनुयनीजातिभंधंतिखे तेकइइखे

राव धनपन सिंलो नवलरं श्री श्रीगणेशाय नमः २२

अपरिगृहा धम्मिथा जाव कप्पेमाणा सुसौला सुल्वता सुपडिया खंदा बाहु सव्वा ओपायाद्वायातोपडिविरया जाय  
 सव्वाओ परिगृहाओ पडिविरया सव्वाओकोहाओ मायाओ लोभाओ जाव मिच्छादंसणसन्नाओपडिविरया  
 सव्वाओ अरंभसमारभाओपडिविरया सव्वाओकरणकारवणाओपडिविरया सव्वाओपयणपयावणाओपडिविरया सव्वा  
 ओ कुट्टणपिट्ठणतज्जणतालखवज्जवंधपरिकिज्जेसाओपडिविरया सव्वाओगृहणमहणवणकविलेवणसहपरिसरसरुवगंध

परिगृहममतापाओधनादिकरदित धर्मश्रुतधर्मवारित्तधर्मनीकरणहार जावओपनेरागद्व धर्मअसत्तमचारिणपानिवद्  
 पारंभकरसथादिकसंबंधीतेणि परिगृहममतापाओधनादिकरदित धर्मश्रुतधर्मवारित्तधर्मनीकरणहार जावओपनेरागद्व धर्मअसत्तमचारिणपानिवद्  
 जावसयमनिर्वाक्यपतेषाधारता सुभुभलपोजसीनपाचारकेजेवनयो सुभुभलाप्रतमहाप्रतादित्त सुठुभलाजपावहादण्यंसद्वित्तजज्जद्विचरजेवन  
 सापुषारिद्विगोसर्वमनवचनकायादकरणकरावणपशुमोदन नयभंगीप्राणजीवनैअतिपातकण्ठिचपोतेइयकीपतिययस्यु धिरताभित्थ्यांखे जावमद्वयो  
 पनेराओन सर्वमंधद्वनयभगिद्वकरीपरिगृहमूच्छीस ममतापाओनद्वरापियाओ पतिययसुं विरतानिवत्थ्यांखे सर्वसमस्तकोधरीसयकीविरतानिवत्थ्यां  
 सर्वमस्तमानपभिमोनयकीनियत्थ्यां सर्वसायाओपरयवमाओनियत्थ्यां सर्वलोभवाकातेइयकीविरतानिवत्थ्यांखे जावमद्वयोपनेरा भित्थ्यासंगंनगुव  
 कुदेवकुधर्मोपाखांतेरूपयम्ययको अतिययसु विरतानिवत्थ्यांखे सर्वसपनाद्व आरंभजीवनपोतपद्वसमारभमजीगादिकउपद्ववद्वकार्यंनद्विपे  
 प्रवर्तित्तपो तेइयकीपतिययस्यु विरतानिवत्थ्यां सर्वसमस्तकरीवओव्यापारादिककरागियओपनेरापाठिकरसणव्यापारादिकतेइयकोअतिययस्यु विर  
 तानियत्थ्यांखे सर्वसमस्तपोतद्वपववठ अग्यादिकरूपवावियओपनेरापाठितेइयकी अतिययस्यु विरतानिवत्थ्यांखे सर्वसमस्तकुट्टणपद्वरादिकउच

सुसौला सुल्वता सुपडिया खंदा बाहु सव्वा ओपायाद्वायातोपडिविरया जाय



मल्लालंकारा श्लोपडिविरथा जेतावथे तहप्रगारा सावज्जनेगेवहिया कर्मता परपाणपरियावणकरा कज्जंति ततोविपडिविरथा जावज्जीवाए सेजहाणामए अणगाराभवन्ति इरियासमिया भासासमिया जाव इणमेवणिगंथं पावयणंपुरओकाउंविहरंति तेसिणंभगवंताणं एतेणं विहारेणंविहरसाणाणं अत्थेगइयाणंअणंते जाव केवल

नश्लोपिपट्टणगोटीलइकरीवस्त्रादिकनउकूटिवओ तर्जनाश्रांगलीइंकरीबोहाडिवउंअरेदुष्टजीएकरुंछते गडनाबूसटिंकरोसुषइंमारिवओबंधरासडोइं काधिवओपरिके शवाधाउंउपजाविवुंतेह्यको अतिशयस्युं'विरतानिवर्त्याहइ सर्वसमस्तज्ञानअंगोहलौउभर्दनजगटओचीपडणवसुं'कसुखादिके वाउं पूरिवउं'टबज्ञानउपूरिवओ विलेपणअगमलयागरादिप्रसुखनओशब्दवादित्वादिक फरसकोमलादिक रसष्टतपकयानादिकनास्वरूपचित्रामादिक नागंध चोभाजवादिमाल्यगुंथ्यामीकलाभलंकारआभरणादिकच्यारप्रकारणतेह्यकीप्रतिशयस्युं'विरतानिवर्त्ताह्नि जेकांइवलीअनेरादूजेतथाप्रकारतेहवापूर्वोक्त सावद्यपापसहितयोगमनवचनकायानाउवहियामायाउपयोजनकषायजाल्यकारण एहवाकर्मनाव्यापार परअनेराप्राणजीवनइपरितापनाकरणाहार कज्जंतिकरइनोपजावइ तेह्यकीअतिशयस्युउं'विरतानिवर्त्ताहइ जांजीविइतांलगइ सेतेयथानामजिमकोइंएक अणगारघरसामओइ रहितएइ वाचारित्रियाइइं मार्थिअजठहाथधरतीजोईंचालइजेइर्याममितिसमता विचारीउत्तअविश्वभाषाबोलइतेभाषासमितिसमिता जावशब्दयकीअनेराइ बोले एषणासमितिप्रसुप एहजनिसइकारीनिग्रयश्रीभगवंतसंबंधीउ प्रवचनसिद्धांतोक्त . पुरतो आगलिकरीसहितविहरइइइ प्रवर्त्तइछे तेहपूर्वोक्त साधुचारित्रियाभगवंतमहिमावंतनइ विहारकरणीविशेषइ विचरताप्रवर्त्ततायकानइ इकेकस्र्हांतभगवंतसाधुनइ अशुत्तरसर्वप्रकारिंप्रधान जावशब्द

वरणाण दैतयो नमुप्यञ्जति ते बहू इवासाइ केवलिपरियागं पाठणति पाठिपिता भतत् २ बहू इमत्ताइ  
 अणुमणाइ छे देइ २ ता जखुडाए कौरुइ अणुभावे जावअत करति जेविपियणं एगइयाणं णोकेवल्लशरदं षणो ममुप्यञ्जइ  
 ते बहू इवासाइ छुओ मत्यपरियागं पाठ २ आवाहेउप्यथे वा अणुप्यथे वा भत्तं पच्चत्वंति ते वहुइ मत्ताइ अणुमणा  
 छे देइ २ ता जखुडाए कौरुए अणुभावे जान अतं करेइ जेविपियंणं एगइयाणोकेवल्लवरदं षणो ममुप्यञ्जइ ते बहू इ  
 वासाइ छुओ मत्यपरियागं पाठो २ आवाहेउप्यथे व अणुप्यथे वा भत्तं पच्चत्वंति ते बहू इ मत्ताइ अणुमणाए

तेसाधुषण्णाइ कयासाइ धरिखणो वेवलो  
 यकोपनिरावचन केवल्लसपूर्णं वटपधानसानविमपावबोध दग्गं नसामान्यावबोधसमप्यञ्जइ मव्यजणपजइ  
 सधियोपर्यायगतपुपान्निस्सइ पणुभवस्सइ पासोपणुभवो नइ भातपगगादिय पचपोनइ चयाइ कभोजन अणुसण  
 छिन्निसवसरिगपविमोपइ छिइइ निवारइ तेइ कर्मनाचयनइ चर्यइ मोचसुपमणी कर्त्तव्यशरइ चइ नग्नपणानुभाषप्रगाओपितवस्यानुपडि  
 रतु जावगप्यथो सयसादुखनधोपमविनामकरइ जेसाधुभगतमडिमायतनिचरसु इकेगापुनइ केवल्लसं पूर्णं ज्ञानकेवल्लसं पूर्णं दग्गं विवयेप  
 खामाप्यवबोधे चरप्रधागसम्यगपकारुअपजइ जणपत्रइतिवारइ तेव इइवागाइ चयाइ चपरसर्थवसर  
 दीचार्थपानितु तपाअइ चणुभवइ तेदीचापलीपणुभवो नइ पायाधातावमीसकादिकरोगव्याविल्लपायअइ अयवापावाधापणजपनइ चइ भाग  
 पगगादिकपचथइपरिचरइ देसाधुषण्णाइ भातभोजन अणुमणखिइ चरपवसरितपविमयेपतेणइ चरो छिइइ परिचरइ छिदेते जिपियंणं कर्म चयमोच

१२८

चल

पाना

बोध

प्राजाहेति रोगादिबाधायां एगतापुणत्वेभ्यं परोत्ति एगा असाधारणगुणत्वादितीयामयुजभगमाग्नी वा प्रह्वीभोन्दि स्रुद्धेषा त एकाचिः  
पुनःशब्दः पूर्वोक्तार्था उपेक्षया उत्तरवाक्यार्थस्य पिण्डेयगीतनार्थः एके केवलज्ञानभाजनेभ्यो अपरे भयंनारोत्ति भक्तारो अगुष्ठानत्रिशेषस्य निययितारो

छेदेद्देता जस्मृष्टिएकौरएगणभावो जात्र तमद्भुमारहित्ता चरिमेहिं उस्सासणौसासेहिं अणंतं अणत्तरं निव्वाघायं  
निरावरणं कश्चिणं पडिमुम् केवलवराणाणदंसणं उप्पाडिंति तउपच्छासिज्जकहि जाव अंतंकरे हिंति एकच्चापुण एकेभ  
यंतासे पुत्रकभावसे सेणं कालभासे कालंकिच्चा उक्कोसे णंस अड्डसिद्धे महात्रिमाणे देवत्ताएउववत्तारो भवंति

पांसिवाभयोकीरतिकरद् नग्नपणु धंवलप्रमाणीपेतवस्त्रादिकारापद्पहिरद् जायग्रह्ययो प्रनेराद्बोल तेष्वश्रयंकर्मचय रूपकेवलज्ञानपांसिवा रूपप्राराधो  
पामीनद् चरिमच्छेहलद् उखामकचभिलेशरूपनी नासनौचभ्रीमूंकियारूपतेपद्करी अंतं प्रीअनंतार्थनगोजाय प्रवृत्तग्रधान कदोभोतोपरोसहा  
दिकदपलहनहद् निरावरणचायकजे प्राव्यभोजाइनही कसिणसमस्तअंगदकरीनद् प्रतिपूर्णा पूर्णां मानाचंद्रमानीपरद् केवलसंपूर्णं वरप्रधानज्ञान  
विशेषजाणिवाथ भीदर्शनसामान्यजाणिवाथ कीतेउप्पाडितउपार्जंडउपजद् तिवारपक्खीसीभ्रदकर्मतपारद्दनिज्जिनांसुपगामद् जायग्रह्यको प्रनेराद्बोक्त  
सकलदुःखगारौरिकमानमीकनभ्रंश्रंतकरणस्यद् वलीजेहनद् एकप्रर्चागरीरकरिवउंकरसंसारनेधिपै एडवाद्भुते कप्रवृत्तानाकारणदागभयनारापगहारा  
पूर्वभवनाजपार्थाकर्मघणातेहनै अवेगेपया कताकर्मनै योगे कालसामेसरणकालनै प्रवसरइं कालमरणकरीनद् उरउटपलेजं च्चाद्दतउ सर्वाथंसिद्धिपांच  
सांप्रवत्तरयिसाननइयिपद्दते पलीमहामोठ पीविमानघणा सुपनउठाम तिक्कतिक्तापणाएपुत्रपतेदपणै उपगगतसमानरूपिपद्देवगय्याइं नप जगहारभवंति



स्त्रीपयात्सम्बन्धे न तत्कारणभूतसमुदात्तादिनाशयतां दर्ययत्राह अणगारेणमित्यादि व्यतां नवरं केवलिसमुघाएणति नकषायादिस-  
मुदात्तेन समोहन्ति समवहती विक्षिप्तप्रदेशः केवलकप्यंति केवलज्ञानकल्पं सम्पूर्णं मित्यर्थः एवव्याख्यातु केवलः सम्पूर्णः कल्पत इति कल्पः  
स्वकार्यकरणसमर्थः वस्तुरूपइति यावत् केवलयासौ कल्पयेति समासोऽतस्तं निज्वारापोगलेहिति निज्वारा प्रधानाः पुद्गला निज्वारापुद्गलाः  
जीवेनाऽकर्मता सापादिताः कर्मप्रदेशा इत्यर्थः अतस्तेनिज्वारापुद्गलैः फुडेत्ति स्पष्टो व्यासः क्लमत्ये गंति क्लमत्यो निरतिशयज्ञानयुक्त इह प्रतिपत्तव्यो

मांश माया लोभा अणुपुद्बेणं अष्टकस्यपगडौ श्री खवेत्ता उषिं लोयगपड्याणाहवंतिर अणगारेणंभंते भाविश्रप्या  
केवलिसमुघाएणं समोहणित्ता केवलकप्यं लोयं फुसित्ताणं चिद्वंति हंताचिद्वद्व सेणुणंभंते सेकेवलकपोलोए  
तेह्णिज्वारापोगलेहिंफुडे हंता फुडे कश्चोमरथेणंभंते अणुसुखे तेसिंणज्वारा पोगलाणं किंचिवरणं वरणं

इजमानअभिमाननुंअणुभाव मायापरवंचनानुअभाव लोभवांछातेहतुअभाव आनुपूर्विद्वअनुकमइ ज्ञानावरणोयादिकप्राठकमेनौप्रकृतिस्त्रभावभिग्रिपते चय  
कारौषपावीनइ कपरिलोकनइअधिंएतलइजदराजनइअयिजपरइप्रतिष्ठानरह्णिणहारहवंतिहुये अणगारसाधुजेहनइघरनीसामग्रीनयोभंतेहे भगवन  
भावितात्मारुडइचारितइआत्मा केवलसंबंधीउसमुदात्तात्मापदेगनउवादिउकाठिअश्री तेसमोहणइप्रदेशकाठइ केवलज्ञाननीपरइसंपूर्ण  
लोकचजदराज फरसीनइ रइइ हेगौतमफरसीनइरहइ तेनूतनियइकरोहेभगवन केवलज्ञाननीपरइसंपूर्णस्त्रीकचजदरा जतेणइ निज्वरानइपुद्गलकरीनइफ  
रिसइ हागौतन फरिसइ क्लमत्यसकषायासारागाहेभगवन अणुय तेनिज्वाराकर्मवपाव्या पुद्गलसार्थं गम उ काहंनइरगंइकरोपये अणुगंइइकरो गंउचिद्विंइरसइ



मिति च पुष्टिकारूपश्रीमत्वावेदकृत्स्नव्यापारोपदर्शनपरः अनुस्काराश्रयणं च प्राज्ञतत्वात् द्विर्वचनं च श्रेष्ठतातिशयोपदर्शनपरं इति रूपपादर्शनार्थः  
कला विधाय तिष्ठित्थरा निवा एहिंति तिस्रभिय पुष्टिकाभिरित्यर्थः तिस्रस्तखुलोत्ति तिगुणाः सप्त तिसप्त क्रिसप्तथारास्त्रिः सप्तकालः एकविंशति-

पडिपुखचंदसंठाणसंठिए एकं जोयणमहसहस्रं आथामविक्खंभेणं तिण्णियोयनसयसहस्रारसोलससहस्राइं  
दोणियसत्ताओसेजोयणसए तिखियकोसे अट्टावीसंचधणुसयं तेरसयंअंगुलाइं अट्टुंगुलियंच किंचिविसेसीहिंते  
परिक्खेवेणंपयत्ते देवेणं महिड्डोए महजुत्तोए महायसे महाणुभावे सत्रिलेवणगंगंध  
समुग्गयंगियहति सत्तं अवदालेति तंर जावइणारुवत्तिकट्टु केवलकाप्पं जंबूहोवं तिहिअत्थरारिणवाएहिं ति  
सुत्तखुत्तो अणुपरिअट्टित्ताणंहव्वमागच्छेज्जा सेणूणंभंते गोथमा से केवलकप्पेजंबूहोवेरं तेहिंवाणणोग्गलोहिं फु डे

सहस्रएतलैलाषयोजन लांबपर्यै अनैपिडुलपर्यै विण्णि लाषसोलसहस्र विमै सत्तावीसयोजन त्रिणिकोस एकसउअट्टाओधधनुष तेरआंगुलां वलीअट्टुअंगलि  
नओ काईएकविशेषाधिक अधिकसोपरिच्छेपोफिरतउपरिधिकह्यउंतोयंकरैदेवता सोटोक्कसिनुंधणो सोटोअवलपराक्रमनउंधणी सोटाअ  
अनुंधणी सोटासुषनुंधणीसोटीमहिमानंधणो चूर्णादिअनुंधावडुं अहीनइं पूर्वलोपरिआनात्थप्रोहिबडुं  
चापडोमाचमांहिजईआबैइकरौने संपूर्णजंबूहोपनामाहोपतिणिचापडोवजाडोइं एतलीवारमांहिविसत्तं कवीसवारजंबूहोपपापलिफिरीने हव्वउताव लउं  
आवइतेनिसइ हेगौतमसंएणं जंबूहोपनामाहीपतेणइं प्राणनासिकासंबंधीगंधनइं पुहलइकरी फरिस्यउ हागौतमफरिस्यओ अतिशयज्ञानरहितं हेगीतम





प्रदेशान् दिक्षु पश्चिपन्ति एतदेव सुखप्रतिष्ठये वाक्यान्तरेणाह कर्मण्यंकेवलीसमुघायंगच्छंतिस्ति अपलिख्योपेत्ति स्थिते रचयात् प्रवेष्टया अनि  
 ज्ञिणस्ति काचिणश्चने तत्र अवेदितास्तद्रसस्या ऽननुभूतत्वात् अनिजीर्णस्तरप्रदेशानां जीवप्रदेशेभ्यो ऽपरिश्रयनात् बहुएसेवेयण्जोत्ति से तस्य  
 केवलिनो यः समुदातं प्रतिपद्यते न पुनः सर्वस्यैव केषाञ्चिद्वक्तनसमुदाताना मपि समभावयेष्टत्वात् बंधणेहिंति प्रदेशबन्धानुभागबन्धा वा ऽऽश्रित्ये  
 त्यर्थः ठिईंहियत्ति स्थितिवंधविशेषाना ऽऽश्रित्येत्यर्थः विसमसमकरणयाए बन्धणे हि ठिईंहिय एवं खलु केवलीसमोहणंति इहैव मचरवटना एवं  
 खलु धिषमसमकरणाथ बन्धनादिभिः कोवलिनः समुदातन्तीति आवज्जीकरणेत्ति आवज्जीकरणायां कर्म प्रचेपव्यापाररूपं तच्च

वेदगिज्जं आउतं णां गुत्तं सव्ववडए सेवेयण्ज्जे कम्मं भवंति सज्जत्योत्रेसे आउएकम्मं भवंति विसमंसंकारइ  
 बंधणेहिं द्वित्तीहिय विसमकरणाए बंधणेहिं द्वित्तीहिय एउं खलुकेवलीसमोहणंति एवं खलुकेवलीसमुघायं  
 गच्छंति सव्वेविणंभंतं केवलीसमुघायगच्छंति योरणइससइ अकिरियाणंसमुघायं अणंताकेवलीजिणा जरा

सगलामाहि बहुलघणउ तेवेदनीयकर्मच्छइ सर्वसगलामाहिथोडोते पाउकर्मच्छइ वेदनीय प्रनइ याऊपुं विपय भायुं पाऊउइते समउकरइ बंधनइ करी  
 थितिइ करी विषमच्छइते समउकरिवानइ प्रथइ बंधनइ करी थितिइ करी एणइ पकारइ निगइ करी केवलज्ञानो आत्मानापडेगदिगिधिपइ मिस्सार्इ  
 एवंएणप्रकारइ खलु निये सहितकेवलज्ञानो समुदातआत्मा गदेगदिगिपये विस्तारिवा प्रवत्तं इ सगलीइ निशेसुं भंन हे भगवन आत्मपदेगदिगिविपे विस्तारिवा  
 गवत्तं इमएवातप्रवत्तं घटैनहे अणकोधउमसत्तते प्रदेशदिग गतिं अणमिस्सारे अनंताप्रनंताभेदेकेवलज्ञानो जिनभगवंत जरा मरणथ तीसूं काणा

केवलिसमुहार्तं प्रतिपद्यामानं प्रथममेव करोति पठनसमयेदं लंकारेति प्रथमसमये एव लंकारेणिकाश्रमूर्ध्नि पथयायत सुभयतीर्ष्वि लोकात्मनामिन  
 श्रीवपदेगसखात दण्डखानीयं केवलिसुभयानाभोगत करोति विश्रएकवाडकरे इति तिततीयसमये तु तसिब दण्ड पूर्वोपरद्विगुहप्रसारणात्प्राप्तार्जतो  
 लोकात्मनामिबकपाटमिब कपाट करोति मंधति तृतीये समये तदेव कपाटद्विबोत्तरद्विगुहप्रसारणात्प्राप्तिसहगं मन्थानं करोति लोकात्म-  
 प्रापिण निव लोगपूर् इति चतुर्थसमये सप्त लोकादिनि श्रुतेर्मन्थान्तरादि पुरयति ततश्च सकललोका पूरितो भवति लोयंगडिसाहरइति पञ्चमे समये  
 मन्थान्तरापुरकाले न ये लोकपुरका प्रदेशास्ते लोकमन्थेन चञ्चन्ते यतो मन्थान्तरासपुरकान प्रदेशान् सहरति मन्थिषो भवतीति यावत् मंधपडि

मरणविष्यमुक्त्वा निर्विह्वरगतिंगता क्वेति समर्पणं भंते । आसुञ्जौ कएणेपन्नत्ते गोयसा पसं खेञ्जससति ए अंतोसञ्ज  
 सपन्नत्ते केवलिसमुघाएणं भंते । कइससतिपन्नत्ते - गोयसा अइससतिपन्नत्ते तंजहा पठमेसमएदं लंकारेति विष्ट ।  
 समएकवाडकरेति ततोएसमए मंथंकरेति चरद्वेसमए लोयंगडिसाहरति छट्टेसमए मंथं पडि

मोचरवधानगतिपशुता केतसइसमयभगवन आत्मानइमोचप्रतिं सामइलकरिविउते पावयीं करणकञ्जपोतीयं करइ चरद्वेसातसमयग  
 अतमुंश्रुसंमसाणकामपवने कइउतीयं करइ केवलिनोसमुघातपालप्रदेयवादिगं, काठिवउभते भगवन केतनइसमइयकइउतीयं करे पशोगीतम  
 पाठसमयकइपोतीयं करइ तेकइइएइ पडिसइसमइ लोयंगनापदेयदंडनइपाकारइ करइ बीजइसमइनेत्रदंडाकारिकोपलिनासप्रदेयते पूर्यययिमइ  
 विस्तारीन इर्मनाडनीपरइ करइ बीजइसमइते तमाडनीपरइ कोधाजे जीवनापदेशसमुभ्रतेद्विषणउशरविखारवइ मंधाणपोकरइ चउथरनमैलीकना

टीका ३२० नूय मावा बोध





मिति आहारगसरीरकायजोगंति प्राञ्जत् नवरं आहारका विग्रिष्टतरप्रह्ला स्त्रिःपत्र माशरका प्रयय चतुर्द्वयपूर्वधरस्य ससुत्वन्नविग्रिष्टप्रयोजनस्य  
 कृताहारकायरीरस्य भवतीति आहारगसोससरीरकायजोगति आहारकसम्पन्नं यदौदारिकेण तदाहारकमित्यन्तव्यरीरं चेति शेषफलैव प्रयसाहारि-  
 कौदारिकयोर्युगपद्यारूपः स च कृताहारकस्य तस्यगिनौदारिकं गृह्णती भवतीति कथमसरीरकायजोगंति प्राञ्जत् अथ चापान्तरालगतौ केवलिस-  
 युक्ताते वा स्यादिति पठमठमेससमएस धृत्वादेरयमभिप्रायो जीवप्रदेशानां दण्डतया प्रक्षेपे संक्षारे च प्रथमाष्टमसमययो रौदारिककायव्यापारा-

कायजोगंजुजंति कस्मासरीरकायजोगंजुंजइ गोयमा उरालियसरीरकायजोगंजुंजइ उरालियमिस्सुंसरीरकायजोगंपि  
 जुंजइ योत्रेउव्वियसरीरकायजोगंजुंजइ योत्रेउव्वियमिस्सुंसरीरकायजोगंजुंजइ योत्राहारसरीरकायजोगंजुंजइ गोत्रा  
 हारकमिस्ससरीरकायजोगंजुंजइ कस्मसरीरकायजोगंपिजुंजइ उरालियसरीरकायजोगंजुंजइ उरालियमिस्सु  
 सरीरकायजोगंजुंजइ पठमठमेससएसुउरालियसरीरकायजोगंजुंजइ विइयच्छुसत्तमेसुसमएसुउरालियमिस्सु

कायानउयोगव्यापारप्रयुंजइ औदारिकअनइकर्मसुंमिअएहवागरीरकायानुंयोगव्यापारतेप्रयुंजइ पुणवैक्रियगरोरकायानउजोगव्यापारतेहनप्रयुंजइ  
 वैक्रियरीरऔदारिकादिकसुंमिअतेहनाकायनायोगव्यापारतेनप्रयुंजइ आहारगरीरकायानुंयोगव्यापारतेनप्रयुंजइ आहारकगरीरऔदारिकसुं  
 मिअएहवीकायानुंयोगव्यापारनप्रयुंजइ कर्मणकर्मरूपशरीरतेहनुंयोगव्यापारप्रयुंजइप्रवर्त्तयइ औदारिकगरीरकायानुंयोगव्यापारप्रयुंजइ औदारिक  
 अनइकर्मसुंमिअएहवागरीरकायानुंयोगव्यापारतेप्रयुंजइ पहिलइभाठमइसमइऔदारिकगरीरकायानुंयोगप्रयुंजइ बीजइबहइसातमइसमइभ्रीदा

राय वीजप ल वि अशरतेर अ शगमसयन मना २२

दोदारिककाययोगएव द्वितीयपष्ठसप्तमसमेयेषु पुन. प्रदेशानां प्रक्षेपसंहारयो दोदारिके तस्माच्च बहिः कार्माणे वीर्यपरिस्रव्यादोदारिका-  
कार्माणमित्य तृतीयवर्षपर्यन्तमेषु तु बहिरोदारिकात्कार्माणेणकायव्यापारादसहाय कार्माणयोगएव तन्मात्रवेधनादिषु च यद्यपि मन्व्यकरणे कपाट  
न्यावेनोदारिकस्यापि व्यापारः सन्भाव्यते तथाप्येत एव वचना दशो कथं विश्राप्तीति मन्व्यमिति मन्व्यमभोगजु जइ षष्ठसामोसामणजोग  
पिजु जइति मन पर्वायप्रानिना चतुसरचरेण वा मनसा प्रष्टो मनसेवास्ति जीव एव कुर्वत्यादिक मन्तर यज्जन् सचइजोगति जीवादि-

सरीरकायजोगंजुं जइ ततीयचउरथर्षचमेडिकमासरीरकायजोगंजुं जइ सेणभंतेतहासमुगघातगते सिवभाहिइ नुज्जम  
हिइ नुच्चहिइ परिनिव्वाहिति सव्वदुक्खाणसंतंकरेइ खेइणइसमहे सेणतओपडिनियत्तइ ततोपडिनियत्ता इइ  
सागच्छइइत्ता ततोपच्छामणजोगंपिजुं जइ वयजोगंपिजुं जइ कायजोगंपिजुं जइ मणजोगजुं जसमाणे किंसच्चमण

रिक्कमंस्युमिन्ववमित्रकायानुं योगव्यापारप्रयुं जइ वीजावउत्थापणसमयनइविपरिव्वाभंषकर्मरूपयरीरकायानु योगव्यापारप्रयुं जइ तेइजीअभते भग  
वन सण्णतपाल्लप्रदेशकादोविन्सारीप्रवत्तउयकी, सोअइसिद्धिइस्युं जाइ तस्समापंस्युं जाइ कर्मयकीमूं काइ कपाएउपसमावोसीतसस्यउं धाइ  
सर्वेदुःखकायानामननानचयु स्युं अंतउयकरइ नहोएइरुं अयंसमधंघटइनही तजीवतिधारपळीतिसुघातकखउळैतैयकीनिसंसइपाळउं वसइ तिवार  
पळीतेससुघातयकीपत्थावतीनइ तिहोपाळमरीरनइविपरिधापइ तउपपण्णतिवारपळो मनसं योगव्यापारप्रयुं जइ यचनयोगव्यापारप्रयुं जइ काया  
गरीरउयोगव्यापारप्रयुं जइ मनसु योगव्यापारतिवारइप्रयुं जइ तिवारइस्युं साचामनसं योगव्यापारप्रयुं जइ कइएपाजुठओमननउं योगव्यापार

पदार्थान् प्ररूपयन् असशामोसावयजोगंति आसन्वणादिष्विति असुषातात्रिष्टित्तियान्तमुद्धनेन योगनिरोधं करोतिः२२ छः सेषंपुष्वाभिवसत्रिस्त्रोत्यादि  
प्रस्थापमर्थः स केवली णमित्यलङ्कारे पूर्वभवादावेव योगनिरोधावस्थायाः संज्ञिनो मनोलब्धिमतः पक्षेन्द्रियस्येति स्वरूपविशेषणं यतः संज्ञी

जोगंजुं जइमोसमणजोगंजुं जइ सच्चामोसमणजोगंजुं जइ असच्चामोसमणजोगंजुं जइ गोयमा सच्चमणजोगंजुं जइ  
णोमोसमणजोगंजुं जइ णोसच्चामोसवइजोगंपिजुं जइ कायजोगंजुं जइ जसारे आगच्छेज्जावा  
चिक्खेज्जावा णिसाएज्जावा तुयइजेज्जावा पल्लंवेज्जावा लखेवणंवा पक्खेवणंवा तिरियक्खेवणंवा करेज्जा  
पाडिहारियंवा पौठफलहकसेज्जासंथारकंप्यच्चपियेज्जा सेणंभंतेतहासंजोगीसिज्झिहिइ जावअंतकरेहिंति णोति

प्रयुंजइ कइकाइसांचुअनइकाइमूठउं एइवओमिअमननुं योगव्यापारप्रयुंजइ कइ असत्यसांचुइंनहीअनइसुपाजूठउहीनहीएइवुं व्यवहारमननुं योग  
व्यापारंप्रयुंजइ अहीगीतम साचओमननुयोगव्यापारप्रयुंजइ सुपाजूठओमननओयोगव्यापारप्रयुंजइनहे काइंसत्यकाइंसुषाजूठउं एइवओमिअमन  
नुयोगव्यापारप्रयुंजइनही असत्यासुषाव्यवहारमननुं योगव्यापारतेइप्रयुंजइ कायागरीरनुयोगव्यापारप्रयुंजइतिवारइ अलगओथकओठूकडओओमा  
वइ यंभादिकविपइउठं गीनइरइइपुथिवीआदिकनइविपइइसइ भूमिकादिऊनइविपइसुप्रइ सामान्यपालासुपनुं उलंविउ अतिशयस्युं पाइंप्रसुख  
नुं टपबुं जंचूजछालियउं जंवाथकीनींचउं पाडिवउ तिरकोदियिनांपिउं करे गइस्यनओमांगीनेइंभाव्याहुरतेहवाजटपाटीजं गथाउपाअय  
संथारओतेइपाछओआयइ तेहजीवभंतेइभगवनतेहवओसंयोगमनवचनकायानायोगइव्यापारइसहितकइस्युं शिइजइ पूर्वलीपरइंसर्वदुःपनओभ्रंतकरइ

पचेन्द्रिय एव भवति पञ्चसंस्कारानां मनस्येव पर्यायात् तदन्वयस्य मनोव्यवस्थितोऽपि मनसो प्रभाव एवेति पर्यायस्त्वित्युक्तं स च मध्यमादि-  
 मनोयोगोऽपि व्यादित्याद्य जहणजोगिच्छति जहण्यमनोयोगवत् हेतुत्ति प्रथो यो मनोयोग इति मन्यते जहण्यमनोयोगसमानो यो न भवतीत्यर्थः  
 मनोयोगस्य मनोद्वय्यापि तद्व्यापारयेति जहण्यमनोयोगाधोभागवर्त्तित्वस्यैव दर्शयन्नाह असंखेज्जगुणपरिहोणंति असंख्यातगुणेन परिहोणो य-  
 स तथा त जहण्यमनोयोगव्यामर्शयेभागमाय मनोयोग निरुण्णदिति तत क्रमिणानया माधया समयेर तं निरुन्धान सत्त्वमनोयोगं निरुण्णधि प्रह-

णद्वैसमद्वे हेतुपुष्वाभेवर्षाणसर्पंचदियस्सु पञ्चसत्तगस्सु जहणजोगस्सु हेतुा प्रसखेज्जगुणपरिहोया पठमसमण्यगजोगनि  
 रुभति तयार्णंतंचणं चिंदियस्सुपञ्चसत्तगस्सु जहणजोगस्सु हेतुा असखेज्जगुणपरिहोणं चितियंयद्वजोगं निरुभंति  
 तयायतंचणं सुज्जमस्सु पणगजोयस्सु अपज्जसत्तगस्सु जहणजोगस्सु हेतुा असखेज्जगुणपरिहोणं तद्वैयंकायजोगं

एवमनसोहनपट्टर तद्वजोवप्रमपुपदिहत्त सच्चियचोगमंलमनसचित्तर्षवेन्द्रियजोत्र पर्यायिज्जहकरीपूरपोतिहनत्त जहण्ययोत्तद्वयोग मननु  
 व्यापारत्तेद्वयकीहेठापोरेवो वमंल्यातगुणपरितगयत्त हीयपो एववत्तप्रथममनसोयोगव्यापारस्य धरुसवरुं तियारपण्णोयलो वेन्द्रियजोवपर्यायि  
 विद्वद्वपर्यायानवो जहण्ययोत्तद्वययोगव्यापारत्तेद्वयकीहेठपोहणपो असंख्यातगुणपरितगरीवत्त हीयपोयोत्तद्वययोगव्यापार  
 शिक्तुं धर्मंररत्त तियारपण्णो गून्मनानु नोत्तिन्मूत्तिनीवनत्त पर्यायिचिद्विकरीपयर्षात्तानत्त जहण्यसगत्तावकीनासत्तकायात्रपोयोगव्यापारत्तेप्रथकीहेठ  
 योहीयपो वमंल्यातगुणपरितगरीवत्तपो नोत्तकायागरीत्तनत्तयोगव्यापारत्तेद्वयधरुधरुधरत्त तैद्वजोवपद्वपूर्वसोपरितनत्तद्वयार्करीनद्वे पदिह



तरेणाचित्वे न प्रकरणतोयेति एतदेवाह पठमसणोजोगंनिसंभरुति प्रथमं जीपथागादियोगापेक्षया प्राथस्येनादितो समीयोगं निरुणहीति  
 उक्तं च पञ्चतमेत्तमत्रिंशत्तिसियाईजहयजोगिस्सुद्धीति मणोदव्याईतव्यावारीयजगत्तो तदसंखगुणविहीणं समनेर निरुणमाणो सो मणसो सब्-  
 निरोहं करे प्रसंखेव्वासमएहिति एय मन्वदपि स्रतद्वयं नेयं अजोगयंपाउणरुत्ति पजोगता प्राजोतीति ईसिंज्जपंपवख्खगचारणशुएत्ति  
 ईसिति ईषट्ठशानि इत्त्वानि च यानि पञ्चाचराणि तेपा यहुचारणं तस्य या ऽवा कानः सा तथा तस्यां पूदं चोचारणं न यिलम्भितं द्रुत वा किन्तु  
 मथ्यम भव गृह्यते यत पाह इत्सवख्खराईमज्जेण जेण कालेण पंचभणंति अत्थइसेलेसिगत्तित्तियमेततप्पोक्कालं जेनेगी मेइसस्येव स्थिरता  
 सास्यावाउत्था सा जेनेगी अथया गीनेगः सर्वसंवरूपचारित्तप्रमुत्तस्ये यमवस्थायोगनिरोधरुवेति जेनेगी तां प्रतिपत्तते ततः पुब्बरप्रयगणसेठीयं

गिरुभंति सेणएणं पउत्तेणं उदाएणं पठमसणजोगं गिरुभंते मणजोगंनिरुभित्ता वयजोगंनिरुभंति वयजोगंनिह  
 भित्ता कायजोगंनिरुभंति कायजोगंनिरुभित्ता जोगनिरोहंकरे इ जोगनिरोहंकरेत्ता अजोगत्तंपाउणत्ति अजोगत्तंपाउ  
 णित्ता इसिंरहस्स पंचत्तरउच्चाराणद्वाए थंमखेज्जसम इयंअंतोमुज्जत्तियंसेलेसिं पडिवज्जईपुब्बइयगुणमे ढीयंचणं कम्मं

उमननश्रीयोगव्यापाररूंधदं मननउयोगव्यापाररूंधीसंवरिने पणनउयोगव्यापाररूंधइमंरइ पणनउयोगव्यापाररूंधोसंवरिने कायागरोर  
 नउयोगव्यापाररूंधेसंवरं कायागरीरनउयोगव्यापाररूंधीसंवरिने मननउवनकायानाजोगव्यापाररूंधेसंवरं मननउवनकायानायोगव्यापाररूंधोसंवरि  
 नइ मनवचनकायानायोगव्यापाररूंधितपणुं पामं मनवचनकायानायोगव्यापाररूंधितथइने ईपगणीउउंसं इत्तप्रइउत्तलृणुउवापांचप्रचरलचरसेएतत्तइ

चपयोपकमविशेषरूपा यस्य स तप्तया गुण्येणो येन सामान्यत किञ्च कर्म वस्तुस्य मध्यतर  
 वपति पूर्व्यं चेत्सहस्रस्याया प्राक् रचिता गुण्येणो चपयोपकमविशेषरूपा यस्य स तप्तया गुण्येणो येन सामान्यत किञ्च कर्म वस्तुस्य मध्यतर  
 मन्पतमश्चेत्येवं निर्जन्तरेण्यव रचयति यदा तु परिणामविशेषात्तत्र तथैव रचिते कान्तात्तरेण्य मन्पतमश्चेत्येव ग्रीषतत्तत्तपणाय रचयति  
 तदा ना गुण्येणोपुच्यते स्थापना र्वेवं कर्माति वेदनीयादिकं भवोपयादि तीसेत्सेत्तेशिमद्याएति तस्यां ग्रीषेणो, पययां ग्रीषेणोकात् सप-  
 यविति योप एत देव विशेषेणाह चसले स्मादिगणसेठीधितिं पुनख्याताभि गुण्येणोभि ग्रीषेण्यस्याया पसख्यातसमाप्ति न गुण्य  
 येष्वाप्यसख्यातसमया ततः तस्या प्रतिसमयभेदकत्वनया पसख्यातगुण्येण्यो भवन्ति यतो पसख्याताभि गुण्येणोभि रित्युक्त  
 चसख्यातसमये रिति हृदयं पणतैत्तत्तवेत्तयतेति अतस्तुप्रभकरुपत्वादन्ता प्तान् कर्मागान् भवोपयादिशक्यंभेदात् सपयन् निर्जन्तयन्  
 येयिष्वात्तपणामनोएति वेदनीयं सातादि पायुर्कसुयायुक्त्वं नाम मनुष्यगव्यादि गोल मूढे गौं प्रचेक्षेति इत्येतान् चत्वारिति चतुर कर्मांसेति  
 कर्मांगात्प्रप्रज्ञनी जुगयन्तवेदन्ति योपयवे १ निर्जन्तयतोति एतच्चेता भाष्यगाथा मनुष्यिय व्याख्यातं यद्ग्न तदमखेत्तपणाय वेठोए गिरद्वयं पुरा



तौसेत्सेत्तेशिमद्वार अयसखेत्तेशिचि गुण्येणोदिश्च अर्थतेकस्मसे खवयंतेवेयश्चिज्जापयथामगुत्ते इद्येत्ते चत्तारिकस्म सेत्तगवक्त्वयद्  
 विरतापणु पडिनत्ररपादरे पूर्व्वदपरिखोरचोनीपकावी  
 निरपयंतनीपरिनिचख विरतापणु पडिनत्ररपादरे पूर्व्वदपरिखोरचोनीपकावी  
 एहचतुर्मुहसांज्ञगी निरपयंतनीपरिनिचख विरतापणु पडिनत्ररपादरे पूर्व्वदपरिखोरचोनीपकावी  
 पहाकानवात्तेतथे पसख्यातसमैकरोभोपनठ एहचतुर्मुहसांज्ञगी निरपयंतनीपरिनिचख विरतापणु पडिनत्ररपादरे पूर्व्वदपरिखोरचोनीपकावी  
 खे गुण्येणोयेथिकर्मपयाधिवारूपचपक्ये विजेदनीएहनापोतानाकर्म तेहजेसेत्तेशोभेरुपयंतनीपरिनिचखरदिवु एतत्तानाकाशमांशिह पसख्यातोपसंख्याता  
 तासमयप्रमाणेने चपनकरूपगुण्येणोयेथिकर्तने पनतापनतभेदे कर्मनार्थगतेह पयावितचोचयत्ततसोयकचो वेदनीयप्रापयडंरनामकर्मंशगत

टीका २४५

एव वाधा नोप

कामं समए समए खययं कामं सेलेसिवालेशं सख्यं खयेद तं पुणन्निक्षेवं जिच्छिदुपरिमए समए क्षिच्छिद्य होइवरसे सेलेसोए तयं वीच्छं २ मणुयगइजा-  
 इतसवायरं च पञ्चतसभगमाएण्णं अन्नयरवेययिण्णं नराठ सुभंजसो नामं ३ संभयसो जिणनामं नराणुपुब्बोयवचरिमसमयंमि चेमा जिणसं  
 तासो दुचरिमसमयमि निदुत्तिति छः सव्वाधिं विप्ययइणाहिति सर्वाभिरयोपाभिः विगोयेण गिधिप्रकर्षतो हानयः त्यागा विप्रहाणयो व्यक्तापेचया  
 बहुवचनन्ताभिः किमुक्तां भवति सर्वथा परिघाटनं न तु यथापूर्वं सदातपरिसाटाभ्यां देगत्यागताः विप्यजइत्तिति विगोयेण प्रदाय परित्यज्य उज्जसेदि  
 पडिबन्नेत्ति च्छनु रवक्का येणि राकायप्रदेगपंति स्थां च्छनुयेणिं प्रतिपय आत्रितः अफुसमाणगइत्ति अस्सुगन्तो सिधत्तरालप्रदेगान् गतियेस्य  
 सोऽस्सुयइत्ति रत्तरालप्रदेगस्यंने हि नैकेन समयेन सिद्धि रित्यते च तत्रैक एय समयः य एय पायुक्तादिकर्मणां चयसमयः सएवनिर्वाणसमयो अतो  
 ऽत्तराले समयान्तरस्याभागादत्तरालप्रदेगाना गसंस्पयंन मिति च्छन्नायायमर्थः केवनिगम्यो भागत इति एगेणंसनएणंति क्ततइत्तयाह अविगइणंति  
 अविगइण वक्करइत्तेन वत्तु एय हि समयात्तरं सगति प्रदेगात्तरं च सृगतोत्ति उडुंगंता उडुंगं गत्वा सागारोउत्तेनि ज्ञानोपयोगधान् सिध्थति क्तत-

वेदणिज्जार उरानियतेयाकम्मार्ं सव्वाहिं विप्ययइणाहिं विप्यहति उरानियतेयाकम्मार्ं सव्वाहिं विजप्पइणाहिं  
 विप्ययहिता उज्जसेट्ठीपडिवन्ने अफुसमाणगर्ं उडुं एअसमएणं अयिग्गहेयं उडुंगता सागारोउत्तेः सिक्किहिति

कर्म४ एइते चारे कर्मनाभंग समकानियपायइचवचानइ चयकरीनइ पौदारिकगरोरैजमगरोरकार्मंगगरोरते तद्यत्तारविगोयकोकाटकअइ  
 यपाविबइकरो पतिगयसुंळाडइ पौदारिकगरोरैजमगरोरकार्मंभगरोर तेसं क्कडिइइकरो प्ळांकी परिइरोमइ सरजमभोयेधि पइियअइ

टीका

३४६

सुच

बाला

बोध

कृत्यता समतद्दति छ गतमानुषादिक मय प्रकृतमाह किञ्च प्रकृतं येनेदमेगामागरजावसचिवेसेसु मणुषा इवन्ति सच्चकामविरया जावसचकामप गभीषो खवदसा चर्विभोयगपरदहाणा इवतीति लोकापप्रतिष्ठानाय सन्तो यादृगाम्ते भवन्ति तद् ग्रंथितु मासु तेषं तत्त्वसिद्धाहवतिन्ति ते पूर्वो दिष्टवियेषया मणुष्यास्तत्र लोकाये भिदितार्थां सु रित्वेतेन च यदक्षेचन मन्यन्ते यदत रागादिवापनामत्तं चिदमेव निरामयं सदा एतियत- देगसं लिङ्ग इत्यभिधोवते यथा इपरे मन्यन्ते “गुणवत्त्वान्तराज्ञानाविद्यसप्रकृतिक्रिया सुक्ता सर्वेषु तिष्ठन्ति ध्योमवसापवर्ण्यता” तद्वन्नेन निरस्यं यचोष्यते समरीरताया मयि सिद्धत्वप्रतिपादनाय यदुत “षण्णिसाष्टाष्टनिधं प्राप्तेयर्थं कृतिन सदा मोदन्ते निहंताजान स्त्रीणां” परमदुम्यार भिति तदपाकरपायाह समरीरा षण्णिसमानपञ्चपकारमरीरास्तथा लोवषण्णिसि योगनिरीषकाले रन्ध्रपुर्येन सिभागोना इवगाहना सतो लोवषणा इति दंशणताचोवसोमसि ज्ञान साकार दर्शन मगाकारस्तयोः क्रमेणोपयुक्ता ये ते तथा निद्वियद्वन्ति निद्वितार्थां समातसमस्तप्रयोजना निरेयणन्ति निरेजनाः निवसा नीरयति नीरजसो इत्ययमानकं ररहिता नीरवावा निगंतोलुक्ता निव्यनन्ति नियंता पूर्ववदकर्मोवनिर्मुक्ता. द्रव्यमलवर्ण्यता

निरेजनाः निवसा नीरयति नीरजसो इत्ययमानकं ररहिता नीरवावा निगंतोलुक्ता निव्यनन्ति नियंता पूर्ववदकर्मोवनिर्मुक्ता. द्रव्यमलवर्ण्यता

तेषं तद्यसिद्धाहवन्ति सादौया अपञ्जवसिया असरीरात्रोवघणा दंशणनाथोवश्रोत्तानिद्वियद्वानिरेयणा नीरया ल वयोएकरज वयोएकरजमर वाकीगति समोये र्विवासर जेतलापाकामपदेयजीवदपवगात्राष्टरतेतसाकसरपनेरापरसरनडोनाठयकु ल वयोएकरज वयोएकरजमर वाकीगति मकरदरजहं जर्दने प्रा-करीवसितयकुभोचिपपुषद तेषजीवतिर्हासिहृमाडिचिहभवतिदुद लपनपोतिर्हायकीपादिहवा पागतिकाकितिर्हायकी पविषकोमयो एवमणोतेहनद्वेइउठनयी यरीरकरीनदररचित लोवषणाष्टरपनतकाति षनंत दगंनदपनदृपानदृशरीठपयुक्तवदितदृद



प्रतिक्षण सुपाद्व्ययधौष्युक्तत्वात्तद्व्यस्येति जहृष्येणं सत्तरयणीएति सयहृष्ये चसत्वे निध्नानि महात्रोरत्रत् सखीवेणं पचधणुष्यएति षट्पमस्यामव  
 देतय ह्य मयि तौवंहराधिययोक्त प्रती हिहृक्प्रमथित क्रुर्मांशुत्रेण न व्यभिचारी न वा मवदेव्या तातिरेक पचधयु शतपुमाणायेति सादरेगृह्यनागउ  
 एति मातिरेकाख्यौ वर्षीय यय तसथा तय तदापुयेति तय सातिरेकाष्टवर्षीयुति तत्र भिन्नाष्टपयनपचरणं पूतिपयते ततो वर्षे अतिगते  
 केषनचानमुत्पाय निध्नोति उक्तोवेणं पुव्वकोटाएएति पूर्व्वं कोटायुर्नरं पूर्व्वं कोटया अन्ते निध्नतोति न परत ए तीणत्तन्निहाभयतीति प्र ल

भिन्नासाणाक्यरमिसठाणसिञ्जति गोयसा क्खणहस ठाणाणचयत्त ऐवंठाणेसिञ्जंति जौवाणंभतेसिञ्जंसाणाकायरमिसउच्चते  
 सिञ्जंति गोयसात्रहणेण सत्तरयणोएल्लकोसेणंपं वधणुस्युएइसिञ्जंति जौवाणभतेसिञ्जंसाणाकायरमि आउएसिञ्जंतिगोयसा  
 जहृष्येणसादरेगृह्यमासाउए उक्तोसेणपुव्वकोटियाउएसिञ्जंति अटिथणभंते इसौसेरयणप्यभाएणुटत्रौए अहेसिद्धापट्टिचसंति

मवगणइगोक्कसोचदजार कोवभाउभगग। सौक्कगामिहुयाशानदुचवसरद केहद सव्धानर साक्कर अहोगोमम एवस्यानभासि सधसइजे  
 पइरतंइएणइ सव्धानरसोक्कइ औचभतेहेभगवन गोक्कगामोचपडुवता केहवइ उअपणरइत्तेतागोचजार गोतमगययथोउउतउ सातहाय चरकाटवी  
 सोटउमउ पांचमइ धनप मीक्कइ जौवहेभगवन केहवइभाउपरत्तेतापाजपदमीक्कर गोतम वाधयथोइउतउ भाक्केर/साठपरच चरकाट  
 पगउउ पूर्व्वकोटिनइपाउपरमीक्कर अत्यंउइतेहेभगवन एइपाप्रत्यय रत्तयभापट्टिकीपुणोउविपइ हेठासिद्धवसरइएइ हेगोतमइ  
 मनोएइपट्टइनइ एमसंवेनपनीइपट्टिकी परदयातइपुथियीत्तगदुपुणउभगवतइकापिउगा एइभगवन सौपमंनमाकल्पदेवोवनइपेठानि सिपु

वसनाप वय वल्लेवना वल्लेव

नवचनावाद्यपि लोकागं सिद्धानां स्थान मित्यवचीयते तथापि सुगंधविनीयस्य कल्पितविधिलोकायनिरासतो निरुपचरितलोकायस्वरूपविशेषाय-  
 बोधाय प्रतीत्तरसूत्रमाद्य अत्यामितादि व्यक्तं नवरं यद्विदं रत्नप्रभा अथ स्रष्टेव लोकाप्रभिति तत्र सिद्धाः परिवसन्तीति प्रत्यस्तबोत्तरं नायमर्थः समर्थ  
 इति एवं सर्वत्र सेकहिंखाइरणंभंतेति ततः कहिति क देशे क्खाइरणंति देशभाषाया वाक्यालङ्कारे बहुसमेत्यादि बहुसत्वेन रमणीयो यः स  
 तथा स्यात् अथाहाएत्ति अवाधयान्तरेण ईसिपत्रभारत्ति ईषदल्यो न रत्नप्रभादिपृथिव्या इव महान् प्राग्भारो महत्त्व यस्याः सा ईषत्याम्भाराः छः  
 नामधेयानि व्यक्तान्येव नवरं ईसौतिवा ईषत् अल्पा पृथिव्यन्तरापेक्षया इति शब्द उपदर्शने वाशब्दो विकल्पे लोयगपडिबुज्जगाइवत्ति लोनाग-

योतिण्डे समङ्के एवंजाव अहेसत्तमाएअत्थिणंभंतोसोहस्यकप्पस्सु अहेसिद्धापारिवसंति योतिण्डे समङ्के एवंसत्वेसिपुच्छाई  
 सायस्स सणंकुमारस्स जाव अच्चुयस्स गेविज्जमाणणं अणुत्तरविमाणणंअत्थिणंभंते ईसोपभाराएपुठ्ठोए अहसिद्धा  
 परिवसंतियोतिण्डे समङ्के से कहिंखाइरणंभंते सिद्धापारिवसंति गोयसा इमौसेरयणंप्पभाएपुठ्ठोए वज्जसमरमणि

वसइच्छइ हेगौतमइमघटइनही इमसघलाइदेवलोकिनओपूण्यओ ईशानदेवलोकिनसनत्तुमारदेवलोकिनओतिमवोजाइदेवलोकिन पहिलोपरै  
 अचुतवारमओदेवलोकिनउ येवैयकनाविणिसयअठारविमाननओ अनुत्तरविमानपूअओपूच्छओभगवंतकहइएहेठलिसिद्धवसतानधी छइभगवन  
 ईषत् अल्परत्नप्रभादिकथको प्राग्भारमोटिमपणइएहवीसिद्धिसिद्धात्तयनामपृथिवीतेहनइ हेठिसिद्धासइच्छइएउं हेगौतमइमनहीनघटइ सेते किम  
 आख्याइकिमकहिंभगवन सिद्ध वसइच्छइ अहीगौतम एहरत्नप्रभानामापहिंलीपुथोउउ घणओसमओरमणीकसोभतीकजेभूमिकानओ





मिति प्रतिबुद्धानि अवसीयते या लोकाग्रं वा प्रतिबुद्धानि यथा सा तथा सव्यपाणभूयजीवसत्सहावहसि इह प्राणा हीन्द्रियादयः भूता वनस्पतयः जीवाः पक्षेन्द्रियाः पृथिव्यादयस्तु सत्त्वाः एतेषां च पृथिव्यादितया तत्रोत्पन्नानां सा सङ्गागहा ग्रीतादिदृःखहेतूना मभावादिति चेयत्ति खेता

पुटवीर बडजज्जुदेसभाएं अडुजोयण पावत्सत्ते अडुजोयणाइंवाडुल्लेणं तयाणंतरं चण सागाएर पडिडाग्रमाखौर सव्वेसु चरिमपेरंतेसु अथियपत्तातोतणुयतरा अंगुलस्य असंखेज्जइभाग वाडुल्लोणंपयत्ता ईसीपबभाराएणं पुटवीए दुवालसणामधेज्जापणत्ता तंजहा ईसौतिवा ईसीपभाराइवा तणुतणुइवा सिद्धोतिवा सिद्धालएतिवा मुत्तोतिवा मुत्तालएतिवा लोयग्गेत्तिवा लोयग्गथभियातिवा लोयग्गपडिनुज्जुत्तातिवा सव्वपाणभूय जीव

नइविषइ आठयोजनलगोआकागपदेगप्राठगेजननइवापुत्तजाउपणइछइ तिवारपच्छे मात्ताइंरघोडइर चाणप मनीरघटतीर सगलारथभीपापन्नि फिरताछेहडानै धियैमापीनीपापथकोपातलोच्छे अंगुलनपी असंख्यातमोभागजाउपणैकष्टतीधंकरै मिडि सिजानामपृथिवीना जारनास कक्षा तीर्थं करइ तेमहैच्छे पाललीच्छे तिणइइंसोणसुनुनामइ ईपणअस्वच्छे पुणरत्तपभादिकपृथिवीनीपरिमोटोनयोतिणिइंपत्तपासभारातांम पातलोपृथिवीच्छे तियै तनुएहवुं नामइ पातलीथतोपातलीनिगितनुइं एहवुं नांग सिद्धिपुणकडिगै ५ मिद्धानंउथानकतिणिजारणिनिपानगनांमइ कर्मयोमूं काइंतिणि सुत्तिनाम० कर्मथकी पूकाणानेहनओठासनिगिकारणिमत्तानयगामइ लोकेने जपरिठंमतिणि लोकायनामट लोतनाअपनीगभिकाति एकारणि लोकाय थुभिकानामइ० लोकनै अथिं तत्वनाजाणनउथानंकर० सयंप्राणभूतजीवसंत्वनइं सुपनउथानकतिणिजारणिसयंप्राणभूतजीवसत्वमुपावहाएहवुं नामइ२

यतदेवाश्च भावस्तुतलविमलसोक्षियमुखाखदगरयतुहारगोक्छोरहारवृष्टि व्यक्तमेव नवर पादयंतलं दम्ययतल कश्चिच्छयतलमिति पाठ भादयंतल  
 मिय विमला या सा तथा सोक्षियति कुसुमत्रयीय यञ्जुशुशुशुशुमईति पर्जन एवयं श्रेतकाचनं चञ्चा आकागस्कटिकमिव सपडति सखपर-  
 माणुञ्चयनिष्यया सखतन्तुनिष्यकपटवत् सखडति मखणा वृष्टिपटवत् वडति वृष्टेव वृष्टा खरमानया पायाप्रतिभावत् मडति वृष्टेव वृष्टा  
 सुकुमारगानया प्रतिमेव मोक्षिता सा प्रमाञ्जनिक्षयेव अतएव शोरयति नीरजा रजोरहितता शिष्यता कठिनमखरहिता शिष्यकति नि पञ्चा  
 परंमखरहिता अकडता या शिष्यकडच्छायति निष्कडटा निष्कवचा निरावरणैर्लंघं छाया गोभा यस्या सा तथा पक्षवृगोभा समरोविद्यति समरो-  
 विका विरययुगा पंतएव मुष्यमति संसुपकयैण च मोमते वां सा सुप्रभेति नर्षादोयति प्रासादो मःप्रमोद प्रयोचनं यस्या सा प्रासादोया

सप्तसुहावहातिवा ईनोपभारार्थं पुठनौ सेया संखतलविमलसोक्षियमुखाखदगरयतुहारगोक्छोरहार वया  
 सत्ताण्यच्छत्तसंठाणशंठिया सञ्जुणसुवणसई अच्छा सयहा खरहा वडा मडा गोरया शिन्मला शिष्यका शिक्कंकाड  
 च्छाया समरोचिया सुष्यभा पासादोया टरिमण्यिञ्जा अभिखुवा पडिखुवा ईसोप्रभारा तेषंपुठवौए सोयाए

सिद्धिखिखानाम पुठवो धडवो सयनउतसोपुठउ विमलनिर्मल धडुसु सुसकमखनातानूपा दगपाणोनाकण पाणीनपोठार गाइनू दूध मोलीनावा  
 रनइवर्थइकड सोतउसमसोसवखतखततेणइ सठाणइसरिपसो पर्जनसवणंधवकुंतेसरोपउ फिटकनीपरइथाळाधहाला मूसलनीइवूटो घटा  
 रोपापाणरेकरी मडारीसराणइ सुअरजरहित कठिनमखरहित, मोताकधरारहित निरतरकातिसहित किरणसहित भलीसोभावत टपिताचित

दरसण्जन्ति दर्यनाय चक्षुर्व्यापाराय हिता दर्यनीया तां पश्यच्चक्षुर्न आम्यतीत्यर्थः प्रभिरुवति अभिमतं रूपं यस्याः सा प्रभिरुपा कमनीये  
 त्यर्थः पङ्क्तिरुवति द्रष्टारं२ प्रतिकरुपं यस्याः सा प्रतिकरुपा जीयणंमिलोगतेति इह योजन सुक्ते धाङ्गुलयोजन मवसेयं तदीयस्यैव हि क्रीमषड्भागस्य  
 सत्रिभागत्रयस्त्रिंशदधिकधनुःशतत्रयीप्रमाणत्वादिति अणेगजाइजरासरणजोणिवियणं अनेकजातिजरासरणप्रधानयोनिषु वेदना यत्र स  
 तथा तं संसारकलंकलीभावपुण्यबभगभवसवसङ्घीपवंचमइकंता संसारकलंक [ ३०० ] लीभावेनासमस्रसत्वेन ये पुनर्भेषाः पौनःपुन्ये नी  
 त्यादा गर्भवासवसतयथ गर्भान्प्रयनिवासस्त्रासां यः प्रपत्नो विस्तरः स तथा स्तस्त्रामतिक्रान्ता निस्त्रीर्णाः पाठान्तरमिदं अणेगजाइजरासरणजोणि  
 संसारकलंकलीभावपुण्यबभगभवसवसङ्घीपवंचमइकंतति अनेकजातिजरासरणप्रधाना योनयो यत्र स तथा स वासो संसारश्चेति समास-  
 स्तत्र कलंकलीभावेन यः पुनर्दम्भेन पुनःपुनरुत्पत्त्या गर्भवासवसतीनां प्रपञ्चस्रं समतिक्रान्ता ये ते तथाः छः अथ प्रञ्चोत्तरहारेण सिद्धानामेव वक्ष्यता

जीयणंमिलोगते तस्स जीयणस्स जेसे उवरिस्से गाए तस्सुणंगउअस्स जेसे उवरिस्से च्छेभाणिए तत्थणंसिद्धाभगवंतो  
 सादीपया अपज्जवसिया अणेगजाइजरासरणजोणिवियणं संसारकलंकलीभावपुण्यबभगभवसवसङ्घीपवंचमइकंता

प्रसन्नकरइ देषिताहठिल्लामानपामइ मनोहररूपच्छइं देणुहारनारूपपूआरदीसइ सिद्धिसिला . पृथवीथञ्जी एकइयोजनइलोकनउअंत तेह  
 योजनउ जेतेजपरिलउएकगाज तेहएकगाजनञ्जी जेतेजपरिलउगाजनउच्छुउभाग तिहांसिद्धं ज्ञानवंत आदिकरीसहित आगलिजेहनइरहि  
 वानउच्छेहउठथी षणीजातिजन्जरासरणयोनिजपजिबुंवेदनाभीगविधी संसारनाकलकलाटभाव वलीभवसंसारमांहिअवतरिवञ्चो गर्भवासरुप

२२ अतिसुखमं शानं २२  
 अतिसुखमं शानं २२  
 अतिसुखमं शानं २२  
 अतिसुखमं शानं २२



रंधपुरणादिति तद्धिति सिद्धिच्छेदे तस्मिन्नि सिद्धस्येति ३ तथाचाह दीहंवा गाहा दीहं वा पञ्चधनुः शतमानं द्रुखं वा चक्षुष्यमानं वाशब्दा-  
 न्नाधमं वा यच्चरमभवे भवेत्संस्थानं ततस्तस्मात् संस्थानात् त्रिभागहीना विभागेन शुधिरपूरणात् चियाना मधगापना अगगाएन्ते ऽस्या मपस्थाया  
 मिति अगगाहना स्वावस्यैवेति भावः भणितोक्ता जिनैरिति ४ अथागगाहनामिथोरक्तादिभेदप्रपञ्च तिष्ठिनयेत्यादि इयं च पञ्चधनुः शतमानानां  
 चत्तारिधेत्यादितु सप्तहस्तानां एगाधेत्यादि द्विहस्तमानानामिति इयं च विधिधाप्यूर्हमान माश्रित्याऽच्यथा सप्तहस्तमानानां च उपपिठानां  
 सिद्धता मन्वथापि स्यादिति आक्षेपपरिहारी पुनरेवमऽत्राननु नाभिकुलकरः पञ्चध्विंशत्यधिकपञ्चधनुः शतमानः पूर्णत एव तन्नायाऽपि मरुदेवी  
 तत्प्रमाणैव उच्यते चैत्र कुलगरे हिं समभितिवचनात् अतस्तदयगाहनातो अधिकतरा प्राप्नोतीति कथं न निरंधः शतौच्यते यद्यप्युच्यते कुलकरतुल्यं

दीहंवाहस्रं वाजंचरिम भवेह्वेज्जिसंठांणं तत्तोत्तिभागहौणं सिद्धाणोगाहणाभणिया ४  
 तिष्ठिसयातेत्तौसाधणू त्तिभागोयहोइवोधव्वा एसाखलुसिद्धाणं उक्कोभोगाहणाभणिया ५  
 चत्तारियरथणीओरयणि त्तिभागू णियायवोधव्वा एसाखलुसिद्धाणं सज्जिमओगाहणाभणिया इ

भवनइअवसरइहुइसंस्थानआकारविशेष ते उयकीवीजीभागहीणउं हुइअंतरपूरइतेइभणी सिद्धिनीएअगाहनाजोउउदेजनीभणीतीर्थंकरइकही ४  
 चिणिययतेतीसधनुष अनइधनुपनउं एकनउवीजउभागहुइइवउवीधउजंणिवभो एइखलुनियइंजरीसिद्धना उरकहोभोटीप्रपगाहनाजोउप्रदेगनी  
 भणीतीर्थंकरइकही ५ प्यारिरजनीकहतांघाय अनइऊपरिरजनीएकहाथवोजइभागइंजंणसोहींणभोवोधव्वाजंणिवभो एइखलु नियइभिसिद्धांणा

टीका

३५६

सूत्र

गाहा

भोधि

रायधनपत किं यथापे ज्ञा यानवधुवधुव धन २३

तद्योयिता मित्यक्त तत्रापि प्राथिकत्वा दस्य लोपाच्च प्रायेण पुंस्त्री लघुतरत्वात् पक्षे व धनुःशतान्यसाधभवत् तद्वक्तव्ये वा सङ्कोच्यत् पक्षधनु गत-  
 माना सा यमवदुपविष्टा वाऽसौ सिद्धेति न विरोध यथा बाहुल्यापिच मिदं सुकृष्टावगाहनानानं सरदेवी त्वा ऽऽपथैकल्लेखेयमपि न विरोध  
 ननु लघ्वन्त- सप्तहस्तीच्यूनाना मिव मिदि प्रागुक्ता तत्त्वत्र लघ्वन्यावगाहना यष्टाडुनापि अष्टप्रमाणा भवतीति यत्रोच्यते सप्तहस्तीच्युतेषु सिद्धि  
 रिति तीर्थहरापिच तदन्त्येत् द्विहस्ता यपि श्रुतं पुत्रादय विद्या यतस्त्रियो लघ्वन्यावचेया यन्ते- 'पु' सप्तहस्तमानस्य संवर्धिताक्षोपाङ्गस्य सिद्धयतो  
 लघ्वन्यावगाहना प्नादिति ० उगाहणाए गाहा प्यक्ता नवर अणित्यत्यति अमुं प्रकारेणापवमिम्य इत्वं तिष्ठतीति पूल्यस्यं ७ इत्यस्य अनित्यस्यं न

एकायहोदरयणीसाहीया अगुलारुश्रुभवे एसाखलुसिद्धाणं जहयोगाहणाभणिया ०  
 उगाहणाएसिद्धाभवति भागेणहोदपरिहोया सठागमणित्यस्यं जरामरणविष्यसुक्काणं ८  
 जत्यथएगोसिद्धो तत्यअणताभवक्त्वयविमुक्ता अयोख्यसमवगाढा पुढामल्वेयजोग ते ९

मध्यमअथसौषधमाहनाश्रीवप्रदेयनाप्यापनुमाभणिसौतीर्थकरद १ एकहोयजरजनीदाय भोर्भोरपो केतखददकदुर्वागुत्ताथाठडुद एहखलुनियदुदस  
 निहृनी जत्यसौडीतु यवगाहनाश्रीवप्रदेयनाप्यापादनु मांनकञ्चु तोर्थकरद ० एषोयवगाहनाश्रीदनदुप्रमाणदसिह भविसवंधनीलोजदुभागददुददुदीयो  
 यदो मयानतउवदुनाशिनपोएकममदतिकेरोद जराहृदिपपु मरणएहविद्वयकीपूंकाणाखदरतेचनषो ८ त्रिणयानकिएकनिदुददर तिहाभनतासिदि  
 नाशियाभवननारनदुचयदतेषदसू काणागसारवकी अन्योपन्यएखदरदनाहोमादिपयगाठभेलाखदर फरिखोरप्लाखदरसगताईसिहखीकातनद

लघ्वन्त सप्तहस्तीच्युतेषु सिद्धयतो

केनचित्तौ किकप्रकारेण स्थितमिति ८ अर्थेति किं देयभेदेन स्थिता उतान्यथेत्यस्या माशङ्कायामाह जत्ययगाथा यत्र च यत्रैव देयी एकः  
 सिद्धी निर्धत्तस्तत्र देशे अनन्ता किंभवचयविमुक्ता प्रति भवचयेण विमुक्ता भयचयविमुक्ताः अनेन स्वेच्छया भवावतरण्यगतिमस्त्रिव्ययच्छेदमाह  
 अन्वीन्यसमवगाढा स्वाधाधिधाऽवित्यपरिणामत्वाद्भीमिस्त्रिकायादिवदिति स्पष्टाः सर्वेषु लोकात्सि सलोकेन प्रतिखलितत्वा दतएव  
 लीयगोयपद्रुष्टिगा इत्युक्तमिति ९ तथा फुसद्गाथा स्पृगत्यनन्तात्सिद्धान्तसम्बन्धेऽपदेयैरात्मसम्बन्धिभिः गियमसोति नियमेन सिद्धस्तथा तेऽप्यसङ्ख्येय-  
 गुणा वर्तन्ते देयोः प्रदेयेषु ये स्पृष्टाः केभ्यः सर्वंपदेयस्सृष्टेभ्यः कथं सर्वात्मप्रदेये स्थावदनन्ताः स्पृष्टा एकसिद्धान्तगाहनाया मनन्ताना मवगाढत्वात्  
 तथैकैकदेशेनाप्यनन्ता एव एवमेकैकप्रदेयेनाप्यनन्ता एव नयरं देयो ह्यादिपदेयसमुदायः प्रदेयसु निविभागीग इति सिद्धयामङ्ख्येयदेयपदेगा-  
 ल्पक स्तस्य मृजानन्तक मसङ्ख्येयैर्देयानन्तकैरसङ्ख्येयैरेव च प्रदेयानन्तकैर्गुणितं यद्योक्तमेव भवतीति स्वापना चैयं १० यद्य सिद्धान्तेन नचणतत्रापि  
 असरीरा गाहा उक्तार्थासंगृह्यरूपत्वात्वाप्या न पुनरुक्तत्वमिति ११ उक्तत्वादंसणेयणायित्ति यदुक्तं तत्र ज्ञानदर्शनयोः सर्वविषयता सुपदर्शनयवाह

फुसतिअण्यंतेसिद्धे सव्वपएसेहिंणियमसोसिद्धा तेविअसंखेज्जगुणा देसपएसेहिंजेपुठ्ठा १०  
 असरीराजीववणा उवउत्तादंसणेयणाणेय मागारमणागारं लज्जसुगमेयंतुमिद्वाणं ११

विपद् ९ फरिसद्ग्रनंतामिद्विप्रतिं सगतदसंयारापदेगद्दत्तरीनद्रनियदसुंतेमिद्वएक तेपुणसिद्धनापदेगद्दत्तरीपसंजातगुणाजानिग देसद्दपनद्दपदेग  
 इकरोनक्षेफरव्याहद् १० तेसिद्धगरीररद्रितएद्दपनद्दजीरवणापनंतके भेदेउपयुक्तमभितच्छद्द स्वद्दत्तरीदर्शनदत्तरोपनद्दत्तानद्दत्तरोनद्द साकारतेमान

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

केवलाकारे केवलज्ञानोपयुक्ताः सन्त न त्वत्तत्कारणोपयुक्ता मायतत्त्वदभावत्वात् जानन्ति सर्वभावसुखभावान् समस्तवस्तुगुणपर्यायान् तत्र गुणाः  
 स्रष्टवन्ति पर्यायास्तु ज्ञानवर्तिन इति तथा पश्यन्ति सर्वतः यत्तु सर्वतपयेत्यर्थः केवलदृष्टिभि रनन्ताभिः केवलदर्शनै रनन्तै रित्यर्थं अनन्तत्वात्  
 विद्याना मनस्तविषयत्वात् वा दर्शनम् केवलदृष्टिभिरित्युक्तं मित्रवादेो ज्ञानपरुषं प्रथमतया तदुपयोगस्या विध्यन्तीति प्रापनार्थमिति १२  
 एव सिद्धान्तं निरूपयन्तुता दर्शयितुमाह ऋषिष्विगाद्या व्यक्ता नपर सव्यावाहृति विविधा प्रमाया तन्नियेधादव्यावाया ता सुपगतानां  
 प्राप्तागामिति ११ यथादेशमित्याह ज्ञेयार्थगहा यतो यथादेशाना मनुत्तरसुरात्मानां सौख्यं त्रैकात्मिकसुखं सर्वांशतोतानागततत्समानकाष्ठिन

केवलज्ञानोपयुक्तं जानन्ति सव्यभावगुणभावे पार्श्वतिसव्यश्रोखलु केवलदृष्टौ श्रयन्ताहिं १२  
 ऋषिष्वित्युक्तं तंसोक्त्वं ऋषिष्वित्युक्तं जंषिद्वाणंसोक्त्वं श्रव्यावाहंसवगयाणं १३  
 ज देवाणंसोक्त्वं सव्यवापिंषिद्यंश्रयन्तगुणं श्रयप्रावदमुत्तिसुहं श्रयन्ताहियगवगुणं १४

पनरपनाकारतेर्दयंनजाणिवठ क्षमपरपरपूर्वदृक्कक्षपोतेरुचिद्वृणुष जाणिवठ ११ केवलज्ञानदृक्करोनदृसदित जाणदृक्कदसवकादभाववस्तुनाभावभेदपनद  
 गुणपर्याय पार्श्वतिसव्यश्रयणं केवल दृष्टिदर्शनोदकरोने १२ मर्षोदृक्क मनुष्यनद तेकवठं सौख्यपनरनयोतेकवपोसुखसवलादृष्यारिण्याय  
 नादिपतानद जेविद्वृणदसोख्यदृ पयाधा दृष्टितपगतपाम्यादृ १३ जेहदेवतानदसोख्यदृ संवकासपतोमवर्षांभानपनगतनपीविहितएकठपोकरिवदते  
 वसोशुवाकरदृपम मनुष्योकरदृ तपोपिणपणिनपुषवदमुक्तिनासोखानदतोले यमं तद्वर्षं वषं इजेरुषांकेतेहगुणपोकरियदृ तेवषं वषं १४ सिद्धनासो



पिच्छितं गुणितं सर्वथापिच्छितं तथा अनन्तगुणमिति तदेवं प्रमाणं किलासनायकल्पनयैकैशागदेशे स्थाप्यत इत्येवं सकलक्षीकासीशाकाशान्नामदेशपुर-  
 क्षानन्तं भवति न च प्राप्नोति सुक्तिमुखं नैव मक्तिमुखसमानतां लभते अनन्तत्वात् सिद्धसुखस्य किंचिदं देशसुखमित्याह अनन्ताभिरपि वर्गवर्गाभिः वर्ग-  
 वर्गवर्गान्तरमपि तत्र तदुक्तौ यथा द्वयोर्वर्गगुणैः तस्यापि वर्गो वर्गवर्गो यथा सोऽय एवमनन्तमिति पूर्णकारखाद्य अनन्तैरपि वर्गवर्गैः  
 खण्डखण्डैः खण्डितं सिद्धमुखं तदौयानन्तानन्ततमखण्डसमता मपि न लभत इत्यर्थः ततो नास्ति तन्मात्रपादोनां सुखं यत्किञ्चाना मिति प्रकृतं १४  
 सिद्धमुखस्योक्तवर्णाय भद्रान्तरेणाह सिद्धसुखाहा सिद्धसुखस्य समन्वयी सुखसुखानां सक्तौ राशियः समूहः सुखसुखानामर्थः सर्वाणामपिच्छितः  
 सर्वकालसमयगुणितो यदि भवेदनेन चास्य कल्पनाभावता माह सोऽनन्तवर्गभक्तौ अनन्तवर्गपिच्छितः सत्समीभूत एवेति भावार्थः सर्वकार्ये  
 लोकालीकरूपे न मायात् अथमत्र भावार्थः इह किल विशिष्टाद्यादरूपं सुखं गृह्यते ततश्च यत आरभ्य शिष्टानां सुखयन्त्रप्रयुक्तिं स्वमाद्यादमाधीत्यद्य  
 एकैकगुणशुद्धितारतम्येन तावदसावाद्यादौ धियिष्यते यावदनन्तगुणहृद्यग निरतिशये ततसासायत्यन्तोपमातोतेकाग्निको-  
 लुक्त्वविनिवृत्तिरूपः स्तिमिततममहोदधिकल्पशरमाद्याद एव सदा सिद्धानां भवति तन्मागाराद्ययमासोर्भुवन्ताराबवर्त्तितो ये तारतम्येनाद्याद-  
 विशेषास्ते सर्वाकारप्रदेशराशेरपि भूयंसो भवन्तीत्यतः किंनोक्तं सत्यागामेण साएज्जाति प्रत्यया प्रतिनियतदेगाभिधितिः कथन्तेयामिति सरथो

सिद्धसुसुहोरासौसव्वडा पिंडिञ्चो जइइवेज्जा सोणंतवग्गभइञ्चो सव्वागरेणसाएज्जा १५

यनीरासिसमूहमवकाबनीए कठोजइकरीचुर तेहरागिसमूहतेहअनंतवर्षइकरीभइषीभागाकारिकरोभागद तुपुणसर्वधनंतत्राकागमाधिंनमानइंन

अिदपतीति १५. एष्य च षडोक्त्याधिष्ठानगाथाविवरणस्यायं भावार्थं ये एते सुखभेदास्ते निश्चसुखपर्यायतया व्यपदिष्टा आदेष्यया तस्य क्रमेणो-  
 र्दक्ष्यमाप्यस्यानन्तमस्मानवर्तित्वे नोपचारात् तद्वाश्रित्य किञ्च पञ्चान्वयापनया सप्तसप्तसमयराशिसु त यत् सङ्घस्य च गतेन गुणित जातं सच  
 युषनं च कृतं सर्वसमयसम्बन्धिना सुखपर्यायाणां नीचनार्थं मद्यानन्तराग्निं किञ्च दद्य तद्वर्गाय यत् तेनापवर्त्तितं सचञ्जातं सङ्घस्यमेवात  
 पूर्वैरेवम समीभूत एवेति भावार्थरिति यच्चैश्च सुखरात्रेणैव न सपवर्त्तनं च तदेवं सञ्जाययाम् यत् किञ्चानन्तराग्निना मुषितेऽपि सति  
 पनन्तवर्गेष्वानन्तान्तरात्कुरुष्वेणातीवमहास्यस्येणापवर्त्तिते किञ्चिदवश्रियते स राग्नि रतिसकंभंभूतय सिद्धसुखराशिसंज्ञानिति बुद्धिजन-  
 नार्थं गियस्य तस्यैव वा गणितसार्गे व्युत्पत्तिकरणार्थमिति षके पुनरिमां गाथा नैव व्याख्याति सिद्धसुखपर्यायराशिं नमप्रदेगाएगुणितगम-  
 प्रदेयापप्रमापस्यपरिमापत्वात्सिद्धसुखपर्यायात् सार्गोदाविच्छिन्नत सर्वसमयसम्बन्धो सिद्धसुखपर्यायराशिं नमप्रदेगाएगुणितगम-  
 प्यवर्त्तितो षक्यत् सङ्घकृत इत्यर्थं यथा किञ्च सर्वसमयसम्बन्धो सिद्धसुखराशिं पश्यपट्टिः सङ्ख्याणि पश्यतामि पट्टिंशचेति (१५२३६) स च  
 र्गोषापवर्त्तितं सन्काले हे मते पट्टपञ्चाशदधिके (२५६) सोर्गाप स्यसार्गोपवर्त्तितो जाता प्रोक्तय ततयत्वार सतो द्वात्रिंशत्वेव भवति सङ्घकृतोऽपि सर्वाकात्रि  
 न मावादे तदेवाह सञ्जाययाम् एषानि पयसिद्विसुखस्यऽऽ सुपसना दृष्टान्तेनाह जडगाद्यापुर्पाके व्यक्तं न च पत्ति न गतोति परिकथयितु नगरगुणान्दरख्य

जडयामकोऽभिच्छे नगरगुणे बद्धविद्देवियाशंती नचएदपरिकहेवं सुत्रमाएतद्विंशसंतौए १६

येष्वभोभनोजाति नगरनागुविविधपकारवस्तु क्रियायांनागुविधषणापकारनाज्ञातसङ्घकृतपुन कश्चैसकसुखजनकोकभागतिपतिप्रयसु

वचनान् संज्ञां साक्षात्प्राप्य विनय

मागती प्ररखयासिन्हे च्छेभ्यः युतइत्याह उपमायां त्वत्र नगरगुणेष्वरख्ये वा सत्या मिमि कथानकं पुनरेयं ॥ स्नेच्छः कोऽपि महारख्ये वसति च्छ  
 निराकूलः अन्यदा तत्र भूयाला दुष्टाखेन प्रवेपितः १ स्नेच्छे ताऽसौ नृपो हृष्टः सत्तवतय यथोचितं प्रापितय निजं देयं सोऽपि राष्ठा निजं पुरं २  
 ममाय मपकागीति क्ततो राज्ञाऽतिगौरवात् विशिष्टभोगभूतीनां भाजनं जनपूजितः ३ ततः प्रासाददृष्टेषु रम्येषु काननेषु च सुतो विलासिनो-  
 सार्थं भुङ्क्ते भोगसुखान्दसो ४ अन्यदा प्राष्टपः प्राप्तौ मेघाडखरमण्डितं व्योम हृष्टा ध्वनिं यत्वा मेघानां समनोहरं ५ जातीत्कण्ठी हृठं जाती  
 ऽरख्यशासगमं प्रति त्रिसज्जितं य राज्ञाऽपि प्राप्तो ऽरख्य मसौ ततः ६ पृच्छत्य ऽरख्यशासस्तं नगरं तात कीदृगं स स्वभायान् पुरः सर्वान्  
 जानात्येव हि केवलं ७ न अगाक तर्कस्त्रेया गदितुं सत्कृतीयमः वने वनेचराणां चि नाग्नि सिद्धीपना यतः ८ १६ ॥ अथ दाष्टान्तिक माह इयगाहा  
 इति एव भरख्ये नगरगुणा इवेत्यर्थः मिहानां सौख्य मनुपमं वर्त्तते किमित्याह यतो नाग्नि तस्योपस्यं तथापि यालजनप्रतिपत्तये किञ्चिद्विज्ञेयेण  
 एतीति चार्थत्वादस्य सिद्धिसुखस्य इतो वाऽनन्तरं श्रीपस्यं उपमानं भिदं वच्यमाणं अगुन यष्ये इति ॥ १७ ॥ जङ्गगाहा यथेत्युदाहरणोपन्यासार्थः  
 सर्वकामगुणितं सज्ज्ञानसमस्तकमनीशगुणं शेषं व्यतं इह च रसनेन्द्रिय मेवाधिकल्लेष्टनिपगमाता श्रोतुष्वनिवृत्त्या सुखप्रदर्शनं समलेन्द्रियार्थाऽयास्या

इयसिद्धाणं सोक्त्वं श्रणोवमं णत्थितस्सउवमं किञ्चिविसेसेणेत्तेत्तुवम्मसिगंमृगहवोच्छं १७  
 जहसव्वकामगुणयं पुरिसोभोत्तगभोदगंकोई तगहाकुहाविमक्को अच्चेज्ज गहाअमियतित्ता १८

उपमाते गो पसंती प्रकृनोदकरोनइ जाणिवथा १६ एट्टगपोसिद्धनुं सोखा पनोपमपपुररखइ पणनथीतेइसिद्धनासौखानइउपमा कांई एकविज्ञेयइ

राय धनपत सिधे वशुत्तर को अगससज्ज भग १२

ऽश्रीयोग्युक्तं निवृत्त्युपलक्षणार्थं धन्यया वापान्तरसम्भवात् सुखाकार्यभाव इति ॥१८॥ इयगाहा इयएव सर्वकास्रवता मय्यज्ञानत्वात् भ्रतुत्वं निर्वाणमुपगता  
सिद्धा सर्वंदा सर्वलोक्युक्त्यनिवृत्तेर्यतयेवं पतः सर्वकास्रभावि मय्याबाधं व्याबाधावर्जितं सुखं प्राप्ता सुखिनस्तिष्ठन्तीति योग सुख प्राप्ता इत्युक्ते  
सुखिन इत्यनर्थक मिति चेत्तैव दुःखाभावमात्रमस्ति सुखिनिरासेन यास्रव्यसुखप्रतिपादनार्थत्वा दस्य तथा ह्यशेषदीपचयत माश्रत मय्याबाधसुखं  
प्राप्ता सुखिनः सन्त तिष्ठन्ति न तु दुःखाभावमात्राविविता एवेति ॥१९॥ साम्प्रत चक्रुत सिद्धपर्यायशब्दान् प्रतिपादयन्नाह सिद्धितियगाहा सिद्धा  
इति च तप' नामस्ततस्तत्वाद्येव बुद्धा इति केचनप्रानिन विखावबोधाय पारगताइति च भवार्थं वपारगमनात् परपरत्यति पुण्यवीजसम्यक्तज्ञानवरण  
क्रम निपत्यपागृह्यत्वात् परंपरगता उच्यते तन्मूक्तार्थं कथंचा. सकलकर्मावियुक्तत्वात् तथा भजरा वयसो ऽभावात् आयुषो ऽभावात् असङ्गाय

इयमव्यकालतिप्ता अतलनिव्वाणमवगयासिद्धा सासयमव्वावाहं चिद्वंतीमुह्रीसुहंपत्ता १८  
सिद्धितियबुद्धतिगपारगतिगपरंपरगयति समुक्त्वकम्कवया अजराभमराचसंगया २०

कीरददृदं ददृदकीमिदुनासुपनी उपमाएयसांभलपोरोच्छं कइउ छठं १० तिमसर्वं कामगुणित्पठारजातिनाभचरसवतीविशेष पुरुषजिमो  
कगानददृदं ददृदकीमिदुनासुपनी उपमाएयसांभलपोरोच्छं कइउ छठं १० तिमसर्वं कामगुणित्पठारजातिनाभचरसवतीविशेष पुरुषजिमो  
१८ निवृत्तेर्यतयेवं पतः सर्वकास्रभावि मय्याबाधं व्याबाधावर्जितं सुखं प्राप्ता सुखिनस्तिष्ठन्तीति योग सुख प्राप्ता इत्युक्ते  
सुखिन इत्यनर्थक मिति चेत्तैव दुःखाभावमात्रमस्ति सुखिनिरासेन यास्रव्यसुखप्रतिपादनार्थत्वा दस्य तथा ह्यशेषदीपचयत माश्रत मय्याबाधसुखं  
प्राप्ता सुखिनः सन्त तिष्ठन्ति न तु दुःखाभावमात्राविविता एवेति ॥१९॥ साम्प्रत चक्रुत सिद्धपर्यायशब्दान् प्रतिपादयन्नाह सिद्धितियगाहा सिद्धा  
इति च तप' नामस्ततस्तत्वाद्येव बुद्धा इति केचनप्रानिन विखावबोधाय पारगताइति च भवार्थं वपारगमनात् परपरत्यति पुण्यवीजसम्यक्तज्ञानवरण  
क्रम निपत्यपागृह्यत्वात् परंपरगता उच्यते तन्मूक्तार्थं कथंचा. सकलकर्मावियुक्तत्वात् तथा भजरा वयसो ऽभावात् आयुषो ऽभावात् असङ्गाय

टीका

११२

५२

पाठा

वीथ

सकञ्चलं शाभावादि ॥ २० ॥ निच्छिखगाहा प्रतुलगाहा व्यक्तार्थे एवेति ॥ २१ ॥ २२ ॥ इति श्रीश्रीपपातिकवृत्तिः समाप्तेति छः चन्द्रकुलविपुलभूतलयुगप्रवर  
वर्षमानकल्पतनेः कुसुमोपमस्य सुरैः गुणसौरभभरितभवनस्य १ निस्सुखन्वविहारस्य सर्वदा श्रीजिनेश्वराहस्य शिथेणाऽभयदेवाख्यसुरिण्यं कृता  
वृत्तिः २ अणहिक्षपाटकनगरे श्रीमद्रोणाख्यसुरिसुखिन पण्डितगणेन गुणवृत्तिप्रियेण संशोधिता चैयम् ३ छः ग्रंथाग्रंथ ३१२५ ॥

णिच्छिखम्वदुक्त्वा जाइजरामरणबंधणविमुक्ता अत्रानाहंसुखं अणुहोइसासयं सिद्धा २१  
अतुलसुहसागरगया अवावापंअणोवसंपत्ता सवमणागयमहं चिहंतीसुहीसुहंपत्ता २२  
॥ उववाइउपांगं ससत्तं ॥ शुभंभवतु ॥ ग्रंथाग्रंथ १५९० ॥

रहितमरणरहिनारागादिकसंगरहित २० अतिग्रयसुंछेयाछइसर्वदुःखजेणइ जस्यजरामरणरूपबंधनधीमूकाणाछइ अवाधारहितसुख अशुभवइछइ  
शाश्वतश्रीकालसिद्धिभगवंत २१ वणउंसुखरूपसागरसंसमद्रपास्याछइ अवाधारहितशनीपमउपमारहितपास्याछइसुष सर्वत्रागामियश्रीअषाकालतांलगी  
रह्याछइसुखपास्याथका २२ ॥ एतलइश्रीउववाइउब्बार्थसंपूर्ण ॥

